

---

## भारतीय ज्ञानपीठ

(स्थापना फाल्गुन कृष्ण ६, वीर नि स २४७०, विक्रम स २०००, १८ फरवरी, १९४४)

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति मे  
स्व० साहू शान्तिप्रसाद जैन द्वारा सस्थापित  
एवं  
उनकी धर्मपत्नी स्व० श्रीमती रमा जैन द्वारा सपोषित

### मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तमिल आदि प्राचीन भाषाओ मे उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उनका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-भण्डारो की सूचियों, शिलालेख-संग्रह, कला एव स्थापत्य पर विशिष्ट विद्वानो के अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला मे प्रकाशित हो रहे है।

ग्रन्थमाला सम्पादक (प्रथम संस्करण)  
डॉ. हीरालाल जैन एवं डॉ. आ. ने. उपाध्ये

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

१८, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-११० ००३

मुद्रक आर के ऑफसेट, दिल्ली-११० ०३२

---

© भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित

040981

Moorfidevi Jain Granthamala Prakrt Grantha No 7

---

# MAHĀBANDHO

[ Third Part : Anubhāga-bandhādhikāra ]


of

Bhagavān Bhūtabali

Vol. V

*Editor and Translated by*

Pt. Phoolchandra Siddhantashastri



---

**BHARATIYA JNANPITH**

Second Edition : 1999 □ Price : Rs. 140.00

---

## **BHARATIYA JNANPITH**

Founded on Phalgunā Krishna 9, Vira N Sam 2470 □ Vikrama Sam 2000 □ 18th Feb 1944

### **MOORTIDEVI JAIN GRANTHAMALA**

Founded by

Late Sahu Shanti Prasad Jain

In memory of his late Mother Smt Moortidevi

and

promoted by his benevolent wife

late Smt Rama Jain

In this Granthamala Critically edited Jain agamic, philosophical, puranic, literary, historical and other original texts available in Prakrit, Sanskrit, Apabhramsha, Hindi, Kannada, Tamil etc , are being published in the respective languages with their translations in modern languages

Also

being published are catalogues of Jain bhandaras, inscriptions, studies, art and architecture by competent scholars, and also popular Jain literature

•

General Editors (First Edition)

Dr Hiralal Jain & Dr A N Upadhye

Published by

**Bharatiya Jnanpith**

18, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003

Printed at R K Offset, Delhi-110032

---

© All Rights Reserved by Bharatiya Jnanpith

## प्रशस्ति

जितवैतोपातनुर्वीश्वरमकुटतटोद्दृष्टपादारविन्द-  
द्वितयं वाक्क्रामिनीपीवरकुचकलशातङ्कृतोदारहार- ।  
प्रतिनं दुर्दोरससृत्यतुल्यविपिनदावानलं मायनन्दि-  
व्रतिनार्यं शारदाप्रोञ्जलविशदयशो राजिताशान्तकान्तम् ॥१॥

भावभवविजयिवरवाग्देवीमुखदर्पणान-  
मूनावनिपातकनेसेदनित्ताविश्रुतकित्ते मायनन्दिमुनीन्द्रम् ॥२॥

वरराष्ट्रान्ताम्भानिधितरलतरङ्गोत्करक्षातितान्तः-  
करणं श्रीमेववन्द्यव्रतिपतिपदपङ्केरुहासक्तपद्- ।  
चरणं तोत्रप्रतापोद्भूतविततवलोपेतपुष्पेषु भृत्त-  
हरणं सैद्धान्तिकाग्रंस्तरनेने नेकब्दं मायनन्दिव्रतीन्द्रम् ॥३॥

नहनीयगुणानिवानं सहजोत्रतदुद्धिविनयनिवियेने नेगब्दम् ।  
महीविनुतन्त्रिन्ते कित्तितमहिमानं मानितामिमानं सेनम् ॥४॥

विनयद शीलदोद् गुणदगाटिय पैपिनपुङ्गिमनो-  
जनरति रूपिनोद्पनिठित्तिर्द-मनोहरमप्पुदोन्दु ल- ।  
पिन मने दानदागरमेनिप्य वयूत्तमेयप्य सन्दत्ते-  
नन सति मत्तिकव्वेगे धरित्रियोळार् दोरे सद्गुणङ्गळिम् ॥५॥

सकलधारिणीविनुतप्रकटितर्थायत्ते मत्तिकव्वे वरसि सत्पु-  
प्याकरमहावन्द्यद पुस्तकं श्रीमायनन्दिमुनिगणित्तक ॥६॥



## विषय-सूची

<p>सन्निकर्षप्ररूपणा १ १२</p> <p style="padding-left: 20px;">सन्निकर्ष के दो भेद १ १</p> <p style="padding-left: 20px;">स्वस्थान सन्निकर्ष १ ६८</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट सन्निकर्ष १ २७</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य सन्निकर्ष २७ ६८</p> <p style="padding-left: 20px;">परस्थान सन्निकर्ष ६८ १२६</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट सन्निकर्ष ६८ ६३</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य सन्निकर्ष ६३ १२६</p> <p>भंगविचयप्ररूपणा १२६ १२६</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट १२६ १२७</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य १२८ १२६</p> <p>भागभागप्ररूपणा १२६ १३१</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट १२६ १३०</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य १३० १३१</p> <p>परिमाणप्ररूपणा १३१ १४२</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट १३१ १३७</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य १३७ १४२</p> <p>क्षेत्रप्ररूपणा १४२ १५१</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट १४२ १४६</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य १४६ १५१</p> <p>स्पर्शनप्ररूपणा १५१ २११</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट १५१ १८२</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य १८२ २११</p> <p>कालप्ररूपणा २११ २१६</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट २११ २१४</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य २१४ २१६</p> <p>अन्तरप्ररूपणा २१६ २१६</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट २१६ २१७</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य २१८ २१६</p> <p>भावप्ररूपणा २२० २२०</p> <p>अल्पबहुत्वप्ररूपणा २२० २३६</p> <p style="padding-left: 20px;">अल्पबहुत्व के दो भेद २२० २२०</p> <p style="padding-left: 20px;">स्वस्थान अल्पबहुत्व २२० २२८</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट २२० २२४</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य २२४ २२८</p> <p style="padding-left: 20px;">परस्थान अल्पबहुत्व २२८ २३६</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट २२८ २३३</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य २३३ २३६</p>	<p>१</p> <p>१</p> <p>१</p> <p>१</p> <p>२७</p> <p>६८</p> <p>६८</p> <p>६३</p> <p>१२६</p> <p>१२६</p> <p>१२८</p> <p>१२६</p> <p>१३१</p> <p>१३०</p> <p>१३१</p> <p>१४२</p> <p>१३७</p> <p>१४२</p> <p>१५१</p> <p>१४६</p> <p>१५१</p> <p>२११</p> <p>१८२</p> <p>२११</p> <p>२१६</p> <p>२१४</p> <p>२१६</p> <p>२१६</p> <p>२१७</p> <p>२१६</p> <p>२२०</p> <p>२३६</p> <p>२२०</p> <p>२२८</p> <p>२२४</p> <p>२२८</p> <p>२३६</p> <p>२३३</p> <p>२३६</p>	<p>भुजगारवन्ध २३६ ३२५</p> <p style="padding-left: 20px;">अर्थपद २३६ २४०</p> <p style="padding-left: 20px;">समुत्कीर्तना २४० २४१</p> <p style="padding-left: 20px;">स्वामित्व २४१ २४४</p> <p style="padding-left: 20px;">काल २४४ २४४</p> <p style="padding-left: 20px;">अन्तर २४५ २७६</p> <p style="padding-left: 20px;">भगविचय २७६ २७८</p> <p style="padding-left: 20px;">भागभाग २७८ ७६</p> <p style="padding-left: 20px;">परिमाण २७८ २८३</p> <p style="padding-left: 20px;">क्षेत्र २८३ २८५</p> <p style="padding-left: 20px;">स्पर्शन २८६ ३०६</p> <p style="padding-left: 20px;">काल ३०६ ३१२</p> <p style="padding-left: 20px;">अन्तर ३१२ ३१७</p> <p style="padding-left: 20px;">भाव ३१७ ३१८</p> <p style="padding-left: 20px;">अल्पबहुत्व ३१८ ३२५</p> <p>पदनिक्षेप ३२५ ३५६</p> <p style="padding-left: 20px;">समुत्कीर्तना ३२५ ३२५</p> <p style="padding-left: 20px;">दो भेद ३२५ ३२५</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट ३२५ ३२५</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य ३२५ ३२५</p> <p style="padding-left: 20px;">स्वामित्व ३२५ ३५५</p> <p style="padding-left: 20px;">दो भेद ३२५ ३२५</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट ३२५ ३४०</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य ३४० ३५५</p> <p style="padding-left: 20px;">अल्पबहुत्व ३५६ ३५६</p> <p style="padding-left: 20px;">दो भेद ३५६ ३२६</p> <p style="padding-left: 20px;">उत्कृष्ट ३५७ ३५६</p> <p style="padding-left: 20px;">जघन्य ३५७ ३७२</p> <p>वृद्धि ३५६ ३७२</p> <p style="padding-left: 20px;">समुत्कीर्तना ३५६ ३६१</p> <p style="padding-left: 20px;">स्वामित्व ३६१ २६१</p> <p style="padding-left: 20px;">काल ३६१ ३६१</p> <p style="padding-left: 20px;">अन्तर ३६२ ३६२</p> <p style="padding-left: 20px;">भगविचय ३६३ ३६४</p> <p style="padding-left: 20px;">भागभाग ३६३ ३६४</p> <p style="padding-left: 20px;">परिमाण ३६४ ३६५</p> <p style="padding-left: 20px;">क्षेत्र ३६५ ३६६</p> <p style="padding-left: 20px;">स्पर्शन ३६५ ३६६</p> <p style="padding-left: 20px;">काल ३६७ ३६८</p>
---	--	---

अन्तर	३६६	३७०	श्रेणिप्ररूपणा	३८७	३८६
भाव		३७१	दो भेद		३८७
अल्पवहुत्व	३७१	३७२	अनन्तरोपनिधा	३८७	३८८
अध्यवसानसमुदाहार	३७२	४१३	परम्परोपनिधा	३८८	३८६
तीन भेद		३७२	अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान	३८६	३६२
प्रकृतिसमुदाहार	३७३	३८६	दो भेद		३६०
दो भेद		३७३	अनन्तरोपनिधा	३६०	३६१
प्रमाणानुगम		३७३	परम्परोपनिधा	३६१	३६२
अल्पवहुत्व	३७३	३८६	तीव्रमन्दता	३६२	४१३
दो भेद		३७३	अनुकृष्टि	३६२	३६८
स्वस्थान अल्पवहुत्व	३७३	३७७	तीव्रमन्द	३६६	४१३
परस्थान अल्पवहुत्व	३७७	३८३	जीवसमुदाहार	४१३	४१५
स्थितिसमुदाहार	३८७	३६२			
दो भेद		३८७			
प्रमाणानुगम	३८७				

सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

## महाबंधो

तदियो अणुभागबंधाहियारो

### १५ सणियासपरुवणा

१. सणियासं दुविहं—सत्याणं परत्याणं च । सत्याणं दुवि०—जह० उक्क० ।  
उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे आदे० । ओघे० आभिणिवोधियणाणावरणस्स उक्कस्सयं  
अणुभागं वंधंतो चहुणाणावरणीयं णियमा वंधगो तं तु उक्कस्सा वा अणुक्कस्सा  
वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्सा छद्दाणपदिदं वंधदि अणंतभागहीणं वा ५ । एवमणमणणाणं ।  
णिद्दाणिद्दाए उक्क० वं० अद्वदंस० णियमा वं० । तं तु छद्दाणपदिदं वंधदि । एवमण-  
मणणाणं । साद० उ० वं० असाद० अवंधगो । असाद० उ० वं० साद० अवंध० ।  
एवं आउ-गोदं पि ।

### १५ सन्निकर्परूपणा

१. सन्निकर्प दो प्रकारका है—स्वस्थान सन्निकर्प और परस्थान सन्निकर्प । स्वस्थान  
सन्निकर्प दो प्रकारका है—जवन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका नकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो  
प्रकारका है—ओघ और आदेश । आघसे आभिनिवाधिकज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध  
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे वन्ध करना है । किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका  
भी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध  
करता है, तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध  
करता है । या तो अनन्तभागहीन अनुभागका वन्ध करता है या अमलान भागहीन या सख्यात-  
भागहीन या संख्यातरुणहीन या असंख्यातरुणहीन या अनन्तगुणहीन अनुभागका वन्ध करता है ।  
पौर्वा ज्ञानावरणोंका इसी प्रकार परस्पर सन्निकर्प जानना चाहिए । निद्रानिद्राके उत्कृष्ट अनुभागका  
वन्ध करनेवाला जीव आठ दर्शनावरणका नियमसे वन्ध करता है, किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभाग  
का भी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है,  
तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता  
है । सब दर्शनावरणोंका परस्पर इसी प्रकार सन्निकर्प जानना चाहिए । सातावेदनीयके उत्कृष्ट  
अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव असातावेदनीयका वन्ध नहीं करता है । असातावेदनीयके उत्कृष्ट  
अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीयका वन्ध नहीं करता है । इसी प्रकार आयु और  
गोत्र कर्मके विषयमें भी जानना चाहिए ।

१. ता० प्रतौ अणुमागा (गं) चहु- इति पाठः ।



२. मिच्छ० उ० वं० सोलसक०-णुंस-अरदि-सोग-भय०-दु० णिय० वं० । तं तु छद्वाण० । एवं सोलसक०-पंचणोक० । इत्थि० उ० वं० मिच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग०-भय०-दु० णि० वं० अणंतगुणहीणं वं० । एवं पुरिस० । हस्स० उक्क० वं० मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु० णियमा वं० अणंतगुणहीणं वं० । इत्थि०-णुंस० सिया वं० सिया अवं० । यदि वं० णि० अणु० अणंतगुणहीणं । रदि० णिय० तं तु० । एवं रदीए० ।

३. गिरयगदि० उ० वं० पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-वेउच्चि०-अंगो०-पसत्थ० ४-अगु०-३-तस०-४-णिमि० णि० वं० अणंतगुणहीणं वं० । हुंड०-अप्पसत्थ०-४-णिरयाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अधिरादिद्ध० णि० वं० । तं तु० छद्वाणपदिदं । एवं गिरयाणु० ।

२. मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय, न्पुसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह उनके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार सोलह कपाय और पाँच नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् नहीं बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो नियमसे इनके अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। रतिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उसके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह उसके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३. नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चोन्द्रिय जाति, वैकिक्रियक शरीर, तैजस शरीर, कामैष शरीर, वैकिक्रियक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु तीन, व्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१. ता०-आ०प्रत्योः 'रदि० णिय०' इत आरम्य 'णिमि० णि०' इ० अणंतगुणहीणं इ० इति यावत् पाठस्य पुनरावृत्तिः ।

४. तिरिक्खादि० उ० वं० एइदि०-अप्पसत्थवि०-थावर-दुस्सर सिया तं तु०  
 छद्धानपदिदं वं० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त-आदाउज्जो०-तस० सिया अणंत-  
 गुणहीणं वं० । ओरालिय०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०  
 णिय० अणंतगुणहीणं । हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अधिराट्ठिपंच णिय०  
 तं तु० छद्धानपदिदं० । एवं तिरिक्खाणु० ।

५. मणुसग० उ० वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-पसत्थापसत्थव्रण ४-  
 अगु०४-पसत्थ०-तम०-४-धिरादिद्ध०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । ओरालि०-  
 ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-मणुसाणु० णिय० वं० तं तु० छद्धानपदिदं० । तित्थं०  
 सिया० अणंतगुण० वं० । एवं ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० ।

६. देवगदि० उ० वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचटु०-वेउव्विय-

४. तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह उनके अपने उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा छह स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । पञ्चन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तपाटिका संहनन, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् नहीं बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह इनके अपने उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा अनन्तगुणै हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु तीन, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो उनके अपने उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा अनन्तगुणै हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । हुण्ड सस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो उसका वह छह स्थान पतित हानिको लिए हुए बन्ध करता है । इसी प्रकार तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरक्ष संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे अनन्तगुणै हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए बन्ध करता है । औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-नाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो उसका वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है । तिर्यङ्करका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो अनन्तगुणै हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थान् मनुष्यगतिके समान औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६. देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर,

१. ता० आ० प्रत्यो० एइदि० अप्पसत्थ० अप्पसत्थवि० इति पाठः । २. आ०प्रतौ पदिदं० । आहारदुर्गं तित्थं इति पाठः ।

अंगो०-पसत्थ०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच०-णिमि० णिय०  
वं० । तं तु० छद्वाणपदिदं० । आहारदुग-तित्थ० सिया० । तं तु० छद्वाणपदिदं० । अप्प-  
सत्थ०४-उप०-जस० णिय० अणंतगुणहीणं० । एवमेदाओ पसत्थाओ ऐकमेकस्स ।  
तं तु० ।

७. एइंदि० उ० व० तिरिक्खग०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-धावर-  
अथिरादिपंच णिय० । तं तु० छद्वाणपदिदं० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-  
अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । आटाउज्जो० सिया०  
अणंतगुणहीणं० । एवं थावर० । वीइंदि० उ० वं० तिरिक्खग०-ओरालि०-तेजा०-  
क०-हुंड०-ओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस०-वादर-

तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो उसका वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है। आहारक द्विक और तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो उसका वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपचात और यशःक्रीतिका नियमसे अनन्तगुणी हानिको लिये हुए अनुकृष्ट बन्ध करता है। इसी प्रकार इन प्रशस्त प्रकृतियोंका एक दूसरेकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए। किन्तु इनका परस्पर अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट भी करता है और अनुकृष्ट भी। यदि अनुकृष्ट अनुभागबन्ध करता है तो उनका वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए अनुभाग बन्ध करता है।

७. एकेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपचात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो उसका वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है। औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे अनन्तगुणा हीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् नहीं बन्ध करता। यदि बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तगुणा हीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए। द्वीन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपचात, त्रस, वादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे अनन्तगुणा हीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। असम्प्राप्तादृषादिका संहननका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है या अनुकृष्ट अनुभागका

अपञ्ज०-पत्ते०-अधिरादिपंच०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । [असंप० णि० तं तु०] ।  
एवं तेईदि०-चतुरिदि० ।

८. णगोद० उ० वं० तिरिक्खग०-मणुसग०-चटुसंध०-दोआणु०-उज्जो० सिया  
अणंतगुणहीणं वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पसत्यापसत्य०४-  
अगु०४-[अ-] पसत्य०-तस०४-अधिरादिद्व०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । एवं  
सादि० । णवरि तिण्णसंध० ।

९. खुज्ज० उ० अणु० वं० तिरिक्ख० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
ओरालि०-अंगो०-पसत्यापसत्य०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-[अ-] पसत्य०-तस०४-  
अधिरादिद्व०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । दोसंध०-उज्जो० सिया० अणंतगु० ।  
एवं वाणसंठा० । णवरि एयसंध०-उज्जो० सिया अणंतगु० ।

१०. हुंड० उ० वं० णिरय-तिरिक्खग०-एईदि०-असंप०-दोआणु०-अप्पसत्थ-  
विहा०-धावर०-दुस्सर० सिया० । तंतु० छट्टाणपदिदं० । पंचिदि०-ओरालि०-वेउच्चि०-  
दोअंगो०-आदाव०-तस० सिया० अणंतगु० । तेजा०-क०-पसत्थव०४-अगु०३-

भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप  
होता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८. न्यप्रोध संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, सतुष्यगति,  
चार संहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् अनन्तगुणा हीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध  
करता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,  
प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,  
अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे अनन्तगुणाहीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता  
है । इसी प्रकार स्वाति संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
इसके तीन संहनन कहने चाहिए ।

९. कुब्जक संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय  
जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क,  
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क  
अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे अनन्तगुणा हीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता  
है । दो संहनन और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । जो अनन्तगुणा हीन अनुकृष्ट  
अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।  
इतनी विशेषता है कि वह एक संहनन और उद्योतका कदाचित् अनन्तगुणा हीन अनुकृष्ट  
अनुभागका बन्ध करता है ।

१०. हुण्ड संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, तिर्यञ्चगति,  
एकेन्द्रिय जाति, असंप्राप्ताष्टपाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्वावर,  
और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध  
करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है  
तो वह इनका छह स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है । पंचेन्द्रियजाति, औदारिक-  
शरीर, वैक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, आतप और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा

१. ता०-आ०-प्रत्योः अर्धव० इति पाठः । २. ता०-आ०-प्रत्योः आदावुजो० तस० इति पाठः ।

वादर-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० अणंतगुण० । उज्जोवं सिया अणंतगुणहीणं० । अप्पसत्थ०४-उप०-अधिरादिपंच० णिय०<sup>१</sup> । तं तु० छद्दाणपदिदं० । एवं हुंड०भंगो अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अधिरादिपंच । यथा संटाणं तथा चदुसंध० ।

११. असंप० उ० अणु० वं० तिरिक्ख०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पस०-अधिरादिद्व० णि० । तं तु० छद्दाणपदिदं० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थ०४-अणु०३-तस०४-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । उज्जो० सिया० अणंतगुणहीणं<sup>३</sup> ।

१२. आदाव० उ० वं० तिरिक्खग०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-थावर-वादर-पञ्जत्त-पत्ते०-दूभ०-अणादें०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । धिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० अणंतगुणहीणं० । उज्जो० उ० वं०<sup>३</sup> तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-

हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपचात और अस्थिर आदि पंच का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छद्द स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार हुण्डक संस्थानके समान अप्रशस्तवर्ण चतुष्क, उपचात और अस्थिर आदि पंचकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । जिस प्रकार चार संस्थानोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहा है, उसी प्रकार चार सहननोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

११. असम्प्राप्तपाटिका संदननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उपचात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छद्दका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि वह इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो इनका छद्द स्थान पतित हानिको लिये हुए बन्ध करता है । पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक आज्ञोपाज्ञ, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणेहीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणेहीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है ।

१२. आतपके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भंग, अनादेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धको लिये हुए होता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने-

१. ता०-आ०प्रत्योः पंच णिमि० णिय० इति पाठः । २. ता० आ०प्रत्योः 'अखंतगुणहीणं' अतोऽप्ये 'यथा गदितथा आणुपुत्वि०' इत्यधिकः पाठोऽस्ति । ३. ता० आ०प्रत्योः उज्जो० उप० तिरिक्ख० इति पाठः ।

ओरालि०अंगो०-वज्जरी०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्व०-णिमि० गिय० अणंतगु० ।

१३. अप्सत्थ० उ० वं० णिरय०-तिरिक्ख०-असंप०-दोआणु० सिया० । तं तु० छद्वाणपदिदं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-तस४-णिमि० गिय० अणंतगुणहीणं० । ओरालि०-वेचव्वि०-दोअंगो०-उज्जो० सिया० अणंतगुण-हीणं० । हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अथिरादिद्व० गिय० । तं तु० छद्वाण-पदिदं० । एवं दुस्सर० ।

१४. सुहुम० उ० वं० तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्थापसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर-अथिरादिपंच०-णिमि० गिय० अणंतगुणहीणं० । अपज्ज०-साधार० गिय० । तं तु० छद्वाणपदिदं० । एवं अपज्जत्त-साधारण० । पंचंतराइयाणं णाणावरणभंगो ।

१५. गिरएसु सत्तणं कम्माणं ओघं । तिरिक्ख० उ० वं० पंचिदि०-

बाला जीव तिर्यञ्जगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, सम-चतुरस्त संस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभ नाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्जगत्यासुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अतुल्य अनुभागका बन्ध करता है ।

१३. अप्रशस्त विहायोगतिके उल्लेख अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, तिर्यञ्ज-गति, असम्प्राप्तपाटिका संहनन और दो आनुपूर्विका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उल्लेख अनुभागका भी बन्ध करता है और अतुल्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अतुल्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु त्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अतुल्य अनुभागको लिये हुए होता है । औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, दो आज्ञोपाङ्ग और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अतुल्य अनुभागको लिये हुए होता है । हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उल्लेख अनुभागका भी बन्ध करता है और अतुल्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अतुल्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ज्ञानना चाहिए ।

१४ सूक्ष्मके उल्लेख अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यासुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अतुल्य अनुभागको लिये हुए होता है । अपर्याप्त और साधारणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उल्लेख अनुभागका भी बन्ध करता है और अतुल्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अतुल्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार अपर्याप्त और साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ज्ञानना चाहिए । पाँच अन्तरायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।

१५. नारकियोंमें सात कर्मोंका भंग ओषके समान है । तिर्यञ्जगतिके उल्लेख अनुभागका

ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० गिय० अणंतगुणहीणं । हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ० गिय० । तं तु० छद्दाणपदिदं० । उज्जो० सिया० अणंतगुणहीणं० । एवं तिरिक्खाणुगदिभंगो हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ० ।

१६. मणुसगदि० उ० बं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु०३-तस०४-पसत्थवि०-थिरादिछ०-णिमि० गिय० । तं तु० छद्दाणपदिदं० । अप्पसत्थ०४-उप० गिय० अणंतगुणहीणं बं० । तित्थ० सिया० । तं तु० छद्दाणपदिदं० । एवं पसत्थाओ ऐकमेककेण सह । तं तु० तित्थयरेण सह कादब्बं । चदुसंठा०-चदुसंघ०-उज्जो० ओघं । एवं छसु पुढवीसु । णवरि उज्जोवं उ० वं० तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-

बन्धक जीव पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिकासहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिकासहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच सहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार प्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे एक दूसरेके साथ सन्निकर्ष कहना चाहिए । किन्तु वह तीर्थङ्कर प्रकृतिके साथ कहना चाहिए । चार संस्थान, चार सहनन, और उद्योतका भङ्ग ओघके समान है । अर्थात् इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान कहना चाहिए । इसी प्रकार प्रथमादि छह पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क,

तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०<sup>१</sup> णिय० अणंतगुणहीणं० । छस्संठा०-छस्संघ०-  
दोविहा०-छयुगल० सिया अणंतगुणहीणं । सत्तमाए णिरयोघं । णवरि दोसंठा०-  
दोसंघ० उ० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० णिय० अणंतगुणहीणं० ।

१७. तिरिक्खेसु सत्तणं कम्माणं ओघं । णिरयगट्ठि० उ० वं० पंचिदि०-  
वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णिय० अणंतगुण-  
हीणं० । हुंड०-अप्पसत्थ०४-णिरयाणु०-उप०-अप्पस०-अशिरादिद्ध० णिय० । तं तु०  
छद्धानपदिदं । एवं णिरयगट्ठिभंगो अप्पसत्थाणं ।

१८. तिरिक्खग० उ० वं० एइदि०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०४ णिय० । तं  
तु० छद्धानपदिदं । ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-  
अशिरादिपंच०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । एवं तिरिक्खगदिभंगो एइदि०-  
तिरिक्खाणु०-थावरादि०४ ।

१९. मणुसग० उ० वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-पसत्थापसत्थै०४-

अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे  
बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। छह संस्थान, छह  
संघनन, दो विहायोगति और छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन  
अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है।  
इतनी विशेषता है कि दो संस्थान और दो संघननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव  
तिर्यञ्जगति और तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट  
अनुभागको लिये हुए होता है।

१७. तिर्यञ्जोमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है। नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका  
बन्ध करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अगुरुलघुचक्र, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट  
अनुभागका बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात,  
अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छद्दका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट  
अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट  
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार  
नरकगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान अप्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए।

१८. तिर्यञ्जगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, तिर्यञ्ज-  
गत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका  
भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका  
बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, तैजसशरीर,  
कार्मण्यशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर  
आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको  
लिये हुए होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्जगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान एकेन्द्रिय  
जाति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१९. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर,

२ आ० प्रलौ अगु० ४ तस० षिमि इति पाठः । २ आ० प्रलौ तेजाक० पवत्यापसत्थ० इति पाठः ।



अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० णि० । तं तु० छद्वाणपदिदं । तिपिणयुग० सिया० अणंतगुणहीणं० । एवं मणुसगदिभंगो ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० ।

२०. देवगदि० उ० वं० पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चि०-अंगो०-पसत्थ०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिदु०-णिमि० णिय० । तं तु० छद्वाणपदिदं० । अप्पसत्थ०४-उप० णि० अणंतगुणहीणं० । एवं पसत्थाणं देवगदीए सह ँक्कमैक्कस्स । तं तु० ।

२१. वीइदि० उ० व० तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस०-बादर-अपज्ज०-पत्ते०-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं० । असंप० णि० । तं तु० छद्वाणपदिदं० । एवं असंप० । तीइदि०-चदुरिदि० ओघं । चदुसंघा०-चदुसंघ०-

कार्मण शरीर, समचतुररत्न संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुच्छेद अनुभागको लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुच्छेद अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुच्छेद अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुच्छेद अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार मनुष्यगतिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान औदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२०. देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुररत्न संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु त्रिक, प्रशस्त विहायगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण का नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुच्छेद अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुच्छेद अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुच्छेद अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार प्रशस्त प्रकृतियोंका देवगति के साथ विवक्षित प्रकृतिकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष कहना चाहिए। किन्तु विवक्षित प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो उसी प्रकार बन्ध करता है, जिस प्रकार देवगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहा है।

२१. इन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव त्रियंश्रगति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, त्रियंश्रगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, अपयोज, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुच्छेद अनुभागको लिये हुए होता है। असम्प्राप्ताष्टपाटिका संहननका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है या अनुच्छेद अनुभागका बन्ध करता है। यदि अनुच्छेद अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिए हुए होता है। इसी प्रकार असम्प्राप्ताष्टपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। त्रिन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिकी

भादाव० ओषं । उज्जोवं पढमपुढविभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्ख० २ ।

२२. तस्सेव अपज्जत्तेसु छण्णं कम्माणां ओषं । मिच्छत्तं ओषं । एवं सोलसक०-पंचपोक० । इत्थि० उ० वं० मिच्छत्त-सोलसक०-भय०-दु० गिय० अणंतगुणहीणं । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया अणंतगुणहीणं । एवं पुरिस० । हस्स० उ० वं० मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-भय-दु० गिय० अणु० अणंतगुणहीणं । रदि० गिय० तं तु० छट्ठाणपदिदं० । एवं रदीए ।

२३. तिरिक्ख० उ० वं० एइदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादि०पंच० गि० । तं तु० छट्ठाणपदिदं० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु० गिमि० गिय० अणंतगुणहीणं० । एवं तिरिक्खगदिभंगो एइ दि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच० ।

२४. मणुसगदि० उ० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-सपचहु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ० ४-मणुसाणु०-अगु० ३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्वि०-

मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है । चार संस्थान, चार संहनन और आतपकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है । उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष पहली पृथिवीके समान है । इसी प्रकार अर्थात् सामान्य तिर्यञ्चोके समान पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चक्रमें जानना चाहिए ।

२२. तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमं छह कर्मोका भङ्ग ओषके समान है । मिथ्यात्वका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार सोलह कथाय और पाँच नोकगार्योकी मुख्यतासे जानना चाहिए । स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कथाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सोलह कथाय, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इसके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हीन अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात् हास्यके समान रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२३ तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, उपघात, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अयुस्सधु और निर्मोणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान एकेन्द्रिय जाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण-चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, उपघात, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि पाँचकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२४. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक ब्राह्मोपाद्ग, वज्रभनाराच संहनन

१. आ० प्रतौ खेलसक० भयदु० इति पाठः । २ आ० प्रतौ० अथिपदिदु० इति पाठः ।

णिमि० णि० । तं० तु० छद्वाणपदिदं । अप्ससत्थ०४-उप० णि० अणंतगुणहीणां० । एवं पसत्थाणां सच्चाणां मणुसगदीए सह ऐकमेकस्स । तं तु० छद्वाणपदिदं । वीईदियजादि० जोणिणिभंगो । तीईदि०-चदुरिदि० ओधं ।

२५. णगोद० उ० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-अप्ससत्थवि०-तस०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णिमि० णि० अणंतगुणहीणां० । तिरिक्ख०-मणुस०-चदुसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस-अजस० सिया अणंतगुणहीणां० । एवं सादि० । णवरि तिणिसंघ० सिया० अणंतगुणहीणां । एवं खुज्जसंठा० । णवरि दोसंघ० सिया० अणंतगुणहीणां । एवं वामण० । णवरि असंपत्ते० णिय० अणंतगुणहीणां । यथा संटाणं तथा संघडणं । असंप० वीईदियभंगो । आदाउज्जो० पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

प्रशस्त वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि ब्रह्म और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार सब प्रशस्त प्रकृतियोंका मनुष्यगतिके साथ परस्पर सन्निकर्ष कइना चाहिए । किन्तु उनका परस्पर उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी होता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । द्वीन्द्रियजाति की मुख्यतासे सन्निकर्ष जिस प्रकार तिर्यञ्चयोनिनीके कह आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । द्वीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष श्रोधके समान है ।

२५. न्यग्रोधसंस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीवपञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक-शरीर, तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, औदारिकब्राह्मोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात् न्यग्रोधसंस्थानके समान स्वातिसंस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह तीन संहननोंका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार कुञ्जक संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह दो संहननोंका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह असम्प्राप्तासृपाटिका संहननका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । यहाँ संस्थानोंकी मुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है, उसी प्रकार संहननोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मात्र असम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष द्वीन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान है । आतप और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जिस प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके कह आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए ।

२६. अप्पसत्थं उ० वं० तिरिक्ख०-वीईदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०-अंगो०-पसत्थापसत्थं०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०-दूभ०-अणादे०-णिमि० णि० अणंतगुणहीणं । उज्जो०-थिराथिर-मुभासुभ-जस०-अजस० सिया० अणंतगुणहीणं । दुस्सर० णि० । तं तु छद्दाणपदिदं० । एवं दुस्सर० । एवं अपज्जत्ताणं सन्वविगलिदि०-पुढवि०-आउ०-वणप्फदि-वादरपत्ते०-णियोद० ।

२७. मणुसेसु खविगाणं ओघं । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो ।

२८. देवेसु सत्तणं कम्माणं ओघं । तिरिक्ख० उ० वं० ईईदि०-असंप०-अप्पसत्थं-यावर०-दुस्सर० सिया० । तं तु छद्दाणप० । पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० अणंतगुणहीणं । ओरालि०-तेजा०-क० पसत्थं०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । हुंड०-अप्पसत्थं०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच० णिय० तं तु छद्दाणपदिदं । एवं तिरिक्खगदिभंगो

२६. अप्रशस्त विहायोगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, द्वीन्द्रिय-जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकआज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, दुर्भंग, अनादेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात् अप्रशस्त विहायोगतिके समान दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात् पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयत्तिकोंके समान सब अपयत्तिक, सब विकलेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक वादर प्रत्येक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए ।

२७. मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है और शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पंचेन्द्रियतिर्यञ्चोके समान है ।

२८. देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तास्पष्टिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पंचिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पंचिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ; किन्तु इनमेंसे किसी एक प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव इन्हींमेंसे

हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०अधिरादिपंच० । मणुसगदिसंजुत्ताओ पसत्थाओ  
णिरयभंगो । ईदि०-आदाव-थावरं ओधं । चदुसंठा०-चदुसंध० ओधं ।

२६. असंप उ० वं० तिरिक्ख०-हुंडस०-अप्पस०४-तिरिक्खाणु०-उप०-  
अप्पस०-अधिरादिद्व० णि० । तं तु० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि-  
अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णि० अणंतगुणहीणं । उज्जो० सिया०  
अणंतगुणहीणं । एवं अप्पसत्थविहायगदी । दुस्सर०-उज्जोव० पढमपुढविभंगो ।

३०. भवणवासिय-वाणवें०-जोदिसि०-सोधम्मीसाणं सर्वं ओधं । तिरिक्ख  
गदि० उ० वं० ईदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावर०-अधिरादिपंच  
णियमा । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वाद्दर-पज्जत्त-पत्तेग०-  
णिमि० णि० अणंतगु० । आदाउ० सिया० अणंतगुणहीणं ।

३१. असंप उ० वं० तिरिक्ख०-पंचि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०-

शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है। जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है या अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। मनुष्यगति संयुक्त प्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग जिस प्रकार नरकगतिमें कह आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए। एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है। चार संस्थान और चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है।

२६. असम्प्राप्तासृपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुंडसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, औदारिक आज्ञोपाद्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुण्ये हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुण्ये हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार अप्रशस्त विहायोगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। दुःस्वर और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष प्रथम पृथिवीके समान जानना चाहिए।

३०. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म-पेशान तकके देवोंमें सात कर्मोंका भंग ओषके समान है। तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानु-पूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वाद्दर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माण का नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्तगुण्ये हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुण्येहीन अनुभागको लिये हुए होता है।

३१. असम्प्राप्तासृपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक

१. ता० प्रतौ बोधम्मी० तत्त्व ओषं, आ० प्रतौ बोधम्मीसाखंतत्त्व ओषं इति पाठः ।

अंगो०-पसत्यापसत्यवण्ण०४-[ तिरिक्खाणु०- ] अगु०४-तस०४-अथिरादिपच०-  
णिमि० गिय० अणंतगुणहीणं । उज्जो० सिया० अणंतगुणहीणं । अप्पसत्य०-  
दुस्सर० गिय० । तं तु० । एवं अप्पसत्यवि०-दुस्सर० । सेसं देवोयं ।

३२. सणक्कुमार याव सहस्तर त्ति विदियपुढविभंगो । आणद याव एण-  
गेवज्जा त्ति सो चेव भंगो । एणरि तिरिक्खगदिदुगं उज्जोवं वज्ज । अणुदिस याव सव्वह  
त्ति झणणं कम्माणं ओयं । अप्पच्चक्खाणकोध० उ० वं० ँकारसकसाय-पुरिस०-  
अरदि-सोग-भय-दु० गिय० । तं तु छट्ठाणपदिदं० । एवमणमएणाणं ।  
तं तु० ।

३३. हस्स० उ० वं० वारसक०-पुरिसवे०-भय-दु० गिय० अणंतगुणहीणं० ।  
रादि० गि० । तं तु० । एवं रदीए० । मणुसगदि० देवोयं । एवं पसत्याओ  
सव्वाओ ।

आज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुस्त्यु चतुष्क, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार अर्थात् असम्प्राप्तपाटिका संहननके समान अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष भङ्ग सामान्य देवोंके समान है।

३२. सनत्कुमारसे लेकर सहस्तर कल्प तकके देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है। आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंमें वही भङ्ग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्च-  
गतिक्रि और उद्योतको छोड़कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें छह कर्मोंका भंग ओषके समान है। अप्रत्याख्यानवरण क्रोधके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव ग्यारह कपाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धभी करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष होता है जो उत्कृष्ट अनुभाग बन्धरूप भी होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धरूप भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धरूप होता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है।

३३. हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। रतिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार अर्थात् हास्यके समान रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्यगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंमें जिस प्रकार कह आये हैं, उस प्रकार जानना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात् मनुष्यगतिके समान सब प्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

३४. अप्पसत्यवण ० उ० वं० मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जि०-पसत्य०-४-मणुसाणु०-अणु०-पसत्यवि०-तस०-४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० वं० अयांतगुणहीयां० । अप्पसत्यगंध०३-उप०-अथिर-असुभ-अजस० णि० । तं तु छद्दाणपदिदं० । एवमएणमएणस्स । तं तु० । तित्थ० सिया० अयांतगुणहीयां० ।

३५. एइंदिएसु सत्तएणं कम्मायां पंचिदि०तिरि०अपज्ज०भंगो । पंचिदि० उ० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० सिया अयांतगुणहीयां० । मणुसग०-मणुसाणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-वज्जि०-पसत्य०-४-अणु० ३-पसत्य०-तस० ४-थिरादिद्व०-णिमि० णि० तं तु० । अप्पसत्य०-४-उप० णिय० अयांतगुणहीयां० । एवं पंचिदियभंगो पसत्थायां सव्वाणं । मणुस०-मणुसाणु०-वज्जि०-सेसायां पंचिदि०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवं सव्वएइंदियायां० ।

३४. अग्रशस्त वर्षके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आहोपाह्न, वज्रपर्मनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्षचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुस्लधु, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदिय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। अग्रशस्त गन्धआदि तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकौतिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छद् स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार इन अशुभ प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इनमेसे किसी एक प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करनेवाला जीव उन्हींमेसे श्रेय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है, तो वह छद् स्थान पतित हानिको लिए हुए होता है। तीर्थद्वर प्रकृतिका कदाचिन् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिए हुए होता है।

३५. एकेन्द्रियमे सात कर्मोंका भद्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तत्रिके समान है। पञ्चेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका कदाचिन् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्योतका कदाचिन् बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छद् स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आहोपाह्न, वज्रपर्मनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्षचतुष्क, अगुस्लधु-त्रिक, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छद् और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, तो वह छद् स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। अग्रशस्त वर्षचतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान सब प्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और वज्रपर्मनाराचसंहनन तथा त्रैय प्रकृतियोंकी मुख्यतासे

तेज०-वाउका० एइंदियभंगो० । पवरि तिरिक्खगदि०-तिरिक्खाणु० धुवभंगो । पसत्थायां उज्जो० सिया० । तं तु० ।

३६. पंचिदि०-तस०२ ओघभंगो । एवं पंचमणु०-पंचवचि०-कायजोगि०-क्रोधादि०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति । ओरालि० मणुसभंगो ।

३७. ओरालियमि० सत्तणं कम्मायां अपज्जत्तभंगो । तिरिक्खव०-चदुजा०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-अथिरादिद्धं० पंचिदियतिरिक्खवअपज्जत्तभंगो । मणुसगदिपंचगं पंचि०-तिरिक्खभंगो । देवगदि उ० वं० पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चि० अंगो०-पसत्थ०४-देवाणु०-अणु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्धं०-णियमि० णिय० । तं तु० । अप्पसत्थ०४-उप० णि० अयांतणुणहीयां० । तित्थ० सिया० । तं तु० । एवमेदाओ एक्कमैक्कसस तं तु० ।

३८. वेउच्चियका०-वेउच्चियमि० देवोयं । एवरि उज्जो० मूलोयं । आहार०-

सन्निकर्ष पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान है । इसी प्रकार सब एकेन्द्रियोंके जानना चाहिए । आग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भद्र है । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ध्रुवभङ्गके समान है । प्रशस्त प्रकृतियों और उद्योतका कदाचित् वन्ध करता है, किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिए हुए होता है ।

३६. पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें ओघके समान भद्र है । इसी प्रकार पौंचों मनोयोगी, पौंचों वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कयायवाले, अचक्खुदर्शनी, भव्य, संकी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । औदारिककाययोगी जीवोंका भद्र मनुष्योंके समान है ।

३७. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भंग अपर्याप्तकोके समान है । तिर्यञ्चगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छहका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुन्निक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी करता है और अनुकृष्ट अनुभागवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागवन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । तिर्यङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागवन्ध भी करता है और अनुकृष्ट अनुभागवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागवन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३८. वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान

१. आ० प्रतौ थिरादिद्धं० इति पाठः ।



आहारमि० छण्णं कम्मार्णं सञ्चद्व० भंगो । क्रोधसंज० उ० वं० तिग्गिणसंज०-पुरिसि०-  
अरदि-सोग-भय०-दु० णिय० । तं तु० । एवमैकमैकैस्स । तं तु० ।

३६. हस्स० उ० वं० चट्ठसंज०-पुरिसि०-भय०-दु० णि० अणंतगुणहीणं० ।  
रदि० णि० । तं तु० । एवं रदीए ।

४०. देवगदि० उ० वं० पंचिदि०-वेज्जि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेज्जि०-  
अंगो०-पसत्थवण्ण०-४-देवाणु०-अयु०-३-पसत्थ०-तस०-४-थिरादिद्व०-णिमि० णि० । तं  
तु० । अप्पसत्थवण्ण०-४-उप० णिय० अणंतगुणहीणं० । तित्थ० सिया० । तं तु० ।  
एवं पसत्थाओ ऐकमैकैस्स । तं तु० ।

४१. अप्पसत्थवण्णं० उ० वं० देवगदि०-पंचिदि०-वेज्जि०-तेजा०-क०-

भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उद्योतका भंग मूलोपेके समान है । आहारककाययोगी और  
आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें छह कर्मोंका भङ्ग सर्वार्थसिद्धिके समान है । क्रोध संव्वलनके  
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन संव्वलन, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय और  
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और  
अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह  
स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना  
चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषके उत्कृष्ट  
अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट  
अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है ।

३६. हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार संव्वलन, पुरुषवेद, भय और  
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुण्णे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है ।  
रतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनु-  
भाग बन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको  
लिये हुए होता है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४०. देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर,  
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्मोणका  
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग  
का भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित  
हानिको लिये हुए होता है । अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो  
अनन्तगुण्णे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है ।  
किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है ।  
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है ।  
इसी प्रकार प्रशस्त प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके  
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव इन्हींमेंसे शेषका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और  
अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित  
हानिको लिये हुए होता है ।

४१. अप्रशस्त वर्णके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पंचेन्द्रिय जाति,

समचतु०-वेडन्वि०-अंगो०-पसत्य०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्य०-तसं०४-सुभग-सुस्सर-  
आर्दं०-णिमि० णि० अणंतगुणहीणं० । अप्पसत्यगंधं०३-उप०-अथिर-असुभ-अजस०  
णि० । तं तु० । तित्थं० सिया० अणंतगुणहीणं० । एवं अप्पसत्यगंधं०३-[उप०-]  
अथिर-असुभ-अजस० ।

४२. कम्मइ० सचण्णं कम्माणं ओघं । तिरिक्ख० उ० वं० एइंदि०-असंप०-  
अप्पसत्यवि०-थावर-सुहुम-अपज्ज०-साधार०-दुस्सर० सिया० । तं तु० ! पंचि०-  
ओरालि०-अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाज्जो०-तस०४ सिया० अणंतगुणहीणं०।ओरालि०-  
तेजा०-क०-पसत्य०४-अगु०-णिमि० णिय० अणंतगु० । हुंडं०-अप्पसत्य०४-तिरि-  
क्खाणु०-उप०-अथिरादिपंचं० णि० । तं तु० । एवं तिरिक्खगदिभंगो हुंडं०-  
अप्पसत्य०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादिपंचं० । मणुसग० उ० वं० णिरयोघं । एवं  
ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० । देवगदि०४ ओरालियमिस्स०-भंगो ।

वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुत्त्वयुक्तिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। अप्रशस्त गन्ध तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार अर्थात् अप्रशस्त वर्णके समान अप्रशस्त गन्ध आदि तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिको मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

४२. कार्मणकाययोगी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकैन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और त्रसचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभाग रूप होता है। औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुत्वु और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभाग रूप होता है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान हुण्डक संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य नारकियोंके जिसप्रकार कह आये हैं, उस प्रकार जानना चाहिए। इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, बज्रबभनाराच संहनन, और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी

४३. पंचिदि० उ० वं० मणुसग०-देवग०-दोसरी०-दोअंगो०-वज्जरि०-दो-  
आणु०-तित्यय० सिया० । तं तु० । तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थ०-  
तस०४-धिरादिद्वि०णिमि० णि० । तं तु० । अप्पसत्थ०४-उप० णिय० अणंतगु० ।  
एवं पंचिदियभंगो पसत्थाणं ।

४४. एईदि० उ० वं० तिरिक्खग०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-  
थावर-अधिरादिपंच० णि० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०  
णि० अणंतगु० । पर०-उस्ता०-आदाउज्जो०-वादर-पज्जत्त०-पत्ते० सिया० अणंत-  
गुणहीणं । सुहुम०-अपज्ज०-साधार० सिया० । तं तु० । एवं थावर० ।

४५. सुहुम० उ० वं० तिरिक्ख०-एईदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-  
उप०-थावर-अपज्ज०-साधार०-अधिरादिपंच० णि० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-

मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए। देवगति चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्षे औदारिकमिश्रकाययोगी  
जीवोंके विसप्रकार कह आये हैं, उसप्रकार जानना चाहिए।

४३. पञ्चेन्द्रिय ज्ञानिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, देवगति,  
दो शरीर, दो आज्ञोपाङ्ग, वरुणभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित्  
बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनु-  
भागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित  
हानिको लिये हुए होता है। तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध  
करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध  
करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए  
होता है। अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन  
अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान प्रशस्त प्रकृतियों  
की मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना चाहिए।

४४. एकेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान,  
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे  
बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी  
बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये  
हुए होता है। औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और  
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है।  
परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्त-  
गुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका कदाचित्  
बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध भी  
करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए  
होता है। इसी प्रकार अर्थात् एकेन्द्रिय जातिके समान स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्षे  
जानना चाहिए।

४५. सूक्ष्म प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति,  
हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अपर्याप्त, साधारण और

पसत्य०४-अगु०-गिमि० गिय० अणंतगुणहीणं । एवं अपज्ज०-साधार० । सेसं ओघं । तिरिक्ख०-मणुस० एइंदि० सुहुम०-अपज्जत्त०-साधारणसंजुत्तसंकिलेस्स णेरइय० पंचि-दियसंजुत्तसंकिलेस्स त्ति ।

४६. इत्थिवेदेसु सत्तणं कम्मणं ओघं । णिरयम० उ० वं० पंचिदियादि-पसत्थाओ ओघं । हुंड०-अप्पसत्थ०४-णिरयाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध० गिय० । तं तु० । एवं णिरयाणु०-अप्पसत्थवि०-दुस्सर० ।

४७. तिरिक्ख० उ० वं० एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावर०-अथिरादिपंच० गिय० । तं तु० । ओरालियादिपगदीओ देवोघं । एवं एइंदि०-[हुंड०-अप्पसत्थ०४-]तिरिक्खाणु०-[उप०-]थावर०-[अथिरादिपंच०] । तिणिण जादि० पंचि०तिरिक्खजोणिणिभंगो ।

४८. सेसाणं पमादीणं ओघं । णवरि असंप० उ० वं० तिरिक्ख०-ओरालि०-नेजा०-

अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्वाणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणें हीन अनुत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात् सूक्ष्म प्रकृतिके समान अपयोनं और साधारण्य प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष ओघके समान है । तिर्यञ्च और मनुष्य जीव सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण्य संयुक्त संकलेश परिणामोसे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं और पञ्चेन्द्रिय जाति संयुक्त संकलेश परिणामोसे नरकगतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं ।

४६. खीवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । वह हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानि को लिये हुए होता है । इसी प्रकार अर्थात् नरकगतिके समान नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायो-गति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

४७. तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । औदारिक शरीर आदि प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जिस प्रकार सामान्य देवोंमें कह आये हैं, उसी प्रकार यहाँ कहना चाहिए । इसी प्रकार एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर आदि ५ की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीन जातिकी मुख्यता से सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनितीके जिस प्रकार कह आये हैं, उस प्रकार है ।

४८. शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि असम्प्राप्तास्तुपाटिका सं-

१. ता० प्रलौ ओघं । उ० वं० इति पठः ।

क०-हुंड०-ओरालि०अंगो०-पसस्थापसत्य०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस०४-अधि-  
रादिपंच-णिमि० णिय० अणंतगु० । वे० सिया० तं तु० । पंचि०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-  
अपस०-पज्जत्तापज्ज०-हुस्सर० सिया० अणंतगुण० । तिरिक्ख-मणुसिणीओ वेईदिय-  
संजुत्तं संक्खिसेत्तं ति । आदाउज्जो० देवोवं ।

४६. चटुसंठा०-चटुसंध०-अपसत्य०-हुस्सर० ओयं । सुहुम० उ० वं०  
तिरिक्ख०-एईदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसस्थापसत्य०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-  
उप०-थावर-अथिरादिपंच०-णिमि० णिय० अणंतगुणहीणं । अपज्जत्त-साधार० णिय० ।  
तं तु० । एवं अपज्जत्त-साधार० ।

५०. पुरिसेसु ओयं ।

५१. णनुसगे सत्तणं कम्मणं ओयं । णिरयगदि० उ० वं० पंचिदियादिपगदीओ  
सव्वाओ ओयं । हुंड-अपसत्यवण्ण०४-णिरयाणु०-उप०-अपसत्य०-अथिरादिक्ख०  
णिय० । तं तु० । एवं णिरयाणु० ।

ननके उल्लुप अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामण्य  
शरीर, हुंड संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघु, उपघात, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो  
अनन्तगुणै हीन अनुल्लुप अणुभागको लिये हुए होता है। इन्द्रिय जातिका कदाचित् बन्ध करता है।  
यदि बन्ध करता है, तो उल्लुप अणुभागबन्ध भी करता है और अनुल्लुप अनुबन्ध भी करता है।  
यदि अनुल्लुप अनुबन्ध करता है, तो वह नियमसे ब्रह्म स्थानपतित हानिरूप होता है। पञ्चेन्द्रिय-  
जाति. परधान, उच्छ्वास उद्योत, अप्रशस्त विहायोगनि, पर्याप्त, अपर्याप्त और दुःस्वरका  
कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणै हीन अनुल्लुप अणुभागको लिये हुए होता है। तिर्यञ्जयोनिनी  
और मनुष्यनी संक्लेश परिणामयुक्त इन्द्रिय जातिका बन्ध करती है। आतप और उद्योतका भङ्ग  
सामान्य देवोंके समान है।

४६. चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दु स्वरका भङ्ग ओषके समान  
है। सूक्ष्म प्रकृतिके उल्लुप अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति. एकेन्द्रिय जाति, औदारिक  
शरीर, तेजसशरीर, कामण्यशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क,  
तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध  
करता है जो अनन्तगुणै हीन अनुल्लुप अणुभागको लिये हुए होता है। अपर्याप्त और साधारण  
का नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उल्लुप अणुभाग बन्ध भी करता है और अनुल्लुप अणुभाग  
बन्ध भी करता है। यदि अनुल्लुप अणुभागबन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थानपतित हानिको लिये  
हुए होता है। इसी प्रकार अपर्याप्त और साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५०. पुरुषवेदी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है।

५१. नर्षसकवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है। नरकगतिके उल्लुप अणु-  
भागका बन्ध करनेवाले जीवके पञ्चेन्द्रिय जाति आदि सत्र प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है।  
वह हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और  
अस्थिर आदि ब्रह्मका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उल्लुप अणुभागबन्ध भी करता है और  
अनुल्लुप अणुभाग बन्ध भी करता है। यदि अनुल्लुप अणुभाग बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान  
पतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए।

५२. तिरिक्खगदि० उ० वं० पंचिंदियादिपसत्थाओ अणंतगुणहीणं० । हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अधिरादिद्ध० णिव० । तं तु छट्ठाणपदिदं० । एवं असंप०-तिरिक्खाणु० ।

५३. एईदि० उ० वं० थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० णिय० । तं तु० । सेसं णिय० अणंतगुणहीणं । एवं एईदियभंगो थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधार० । सेसं ओघं ।

५४. अवगदवेदे० आभिणि० उ० वं० चटुणा० णि० वं० णि० उक्कस्सं । एवं चटुणाणा०-चटुदंसणा०-चटुसंज०-पंचंतरा० । कोधादि०४ ओघं ।

५५. मदि०-सुद०-विभंग०-मिच्छादि० ओरालि० उ० वं० तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० सिया० अणंतगुणहीणं । मणुसगदिट्टुग-उज्जो० सिया० । तं तु० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-धिरादिद्ध०-णिमि० णिय० अणंतगु० । ओरालि०-अंगो०-वज्जरि० णिय० । तं तु० । एवं ओरालि०-अंगो०-

५२. तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका अनन्तगुणा हीन अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करता है। हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्त-पाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्वानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। इसी प्रकार असम्प्राप्तपाटिका संहनन और तिर्यञ्चगत्वानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

५३. एकेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है। शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जातिके समान स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष मद्म ओघके समान है।

५४. अपगतवेदी जीवोंमें आभिनियोगिकज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागको लिये हुए होता है। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संव्वलन और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

५५. मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगतवानुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है। मनुष्यगतिद्विक और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, प्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए

वज्जरि० । सेसाणं ओषं आहारदुगं तित्थयरं च वज्ज । णवरि देवगदि० उ० वं० जस०  
णिय० । तं तु० । एवं सन्वाणं पसत्थारणं ।

५६. आभिणि०-सुद०-ओधि० सत्तणं क० उक्कस्स० अणुदिसभंगो । अप्प-  
सत्थवण्ण० उ० वं० मणुसग०-देवग०-ओरालि०-वेउन्वि०-[ओरालि०अंगो०-वेउन्वि०-  
अंगो०-] वज्जरि०-दोआणु०-तित्थय० सिया० अणंतगु० । पंचिंदियादिपसत्थाओ णिय०  
अणंतगु० । अप्पसत्थगंध०३-उप०-अथिर-असुभ-अजस० णिय० । तं तु० । एवं एदाओ  
एक्कमैक्कस्स । तं तु० । सेसं ओषं । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-  
सम्माभिच्छादि० ।

५७. मणपज्जव० खइयाणं ओषं । सेसाणं आहारका०भंगो । एवं संजद-सामाइ०-  
छेदोव० । परिहारे आहारकायजोगिभंगो । णवरि आहारदुगं देवगदिभंगो । णवरि

होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्जरपमनाराच संहननका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह  
उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनु-  
भागबन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार औदारिक  
आङ्गोपाङ्ग और वज्जरपमनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग  
ओषके समान है । किन्तु आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़ कहना चाहिए । इतनी विशेषता  
है कि देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है ।  
किन्तु उसका उत्कृष्ट बन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट बन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट बन्ध  
करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार सच प्रशस्त प्रकृतियोंकी  
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनु-  
भागबन्धका सन्निकर्ष अनुदिशके समान है । अप्रशस्त वर्णोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला  
जीव मनुष्यगति, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिक,  
आङ्गोपाङ्ग, वज्जरपमनाराच संहनन, दो धानुपूर्वी और तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है जो  
अनन्तगुणें हीन अनुभागको लिये हुए होता है । पञ्चोन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका  
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणें हीन अनुभागका लिये हुए होता है । अप्रशस्त गन्ध  
आदि तीन, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह  
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट  
अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार इन  
प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध  
करनेवाला जीव इन्हींमेंसे शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट  
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थानपतित  
हानिको लिये हुए होता है । शेष कथन ओषके समान है । इसी प्रकार अवधिदरानी, सम्यग्दृष्टि,  
क्षायिक सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

५७. मनःपर्ययकज्ञानी जीवोंमें चायिक प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग आहारकाययोगी जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापना  
संयत जीवोंके जानना चाहिए । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें आहारकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग  
है । इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकका भङ्ग देवगतिके समान है । इतनी और विशेषता है कि

१. ता० प्रतौ पसत्थारणं पक्थारणं ? इति पाठः । २. आ० प्रतौ उक्कस्स अणुक्कस्सभंगो इति पाठः ।

संजदेसु अप्पसत्थाणं तित्थयरं ण वंधदि । एवं सच्चाणं । सुहुमसंप० अवगतवेदभंगो । संजटासंजद० परिहारभंगो । णवरि अप्पणो पगदीओ णादच्चाओ । असंजदे मदि० भंगो । णवरि तित्थयरं० उ० वं० देवगदि०४ णि० वं० । तं तु० । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो ।

५८. किण्णाए सत्तण्णं कम्माणं ओघं । गिरयगदिदंडओ तिरिक्खगदिदंडओ एइदियदंडओ' णवुंसगदंडगभंगो । मणुसगदिदंडओ गिरयोघं । देवगदि० उ० वं० वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-देवाणु० णिय० । तं तु० । तित्थ० सिया० । तं तु० । सेसाणं पसत्थाणं अप्पसत्थाणं च णिय० अणंतणु० । एवं देवगदि०४-तित्थ० । सेसं ओघं ।

५९. णील-काऊणं सत्तण्णं क० ओघं । गिरय० उ० वं० गिरयाणु० णिय० । तं तु० । सेसाओ पगदीओ णिय० अणंतणु० । एवं गिरयाणु० । तिरिक्खग० उ० वं० हुंडसंठाणादि० गिरयोघं । सेसाणं किण्णभंगो । काऊए तित्थ० मणुसगदिभंगो ।

संयत जीवोंमें अप्रशस्त प्रकृतियोंके साथ तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार सबके जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्प्रदायसंयत जीवोंमें अप्रगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रकृतियों जाननी चाहिए । असंयत जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगतिचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो नियमसे छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भंग है ।

५८. कृष्णलेखावाले जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है । नरकगतिदण्डक, तिर्यञ्चगतिदण्डक और एकेन्द्रिय जाति दण्डकका भङ्ग नपुंसकवेददण्डकके समान है । मनुष्यगतिदण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । शेष प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तरगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार देवगति चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष भङ्ग ओषके समान है ।

५९. नील और कापोतलेखावाले जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओषके समान है । नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तरगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके हुण्डसंस्थान आदिका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग कृष्ण लेखाके समान है । कापोत लेखामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है ।

१. ता० प्रती पिरयगदिदंडओ!एइदियदंडओ इति पाठः ।



६०. तेऊए सत्तणं कम्माणं ओघं । तिरिक्ख० उ० वं० एइदि०-हुंडसं०-सोधम्मपढमदंडओ मणुसगदिपंचगस्स ओघं । देवगदिदंडओ परिहार०भंगो । असंप० उ० वं० तिरिक्ख०-पंचिंदियादि-सोधम्मदंडओ अप्पसत्थ०-दुस्सर० णि० । तं तु० । चटुसंठा०-चटुसंघ० सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि अप्पसत्थाणं सहस्सार-भंगो । सुक्काए सत्तणं कम्माणं मणुसगदिपंचगस्स खविगाणं च ओघं । हुंडगादीणं अप्पसत्थाणं णवगेवज्जभंगो ।

६१. अबभवसि० सत्तणं क० ओघं । दुगदि-चटुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थवण्ण०४-दोआणु०-उप०-आदाउज्जोव०-अप्पसत्थ०-यावरादि०४ अधिरादि-छ० ओघं । मणुसगदिपंचग०-देवगदि०४ तिरिक्खोघं । पंचिदि० उ० वं० दुगदि-दोसरी०-दोअंगो००वज्जि०-दोआणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० । सेसाओ पगदीओ पसत्याओ णिय० । तं तु० । अप्पसत्थ०४-उप०-अप्पसत्थाणं णिय० अणंतगुणही० ।

६२. सासणेछण्णं कम्माणं ओघं । अणंताणुवं० क्रोध० उ० वं० पण्णारसक०

६० पीत लेख्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, सौधर्मकल्पसम्बन्धी प्रथम दण्डक और मनुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिदण्डकका भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है । असम्प्राप्त्यपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागको बंधनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति आदि सौधर्मदण्डक, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । चार संस्थान और चार संहननका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इसी प्रकार पद्म लेख्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग सहहार कल्पके समान है । शुक्ललेख्यामें सात कर्म, मनुष्यगतिपञ्चक और क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । हुण्डक संस्थान आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग नौर्यैवेयकके समान है ।

६१. अभव्योमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । दो गति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छहका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिपञ्चक और देवगतिचतुष्कका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । पञ्चेन्द्रिय जातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो शरीर, दो आज्ञोपाङ्ग, वज्रपंभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । अप्रशस्त वर्ण चार, उपघात और अप्रशस्त विहायोगतिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है ।

६२. सासादनस्यग्दष्टि जीवोंमें छह कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धी

१. आ० प्रती-पंचग० देवगदिभंगो । देवगदि० इति पाठः ।

इत्थि०-अरदि-सोग-भय-दु० गिय० । तं तु० । एवमेदाओ ऐकमेकस्स । तं तु० । पुरिस०-इस्स-रदि ओघं । तिरिक्खवग० उ० वं० वामण०-खीलि०-अप्पसत्थ०४-तिरि-क्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध० गि० । तं तु० । पंचिदियादि० गिय० अणंत-गु० । उज्जोवं सिया० अणंतगु० । सेसं ओघं । असण्णी० तिरिक्खोघं । णवरि मोह० मणुसअपज्जत्तभंगो । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सओ सण्णियासो समत्तो ।

६३. जहण्णए पगदं । दुविं०-ओघे० आदे० । ओघे० आभिणिवोधियणाणा-वरणस्स जहण्णयं अणुभागं बंधंतो चट्टुणाणाव० गिय० वं० । गिय० जह० । एव-मणमण्णस्स जहण्णा । एवं पंचणं अंतराइयाणं । णिहाणिहा० जह० अणु० वं० पचलापचला-धीणगि० गिय० वं० । तं तु० छट्टाणप० । अणंतभागवभहि०५ । छदंसणा०

क्रोधके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पन्द्रह कषाय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एक प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । पुरुषवेद, हास्य और रतिका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्जगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव वामन संस्थान, कीलक संहनन, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उपघात, अग्रशस्त विहायोगति और अस्थिर खादि छहका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिको लिये हुए होता है । पञ्चोन्द्रिय जाति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तरगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तरगुणे हीन अनुभागको लिये हुए होता है । शेष भङ्ग ओघके समान है । अस्त्री जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्मका भङ्ग मनुष्य अपर्याप्तकोके समान है । अनाहारक जीवोंमें कार्मण्णकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

६३. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा आभिनिद्योधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य अनुभागको लिये हुए होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्धके साथ सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार पाँच अन्तरायका सन्निकर्ष जानना चाहिए । निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव प्रचला-प्रचला और स्व्यानगुद्धिका नियमसे बन्ध करता है जो जघन्य भी होता है और अजघन्य भी होता है । यदि अजघन्य होता है तो वह छह स्थान पतित गुद्धिको लिये हुए होता है । या तो अनन्तभागवृद्धिरूप होता है या असंख्यातभागवृद्धि आदि पाँच वृद्धिरूप होता है । छह दर्शनावरणका नियमसे बन्ध

णिय० अणंतगुणव्भहि० । एवं पचलापचला-थीणगिद्धि० । णिद्दाए जह० वं० पचला०  
णिय० । तं तु० छद्दाण० । चट्टदंसणा० णिय० अणंतगुणव्भ० । एवं पचला० । चक्खुदं०  
ज० वं० तिण्णिदंस० णि० वं० । णि० जहण्णा । एवं तिण्णिदंस० । सादा० जह०  
वं० असादस्स अवं० । एवं असाद० । एवं चट्टआउ०-दोगो० ।

६४. मिच्छं जह० वं० अणंताणु०४ णि० । तं तु० । वारसकं--पुरिस०-  
हस्स-रदि-भय-दु० णिय० अणंतगुणव्भ० । एवं अणंताणु०४ । अप्पच्चक्खाणकोध०  
ज० वं० तिण्णिकसा० णिय० । तं तु० । अट्टक०-पंचणोकं णिय० अणंतगुणव्भ० ।  
एवं तिण्णिक० । पच्चक्खाणकोध० ज० वं० तिण्णिक० णिय० । तं तु० । चट्टसंज०--  
पंचणोकं णिय० अणंतगुणव्भ० । एवं तिण्णं क० । कोधसंज० ज० वं० तिण्णसंज०  
णि० अणंतगु० । माणसंजै० ज० वं० दोगणं संज० णिय० अणंतगुणव्भ० ।

करता है जो अनन्तगुणवृद्धिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार प्रचलाप्रचला और स्थानगुद्धिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । निद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव प्रचलाका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य भी होता है और अजघन्य भी होता है । यदि अजघन्य होता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । चार दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिको लिये हुए होता है । इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । चतुर्दर्शनावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य होता है । इसी प्रकार तीन दर्शनावरणकी मुख्यतासे जानना चाहिए । सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव असातावेदनीयका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार असातावेदनीयकी अपेक्षा जानना चाहिए । इसी प्रकार चार आयु और दो गोत्रके सम्बन्धमें जानना चाहिए ।

६४. मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त-गुणी वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन कषायोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । आठ कषाय और पाँच नोकषायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार अप्रत्याख्यान मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । प्रत्याख्या-नावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेष तीन कषायोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । चार संव्वलन और पाँच नोकषायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शेष तीन प्रत्याख्यानावरण कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । क्रोधसंव्वलनके जघन्य अनुभाग का बन्ध करनेवाला जीव तीन संव्वलनोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता

१. ता० आ० प्रत्योः छद्दाण० । चट्टसंज० णिय० अणंतगुणव्भ० । एवं इति पाठः । २ ता० आ० प्रत्योः तिण्णसंज० णि० अणंतगु० । माणसंज० ज० वं० तिण्णसंज० णिय० अणंतगु० । माणसंज० इति पाठः ।

मायसंज्ञ० ज० वं० लोभसंज्ञ० गिय० अणंतगुणवन्ध० । लोभसंज्ञ० ज० वं० सैसाणं  
अबंध० । इत्थि० ज० वं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्ं० गिय० अणंतगुणवन्ध० ।  
हस्स-रदि०-अरदि०-सोग० सिया अणंतगुणवन्ध० । एवं णवुंस० । पुरिस० ज० वं०  
चदुसंज्ञ० गिय० अणंतगुणवन्ध० । हस्स० ज० वं० चदुसंज्ञ०-पुरिस० गिय०  
अणंतगुणवन्ध० । रदि०-भय-दुग्ं० गिय० । तं तु० । एवं रदि०-भय-दुग्ं० । अरदि० ज०  
वं० चदुसंज्ञ०--पुरिस०--भय-दु० गिय० अणंतगुणवन्ध० । सोग० गिय० । तं तु० ।  
एवं सोग० ।

६५. गिरयादि ज० वं० पंचिदि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-वेउच्चि०अंगो०-  
पसत्यापसत्यवण्ण०४-अगु०४-तस०४-णिमि० गिय० अणंतगुणवन्ध० । हुंड०--  
गिरयाणुपु०-अप्यसत्य०-अथिरादिछ० गिय० । तं तु० । एवं गिरयाणु० । तिरिक्ख०  
ज० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्या-

है । मानसंज्ञानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव दो संज्ञलनोका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । मायासंज्ञानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव लोभसंज्ञानका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । लोभसंज्ञानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेष संज्ञलनोका अघन्यक होता है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभाग का बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सांलह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुखतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पुरुषवेदसे जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव चार संज्ञलनका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । हास्यके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव चार संज्ञलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । रति, भय और जुगुप्सा का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव चार संज्ञलन, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । शोकका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६५. नरकगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकिकि-  
शरीर, तैजसशरीर, कामेशरीर, वैकिकि आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अगुणचतुष्क, ब्रह्मचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है । हुण्डसंस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तिर्यङ्गतिके जघन्य अनु-  
भागका बन्ध करनवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेशरीर, सम-

१. आ० प्रती एवं रतेप भयदु० इति षाठः ।

पसत्थ०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादि४०-णिमि० गिय० अणंतगुणव्भ० ।  
तिरिक्त्वाणु० णि० । तं तु० । उज्जो० सिया० अणंतगुणव्भ० । एवं तिरिक्त्वाणु० ।  
मणुसगदि० ज० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४  
अगु०-उप०-तस०-बादर०-पत्ते०-णिमि० गिय० अणंतगुणव्भ० । छस्संठा०-छस्संघ०-  
दोविहा०-अपज्ज०-थिरादि४युग० सिया० । तं तु० छट्टाणपदिदं० । मणुसाणु० णि० ।  
तं तु० । पर०-उस्सा०-पज्ज० सिया० अणंतगुणव्भ० । एवं मणुसाणु० । देवगदि०-ज०  
वं० पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-  
तस०४-णिमि० गिय० अणंतगुणव्भ० । समचटु०-देवाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-  
आदे० गिय० । तं तु० । थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० । तं तु० ।  
एवं देवाणु० ।

चतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रवर्षमनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणवृद्धिरूप होता है। तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुभागबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, बादर, प्रत्येक और निर्माणका नियम से बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, अपर्याप्त और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। परण्ड, उच्छ्वास और पर्याप्तका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यश-कीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६६. एइंदि० ज० वं० तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्य०४-  
तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भहियं० । हुंड०-थावर-दूभग-अणादें०  
णि० । तं तु० । पर०-उस्सा०-आदाउज्जी०-वादर-पज्जत-पत्ते० सिया० अणंतगुणब्भ० ।  
सुहुम-अपज्ज०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० । तं तु० । एवं  
थावरं । वीइंदि० ज० वं० तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्था-  
पसत्य०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस०-वादर०-पचे०-णिमि० णिय० अणंत-  
गुणब्भहियं० । हुंड०-असंप०-दूभग०-अणादें० णि० । तं तु० । पर०-उस्सा०-उज्जी०-  
पज्ज० सिया० अणंतगुण० । अप्पसत्य०-अपज्ज०-थिराथिर०-सुभासुभ-दुस्सर-जस०-  
अजस० सिया० । तं तु० । एवं तीइंदि०-चदुरिं० । पंचिदि० ज० वं० गिरय०-  
तिरिक्खग०-असंपत्त०-दोआणु० सिया० अणंतगुणब्भ० । ओरालि०-वेउच्चि०-दोअंगो०-  
उज्जी० सिया० । तं तु० । तेजा०-क०-पसत्य०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णि० ।

६६. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशास्त वर्षांचतुष्क, अप्रशास्त वर्षांचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्लघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । हुण्डसंस्थान, स्यावर, दुर्भग और अनादेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार स्यावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । द्वीन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशास्त वर्षांचतुष्क, अप्रशास्त वर्षांचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्लघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, दुर्भग और अनादेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । परघात, उच्छ्वास, उद्योत और पर्याप्तका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशास्त विहायोगति, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुःस्वर, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, तिर्यञ्चगति, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन और दो आनुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान

तं तु० । हुंड०--अप्पसत्थ०४--उप०--अप्पसत्थ०--अथिरादिद्ध० णि० अणंतगुणब्भ० ।  
एवं तस० ।

६७. ओरालि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अथि-  
रादिपंच० णिय० अणंतगुणब्भहियं० । एइंदि०-असंपत्त०-अप्पस०-थावर०-दुस्सर०  
सिया० अणंतगुणब्भहि० । पंचिं०--ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० । तं  
तु० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पचे०-णिमि० णि० । तं तु० ।  
एवं उज्जो० । वेउच्चि० ज० वं० णिरय०--हुंड०--अप्पसत्थ०४-णिरयाणु०-उप०-  
अप्पसत्थ०-अथिरादिद्ध० णियं० अणंतगुणब्भहियं० । पंचिदि०--तेजा०-क०-वेउच्चि०-  
अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णि० । तं तु० छद्वाणपदिदं० । एवं  
वेउच्चि०अंगो० । आहार० ज० वं० देवगदि०--पंचिदि०--वेउच्चि०-तेजा०-क०-सम-  
चदु०-वेउच्चि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-

पतित वृद्धिरूप होता है। तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क  
और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है, जो तं तु०रूप होता है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्ण-  
चतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है  
जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार त्रसप्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६७. औदारिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, हुण्डसंस्थान,  
अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो  
अनन्तगुणा अधिक होता है। एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तास्पष्टादि संहानन, अप्रशस्त विहायोगति,  
स्थायर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। पञ्चेन्द्रियजाति,  
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य  
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य  
अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूपहोता है। जो तैजसशरीर, कर्मणशरीर,  
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे  
बन्ध करता है, वह जघन्य व अजघन्य अनुभाग बन्ध करता है। यदि अजघन्य  
अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार  
उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। वैकियिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध  
करनेवाला जीव नरकगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात,  
अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक  
होता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका  
भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध  
करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार वैकियिक आङ्गोपाङ्गकी मुख्यता-  
से सन्निकर्ष जानना चाहिए। आहारकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति,  
पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैकियिक  
आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त

णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० । आहार०अंगो० णि० वं० । तं तु० । तित्थय० सिया० अणंतगुणब्भ० । एवं आहारअंगो० । तेजा० जह० बंधं० णिरय०-तिरिक्ख०-एइंदि०-असंप०-दोआणु०-अप्पसत्थ०-थावर-दुस्सर० सिया० अणंतगु० । पंचिदि०-दोसरी०-दोअंगो०-आदारज्जो०-तस० सिया० । तं तु० । कम्मइ०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० । तं तु० । हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अधि-रादिपंच० णि० वं० अणंतगुणब्भहियं० । एवं कम्मइ०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० ।

६८. समचदु० ज० वं० तिरिक्ख०-दोसरीर०-दोअंगो०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-सिया० अणंतगु० । मणुसग०-देवग०-द्धस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-थिरादिद्वयुग० सिया० । तं तु० । पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० । एवं समचदुर०भंगो पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदं० । णग्गोद०

विहायोगति, त्रमचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । आहारक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार आहारक आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तैजसशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तात्पाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्यावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्चोन्द्रिय जाति, दो शरीर, दो आङ्गो-पाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चार, अगुरुल्लघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माण का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार कार्मणशरीर, प्रशस्त, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६८. समचतुरस्रसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगति, देवगति, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । पञ्चोन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्ण-चतुष्क, अगुरुल्लघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थानके समान प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और

१ ता० प्रतौ आहारमं० ( ४ ) गो०, आ० प्रतो आहारमंगो० इति पाठः । २ आ० प्रतौ तेजाक० बंध० इति पाठः । ३ ता० आ० प्रत्योः असंपत्तवण्ण० ४ वप० इति पाठः ।



ज० बं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० सिया० अणंतगुणम्भ० । मणुस०-इस्संघ०-मणु-  
साणु०-दोविहा०-थिरादिक्खुग० सिया० । तं तु० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
ओरालि०-अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० अणंतगुणम्भ० ।  
एवं तिणिसंठाणं पंचसंघ० । हुंडसं० ज० बं० णिरय०-मणुस०-चट्टुजादि०-इस्संघ०-  
दोआणु०-दोविहा०-थावरादि४-थिरादिक्खुग० सिया० । तं तु० । तिरिक्ख०-  
पंचिदि०-दोसरीर-दोअंगो०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस०४ सिया०  
अणंतगुणम्भ० । तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-णिमि० णिय० अणंत-  
गुणम्भ० । एवं दूमग-अणादे० ।

६६. ओरालि०-अंगो० ज० बं० तिरिक्ख०-हुंड०-असंप०-अपसत्थ०४-तिरि-  
क्खाणु०-उप०-अपस०-अथिरादिक्ख० णिय० अणंतगुणम्भ० । पंचिदि०-ओरालि०-  
तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णिय० । तं तु० । उज्जोवं सिया० ।  
तं तु० ।

आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । न्ययोधपरिमण्डल संस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्याणुपूर्वा और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगति, ब्रह्म सहनन, मनुष्यगत्याणुपूर्वा, दो विहायोगति और स्थिर आदि ब्रह्म युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार तीन संस्थान और पाँच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । हुण्डसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, मनुष्यगति, चार जाति, ब्रह्म संहनन, दो आणुपूर्वा, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि ब्रह्म युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि वह बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तिर्यञ्जगति, पञ्चेन्द्रियजाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्जगत्याणुपूर्वा, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, और त्रसचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार दुर्मग और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

६६. औदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, हुण्ड-  
संस्थान, असम्प्राप्तपाटिका सहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्याणुपूर्वा, उपघात, अप्रशस्त  
विहायोगति और अस्थिर आदि ब्रह्मका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचक्रिक,  
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता  
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो  
वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है

७०. असंप० ज० वं० तिरिक्ख०-पंचिदि०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-पज्ज० सिया० अणंतगुणब्भ० । मणुसगदि-तिण्णिजादि-द्धसंढा०-मणुसाणु०-दोविहा०-अपज्ज०-थिरादिद्धुग० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-तस०-वाद्दर-पत्ते०-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० ।

७१. अप्पसत्थवण्ण० ज० वं० देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-सम-चट्टु०-वेउव्वि०अंगो०-पसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । आहारदुगं तित्थय० सिया० अणंतगुणब्भ० । अप्पसत्थ-गंध-रस-पस्स०-उप० णि० । तं तु० । एवं अप्पसत्थगंध-रस-पस्स०-उप० । यथा गदी तथा आणुपुञ्ची ।

७२. आदाव० ज० वं० तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरि-क्खाणु०-उप०-थावर०-अथिरादिपंच० णिय० अणंतगुणब्भ० । ओरालि०-तेजा०-क०-

तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।

७०. असम्प्राप्तपाटिका संहनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, परवात, उच्छ्वास, उद्योत और पर्याप्तका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगति, तीन जाति, छह संस्थान, मनुष्यगत्यानु-पूर्वा, दो विहायोगति, अपयोत्त और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुल्लु, उपवात, त्रस, वाद्दर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।

७१. अप्रशस्त वर्णके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुल्लुधुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । आहारकट्टिक और तीर्यङ्कका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त गन्ध, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त वर्ण और उपवातका नियमसे बन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार अप्रशस्त गन्ध, रस व स्पर्श और उपवातकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । गतियोंकी मुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्ष कह आये हैं उसी प्रकार आनुपूर्वियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

७२. आतपके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, उपवात, स्थावर और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर,

पसत्थ०४—अगु०३—वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० । तं तु० । उज्जोवं ओरालिय-  
भंगो० ।

७३. अप्पसत्थवि० ज० वं० णिरय०-मशुस०-३जादि०-उस्संठा०-उस्संघ०-दो-  
आणु०-थिरादिच्चयु० सिया० । तं तु० । तिरिक्ख०-पंचिदि०-दोसरी०-दोअंगो०-तिरि-  
क्खाणु०-उज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ० । तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४—अगु०४—  
तस०४—णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० । एवं दुस्सर० ।

७४. सुहुम० ज० वं० तिरिक्ख०—ओरालि०—तेजा०—क०-पसत्थापसत्थ०४—  
तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । एईदि०-हुंड०-थावर०-दूभ०-  
अणादे०-अजस० णिय० । तं तु० । पर०-उस्सा०-पज्जत्त०-पत्ते० सिया० अणंतगु-  
णब्भ० । अपज्ज०-साधा०-थिराथिर०-सुभासुभ० सिया० । तं तु० । एवं साधार० ।

७५. अपज्ज० ज० वं० तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-अंगो०-तिरिक्ख०-तस०-

कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्लघुत्रिक, दादर, पर्थाप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे  
बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी  
बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता  
है। उद्योतका भद्र औदारिकशरीरके समान है।

७३. अप्रशस्त विद्यायोगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, मनुष्य-  
गति, तीन जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी और स्थिर आदि छह युगलका  
कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और  
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह  
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। तिर्यञ्चगति, पञ्चन्द्रिय जाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्च-  
गत्यानुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। तैजसशरीर,  
कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्लघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और  
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार दुःस्वरकी  
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

७४. सूक्ष्मप्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर,  
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुस्लघु,  
उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। एकेन्द्रियजाति,  
दृष्टसंस्थान, स्वावर, दुर्भाग, अनादेय और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह  
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि  
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। परघात, उच्छ्वास,  
पर्याप्त और प्रत्येकका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। अपर्याप्त,  
साधारण, स्थिर, आस्थिर, शुभ और अशुभका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो  
वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि  
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार  
साधारण प्रकृतिकी मुख्यतासे जानना चाहिए।

७५. अपर्याप्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चन्द्रिय-

वादर-पत्ते० सिया० अणंतगुणम्भ० । मणुस०-चदुजादि०-असंप०-मणुसाणु०-थावर०-  
सुहुम०-साधार० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्यापसत्य०४-अगु०-  
ज्प०-णिमि० णिय० अणंतगुणम्भ० । हुंड०-अधिरादिपंच णि० । तं तु० ।

७६. धिर०ज० वं० तिरिक्ख०-पंचिदि०-दोसरी०-दोअंगो०-तिरिक्खाणु०-आदा-  
उज्जो०-तस०४-तित्य० सिया० अणंतगुणम्भ० । मणुसग०-देवग०-चदुजादि-द्धसंदा०-  
द्धसंध०-दोआणु०-दोविहा०-थावर०-सुहुम०-साधार०-सुभादिपंचयुग०सिया० । तं तु० ।  
तेजा०-कम्म०-पसत्यापसत्य०४-पज्ज०-णिमि० णिय० अणंतगुणम्भ० । वादर-पत्तेय०  
सिया० अणंतगुणम्भ० । एवं सुभ०-जसगि० । णवरि जस०-सुहुम-साधारणं वज्जं ।

७७. अधिर० ज० वं० णिरय-देवगदि-मणुसगदि-चदुजादि-द्धसंदा०-द्धसंध०-  
तिणिगआणु०-दोविहा०-थावरादि४-सुभादिपंचयुग० सिया० । तं तु० । तिरिक्ख०-

जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, त्रस, वादर और प्रत्येकका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगति, चार जाति, असम्प्रामासृपादिका संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्यावर, सूद्धम और साधारणका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुल्लघु, उपघात और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । हुण्डसंस्थान, और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।

७६. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, पञ्चेन्द्रियजाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, आनप, उद्योत, त्रसचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगति, देवगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्यावर, सूद्धम, साधारण और शुभादि पाँच युगलका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, पयाम और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । वादर और प्रत्येकका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार सुभ और यशःक्रीतिकी सुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यशःक्रीतिके भङ्गसे स्यावर, सूद्धम और साधारणको छोड़ देना चाहिए ।

७७. अस्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव सरकगति, देवगति, मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्यावर आदि चार और शुभादि पाँच युगलका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तिर्यञ्जगति, पञ्चेन्द्रिय-

पंचिदि०-दोसरीर-दोअंगो०-तिरिक्वाणु०-पर०-उस्ता०-आदावुज्जो०-तस०४-तित्यं०  
सिया० अणंतगुणव्भ०। तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-णिमि० णिय० अणंत-  
गुणव्भ०। एवं असुभ-अजस०।

७८. तित्य० ज० वं० देवगदि-पंचिदि०-वेउत्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-  
वेउत्वि० अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-असुभ-  
सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० णिय० अणंतगुणव्भहियं वंधदि।

७९. णिरएसु आभिणिघोधि० ज० अणु० वं० चदुणाणा० णिय०। तं तु०।  
एवमणमणस्स। एवं पंचंतराइ०। णिहाणिहाए ज० वं० पचलापचला-धीणगि०  
णि०। तं तु०। इदंसणा० णि० अणंतगुणव्भ०। एवं पचलापचला-धीणगिं०। णिहा०  
ज० वं० पंचदंस० णि०। तं तु०। एवमणमणस्स। तं तु०। वेदणीय-आउग-गोद० ओधं।

जाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, त्रस  
चतुष्क और तीर्थङ्करका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। तैजसशरीर,  
कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका  
नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार अशुभ और अयशःकीर्तिकी  
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

७८. तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव देवगति, पञ्चन्द्रिय जाति,  
वैक्रियकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त  
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-  
चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका नियमसे वन्ध  
होता है जो अनन्तगुणा अधिक बंधता है।

७९. नारकिधोम आभिनिघोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव  
चार ज्ञानावरणका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करना है और  
अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह  
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए।  
इसी प्रकार पाँच अन्तरायका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका  
वन्ध करनेवाला जीव प्रचलाप्रचला और स्त्यानागृद्धिका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह  
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि वह  
अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। छह दर्शनावरणका  
नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार प्रचलाप्रचला और स्त्यान-  
गृद्धिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। निद्राके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच  
दर्शनावरणका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और  
अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह  
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु  
इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे वन्ध करता है जो  
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य  
अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। वेदनीय, आयु

८०. मिच्छ० ज० वं० अणंताणु०४ णिं० वं० । तं० तु० । वारसक०-पंच-  
णोक० णि० अणंतगुणव्भहियं० । एवं अणंताणु०४ । अपच्चक्खा०कोध० ज० वं०  
ऐंकारसक०-पंचणोक० णि० । तं० तु० । एवमणमणस्स । तं० तु० । इत्थि० ज०  
वं० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु० णिय० अणंतगुणव्भहिं० । इस्स-रदि-अरदि-सोग०  
सिया० अणंतगुणव्भ० । एवं णवुंस० । अरदि० ज० वं० वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-  
णिय० अणंतगुणव्भ० । सोग० णि० । तं० तु० । एवं सोग० ।

८१. तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० ओघं । मणुसग०-मणुसाणु० ओघं । णवरि अप-  
ज्जत्तं वज्ज । पंचिदि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-  
जप०-अप्पसत्थवि०-अधिरादिद्ध० णिय० अणंतगुणव्भ० । ओरालि०-तेजा०-क०-  
ओरालि०अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णिय० । तं० तु० । उज्जो०  
और गौत्र कर्मका भङ्ग ओघके समान हैं ।

८०. मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे  
बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध  
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।  
वारह कपाय और पाँच नोकपायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चारका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके  
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव ग्यारह कपाय और पाँच नोकपायका नियमसे बन्ध करना  
है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता  
है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी  
प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य  
अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे बन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध  
करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है,  
तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव  
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता  
है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
इसी प्रकार नृपुंसक वेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध  
करनेवाला जीव बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त-  
गुणा अधिक होता है । शोकका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध  
करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है,  
तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८१. तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका भङ्ग ओघके समान हैं । तथा मनुष्यगति और  
मनुष्यगत्यानुपूर्विका भङ्ग ओघके समान हैं । इतनी विशेषता है कि अपर्याप्तको छोड़कर सन्निकर्ष  
कहना चाहिए । पञ्चान्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्ड  
संस्थान, असम्प्राप्तपादिका संहनन, अप्रशस्त वर्षचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त  
चिदायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्षचतुष्क, अगुरुलघु-  
त्रिक, त्रसचतुष्क, और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी

सिया० । तं हु० । एवं एदाओ ऐकमेकैस्स । तं हु० । छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०-  
 छयुगल०-तित्थय० ओघं । अप्पसत्थवण्ण० ज० वं० मणुस०-पंचिदि०-तिण्णिसरीर-  
 समचट्टु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थव०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-  
 तस०४-थिरादिच्च०-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० । अप्पसत्थयंगं३-उप० णिय० ।  
 तं हु० । एवं एदाओ ऐकमेकैस्स । तं हु० । छसु उवरिमासु तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०  
 मणुसगदिभंगो । सेसं णिरयोघं ।

८२. सत्तमाए तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० ओघं । मणुसग० ज० वं० पंचिदि०-  
 ओरालि०-तेजा०-क०-समचट्टु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-  
 पसत्थ०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० णि० अणंत-  
 गुणब्भ० । मणुसाणु० णि० । तं हु० । एवं मणुसाणु० । पंचिदियदंडओ णिरयोघं ।

बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभाग का बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एक प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जीव शेषके जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, छह युगल और तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । अप्रशस्त वर्णके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसच्चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त गन्धत्रिक और उपघातका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमें से किसी एकका बन्ध करनेवाला जीव शेषका उसी प्रकार बन्ध करता है, जिस प्रकार अप्रशस्त वर्णकी मुख्यतासे कह आये हैं । ऊपरकी छह पृथिवियोंमें तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका भङ्ग मनुष्यगतिके समान जानना चाहिए । शेष भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

८२. सातवीं पृथिवीमें तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, औदारिक शरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसच्चतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

१ ता० आ० प्रत्योः तं हु० सिया० अणंतगु० एवं इति पाठः ।

८३. समचतु० ज० बं० तिरिक्ख०-पंचि०-ओरालि०-तेजा०-क०--ओरालि०-अंगो०--पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०--अणु०४-तस०४-णिमि० णिय० अणंतगुणबभ० । ङ्खसंसंघ०-दोविहा०-थिरादिङ्खयुग० सिया० । तं तु० । उज्जो० सिया० अणतगुणबभ० । एवं पंचसंठा०-ङ्खसंसंघ०-दोविहा०-मज्झिम्हाणि युगलाणि । थिर० ज० बं० तिरिक्ख०--मणुस०--दोआणु०--उज्जो० सिया० अणंतगुणबभ० । पंचिदियदंडओ णिय० अणंतगुणबभ० । ङ्खसंठा०-ङ्खसंसंघ०-दोविहा०-सुभगादिपंचयुग० सिया० । तं तु० । एवं अथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० । सेसाणं णिरयोधं ।

८४. तिरिक्खेसु ङ्खणं कम्माणं णिरयोधभंगो । मोहणीयं ओधो । णवरि पञ्चक्खाण०कोध० ज० बं० सत्तक०-पंचणोक० णिय० । तं तु० । एवमणमणस्स । तं तु० । अरदि० ज० बं० अट्ठक०-पुरिस०-भय०-दु० णिय० अणंतगुणबभ० । सोग० णि० । तं तु० । एवं सोग० ।

८३. समचतुरस्रसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चन्द्रिय-जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामण्यशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु यह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसीप्रकार पाँच संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और मध्यके तीन युगलोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। पञ्चन्द्रियजातिवण्डकका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और सुभग आदि पाँच युगलका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष प्रकृति-योंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है।

८४. तिर्यञ्चोमें छह कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है। मोहनीय कर्मका भङ्ग ओषके समान है। इतनी विशेषता है कि प्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका बन्ध करने-वाला जीव सात कषाय और पाँच नोकषायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनु-भागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनु-भागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है। जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव आठ कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अनंतगुणा अधिक होता है। शोकका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु-



८५. चद्रुग०-चद्रुजादि-द्वस्संठा०-द्वस्संघ०-चद्रुआणु०-दोविहा०-थावरादि०४-थिरादिद्वयुग० ओषं । पंचिदि० ज० वं० णिरय०--हुंड०--अप्पसत्थ०४-णिरयाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिद्व० णिय० अणंतगुणब्भ० । वेउच्चि०-तेजा०-क०-वेउच्चि० अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णि० । तं तु० । एवमेदाओ ँकपेकस्स । तं तु० ।

८६. ओरालि० ज० वं० तिरिक्ख०-एईदि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० । ओरालि०अंगो० ज० वं० तिरिक्ख०--वेईदि०--ओरालि०--तेजा०-हुंड०-असंप०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस०-वादर-अपज्ज०-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० ।

८७. आदाव० ज० वं० तिरिक्ख०-एईदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्था-पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-अथिरादिपंच-णिमि० णि० अणंतगु० । एवं उज्जो० । अप्पसत्थ०४-उप० ओषं । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ ।

भागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

८५. चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि छह युगलका भङ्ग ओषके समान है । पञ्चोन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । वैकल्पिकशरीर, तैजसशरीर, कामेशशरीर, वैकल्पिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार इनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह उसी प्रकार जानना चाहिए, जिस प्रकार पञ्चोन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे कहा है ।

८६. औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामेशशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, द्वीन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेशशरीर, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तपटिका संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, अपर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।

८७. आतपके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेशशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार उद्योतकी

णवरि [ तिरिक्ख०- ] तिरिक्खाणु० परियत्तमाणियासु कादव्वं ।

८८. पंचिदि० तिरिक्ख० अपज्ज० पंचण्णं कम्माणं णिरयभंगो । णिहाणिहाए  
ज० वं० अट्ठदं० णि० । तं तु० । एवमण्णमण्णस्स । तं तु० ।

८९. मिच्छ० ज० वं० सोलसक०-पंचणो० णिय० । तं तु० । एवमेदाओ  
एँकमैँकस्स । तं तु० । सेसं णिरयभंगो ।

९०. तिरिक्ख० ज० वं० पंचजादि-द्धस्संटाण-द्धस्संध०--दोविहा०-तस-थाव-  
रादिदसखुण० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०-अगु०--  
उप०-णिमि० अणंतगुणव्भ० । ओरालि० अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० सिया०  
अणंतगुणव्भ० । तिरिक्खाणु० णिय० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु० ।

मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातकी मुख्यतासे सन्निकर्ष श्लोकके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात् सामान्य तिर्यञ्चके समान पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च-त्रिकके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी परिगणना परिवर्तमान प्रकृतियोंमें करनी चाहिए ।

८८. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें पाँच कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव आठ दर्शनावरणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार इन सबका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए जो उसी प्रकार होता है, जैसा निद्रानिद्राकी मुख्यतासे कहा है ।

८९. मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सोलह कपाय और पाँच नोक-पायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव श्लोकके नियमसे बन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । श्लोक प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

९०. तिर्यञ्चगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच जाति, छह संस्थान, छह संदन, दो विहायोगति, त्रस और रथावर आदि दस युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, वामेशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपगत और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तरगुणा अधिक होता है । औदारिक आज्ञोपाद्, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तरगुणा अधिक होता है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६१. मणुस० ज० बं० पंचिदि०-मणुसाणु०-तस-वादर-पत्ते० गिय० । तं तु० । सेसं तिरिक्खगदिभंगो । एवं मणुसाणु० ।

६२. एईदि० ज० बं० तिरिक्ख०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूभ०-अणादें० गियमा० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०-अगु०-उप०-णिमि० गिय० अणंतगुणव्भ० । पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० सिया० अणंतगुणव्भ० । वादर-सुहुम-पज्जत्त०-अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-थिरादितिणियुग० सिया० । तं तु० । एवं थावर० ।

६३. वेईदि० ज० बं० तिरिक्ख०-हुंड०-असंप०-तिरिक्खाणु०-तस-वादर-पत्ते०-दूभ०-अणादें० गिय० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पसत्था-पसत्थ०-अगु०-उप०-णिमि० गिय० अणंतगुणव्भ० । पर०-उस्सा०-उज्जो० सिया० अणंतगुणव्भ० । अप्पस०-पज्जत्तापज्ज०-थिराथिर०-सुभासुभ०-दूभग०-दुस्सर०-जस०-अजस० सिया० । तं तु० । एवं तीईदि०-चदुरिदि० ।

६१. मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, त्रस, वादर और प्रत्येकका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान जानना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६२. पकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्ड संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, स्थावर, दुर्भंग और अनादेयका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६३. द्वीन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, त्रस, वादर, प्रत्येक, दुर्भंग और अनादेयका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। परघात, उच्छ्वास और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध

६४. पंचिदि० ज० वं० तिरिक्त्व०--मणुसग०--द्वस्संठा०--द्वस्संध०--दोआणु०--  
दोविहा०-पज्जातापज्ज०-थिरादिद्व० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०  
अंगो०-पसत्थापसत्थवण्ण०४--अगु०--उप०--णिमि० णिय० अणंतगुणम्भ० । पर०-  
उस्सा०-आदाउज्जो० सिया० अणंतगुणम्भ० ।

६५. ओरालि० ज० वं० तिरिक्त्व०-एईदि०-हुंड०-तिरिक्त्वाणु०-उप०-अप-  
सत्थ०४--थावरादि०४--अथिरादिपंच० णियं० अणंतगुणम्भ० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-  
अगु०-णिमि० णि० । तं तु० । एवमेदाओ एङ्गमैकैस्स । तं तु० ।

६६. समचदु० ज० वं० तिरिक्त्व०--मणुस०--द्वस्संघ०--दोआणु०--दोविहा०-  
थिरादिद्वयुग० सिया० । तं तु० । पंचिदि०-तस०४ णियमा० । तं तु० । ओरालि०-

करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ।  
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार  
श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियजातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६४. पञ्चेन्द्रियजातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति,  
छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त और स्थिर आदि  
छहका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है  
और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह  
ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक  
आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुल्लुपु, उपघात और निर्माणका नियमसे  
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतका  
कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।

६५. औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय  
जाति, हुण्ड संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, स्थावर आदि चार और  
अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । तैजसशरीर,  
कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुल्लुपु और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह  
जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि  
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार  
इन तैजसशरीर आदि सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी  
एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे बन्ध करता है जो जघन्य अनुभाग  
का भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका  
बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।

६६. समचतुरस्रसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, मनुष्य-  
गति, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध  
करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका  
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप  
होता है । पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य  
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य  
अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजस-

तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसस्थापसत्य०४-अगु०४-णिमि० णि० अर्णतगुणबभ० ।  
उज्जो० सिया० अर्णतगुणबभ० । एवं समचदुरभंगो-चदुसंठा०-पंचसंघ०-पसत्य०-सुभग-  
सुस्सर-आदें० ।

६७. हुंड० ज० वं० तिरिक्ख०-मणुस०-पंचजादि-इस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-  
तस०-थावरादिदसयुगल० सिया० । त तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसस्थापसत्य०४-  
अगु०-उप०-णिमि० णि० अर्णतगुणबभ० । ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०  
सिया० अर्णतगुणबभ० । एवं हुंड०भंगो अधिरादिपंच० । ओरालि०अंगो० तिरिक्खोघं ।

६८. असंपत्त० ज० वं० दोगदि-चदुजादि-इस्संठाण-दोआणु०-दोविहा०-  
पज्जत्तापज्जत्त०-थिरादिइयुग० सिया० । तं तु० । सेसं हुंड०भंगो । अप्पसत्य०४-  
उप० पिरयभंगो० ।

६९. पर० ज० वं० एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसस्थापसत्य०४-  
तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर०-सुहुम०-पज्जत्त०-साधार-दूभग०-अणादें०-अजस०-

शरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आत्तोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-  
चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। उद्योतका  
कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थानके  
समान चार संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी मुख्यतासे  
सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६७. हुण्डकसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति,  
पाँच जाति, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति और त्रस-स्थावर आदि दस युगलका  
कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और  
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छहस्थान  
पतित वृद्धिरूप होता है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त  
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक  
होता है। औदारिक आत्तोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता  
है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार हुण्डकसंस्थानके समान अस्थिर आदि पाँचकी  
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। औदारिक आत्तोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य  
तिर्यञ्चोके समान है।

६८. असप्रानासृपाटिका संहननके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति,  
चार जाति, छह संस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त और स्थिर आदि छह  
युगलका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है  
और अजघन्य अनुभाग का भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह  
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग हुण्डक संस्थानके समान है। अप्रशस्त  
वर्ण चतुष्क और उपघातका भङ्ग नारकियोंके समान है।

६९. परघातके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर,  
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डकसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानु-  
पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, दुर्भग, अनादेय, अवशाःकीर्ति और

णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । उस्ता० णि० । तं तु० । थिराथिर-सुभासुभ० सिया०  
अणंतगुणब्भ० । एवं उस्तासं० ।

१००. आढाव० ज० वं० तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-  
पसत्यापसत्य०-तिरिक्खाणु०-अगु०-थावर०-वादर०-पज्जत्त०-पत्ते०-दूभग-  
अणादें०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० अणं-  
तगु० । एवं उज्जो० ।

१०१. पसत्यवि० ज० वं० दोगदि०-चट्टुजादि०-इस्संठा० इस्संघ०-दोआणु०-  
थिरादिद्वयुग० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पसत्था-  
पसत्य०-अगु०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । उज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ० ।  
तस०-अजस० सिया० । तं तु० । एवं दुस्सर० । एवं चैव तस० । णवरि पज्जत्तापज्जत्त०  
सिया० । तं तु० ।

निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । उच्छ्वासका नियमसे बन्ध  
करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध  
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।  
स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
इसी प्रकार उच्छ्वासकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१००. आतपके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदा-  
रिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क,  
तिर्यञ्चगत्यनुपूर्वा, अगुरुलघु चतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय और  
निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,  
यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१०१. प्रशस्त विहायोगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, चार जाति,  
द्वे संस्थान, छह संदेहन, दो आनुपूर्वा और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है ।  
यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध  
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।  
औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गीपाद्म, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त  
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । असवतुष्कका कदाचित् बन्ध  
करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका  
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप  
होता है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार त्रस  
प्रकृतिकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि यह पर्याप्त और  
अपर्याप्तका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता  
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो  
वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है ।

१. आ० प्रती इत्संठा० दोआणु० इति पाठः ।

१०२. वादर० ज० वं० दोगदि-पंचजादि--द्वस्संठा०--द्वस्संघ०--दोआणु०--  
दोविहा०--तस-थावर-पज्जतापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिरादिद्वयुग० सिया० । तं तु० ।  
ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-णिमि० णिय० अणंतगुणब्भ० ।  
ओरालि०अंगो०--पर०--उस्सा०--आदाउज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ० । एवं पज्जत्त-  
पत्ते० । णवरि पडिपक्त्वा ण वंधदिं ।

१०३. सुहुम० ज० वं० तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर०-दूभग-  
अणादे०-अजस० णिय० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-  
उप०-णिमि० णिय० अजह० अणंतगुणब्भ० । पज्जतापज्जत्त-पत्तेय-साधार०-थिराथिर-  
सुभासुभ० सिया० । तं तु० । एवं साधार० ।

१०४. अपज्ज० ज० वं० दोगदि-पंचजादि-असंप०-दोआणु०-तस०-थावर-वादर-  
सुहुम-पत्तेय-साधार० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-

१०२. वादर प्रकृतिके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अणुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलाघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार पर्याप्त और प्रत्येककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता।

१०३. सूक्ष्मके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अणुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलाघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अणुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१०४. अपर्याप्तके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, असम्प्राप्त-पाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारणका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अणुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क,

अगु०-उप०-णिमि० णि० अणंतगुणव० । हुंड०-अधिरादिपंच गिय० । तं तु० ।  
ओरालि०अंगो० सिया० अणंतगुणव० ।

१०५. धिर० ज० वं० दोगदि-पंचजादि-द्वस्संठा०-द्वस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-  
तस-थावर-वादर-सुहुम-पत्तेय-साधारण-सुभगादिपंचयुग० सिया० । तं तु० । ओरालि०-  
तेजा०-क०-पसत्यापसत्य०४-अगु०४-णिमि० णि० अणंतगुणव० । ओरालि०अंगो०-  
आदाउज्जो० सिया० अणंतगुणव० । पज्जत्त० णि० । तं तु० । एवं सुभ-जस० ।  
णवरि जस० सुहुम-साधारणं वज्ज । एवं सव्वअपज्जत्तयाणं सव्वविगल्लिदि०-पुढ०-  
आउ०-वणप्फदिपत्तेय-वणप्फदि-णियोदाणं च । तेउ-वाउणं पि तं चेव । णवरि  
तिरिक्खं०-तिरिक्खाणु०-णीचा० धुवं कादव्वं । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० वज्ज ।  
णवरि अप्पसत्य०४-उप० णिय० । तं तु० । सव्वएइंदियाणं पि तं चेव । णवरि  
तिरिक्खगदि०३ तेउ०अंगो । अप्पसत्यवण्ण० ज० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०

अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । हुण्ड संस्थान और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग का कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।

१०५. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण और शुभ आदि पाँच युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिक शरीर, तैजस-शरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पर्याप्तका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्तिका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका सूक्ष्म और साधारणको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात् तिर्यञ्च अपर्याप्तको के समान सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए । तेजस्कायिक और वायु-कायिक जीवोंके भी यही सन्निकर्ष है । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रको ध्रुव करना चाहिए । तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । इतनी और विशेषता है कि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघातका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सब एकेन्द्रियोंके भी यही सन्निकर्ष है । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति-त्रिकका भङ्ग अग्निकायिक जीवोंके समान है । तथा अप्रशस्त वर्णके जघन्य अनुभागका बन्ध

१. ला० प्रती तिरिक्ख०३ इति पाठः ।



सिया० । तं तु० । मणुस०-मणुसाणु०-उज्जोव० सिया० अर्णतगुणब्ध० । पंचिंदियादि-  
शुवियाओ गिय० अर्णतगुणब्ध० । अप्पसत्थगंध०३-उप० गिय० । तं तु० ।

१०६. मणुस०३ खवियाणं आहारदुगं तित्थय० ओघं । सेसं पंचिंदियतिरिक्ख-  
भंगो ।

१०७. देवेसु सत्तणं कम्माणं गिरयभंगो । तिरिक्ख० ज० वं० एइंदि०-  
छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०--थावर०--थिरादिउयुग० सिया० । तं तु० । पंचिंदि०-  
ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-त्स० सिया० अर्णतगुणब्ध० । ओरालि०-तेजा०-क०-  
पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० अर्णतगुणब्ध० । तिरि-  
क्खाणु० णि० । तं तु० । एवं तिरिक्खाणु० । मणुसगदि० तिरिक्खभंगो । णवरि  
एइंदियं आदाउज्जोवं थावरं च वज्ज । एवं मणुसाणु० ।

१०८. एइंदि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादें०  
गिय० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त०-

करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्विका और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्चेन्द्रियजाति आदि ध्रुव प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त गन्ध आदि तीन और उपघातका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।

१०९. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियों, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।

१०७. देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, गदर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्यगतिका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय जाति, आतप, उद्योत और स्थावरको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्विकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१०८. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्ड-संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका, स्थावर, दुर्भग और अनादेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु

णिमि० णिय० अणंतगुणव्भ० । आदाउज्जो० सिया० अणंतगुणव्भ० । थिराथिर-सुभा-  
सुभ-जस०-अजस० सिया० । तं तु० । एवं थावर० ।

१०६. पंचिदि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-तिरि-  
क्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अधिरादिछ० णिय० अणंतगुणव्भ० । ओरालि०-  
तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णि० । तं तु० ।  
उज्जोव० सिया० । तं तु० । एवं ओरालि०अंगो०-तस० ।

११०. ओरालि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-  
उप०-अधिरादिपंच णि० अणंतगुणव्भ० । ईदि०-असंप०-अप्पसत्थ०-थावर०-दुस्सर०  
सिया० अणंतगुणव्भ० । ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० । तं तु० । तेजा०-  
क०-पसत्थ०४-अगु०-पर०-उत्सा०-वाद्द-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० णि० । तं तु० । एवं

वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, अप्रशस्तवर्ण चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वाद्द, पर्याप्त और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः-कीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१०६. पञ्चोन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तास्तपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-त्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रस प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

११०. औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तास्तपाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायागति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तैजसशरीर, कामण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, परघात, चच्छ्वास, वाद्द, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग

तेजा०-क०-पसत्य०४-अगु०३-उज्जो०-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमिणं ति । आदावं एवं चेव । णवरि एइंदि०-थावर० णिय० अणंतगुणब्भ० । चदुसंठा०-चदुसंध०-दोविहा०-सुभग-दोसर०-अणादं० पढमपुढविभंगो ।

१११. हुंड० ज० वं० दोगदि-एइंदि०-उस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-थावर-थिरादिच्चयुग० सिया० । तं तु० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० अणंतगुणब्भ० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्य०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० अणंतगु० । एवं हुंडभंगो दूभग-अणादं० । अप्पसत्थ०४-उप० णिरयभंगो ।

११२. थिर० ज० वं० दोगदि-एइंदि०-उस्संघ०-उस्संध०-दोआणु०-दोविहा०-थावर०-सुभादिपंचयुग० सिया० । तं तु० । पंचि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस०-तित्थ० सिया० अणंतगुणब्भ० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-वादर०-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । एवं अथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० । तित्थ० णिरयभंगो ।

का भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचक्रिक, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । आतपकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति और स्थावरका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । चार संस्थान, चार संहनन, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और अनादेयका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है ।

१११. हुण्डसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, एकेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार हुण्ड संस्थानके समान दुर्भग, अनादेय की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रशस्त वर्णचतुष्क और सपघातकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नारकियोके समान है ।

११२. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, एकेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर और शुभादि पाँच युगलका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत, त्रस और तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचक्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीर्थङ्कर

११३. भवण०--त्राणवेंतर--जोदिसि०-सोधम्मीसाणं सत्तणं कम्माणं देवोधं ।  
तिरिक्खग० ज० वं० दोजादि--द्धस्संठाण--द्धस्संघ०--दोविहा०--तस-थावर--थिरादि-  
द्धयुग० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०--क०--पसत्यापसत्थ०४--त्रादर--पज्जत्त-  
पत्ते०-णिमि० णि० अणंतगु० । ओरालि०अंगो०--आदाउज्जो० सिया० अणंतगु० ।  
तिरिक्खवाणु० णिय० । तं तु० । एवं तिरिक्खवाणु० ।

११४. मणुसग० ज० वं० तिरिक्खगदिभंगो । णवरि पंचि०--मणुसाणु०-तस०  
णि० । तं तु० । एवं मणुसाणु० । एइदि०-थावर० देवोधं ।

११५. पंचिदि० ज० वं० दोगदि--द्धस्संठा०--द्धस्संघ०--दोआणु०--दोविहा०-  
थिरादिद्धयुग० सिया० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०--क०--ओरालि०अंगो०--पसत्या-  
पसत्थ०४--अणु०४--त्रादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० अणंतगुणम्भ० । उज्जो० सिया०

प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

११३. भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म ऐशान कल्पके देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । तिर्यञ्चगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो जाति, छह संस्थान, छह संदहन, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । औदारिक आज्ञोपाङ्ग, आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

११४. मनुष्यगति के जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और त्रसका नियमसे बन्ध होता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यता सन्निकर्ष जानना चाहिये । एकेन्द्रिय जाति और स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवों के समान है ।

११५. पञ्चेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, छह संस्थान, छह संदहन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अणुस्लघु चतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक

अणंतगुणम्भ० । तस० णि० । तं तु० । एवं पंचिदिय०भंगो चदुसंठा०--चदुसंघ०-  
दोविहा०-तस-सुभग-दोसर०-आदें० ।

११६. हुंड० ज० वं० दोगदि-दोजादि-द्वसंघ०-दोआणु०दोविहा०-तस-थावर-  
थिरादिद्वयगु० सिया० । तं तु० । सेसं तिरिक्खगदिभंगो । एवं हुंड०भंगो दूभग-  
अणादें० । एवं चेव थिराथिर--सुभासुभ--जस०-अजस० । णवरि तित्थ० सिया०  
अणंतगुणम्भ० ।

११७. ओरालि० ज० वं० तिरिक्ख०-एईदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४--तिरिक्खाणु०-  
उप०-थावर--अथिरादिपंच० णि० अणंतगुणम्भ० । तेजा०--क०-पसत्थ०४--अगु०३-  
वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० । तं तु० । आदाउज्जो० सिया० । तं तु० । एवं  
एदाओ एक्कमैक्कस । तं तु० ।

११८. ओरालि०अंगो० ज० वं० तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
हुंडसंठा०--असंप०--पसत्थापसत्थ०४--तिरिक्खाणु०--अगु०४--अप्पसत्थ०--तस०४--

होता है । ब्रसका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और  
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह  
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान चार सस्थान, चार संहनन,  
दो विहायोगति, ब्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

११६. हुण्ड संस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो जाति, छह  
संहनन, दो आणुपूर्वी, दो विहायोगति, ब्रस, स्थावर और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्  
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य  
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित  
वृद्धिरूप होता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इस प्रकार हुण्ड संस्थानके समान  
दुभंग और अनादेय की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार स्थिर, अस्थिर,  
शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता  
है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।

११७. औदारिक शरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय-  
जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर और अस्थिर  
आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । तैजसशरीर,  
कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे  
बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग का  
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप  
होता है । आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनु-  
भागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभाग  
का बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियों का  
परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, किन्तु वह उसी प्रकारका होता है ।

११८. औदारिक आज्ञोपाज्ञके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, पञ्चे-  
न्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तपाटिका संहनन,  
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायो-

अथिरादिद्व०-णिमि० णिय० अणंतगुणवभ० । उज्जो० सिया० अणंतगुणवभ० ।

११६. सणवकुमार याव सहस्सार ति पढमपुढविभंगो । आणद याव णव-  
गेवज्जा ति सत्तणं कम्माणं देवोघं । मणुस० ज० वं० पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
ओरालि०-अंगो०--पसत्य०४-मणुसाणु०-अगु०३-तस४-णिमि० णि० । तं तु० ।  
हुंड०-असंप०-अप्पसत्य०४-उप०-अप्पसत्यवि०-अथिरादिद्व० णि० अणंतगुणवभ० ।  
एवं मणुसगदिभंगो पंचिदियादि तं तु० पदिदाणं सव्वाणं ।

१२०. समचदु० ज० वं० मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०  
अंगो०-पसत्यापसत्य०४-मणुसाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि० अणंतगुणवभ० । छस्संघ०-  
दोविहा०-थिरादिद्वयुग० सिया० । तं तु० । एवं पंचसंठा०-द्वस्संघ०-दोविहा०-थिरादि-  
द्वयुग० । णवरि तिण्णियुग०-तित्यय० सिया० अणंतगुणवभ० । अप्पसत्य०४-उप०-  
तित्ययरं च देवोघं ।

१२१. अणुदिस याव सव्वद्व ति सत्तणं कम्माणं आणदभंगो । णवरि थीण-  
गिद्धि३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-णीचा० वज्ज । मणुस० ज० वं०

गति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा  
अधिक होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।

११६. सानकुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें प्रथम पृथिवीके समान भद्र  
है । आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेद्यक तकके देवोंमें सात कर्मोंका भद्र सामान्य देवोंके समान है ।  
मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चैन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजस-  
शरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक,  
त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता  
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो  
वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । हुण्डसंस्थान, असम्भ्रातासृपाटिका संहनन, अग्रशस्त  
वर्णचतुष्क, उपघात, अग्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो  
अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान पञ्चैन्द्रिय जाति आदि 'तं तु'  
पतित सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१२०. समचतुरस्र संस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, पञ्चै-  
न्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अग्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे  
बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि  
छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और  
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह  
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार पाँच संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और  
स्थिर आदि छह युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन  
युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अग्रशस्त-  
वर्ण चतुष्क, उपघात और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके इन प्रकृतियोंकी  
मुख्यतासे जैसा कह आये हैं, वैसा है ।

१२१. अणुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सात कर्मोंका भद्र आनत कल्पके समान  
है । इतनी विशेषता है कि स्थानगुद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नृपुंसकवेद

आणदभंगो । णवरि अप्पसत्त्य०४-उप०--अधिर०--असुभ०--अजस० णिय० अणांत-  
गुणग्भ० । समचदु०-वज्जरि०-पसत्त्यवि०-सुभग-सुस्सर०-आदे० णि० । तं तु० ।  
तित्थ० सिया० । तं तु० । एवं तं तु० पदिदाओ ऐकमेकस्स । तं तु० । अप्पसत्त्य०४-  
उप० देवोधं ।

१२२. धिर० ज० वं० सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० । तं तु० । तित्थय०  
सिया० अखांतगुणग्भ० । एवं तिण्णियुग० ।

१२३. पंचिदि०--तस०२-पंचमण०--पंचवचि०--कायजोगि०--ओरालियका०-  
कोधादि०४-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०--मिच्छादि०-मदि०-सुद०-विभंग०-असंजद०-  
सण्णि-असण्णि-आहारग ति ओधभंगो । णवरि किंचि विसेसो णादब्बो । ओरालिय-  
का० मणुसोयं । णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० तिरिक्खोयं । कोधे कोधसंज० ज०  
वं० तिण्णं संज० णि० जहण्णा । माणे माणसंज० ज० वं० दोसंज० णि० जहण्णा ।

और नीचगोत्रको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करने वाले देवका भद्र आन्त कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । समचतुरस्र संस्थान, वरुणभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुधर और आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभाग का भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार 'तं तु०' पतित जितनी प्रकृतियों हैं, उनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका यथासम्भव बन्ध करता है । जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जैसा इनकी मुख्यतासे सामान्य देवोंके कह आये हैं, उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए ।

१२२. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्त-गुणा अधिक होता है । इसी प्रकार तीन युगलोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१२३. पञ्चैन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोचोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि, मत्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, संज्ञी, असंज्ञी और आहारक जीवोंके ओषके समान भद्र है । इतनी विशेषता है कि कुछ विशेषता जाननी चाहिए । औदारिककाययोगी जीवोंमें सामान्य मनुष्यों के समान भद्र है । इतनी विशेषता है कि यहाँ तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे कहा है, उस प्रकार जानना चाहिए । क्रोधकवायमे क्रोध संवलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन संवलनोंका

मायाए मायसंज० ज० वं० लोभसंज० णि० जहण्णा । सेसाणं मोहविसेसो णादब्बो ।

१२४. ओरालियमिस्से सत्तणं कम्माणं देवोधं । तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु० ओधं । मणुस०-पंचजादि-द्वस्संठाण-द्वस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-तस-थावरादि०४-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे०-अणादे० पंचिदि०तिरि०अपज्ज०भंगो । देवग० ज० वं० पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थापसत्थ०४-अणु०४-पसत्थ०-तस०४-अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि० णिय० अणंतगुणवभ० । वेउच्चि०-वेउच्चि० अंगो०-देवाणु० णि० । तं तु० । तित्थ० सिया० । तं तु० । एवं चटुपगदीओ० । ओरालिय-तेजइगादीओ ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० पंचिदि०तिरि०-अपज्जत्तभंगो ।

१२५. अप्पसत्थवण्ण० जं० वं० देवगदि-पसत्थपगदीणं णिय० अणंतगुणवभ० । अप्पसत्थगंधं०३-उप० णि० । तं तु० । तित्थ० सिया० अणंतगुणवभ० । थिरादि-

नियमसे जघन्य अनुभागवन्ध करता है । मानकपायमे मानसंवलनका जघन्य अनुभागवन्ध करने-वाला जीव दो संवलनोंका नियमसे जघन्य अनुभागवन्ध करता है । मायाकपायमे माया संवलन-का जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला जीव लोभ संवलनका नियमसे जघन्य अनुभागवन्ध करता है । शेष प्रकृतियोंका मोहके समान विशेष जानना चाहिए ।

१२४. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य देवोके समान है । तिर्यङ्गगति और तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वीका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगति, पंच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि चार युगल, सुभग, दुभग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जिस प्रकार इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे पञ्चेन्द्रिय तिर्यङ्ग अपर्याप्तकोंके कह आये हैं, उस प्रकार जानना चाहिए । देवगति के जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतु-रससंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुसुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानु-पूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार वैक्रियिकशरीर आदि चार प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । औदारिकशरीर और तैजसशरीर आदि तथा औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है ।

१२५. अप्रशस्त वर्णके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त गन्ध आदि तीन और उपघातका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक



तिरिणियुग० पंचिदि०तिरि०अपज्जत्तभंगो । णव्वरि तिरिक्ख०--देवगदि-वेज्जि०-ओरालि०-वेज्जि०अंगो०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तित्थ० सिया० अणंत-गुणम्भ० ।

१२६. वेज्जियकायजोगीसु सत्तणं कम्माणं देवभंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० णिरयोधं । मणुस०-मणुसाणु० देवोघभंगो । एइदि०-थावर० देवोघभंगो । णव्वरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० णिय० अणंतगुणम्भ० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-तस० णिरयोधं । ओरालि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंढ०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच० णि० अणंतगुणम्भ० । एइदि०-असंप०-अप्पसत्थ०-थावर०-दुस्सर० सिया० अणंतगुणम्भ० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० । तं तु० । तेजा-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० । तं तु० । एवं तेजइगादीणं एँकमैँकस्स । तं तु० । सेसाणं देवोघं । एवं वेज्जियमि० ।

१२७. आहार०-आहारमि० सत्तणं कम्माणं अणुदिसभंगो । णव्वरि अट्ठक०

होता है । स्थिर आदि तीन युगलोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यह तिर्यञ्चगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, दो आणुपूर्वी, परधात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।

१२६. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । तिर्यञ्च-गति और तिर्यञ्चगत्याणुपूर्वीका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । मनुष्यगति और मनुष्य-गत्याणुपूर्वीका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यह तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्याणुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । औदारिक शरीरके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्ड संस्थान, अग्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्याणुपूर्वी, उपधात और अस्थिर आदि पौंचका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । एकेन्द्रिय जाति, असम्प्राप्तपाटिका संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तैजसशरीर आदि प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव शेषका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए ।

१२७. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग अनुदिसके

वज्ज । देवगदि० जं० वं० पंचि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचहु०-वेउच्चि०अंगो०-  
पसत्थ०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमि० णि० ।  
तं तु० । अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर- असुभ-अजस० णिय० अणंतगुणवभ० । तित्थ०  
सिया० । तं तु० । एवं देवगदिआदीओ तप्पाओंगाओ तित्थयरं च एक्कमेकस्स । तं तु० ।  
अप्पसत्थ०४-उप० ओघं ।

१२८. थिर० जं० वं० देवगदिसंजुत्ताणं पसत्थापसत्थाणं पगदीणं णिय० अणंत-  
गुणवभ० । सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० । तं तु० । तित्थ० सिया० अणंतगुणवभ० ।  
एवं अथिर-सुभ-असुभ-जस०-अजस० ।

१२९. कम्मइ० सत्तण्णं कम्माणं देवोघभंगो । तिरिक्ख०-मणुसग०-चहुजादि-  
छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-थावरादि४-थिरादिछयुग० ओघं । देवगदि४  
ओराल्लियमिस्स०भंगो । पंचिदि० जं० वं० तिरि०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-

समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । देवगतिके  
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,  
समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त  
विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु  
वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि  
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । अप्रशस्त वर्ण  
चतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा  
अधिक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य  
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनु-  
भागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तत्सायोग्य  
देवगति आदि और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे  
किसी एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेषका यथासम्भव बन्ध करता है । वह  
जघन्य अनुभागबन्ध भी करता है और अजघन्य अनुबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य अनुभागका  
बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका  
भङ्ग ओघके समान है ।

१२८. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगति संयुक्त प्रशस्त  
और अप्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । शुभ, अशुभ,  
यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य  
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य  
अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका  
कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः-  
कीर्ति और अयशःकीर्तिका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१२९. कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । तिर्यञ्चगति,  
मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आतुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि  
चार और स्थिर आदि छह युगलका भङ्ग ओघके समान है । देवगति चतुष्कका भङ्ग औदारिक-  
मिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । पञ्चन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव

तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिङ्ग०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । ओरालि-  
यादि० णि० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं ओरालि०अंगो०-तस० ।

१३०. ओरालि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-  
उप०-अथिरादिपंच० णिय० अणंतगुणब्भ० । एइदि०-अप्पसत्थ०-थावर०-दुस्सर०  
सिया० अणंतगुणब्भ० । पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस०४ सिया० ।  
तं तु० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-णिमि० णि० । तं तु० । एवमेदाओ ऐक-  
मेकस्स । तं तु० ।

१३१. तित्थ० ज० वं० मणुसगदिपंच० सिया० अणंतगुणब्भ० । देवगदि०४  
सिया० । तं तु० । पंचिदियादि० णि० अणंतगुणब्भ० ।

तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। औदारिक शरीर आदिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रस प्रकृतिकी मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१३०. औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, हुण्ड सस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, उपघात और अस्थिर आदि पांचका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। एकेन्द्रियजाति, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रस चतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुनिक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार इन सब प्रकृतियोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इन्हींसे किसी एकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव शेव प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है।

१३१. तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति पञ्चकका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। देवगतिचतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है।

१. आ० प्रती ओरालि०अंगो० इति पाठः । २. ता० प्रती अप्पसत्थ०अत्पसत्थ० ( १ ) थावर इति पाठः ।

१३२. इत्थिवे० सत्तणं कम्माणं ओघं । णवरि कोधसंज० ज० वं० तिण्ण-  
संज०-पुरिसं० णिय० वं० णियमा जहण्णां । चदुगदि-चदुजादि-द्धसंठाण-द्धसंघं०-  
चदुआणु०-दोविहा०-यावरादि०४-धिरादिद्वयुग० पंचिदि०तिरि०भंगो ।

१३३. पंचि० ज० वं० णिरयगदि-हुंड०-अप्पसत्थ००४-णिरयाणु०-उप०-अप्प-  
सत्थवि०-अधिरादिद्व० णि० अणंतगुणब्भ० । वेउत्वि०-तेजा०-क०-वेउत्वि०अंगो०-  
पसत्थ००४-अगु०३-तस००४-णिमि० णि० । तं तु० । एत्तं [ वेउत्वि०- ] वेउत्वि०-  
अंगो०-तसं० । ओरालि०-आदाउज्जो० सोधम्मभंगो ।

१३४. ओरालि०अंगो० ज० वं० तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-असंप०-  
पसत्थापसत्थ००४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-तस०-वादर०-पत्ते०-अधिरादिपंच०-  
णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । वेईदि०-पंचिदि०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-  
पज्जत्तापज्ज०-दुस्सर० सिया० अणंतगुणब्भ० ।

१३५. तेजा०-कम्मइ० ओघं । णवरि [ ओरालियअंगो०- ] असंपत्तं वज्ज ।

३२. स्त्रीवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि क्रोध संञ्चलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन संञ्चलन और पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य होता है । चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्वावर आदि चार और स्थिर आदि छह युगलका भङ्ग पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चकके समान है ।

१३३. पञ्चोन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुसुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग और त्रसकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । औदारिकशरीर, आतप और उद्योतका भंग सौधर्म-कल्पके समान है ।

१३४. औदारिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, प्रशस्त-वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुसुत्रु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । द्वीन्द्रिय जाति, पञ्चोन्द्रिय जाति, परघान, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, अपर्चास और दुःस्वरका कदाचिन् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है ।

१३५. तैजसशरीर और कर्मणशरीरका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिकआङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१. ता० प्रती कोधसंज० पुरिसं० णिय० वं० णियमो० (मा०) जहण्णा इति पाठः । २ ता० आ० प्रत्योः -वादि चदुवंनाणं ओरालि० अंगो० छुत्तं० इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्योः तस० ४ इति पाठः ।

पंचिदि०-ओरालि०-वेज्वि०-वेज्वि०-अंगो०-आदाउज्जो०-[तस०] सिया० । तं तु० ।  
 एइंदि०-थावर० सिया० अणंतगुणव्भ० । कम्मइगादि० णिमि० णि० । तं तु० ।  
 एवं तेजइगादि० अण्णमण्णस्स । तं तु० । आहारदुग-अप्पसत्य०४-उप०-तित्थय०  
 ओघभंगो० ।

१३६. पुरिसेसु सत्तणं कम्माणं इत्थिभंगो । सेसं ओघं । णवरि तिरिक्खवगदिदु०  
 परियत्तमाणिगा कादव्वा ।

१३७. णत्तुसगे सत्तणं कम्माणं इत्थिवेदभंगो । चदुगदि-चदुजादि-व्स्संठा०-  
 व्स्संघं०-चदुआणु०-दोविहा०-थावरादि०४-थिरादिद्वयुग० ओघं । पंचिदि० ज० व०  
 दोगदि-असंप०-दोआणु० सिया० अणंतगुणव्भ० । दोसरीर-दोअंगो०-उज्जो० सिया० ।  
 तं तु० । तेजा०-क०-पसत्य०४-अगु०३-तस०४ [-णिमि० ] णि० । तं तु० ।

पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, चैक्रियिकशरीर, चैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और  
 त्रसका कदाचित् वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य  
 अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान  
 पतित वृद्धिरूप होता है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्तगुणा  
 अधिक होता है । कर्मण्यशरीर आदि और निर्माणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य  
 अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य  
 अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तैजसशरीर  
 आदिका परस्पर सन्निकप जानना चाहिए । किन्तु इनमेंसे किसी एकके जघन्य अनुभागका वन्ध  
 करनेवाला जीव शेषका नियमसे वन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और  
 अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह  
 स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और तीर्थङ्कर  
 प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

१३६. पुरूपवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भंग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । शेष भंग  
 ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यङ्गगतिद्विककी परिवर्तमान प्रकृतियोंमें  
 परिगणना करनी चाहिए ।

१३७. नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । चार गति, चार  
 जाति, छह संस्थान, छह संदहन, चार आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार और स्थिर आदि  
 छह युगलका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव  
 दो गति, असम्प्राप्तासृपाटिका संदहन और दो आनुपूर्वीका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्तगुणा  
 अधिक होता है । दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग और उद्योतका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता  
 है, तो वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है ।  
 यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तैजसशरीर,  
 कर्मण्यशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रस चतुष्क और निर्माणका नियमसे वन्ध करता  
 है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध  
 करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।

[ वृद्ध०- ] अप्ससत्यवर्णा०४-उप० [ -अप्ससत्य०- ] -अधिराद्रिद्धि० णि० अर्णत-  
गुणवम् । एवं तेजङ्गादि० । एवं ओगलिगादीणं पि सिया० । तं तु० । ओरालि०  
ओगलि०अंगो० सिया० । सेसं मणुसभंगो । [ णवरि आदवं तिरिक्त्वोयं ] ।

१३८. अवगद्वे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० णि० वं० णि० जहण्णा ।  
चदुसंज० ओयं ।

१३९. आभि०-मुद०-ओयि० सत्तणं कम्माणं ओयं । मणुसग० ज० वं०  
पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरी०-पसत्य०४-मणु-  
साणु०-अणु०३-पसत्य०-तस०४-मुभग-मुस्सर-आदे०-णिमि० णि० । तं तु० ।  
अप्ससत्य०४-उप०-अधिर-अमुभ-अजस० णिय० अर्णतगुणवम् । एवं मणुसगदि-  
चदुक्क० ।

१४०. देवगदि ज० वं० मणुसभंगो । णवरि नित्य० सिया० । तं तु० । एवं  
देवगदिचदुक्कस वि ।

दृढसंस्थान, अशस्त वर्णवस्तु-क, वनवात, अशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि दृढका  
नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार नियमसे तं तु०-पतित तैजस-  
शरीर आदिर्का मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सिया तं तु०-पतित औदारिक-  
शरीर आदिर्का मुख्यतासे नी सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु इन्हींमेंसे किसी एकके जयन्त्य अनुभाग  
का बन्ध करनेवाला जीव श्रेयका कदाचिन् बन्ध करता है। जो जयन्त्य अनुभागका भी बन्ध करता है  
और अजयन्त्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजयन्त्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह  
दृढ स्थान पतित दृढिरूप होता है। किन्तु इतनी विवेकता है कि औदारिकशरीरके जयन्त्य अनुभाग-  
का बन्ध करनेवाला जीव औदारिकआङ्गोपाङ्गका कदाचिन् बन्ध करता है। श्रेय प्रकृतियोंका भङ्ग  
मनुष्योंके समान है। किन्तु आठपका भङ्ग सामान्य निर्यञ्चोके समान है।

१३८. अपगद्वेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका  
नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जयन्त्य होता है। तात्पर्य यह है कि इन चौदह प्रकृतियोंमेंसे  
किसी एकके जयन्त्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव श्रेयका नियमसे जयन्त्य अनुभागबन्ध करता  
है। चार संकलनक. भङ्ग ओवके समान है।

१३९. आभिनिवेशिकजानी, मृतजानी और अवधिजानी जीवोंमें सात क्रमोंका भङ्ग ओवके  
समान है। मनुष्यगणिके जयन्त्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चान्द्रियजाति, औदारिक  
शरीर तैजसशरीर, कर्माशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, यज्ञरमनाराच संज्ञन,  
प्रशस्त वर्णचतुक्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अनुस्त्ववुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुक्क, मुभग,  
मुस्वर, आदिय और निमारिक. नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जयन्त्य अनुभागका भी बन्ध  
करता है और अजयन्त्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजयन्त्य अनुभागका बन्ध करता है,  
तो वह दृढ स्थान पतित दृढिरूप होता है। अशस्त वर्णचतुक्क, वनवात, अस्थिर, अमुभ और  
अधिराद्रिद्धि. नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार मनुष्य-  
गत्यानुपूर्वी आदि चारका मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१४०. देवगतिके जयन्त्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग मनुष्यके समान है।  
इतनी विवेकता है कि तीर्थद्वार-दृष्टिका कदाचिन् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो वह  
जयन्त्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजयन्त्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अज-  
यन्त्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह दृढ स्थान पतित दृढिरूप होता है। इसी प्रकार देवगत्यानु-

१४१. पंचिदि० ज० वं० दोगदि-दोसरीर-दोअंगो०-वज्जिरि०-दोआणु०-तित्थ० सिया० । तं तु० । तेजा०-क०-समचट्टु०-पसत्थवण्ण०४-अणु०३-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० । तं तु० । अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस० णि० अणंतगुणव्भ० । एवं पंचिदिय०भंगो तेजइगादीणं पसत्थाणं ।

१४२. तित्थ० ज० वं० देवगदि० णि० । तं तु० । आहारदुग्गं-अप्पसत्थ०४-उप० ओघं ।

१४३. थिर० ज० वं० दोगदि-दोसरीर० सिया० अणंतगुणव्भ० । पंचिदि-यादि० णि० अणंतगुणव्भ० । दोयुग० सिया० । तं तु० । तित्थ० सिया० अणंत-गुणव्भ० । एवं तिण्णियुग० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वइगस० । णवरि खइगे मणुसगदिपंचग० जह० तित्थ० सिया० । तं तु० ।

पूर्वी चतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१४१. पञ्चन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वअर्पभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरहसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अणुस्त्वयुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, वसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्त-गुणा अधिक होता है । इसी प्रकार पञ्चन्द्रियजातिके समान तैजसशरीर आदि प्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१४२. तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव देवगतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका भग ओघके समान है ।

१४३. स्थिर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति और दो शरीरका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्चन्द्रिय जाति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । दो युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार तीन युगलोंका भङ्ग है । इसी प्रकार अर्थात् आमिनिबोधिकज्ञानी आदि जीवोंके समान अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोमे मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और

१. ता० प्रती तेजइगादीण पघ (घ) तथाण । तित्थ०, आ० प्रती तेजइगादीणं तित्थ० इति पाठः ।  
२. ता० प्रती षि० । तित्थ आहारदुग्गं ( ग ), आ० प्रती षि० तं तु० आहारदुग्ग इति पाठः ।

१४४. मणपञ्जवे सत्तर्णं कम्माणं ओधिभंगो० । णवरि अट्टकसायं वज्ज । णाम० ओधिभंगो । णवरि मणुसगदिपंचगं वज्ज । तित्थ० ओघं । एवं संजद-सामाइ०-द्धेदो०-परिहार०-संजदासंजद० । सुहुमसंप० अवगदवेदभंगो ।

१४५. किण्णाए सत्तर्णं कम्माणं गिरयभंगो । सेसं णवुसगभंगो । णील-काऊणं सत्तर्णं कम्माणं गिरयभंगो । गिरयगदि० ज० ओघं० । पंचिदि० ज० वं० तिरिक्ख०-हुंड० णि० अणंतगु० । ओरालि० णि० । तं तु० [ सेसं ] गिरयदंडओ भाणिदन्वओ<sup>१</sup> । वेउच्चि० जं० वं० गिरयगदिअट्टावीसं अणंतगुणवभ० । वेउच्चि०-अंगो० णि० । तं तु० । एवं वेउच्चिय०अंगो० । सेसं किण्णभंगो० । काऊ० तित्थ० गिरयभंगो ।

१४६. तेऊए सत्तर्णं कम्माणं देवगदिभंगो । णवरि कोषसंज० ज० वं० तिण्णि-संज०-पंचणोका० णि० । तं तु० । दोगदि-दोजादि-द्धस्संठा०-द्धस्संच०-टोआणु०-

अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।

१४४. मनःपर्यचक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कर्मायोंको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए । नामकर्मका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिपञ्चकको छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार संघत, छेदोपस्थापनासंघत, परिहार-विशुद्धिसंघत और संयतासंघत जीवोंके जानना चाहिए । सूक्ष्मसाम्परायसंघत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है ।

१४५. कृष्ण लेश्यामें सात कर्मोंका भंग नारकियोंके समान है । शेष भङ्ग नपुंसकोंके समान है । नील और कापोत लेश्यामें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । नरकगतिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यङ्चगति और हुण्डसंस्थानका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तरगुणा अधिक होता है । औदारिकशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । शेष प्रकृतियोंका भंग नरकदण्डके समान कहना चाहिए । वैक्रियिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नरकगति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है जो अनन्तरगुणा अधिक होता है । वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका भी भङ्ग जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । कापोतलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

१४६. पीत लेश्यामें सात कर्मोंका भंग देवगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि क्रोध संव्वलनके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन संव्वलन और पाँच नोकपायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । दो गति, दो जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विद्यायोगति,

१. आ० प्रती माण्डिदन्वाओ इति पाठः ।



[ दोविहा०- ] तस-थावर-तिण्णियुग० सोधम्मभंगो । देवगदि० ज० वं० पंचिंदियादि  
 णि० अणंतगुणब्भ० । वेळच्चि०-वेळच्चि०अंगो०-देवाणु० णि० । तं तु० । एवं वेळच्चि०-  
 वेळच्चि०अंगो०-देवाणु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०३-[ आदाउज्जो-  
 वादर-पज्जत्त-पत्ते०- ] णिमि०-[ तित्थ० ] सोधम्मभंगो' । थिरादितिण्णियुगलापं  
 [ ज० वं० ] दोगदि० सिया० । तं तु० । देवगदि०४ सिया० अणंतगुणब्भ० । सेसं  
 सोधम्मभंगो । [ आहारदु०-अप्पसत्थवण्ण४-उप० मणुसभंगो । ] एवं पम्माए  
 वि । णवरि पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-तस० सव्वाणं संकिलेस्सपगदीणं सहस्सार-  
 भंगो । तित्थय० देवभंगो ।

१४७. सुक्काए सत्तण्णं क० ओघं । देवगदि०४-आहारदुगं पम्माए भंगो ।  
 सेसाणमाणदभंगो । अप्पसत्थ०४-उप० ओघं । अब्भव० मदि०भंगो । णवरि अप्पसत्थ-  
 वण्ण० ज० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० सिया० । तं तु० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो०-

त्रस, स्थावर और तीन युगलका भंग सौधर्मकल्पके समान है । देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध  
 करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति आदिका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता  
 है । वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्ध करता है ।  
 किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ।  
 यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार  
 वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्विका भङ्ग जानना चाहिए । औदारिक  
 शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, बादर, पर्याप्त  
 प्रत्येक, निर्माण और तीर्थङ्करका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य  
 अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह  
 जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य  
 अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । देवगति चतुष्कका कदा-  
 चित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । इसका शेष भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है ।  
 आहारकद्रिक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातका भङ्ग मनुष्योके समान है । इसी प्रकार पद्म-  
 लेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, त्रस  
 और सर्व संक्लिष्ट परिणामोसे बंधनेवाली सब प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्तरकल्पके समान है । तथा  
 तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवोके समान है ।

१४७. शुक्लेश्यामे सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान है । देवगति चार और आहारक  
 द्विकका भङ्ग पद्मलेश्याके समान है । श्रेण प्रकृतियोंका भङ्ग आनतकल्पके समान है । अप्रशस्त  
 वर्ण चतुष्क और उपघातका भङ्ग ओघके समान है । अभव्योंमे सब प्रकृतियोंका भङ्ग मर्यादामियों  
 के समान है । इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त वर्णके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव  
 तीर्थङ्कगति और तीर्थङ्कगत्यानुपूर्विका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य  
 अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य  
 अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । दो गति, दो शरीर, दो

१. ता० आ० प्रत्योः षिमि० षि० तं तु० सोधम्मभंगो इति पाठः । २ ता० आ० प्रत्योः ओघ ।  
 यामगदि देवगदि० इति पाठः ।

वज्जरि०-दोआणु०- ज्जो० सिया० अणंतगुणव्भ० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-  
पसत्थव०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-धिरादिद्ध०-णिमि० णि० अणंतगुणव्भ० ।  
अप्पसत्थगंध३-उप० णि० । तं तु० ।

१४८. वेद्ग०-उवसम० ओधिदंसणिभंगो । अप्पसत्थ०४-उप० ओघं । सासा०  
मदि०भंगो । मिच्छत्तं वज्ज । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० ओघं । दोगदि-पंचसंटा०-पंच-  
संघ०-दोआणु०-दोविद्वा०-धिरादिद्धयुग० ओघं । णव्वरि पज्जत्तसंजुत्तं कादव्वं । पंचिदि०  
ज० वं० तिरिक्खगादिआदिं० णि० अणंतगुणव्भ० । ओरात्तिगादिसव्वसंक्खिद्धाणं  
णि० । तं तु० । उज्जो० सिया० । तं तु० । एवं मणुस०-मणुसाणु० । तं तु० । वेउ-  
व्विय० ज० वं० पंचिदियादि० णि० अणंतगुणव्भ० । तिण्णियुगल० सिया० । तं तु० ।

आंगोपांग, वज्जरभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् वन्ध करता है जो अनन्त-  
गुणा अधिक होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त  
वर्णचतुष्क, अगुस्तगुञ्जिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका  
नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । अप्रशस्त गन्ध आदि तीन और उप-  
घातका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य  
अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान  
पतित वृद्धिरूप होता है ।

१४८. वेद्गसन्गद्वि और उपशमसन्गद्वि जीवोमे अवधिदर्शनी जीवोके समान भङ्ग है ।  
नात्र अन्नगत्त वर्णचतुष्क और उपघातका भङ्ग ओघके समान है । सासादनसन्गद्वि जीवोमे  
मत्स्यमानी जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विधेयता है कि मिथ्यात्वको द्योद्विक सन्निकर्ष कहना  
चाहिए । तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीका भंग ओघके समान है । दो गति, पाँच संस्थान,  
पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका भंग ओघके समान  
है । इतनी विधेयता है कि पर्याप्त प्रकृतिको संयुक्त करके कहना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय जातिके  
जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति आदिका नियमसे वन्ध करता है जो अनन्त-  
गुणा अधिक होता है । औदारिक आदि सर्व संक्लिष्ट परिणामोसे वन्धको प्राप्त होनेवाली  
प्रकृतियोंका निवमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और  
अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह  
स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । उद्योतका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो वह  
जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य  
अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार मनुष्यगति और  
मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भंग है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य  
अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित  
वृद्धिरूप होता है । वैकिक्रिक शरीरके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय जाति आदि  
का नियमसे वन्ध करता है जो अनन्तगुणा अधिक होता है । तीन युगलका कदाचित् वन्ध करता है ।  
यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध  
करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।

१. ता० आ० प्रत्योः ओघं अब्भव० मदिभंगो । मिच्छत्तं इति पाठः । २. ता० प्रतौ जादि०  
इति पाठः ।

किंचि० विसेसो जाणिदव्वो । एवं वेउन्वि०अंगो० । [सम्मामि० वेदग०भंगो । विसेसो जाणिदव्वो । ] मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं जहण्णसण्णियासो समत्तो ।

एवं सत्थाणसण्णियासो समत्तो ।

१४६. परत्थाणसण्णियासे दुवि०—जह० उक्क० । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० आभि० उक्क० अणुभागं<sup>१</sup> वंधंतो चट्टुणा०—णवदंसणा०—असादा०—मिच्छ०—सोलसक०—पंचणोक०—हुंड०—अप्पसत्थ०४—उप०—अथिरादिपंच०—णीचा०—पंचंत०—णिय० वंध० । तं तु० छट्ठाणपदिदं वंधदि । अणंतभगहीणं वा०५ । गिरय०—तिरिक्ख०—एइंदि०—असंप०—दोआणु०—अप्पसत्थ०—थावर—दुस्सर० सिया० । तं तु० । पंचिदि०—दोसरीर—दोअंगो०—आदाउज्जो०—तस० सिया० अणंतगुणहीणं । तेजा०—क०—पसत्थ०४—अणु०—पर०—उस्सा०—वादर—पज्जत्त—पत्ते०—णिमि० णि० अणंतगुणहीणं । एवं आभिणि०भंगो चट्टुणा०—णवदंसणा०—असादा०—मिच्छ०—सोलसक०—पंचणोक०—हुंड०—अप्पसत्थ०४—उप०—अथिरादिपंच०—णीचा०—पंचंतरा० ।

जो कुछ विशेषता है वह जान लेनी चाहिए । इसी प्रकार वैकल्पिक आगोपांग की मुख्यतासे सन्निकर्ष है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान भद्र है । किन्तु कुछ विशेषता जाननी चाहिए । मिथ्यादृष्टि जीवोका भंग सत्यज्ञानी जीवोंके समान है । अनाहारक जीवोंका भंग कार्मण्णकाययोगी जीवोंके समान है । इस प्रकार जघन्य सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

इस प्रकार स्वस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

१४६. परस्थान सन्निकर्षकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्लोघ और आदेश । श्लोघकी अपेक्षा आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोरुपाय, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानि रूप बंधता है । अर्थात् या अनन्तभागहीन बंधता है, या असंख्यातभागहीन, संख्यातभागहीन, संख्यातगुणहीन, असंख्यातगुणहीन या अनन्तरगुणहीन बंधता है । नरकगति, तिर्यञ्चरगति, एकेन्द्रियजाति, असम्भ्राह्मणपाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत और प्रसका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तरगुणा हीन होता है । तेजसशरीर, कार्मण्णशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुल्लु, परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तरगुणा हीन होता है । इसी प्रकार आभिनिबोधिकज्ञानावरणके समान चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्ड

१५०. सातावेदणीयं उक्क० अणुभागं वंधंतो पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं वं० । जसगि०-उच्चा० णि० उक्कस्स० । एवं जस०-उच्चा० ।

१५१. इत्थिवे० उक्क० वं० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दु०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पस-त्थापसत्थ०-४-तिरिक्खाणु०-अगु०-४-अप्पसत्थ०-तस०-४-अथिरादिद्व०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० वं० अणंतगुणही० । तिण्णिसंठा०-तिण्णिसंघ०-उज्जो० सिया० अणंतगुणही० । एवं पुरिस० । णवरि दोगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो० सिया० अणंत०-हीणं० ।

१५२. हस्स० उक्क० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०-४-अगु०-४-अथिरादिपंच०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगु०-हीणं० । इत्थि०-णवुंस०-दोगदि-पंचजादि-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-पंचसंघ-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-तस-थावर-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्ज०-पत्ते०-साधार०-दुस्सर० सिया० अणंतगु०-ही० । रदि० णि० ।

संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका भङ्ग जानना चाहिए ।

१५०. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा हीन होता है । यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१५१. स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आगोपाग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणा हीन होता है । तीन संस्थान, तीन संहनन और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा हीन होता है ।

१५२. हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आगोपाग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, प्रत्येक, साधारण और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है जो अनन्तगुणा हीन होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है जो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो

तं तु० । एवं रदीए० ।

१५३. गिरयायु० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोको०-गिरयगदिअट्टावीस०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंत०हीणं० ।

१५४. तिरिक्खायु० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरी०-पसत्यापसत्य०४-तिरिक्खाणु०--अगु०४-पसत्यवि०-तस४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंत०ही० । सादासाद०-इत्थि०-पुरिस०-हस्म-रदि-अरदि-सोग-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० सिया० अणंतगुणही० । एवं मणुसायु० । णवरि उच्चा० णि० अणंतगु० ।

१५५. देवायु० उ० वं० पंचणा०-द्वदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदिसत्तट्टावीसं-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं० । आहारदु०-तित्थय० सिया० अणंतगुणहीणं० ।

१५६. गिरयगदि उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-वह छह स्थान पतित्त दानिरूप होता है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१५३ नरकायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नरकगति आदि अट्टाईस प्रकृतियों, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनन्तगुणों हीन अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है।

१५४. तिर्यञ्चयुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामखशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आगोपाग, वज्रधमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अमशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है।

१५५. देवायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संवलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि सत्ताईस या अट्टाईस प्रकृतियों, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। आहारकद्विक और तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है।

१५६. नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-

पंचणोक०-णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० छद्वापपदिदं० । णामपसत्थाणं णिय० अणंत-  
गुणहीणं । णामअपसत्थाणं णाणावरणभंगो । एवं णिरयाणु० । एवं तिरिक्खण-  
तिरिक्खाणु० । णाम० सत्थाणभंगो ।

१५७. मणुस०-मणुसाणु० उ० वं० पंचणा०--छद्दंसणा०-सादावे०-वारसक०-  
पंचणोक०--उच्चा०--पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं० । णाम० सत्थाणभंगो० । एवं मणुस-  
गदिपंचगस्स ।

१५८. देवगदि० उ० वं० पंचणा०-चदुदंसणा०--सादा०-चदुसंज०-पंचणोक०-  
उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं देवगदिसंजुत्ताणं  
पसत्थाणं णामाणं ।

१५९. वेइं०-नेइंदि०-चदुरिं० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-पंचणोक०-णीचा०-पंचंतं० णिय० अणंत०ही० । णाम० सत्थाणभंगो ।  
णामोद० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०--मिच्छ०-सोलसक०--चदुणोक०-  
णीचा०-पंचंतं० णि० अणंत०ही० । इत्थि०-णवुंसं० सिया० अणंत०ही० । णाम०

बरर। असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उच्छ्रष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुच्छ्रष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुच्छ्रष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। नामकर्मकी प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुच्छ्रष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नामकर्मकी अप्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार तिर्यञ्चगति और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। किन्तु यहाँ नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है।

१५७. मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वके उच्छ्रष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, वारह कपाय, पाँच नोकपाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुच्छ्रष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नामकर्मकी प्रकृतियों का भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार मनुष्यगतिपञ्चककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१५८. देवगतिके उच्छ्रष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संवलन, पाँच नोकपाय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुच्छ्रष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार देवगतिसंयुक्त प्रशस्त नामकर्मकी प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१५९. द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रिय जातिके उच्छ्रष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुच्छ्रष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। न्यत्रोधसंस्थानके उच्छ्रष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, चार नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुच्छ्रष्ट

सत्याणभंगो । एवं सादि० । एवं खुज्ज०-वामण० । णवरि णवुंस० णियमा अणंत०ही० । चदुसंघ० चदुसंठाणभंगो । असंप० णाणावरणभंगो हेद्दा उवरि । णाम० सत्याणभंगो । एवं एइंदि०-थावर० ।

१६०. आदाव० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणही० । सादासाद०-चदुणोक्क० सिया० अणंत०-ही० । णाम० सत्याणभंगो ।

१६१. उज्जो० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-मिच्छ०--सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णिय० अणंत०ही० । णाम० सत्याणभंगो ।

१६२. अप्पसत्थवि०-दुस्सर० उ० वं० हेद्दा उवरि णिरयगदिभंगो । णाम० सत्याणभंगो ।

१६३. सुहुम०-अपज्जत्त-साधार० उ० वं० पंचणा०--णवदंसणा०--असादो०-

अनन्तगुणा हीन होता है । खीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार स्वाति-संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार कुब्जक और वामन संस्थानकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह नपुंसकवेदका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । चार सहननका भंग चार संस्थानके समान है । असम्प्राप्ताष्टपाटिका सहननका भंग नामकर्मसे पहलेकी और आगेकी प्रकृतियोंकी अपेक्षा ज्ञाना-वरणके समान है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार अर्थात् अस-म्प्राप्ताष्टपाटिका सहननके समान एकेन्द्रिय जाति और स्थावर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१६०. आतप प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

१६१. उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

१६२. अप्रशस्त विद्यायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और आगेकी प्रकृतियोंका भङ्ग नरकगतिके समान है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

१६३. सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला, जीव पौंच

१. आ० प्रतौ एइंदि० आदाव यावर उ० वं० इति पाठः । २. ता० प्रतौ पंचया० असादा० इति पाठः ।

मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-णीचा०-पंचंत० गिय० अणंत०ही० । णाम० सत्याणभंगो ।

१६४. गिरएसुआभिणिवो० उ० वं० चट्टणा०-णवर्दसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्ख०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उपघा०-अप्पसत्थवि०-अथिरादिद्ध०-णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पसत्थ०४-अणु०३-तस०४-णिमि० णि० अणंत०ही० । उज्जो० सिया० अणंत०ही० । एवं णाणावरणादि० तं तु० पदिदाओ ताओ अण्णमण्णस्स । तं तु० ।

१६५. सादा० उ० वं० पंचणा०-द्धर्दसणा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० अणंत०ही० । मणुस०-पंचिदि०-तिण्णिसरीर-समचट्टु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अणु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्ध०-णिमि०-उच्चा० णि० । तं तु० । तित्थ० सिया० । तं तु० । एवं सादभंगो तं तु० पदिदाणं ।

ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नाम-कर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

१६४. नारकियोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्जगति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तात्पटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आगोपांग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार तं तु-पतित ज्ञानावरणादि जितनी प्रकृतियों हैं, उनका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु आभिनिवोधिक ज्ञानावरण को मुख्य करके जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है, उसी प्रकार तं तु-पतित शेष सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे कहना चाहिए ।

१६५. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आंगोपांग, वज्रपर्मनाराच संहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि



१६६. सेसं ओघं । णवरि तिरिक्खायु० उ० वं० मिच्छ० णि० अणंतगु०ही० । एवं धुवियाणं० । सादासाद० सिया० अणंत०ही० । एवं परियत्तमाणियाओ सन्वाओ सादभंगो । मणुसाउ० उ० वं० पंचणा०-द्धदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जिरि०-पसत्थापसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंत०ही० । सादासाद०-चदुणोक०-थिरादितिणियुग०-तित्थ० सिर्यो० अणंत०-ही० । चदुसंठा०-चदुसंघ०-उज्जो० ओघं० । एवं छसु पुढवीसु । णवरि उज्जो० तिरिक्खायुभंगो । सत्तमाए पुरिस०-हस्स-रदि-[ चदु- ] संठा०-पंचसंघ० उ० वं० तिरिक्ख-गदी धुवं कादव्वं । सेसं णिरयोघं ।

१६७. तिरिक्खेसु आभिणिवोधि० उ० वं० चदुणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-णिरयग०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-णिरयाणु०-उप०-अप्प-सत्थ०-अथिरादिद्ध०-णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० । पंचिदि०-तिणिसरीर-वेउन्वि०-

अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार तं तु० पतित जितनी प्रकृतियों हैं, उनका सातावेदनीयके समान भंग जानना चाहिए ।

१६६. शेष प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मिथ्यात्वका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार ध्रुव बन्धवाली प्रकृतियों का जानना चाहिए । सातावेदनीय और असातावेदनीयका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । परिवर्तमान जितनी प्रकृतियों हैं, उनका इसी प्रकार सातावेदनीयके समान भंग है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभाग का बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आंगोपांग, बअर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर आदि तीन युगल और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । चार संस्थान, चार संहनन और उद्योतका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उद्योतका भंग तिर्यञ्चायुके समान है । सातवीं पृथिवीमे पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और पाँच संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगतिका ध्रुव बन्ध करता है अर्थात् नियमसे बन्ध करता है । शेष सब प्ररूपणा सामान्य नारकियोंके समान है ।

१६७. तिर्यञ्चोमे आभिणिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपचात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनु-

१. आ० प्रतौ तेजाक० ओरालि० अगो० इति पाठः । २. ता० प्रतौ तिणियुग० सिया० इति पाठः ।

अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-तस४-णिमि० णि० अणंत०ही० । एत्थ एदाओ तं तु० पदिदाओ अणमण्णस्स आभिणि०भंगो ।

१६८. साद० उ० वं० पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० अणंतगुणही० । देवगदिसत्तावीस-उच्चा० णि० । तं तु० । एदाओ सादभंगो । चटुणोक०-चटुआयु० ओर्घ ।

१६९. तिरिक्खग० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलस-क०-पंचणोक०-णीचा०-पंचंत णि० अणंत०ही० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं चटुजादि-असंप०-तिरिक्खाणु०-थावरादि४० ।

१७०. मणुसग० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगु०ही० । सादासाद०-चटुणोक० सिया० अणंत०-ही० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं मणुसगदिपंच० । चटुसंठा०--चटुसंघ०--आदाव० ओर्घ । उज्जो० पढमपुढविभंगो । अथवा वादर-तेउ०-वाउ० उक्कस्सयं करेदि । सन्व-

भागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्चोन्द्रिय जाति, तीन शरीर, वैकृतिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । यहाँ ये तं तु०पतित जितनी प्रकृतियों हैं, उनका परस्पर आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके समान भङ्ग है ।

१६८. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । देवगति आदि सत्ताईस प्रकृतियों और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । यहाँ देवगति आदि प्रकृतियोंका भंग सातावेदनीयके समान है । चार नोकषाय और चार आयुका भंग ओषके समान है ।

१६९. तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार चार जाति, असम्प्राप्त्यादिवासंहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१७०. मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार मनुष्यगति पञ्चककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । चार संस्थान, चार सहनन और आतपका भंग ओषके समान है । उद्योतका भंग पहली पृथिवीके समान है । अथवा वादर अनिनकायिक और वादर वायुकायिक जीव उत्कृष्ट करते हैं ।

१. ता० प्रतौ आदापु० ओर्घं, आ० प्रतौ आदाउज्जो० ओर्घं इति पाठः ।

विद्युद्धो मूलोघो । एवं पंचिदियतिरिक्ख० ३ ।

१७१. पंचि०तिरि०अपज्जत्तगेषु आभिणिवो० उ० वं० चटुणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड०-अप्पसत्य०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि४-अधिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्य०४-अगु०-णिमि० णि० अणंत०ही० । एवमेदाओ अप्पोण्णस्स तं तु० ।

१७२. सादा० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-अप्पसत्य०४-उप०-पंचंत० णि० अणंतगुणही० । मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचटु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्य०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्यवि०-तस०४-धिरादि४०-णिमि०-उच्चा० णि० । तं तु० । एवमेदाओ ऐक्कमैक्कस्स । तं तु० ।

१७३. इत्थि० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्यापसत्य०४-अप्पसत्य०-

यदि सर्वं विद्युद्धं तिर्यञ्च करते हैं, तो मूलोघके समान भंग है। इसी प्रकार अर्थात् सामान्य तिर्यञ्चोंके समान पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिए।

१७१. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्यावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीच गोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। यहाँ तं तु-पतित जितनी प्रकृतियों हैं, उनकी अपेक्षा परस्पर इसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१७२. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। मनुष्यगति, पञ्चोन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुष्कसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रभंजनायक संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। यहाँ तं तु-पतित जितनी प्रकृतियों हैं, उनकी अपेक्षा परस्पर जैसा सातावेदनीयकी अपेक्षा सन्निकर्ष कहा है, उसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१७३. क्षीवेदके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चोन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति,

तस०४-दूभग-दुस्सर-अणादें०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णिय० अणंतगुणहीणं० । सादासाद०-चदुणोके०-दोमादि-तिणिसंठा०-तिणिसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-धिरादि-तिणियुग० सिया० अणंतगुणहीणं० । एवं पुरिस० । णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ० ।

१७४. हस्स० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-भय-दु०-तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्यापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अणु०-उप०-यावरादि०४-धिरादिपंच०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं० । रदी णि० । तं तु० । एवं रदीए० । दोआउं० णिरयभंगो ।

१७५. वेइं०-वेइं०-चदुरिं० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणही० । सादासाद०-चदुणोके० सिया० अणंतगुणहीणं० । णाम० सत्याणभंगो ।

१७६. चदुसंठा० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणहीणं० । दोवेद०-चदुणोके० सिया० अणंत-

त्रसचतुष्क, दुर्मग, दुःस्वर, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, दो गति, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो आनुपूर्वी, ज्योत और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ तीन संस्थान और तीन संहननके स्थानमे पाँच संस्थान और पाँच संहनन कइने चाहिए ।

१७४. हास्य प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुल्लघु उपघात, स्यावर आदि चार, स्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार रति की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । दो आयुओंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नारकियोंके समान है ।

१७५. द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रियजातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

१७६. चार संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । दो वेद और

१. आ० प्रतौ चोलक० भयदु० इति पाठः । २. आ० प्रतौ दोआणु० इति पाठः ।  
३. वा० प्रतौ यवदंसणा० मिच्छ० इति पाठः ।

गुणहीर्णं० । गाम० सत्याणभंगो । णवरि णग्गोद०-सादि० उक्कस्सं वंधंतो दोवेद० सिया० अणंतगुणहीर्णं० । खुज्ज०-वामण० णवुंसं० णि० अणंतगुणहीर्णं० । एवं चदु-संधं० । असंपत्तं० वेईदियभंगो' ।

१७७. अप्पसत्थं०-दुस्सरं० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छं०-सोलसक०-णवुंसं०-भय-दु०-णीचा०-पंचंतं० णि० अणंतगुणहीर्णं० । सादासाद०-चदुणोक्कं० सिया० अणंतगुणहीर्णं० । गाम० सत्याणभंगो । आदाउज्जो० पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवं सव्वअपज्जत्त-सव्वविगल्लिदियाणं पुह०-आउ०-वणप्फदिपत्तेय-णियोदाणं च । तेउ०-वाउणं पि तं चेव । णवरि मणुसायु०-मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० वज्जं ।

१७८. मणुसेसु खविगाणं ओघं । सेस पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ।

१७९. देवेसु आभिणिवो० उ० वं० चदुणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छं०-सोलसक०-पंचणोक्कं०-तिरिक्ख०-हुंडं०-अप्पसत्थं०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादि-

चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इतनी विशेषता है कि न्यप्रोधपरिमण्डल संस्थान और स्वाति संस्थानके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो वेदका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तथा कुञ्जक संस्थान और वामन संस्थानके उत्कृष्ट अनुभाग का बन्ध करनेवाला जीव नपुंसकवेदका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार चार संहननोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। असम्प्राप्तास्पदािकसंहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष द्वीन्द्रियजातिके समान है ।

१७७. अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और चार नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । आतप और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । इसी प्रकार अर्थात् पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पति प्रत्येक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भी यही सन्निकर्ष है । इतनी विशेषता है कि इनके मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

१७८. मनुष्योंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्योके जानना चाहिए ।

१७९. देवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र

१. आ० प्रती चदुसंधं० अप्पसत्थं० वेईदियभंगो इति पाठः । २. आ० प्रती सोलसक० भयदु० इति पाठः ।

पंच.णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० । एइंदि०-असंप०-अप्पसत्थवि०-थावर०-दुस्सर०  
सिया०।तं तु०। पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० अणंतगुणहीणं०।  
ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर--पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० अणंत-  
गुणहीणं० । एवं तं तु० पदिदाणं । साददंडओ इत्थि०-पुरिस० णिरयोधभंगो ।

१८०. हस्स० उ० ओघं । णवरि दोगदि-दोजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-  
पंचसंघ०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पत्थवि०-तस०-थावर०-दुस्सर०सिया० अणंतगुण-  
हीणं० । इत्थि०-णवुंस० सिया० अणंतगुणहीणं० । रदि० णि० । तं तु० । एवं रदीए० ।  
एइंदि०-थावर० ओघं । चहुसंठा०-चहुसंघ० ओघं ।

१८१. असंप० उ० वं० हेट्टा उवरि तिरिक्खभंगो । णाम० सत्थाणभंगो । सेसं  
णिरयभंगो ।

१८२. भवण०-वाणवें०-जोदिसि०-सोधस्मी० आभिणिवोधि० उ० वं० चहुणा०-

और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है  
और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह  
ब्रह्म स्थान पतित हानिरूप होता है । एकेन्द्रियजाति, असम्प्राप्तात्पटिकासंहनन, अप्रशस्त  
विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभाग  
का भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका  
बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,  
आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है ।  
औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त यर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त,  
प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी  
प्रकार तं तु०-पतित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सातावेदनीय दण्डक, स्त्रीवेद  
और पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य नारकियोंके समान है ।

१८०. हास्य प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग ओघके समान है ।  
इतनी विशेषता है कि दोगति, दो जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन,  
दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित्  
बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका कदाचित् बन्ध  
करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होगा है । रत्तिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह  
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट  
अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार रत्तिकी  
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । एकेन्द्रियजाति और स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके  
समान है । चार संस्थान और चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

१८१. असम्प्राप्तात्पटिकासंहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे  
पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके  
समान है । शेष भङ्ग नारकियोंके समान है ।

१८२. भवणवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमें आभिनि-  
वोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव-चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,

णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०--सोलसक०-पंचणोक०--तिरिक्त्व०-एइंदि०-हुंड०-अप्प-  
सत्य०४-तिरिक्त्वाणु० -उप०-यावर० - अधिरादिपंच० - णीचा०-पंचंत० । तं तु० ।  
ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्य०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णिय० अणंत०-  
हीणं० । आदाउज्जो० सिया० अणंत०हीणं० । एवमेदाओ तं तु० पदिदाओ ऐक्क-  
मेक्कस्स । तं तु० ।

१२३. असंप० उ० वं० हेहा उवरिं तिरिक्त्वगदिभंगो । णवरिं णि० अणंतगुण-  
हीणं० । [ णाम० सत्याणभंगो । णवरिं ] अप्पस०-दुस्सर० णिय० । तं तु० । सेसं देवोषं ।

१२४. सणवकुमार याव सहस्सार त्ति पढमपुहविभंगो । आणद याव णवगेवजा  
त्ति आभिणिवो० उ० वं० चटुणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-  
हुंड०-असंप०-अप्पसत्य०४-उप०-अप्पसत्यवि०-अधिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० णि० ।  
तं तु० । मणुस०-पंचिदि०-तिणिसरीर-ओरालिअंगो०-पसत्य०४-मणुसाणु०-अगु०३-  
पसत्यवि०-त्तस०४-णिमि० णि० अणंतगुणही० । एवमेदाओ ऐक्कमेक्कस्स तं तु० ।

असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तियंछगति, एरेन्द्रिय जाति, हुण्ड-  
संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्यात्, अस्थिर आदि पाँच, नीच-  
गोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उच्छृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता  
है और अनुच्छृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुच्छृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह  
छह स्थान पतित हानिरूप होता है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेशशरीर, प्रशस्त वर्ण-  
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुच्छृष्ट  
अनन्तगुणा हीन होता है । आतप और उद्योतका कदाचिन् बन्ध करता है जो अनुच्छृष्ट अनन्त-  
गुणा हीन होता है । इसी प्रकार यहाँ जितनी तं तु० पतित प्रकृतियाँ हैं, उनकी मुख्यतासे परस्पर  
उसी प्रकार सन्निकर्ष जानना चाहिये, जिस प्रकार आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहा है ।

१२३. असन्नाप्राप्तपाटिका संहनने उच्छृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले वीचके नामकर्मसे  
पूर्वकी और आगेकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्जगतिके सनान है । इतनी विशेषता है कि नियमसे  
अनुच्छृष्ट अनन्तगुणा हीन बन्ध करता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है, किन्तु  
इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह  
उच्छृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुच्छृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनु-  
च्छृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग सामान्य देवोंके समान है ।

१२४. सनकुमारसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें पहली पृथिवीके सनान भङ्ग है ।  
ज्ञानत कल्पसे लेकर नौ प्रैवेचक तकके देवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उच्छृष्ट अनुभागका  
बन्ध करनेवाला वीच चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय,  
पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, असन्नाप्राप्तपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त  
विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु  
वह उच्छृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुच्छृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि  
अनुच्छृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । मनुष्यगति,  
पञ्चेन्द्रिय जाति, तीन शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो

सेसं सहस्रारभंगो । णवरि मणुसगदि [२] ध्रुवं कादव्वं ।

१८५. अणुदिस याव सन्वद्ध ति आभिणिवो० उ० वं० चटुणा०-द्धदंसणा०-  
असादा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्य०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत णि० ।  
तं तु० । मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचटु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरि०-  
पसत्य०४-मणुसाणु०-अणु०३-पसत्यवि०-तस०४-सुभग०-सुस्सर०-आदे०-णिमि०-  
उच्चो० णि० अणंतगुणही० । तित्थ० सिया० अणंतगुणही० । एवं आभिणि०भंगो  
अप्पसत्थाणं सन्वारणं । सादादीणं आणदभंगो ।

१८६. एइदिएसु साद० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
पंचणोक०-अप्पसत्य०४-उप०-पंचंत णि० अणंत०हीणं० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-  
णीचा० सिया० अणंत०हीणं० । मणुस०-मणुसाणु०-उज्जो०-उच्चा० सिया० । तं तु० ।  
पंचिदियादिवंधगा णिय० वं० । तं तु० । एवं तं तु० पदिदाणं सन्वारणं । सेसाणं

अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार यहाँ तं तु० पतित जितनी प्रकृतियों हैं, उनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे जैसा कहा है, वैसा जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सहस्त्रार कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति द्विकको ध्रुव करना चाहिए ।

१८५. अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, वारह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार सब अप्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए । तथा सातादिककी मुख्यतासे सन्निकर्ष, आनत कल्पसे इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है, उस प्रकारका है ।

१८६. एकेन्द्रियोंमें सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति आदिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है,

१. ता० आ० प्रत्यो. षि० षि० उच्चा० इति पाठः ।



अप्यज्जत्तभंगो ।

१८७. पंचिदि० - तस०२-पंचमण० - पंचवचि० - काययोगी० ओघो । ओरालियका० मणुसभंगो । ओरालियमि०आभिणि०दंडओ'पंचि०तिरि०अपज्ज० पढमदंडओ । साददंडओ तिरिक्खोघो' । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-दोआउ०-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-चदुसंघ०-आदाउज्जो०-पसत्थवि०-दुस्सर० अपज्जत्तभंगो । मणुसग० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगु०ही० । दोवेदणी०-चदुणोक० सिया० अणंतगु०ही० । णाम० सत्थाणभंगो ।

१८८. वेउच्चियका०-वेउच्चियमि० देवोघं । उज्जोवं ओघं । आहार०-आहारमि० आभिणिवो० उ० वं० चदुणा०-उदंसणा०-असादावे०-चदुसंज०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-अशुभ०-अजस०-पंचंत० णि० । तं तु० । पसत्थाणं धुविगारणं णि० अणंतगुणही० ।

तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार तं तु० पतित जितनी प्रकृतियों हैं, उन सबकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जैसा मातावेदनीयकी मुख्यतासे कहा है, वैसा जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष अपर्याप्तक जीवोंके समान है । अर्थात् पहले जिस प्रकार अपर्याप्तक जीवोंके सन्निकर्ष कह आये हैं, उस प्रकार यहाँ शेष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१८७. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी और काययोगी जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है । औदारिक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें आभिनियोधिक ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डककी मुख्यतासे सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके प्रथम दण्डकके समान है । सातावेदनीयदण्डककी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, दो आशु, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, आतप, उद्योत, प्रशस्त विद्यायोगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष अपर्याप्तकोंके समान है । मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, खोलह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । दो वेदनीय और चार नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

१८८. वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । उद्योत प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आभिनियोधिकज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार संव्लन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्षचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । प्रशस्त भ्रुव प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है ।

१. ता० आ० प्रत्योः ओरालियमि० आभिणिवो० उ० वं०, एवं आमिण्दिदंडओ इति पाठः ।  
२. आ० प्रतौ -दंडओ तिरिक्खोघो इति पाठः ।

१८६. सादा० उ० वं० अप्ससत्याणं णि० अणंतगु० । देवगदिपसत्यद्वावीसं उच्चा० णि० । तं तु० । तित्यकरं सिया० । तं तु० । एवं पसत्याणं ऐकमेकस्स तं तु० ।

१९०. हस्स० उ० वं० धुवियाणं अप्ससत्याणं असाद०-अधिर-असुभ-अजस० णि० अणंतगु०ही० । सेसाणं पि णि० अणंतगुण०ही० । रदि० णि० । तं तु० । एवं रदीए० ।

१९१. कम्मइगका० आभिणिचो० उ० वं० चटुणा०-णवर्दसणा०-असादा०-मिच्छ० - सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्ख० - हुंड०-अप्ससत्यं०४-तिरिक्खाणु० - उप०-अधिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० । एइंदि०-असंप०-अप्ससत्यवि०-थाव-रादि०४-हुस्सर० सिया० । तं तु० । पंचि०-ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-आदा-उज्जो०-तस०४ सिया० अणंतगु०ही० । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्यं०४-अगु०-

१८६. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव अप्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । देवगति आदि प्रशस्त अद्वाइस प्रकृतियों और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार प्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष कहना चाहिए जो सातावेदनीयकी मुख्यतासे नैसा कहा है, उसी प्रकार है ।

१९०. हास्य प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों, असातावेदनीय, अस्थिर, अनुभ और अयशःक्रीलिका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । शेष प्रकृतियोंका भी नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । रतिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार अर्थात् हास्यके समान रतिकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

१९१. कर्मण्यकाययोगी जीवोंमें आभिनित्तोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, दृष्वहसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । एकेन्द्रिय जाति, असन्नामास्तपादिकासंहनन, अप्रशस्त विद्यायोगति, स्थावर आदि चार और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और प्रसवतुष्कका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । औदारिक

णिमि० णि० अणंतगु०ही० । एवं तं तु० पदिदाओ सव्वाओ ।

१६२. साद० उ० वं० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-अप्पसत्थ०४-उप०-  
पंचंत० णि० अणंत०ही० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-तित्थय०  
सिया० तं तु० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचट्टु०-पसत्थ०४-अणु०३-पसत्थ०-तस०४-  
थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा० णि० । तं तु० । एवं तं तु० पदिदाओ सव्वाओ । इत्थि०-  
पुरिस०-हस्सरदि-तिण्णिजादि-चट्टुसंठा०-चट्टुसंघ० ओथो ।

१६३. इत्थिवेदेसु आभिणियो० उ० वं० चट्टुणा०-णवदंसणा०-असादा०-  
मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत०  
णि० । तं तु० । णिरयग०-तिरिक्ख०-एइदि०-दोआणु०-अप्पसत्थवि०-थावर-दुस्सर०  
सिया० तं तु० । पंचि०-दोसरीर-वेउन्वि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० सिया० अणंतगु०-

शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। इसी प्रकार तं तु० पतित जितनी प्रकृतियाँ हैं, उनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष आभिनिवोधिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जानना चाहिए।

१६२. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। दो गति, दो शरीर, दो आज्ञोपाद्म, बज्रर्षभ-नाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कर्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरु-लघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुरूप अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार तं तु० पतित सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान और चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है।

१६३. स्त्रीवेदी जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चार, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। नरकगति, तीर्थङ्करगति, एकेन्द्रिय जाति, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह

१. ता० आ० प्रस्यो. दोआणु० दुवि० अप्पसत्थवि० इति पाठः । २ आ० प्रतौ सिया० पचि० इति पाठः ।

ही० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० णि० अणंत०ही० । एवं तं तु० पदिदाणं अण्णमण्णस्स । तं तु० । इत्थि०--पुरिस०-हस्स-रदि--चहुआउ०-मणुसगदिपंच०--सादादिखविगाणं तिण्णिजादि-चदुसंठा०-चदुसंघ०-सुहुम०--अपज्ज०-साहा० ओघं ।

१६४. णिरय० उक्क० वं० ओघं । एवं णिरयाणु०--अप्पसत्थवि०-दुस्सर० । तिरिक्ख० उ० वं० हेट्ठा उवरिं एइंदियसंजुत्ताओ सोधम्मपढमदंडओ ।

१६५. असप० उ० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०--मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्ख०३-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-ओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-तस०-वादर-पत्ते०--अथिरादिपंच०--णिमि० णीचा० पंचंत० णि० अणंत-गुणही० । पंचि०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थवि०-पज्जत्तापज्ज० सिया० अणंतगु०-ही० । वेइं० सिया० । तं तु० ।

ब्रह्म स्थान पतित हानिरूप होता है । पञ्चोन्द्रिय जाति, दो शरीर, वैकिक्रियक आज्ञोपाङ्ग, आतप, उद्योत और त्रसका कदाचित् वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्ण चार, अगुरुल्लघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार तं तु० पतित जितनी प्रकृतियों हैं, उनकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जिस प्रकार आभिनियोगिक ज्ञानावरणकी मुख्यतासे कहा है, उस प्रकार जानना चाहिए । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार आयु, मनुष्यगति पञ्चक, सातावेदनीय आदि क्षपक प्रकृतियों, तीन जाति, चार संस्थान, चार संहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

१६४. नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष ओघके समान है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी एकेन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सौधर्मकल्पके प्रथम दण्डके समान है ।

१६५. असम्प्राप्तासृपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति-त्रिक, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, हुण्डसस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुल्लघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । पञ्चोन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त और अपर्याप्तका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । द्वीन्द्रियजातिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह ब्रह्म स्थान पतित हानिरूप होता है ।

१६६. पुरिसेसु ओघो । णवर उज्जोवं देवोघं ।

१६७. णवुंसं आभिणिवो० उ० वं० चटुणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचपोक०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अप्पसत्थवि०-अथिरादिद्व०-णीचा०-पंचंत० णि० । तं तु० । दोगदि-असंप०-दोआणु० सिया० । तं तु० । पंचि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०३-तस०४-णिमि० णियमा अणंतणु० । दोसरीर-दोअंगो०-उज्जो० सिया० अणंत०ही० । णिरयग० ओघं ।

१६८. तिरिक्ख० उ० वं० असंपत्त०-तिरिक्खाणु०-अप्पसत्थवि०-दुस्सर० णि० । तं तु० । पंचि०-ओरालि०अंगो०-तस०४ णि० अणंत०ही० ।

१६९. एइंदि० उ० वं० थावरादि०४ णि० । तं तु० । एवं थावरादि०४ । संसं ओघं ।

२००. अवगदवे० आभिणिवो० उ० वं० चटुणा०-चटुदंसणा०-चटुसंजै०-

१६६. पुरुषवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है।

१६७. नपुंसकवेदी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। दो गति, असम्प्राप्ताष्टपाटिका संहनन और दो आनुपूर्विका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रस्तुलाघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। दो शरीर, दो आज्ञोपाद्म और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। नरकगतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है।

१६८. तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव असम्प्राप्ताष्टपाटिका संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आज्ञोपाद्म और त्रसचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणाहीन होता है।

१६९. एकेन्द्रियजातिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव स्थावर आदि चारका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष भङ्ग ओघके समान है।

२००. अपगतवेदी जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला

१. आ० प्रती चटुणा० चटुसन्न० इति पाठः ।

पंचत० णि० उक्क० । साद०-जस०-उच्चा० णि० अणंतगु०ही० । एवं अप्पसत्थाणं । साद०-जस०-उच्चा० ओघो । एवं सुहुमसंप० । कोधादि०४ ओघो । णवरि साद०-जस०-उच्चा० उ० वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचत० णि० अणंतगु० । माणे तिण्णिंसंजल० णि० अणंतगु०ही० । मायाए दोसंज० णि० अणंतगु०ही० । लोभे ओघं ।

२०१. मदि०-सुद० आभिणि०दंडओ ओघो । साददंडओ ओघो । णवरि पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणांक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचत० णि० अणंतगु० । देवगदिसंजुत्ताओ याव जस०-उच्चा०गोद ति णि० । तं तु० । सेसं ओघं । एवं विभंगे ।

२०२. आभिणि०-सुद०-ओधि० आभिणि० उ० वं० चदुणा०-द्धदंसणा० [ असाद०-वारसक०-पुरिसवे०-अरदि०-सोग-भय-दु०-अप्पसत्थ०४- ] उप०-अधिर<sup>१</sup>-असुभ-अजस०-पंचत० णि० । तं तु० । दोगदि-दोसररी-दोअंगो-वज्जरि०-

जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका नियमसे उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार अप्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवके जानना चाहिए । क्रोध आदि चार कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । मानमें तीन संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । मायामें दो संज्वलनका नियमसे बन्ध होता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । लोभमें ओघके समान भङ्ग है ।

२०१. मरुज्ज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरण दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यह पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । देवगदिसंयुक्त प्रकृतियोंसे लेकर यशःकीर्ति और उच्चगोत्र तककी प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । शेष भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अर्यान् मल्यज्ञानी जीवोंके समान विभङ्गज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए ।

२०२. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, असुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-

१. ता० प्रती एवं विभगे आमिणि० उ० वं० चदुणा० छुदंस० उप० .. अथि० इति पाठ ।

दोआणु०--तित्थ० सिया० अणंतगु०ही० । पंचि०-तेजा०-क०--समचदु०-पसत्थ०४-  
अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-सुभर्ग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा० णि० अणंतगु०ही० ।  
एवं अप्पसत्थाणं उक्कससंकिह्लाहाणं ।

२०३. हस्स० उक्क० वं० पंचणा०-द्धंसणा०-असादा०-वारसक०-पुरिस०-भय-  
दु०-पंचिदि०--तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-  
अथिर-असुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगु० ।  
रदि० णि० । तं तु० । दोगदि-दोसररीर-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-तित्थ० सिया०  
अणंतगु०ही० । एवं रदीए० ।

२०४. मणुसाउ० देवोर्धं । सादादीणं खविगाणं देवाउ० मणुसगदिपंचगस्स य  
ओघो । एवं आभिणि०भंगो ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम० । मणपज्ज०  
आभिणि०भंगो । णवरि असंजदपगदीओ वज्ज । एवं संजद-सामाइय-च्छेदो०-परिहार० ।  
संजदासंज० आभिणि०दंडओ साददंडओ ओधि०भंगो । णवरि संजदासंजदपगदीओ

नाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्करका कदाचिन् वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा  
हीन होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अगुरुलघुचक्र, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और उवगोत्रका  
नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । उत्कृष्ट संक्लेशसे उत्कृष्ट बन्धको  
प्राप्त होनेवाली अप्रशस्त प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए ।

२०३. हास्यके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण,  
असातावेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस शरीर, कामणशरीर,  
समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायो-  
गति, त्रसचतुष्क, अस्थिर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उवगोत्र और  
पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । रतिका नियमसे  
वन्ध करता है । किन्तु उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध  
करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है ।  
दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वन्नर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्करका कदाचिन्  
वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए ।

२०४. मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । सातावेदनीय आदि  
क्षपक प्रकृतियों, देवायु और मनुष्यगतिपञ्चकरी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओषके समान है । इसी  
प्रकार आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदग-  
सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंका भद्र आभिनि-  
बोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि असंयतोंके बंधनेवाली प्रकृतियोंको छोड़कर  
यह सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासयत और परिहार-  
विशुद्धिसंयत जीवोंके कहना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरण दृषडक और  
सातावेदनीय दृषडक अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि संयतासयत प्रकृतियोंको

धुविगाओ कादव्वाओ । सेसं ओघो । असंजदेसु मदि० भंगो । णवरि असंजदसम्मादिट्ठि-  
पगदीओ णादव्वाओ । चक्खु०-अचक्खु० ओघभंगो ।

२०५. किण्णाए आभिणि०दंडओ णवुंसगभंगो । साददंडओ णिरयभंगो ।  
चहुआउ० ओघं । णवरि देवाउ० उ० वं० पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-वारसक०-  
पंचणोक०-देवगदिअट्ठावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणही० । तित्थ० सिया०  
अणंतगु० । अथवा मिच्छादिट्ठी यदि करेदि तो मिच्छादिट्ठिपगदीओ सम्मादिट्ठि-  
पगदीओ विं णादव्वाओ ।

२०६. देवगदि० उ० वं० पंचणा०-छदंस०-साद०-वारसक०-पंचणोक०-पंचिंदि-  
यादिपसत्थाओ-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगु० ही० । वेउच्चि०-वेउच्चि० अंगो०-  
देवाणुपुच्चि० णि० । तं तु० । तित्थ० सिया० । तं तु० । एव देवगदिभंगो वेउच्चि०-  
वेउच्चि० अंगो०-देवाणु०-तित्थ० । तिरिक्ख०-एइंदि० णवुंसगभंगो । सेसं ओघं ।

२०७. णील-काऊणं आभिणि०दंडओ साददंडओ णिरयभंगो । इत्थि०-पुरिस०-

ध्रुव करना चाहिए । शेष भङ्ग ओषके समान है । असंयत जीवोंमें मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग  
है । इतनी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियों जाननी चाहिए । चक्षुदर्शनी और  
अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

२०५. कृष्णलेह्यामें अभिनिवोधिकज्ञानावरण दण्डक नपुंसकोंके समान जानना चाहिए ।  
सातावेदनीय दण्डक नारकियोंके समान जानना चाहिए । चार आयुओंका भङ्ग ओषके समान है ।  
इतनी विशेषता है कि देवायुके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह  
दर्शनावरण, सातावेदनीय, चारह कषाय, पाँच नोकषाय, देवगति आदि अट्ठाईस प्रकृतियों, उच्च-  
गोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तीर्थ-  
ङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । अथवा मिथ्यादृष्टि  
यदि करता है तो मिथ्यादृष्टि प्रकृतियों और सम्यग्दृष्टि प्रकृतियों भी जाननी चाहिए ।

२०६. देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-  
वरण, सातावेदनीय, चारह कषाय, पाँच नोकषाय पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियों,  
निर्माण, उच्चगोत्र, और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन  
होता है । वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वका नियमसे वन्ध करता है ।  
किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है ।  
यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । तीर्थङ्कर  
प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है  
और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह  
स्थान पतित हानिरूप होता है । इसी प्रकार देवगतिके समान वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाङ्ग,  
देवगत्यानुपूर्व और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तीर्थङ्कगति और  
एकेन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नपुंसक जीवोंके समान है । शेष भङ्ग ओषके समान है ।

२०७. नील और कापोतलेह्यामें अभिनिवोधिक ज्ञानावरण दण्डक और सातावेदनीय

१. आ० प्रतौ मिच्छादिट्ठिपगदीओ वि इति पाठः । २. आ० प्रतौ अर्थं तगु० ही० । वेउच्चि०  
अंगो इति पाठः ।



हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंध०-उज्जो० गिरयभंगो । चदुआउ० ओघं । णवरि देवाउ० उ० वं० पंचणा०-उदंसणा०-साद०-वारसक०-पंचणोक०-देवगदिआहावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणही० । तित्थ० सिया० अणंतगुणही० । अथवा पुण मिच्छा-दिद्विस्स पि होदि तदो णादव्वा विभासा । गिरयगदि० उ० वं० गिरयाणु० णि० । तं तु० । सेसाओ णि० अणंतगु० । एवं गिरयाणु० । देवगदि०-तित्थय० किण्ण०-भंगो । चदुजादि-आदाव-थावरादि०-उंसंगभंगो । उज्जोवं पढमपुढविभंगो । काऊए तित्थ० गिरयभंगो ।

२०८. तेऊए आभिणि०दंडओ सोधम्मभंगो । साददंडओ परिहार०भंगो । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-दोआउ०-चदुसंठा०-पंचसंध० सोधम्मभंगो । देवाउ० ओघो । मणुसगदिपंचगं ओघं । एवं पम्माए वि । णवरि अप्पसत्थाणं सहस्सारभंगो णादव्वो । मुक्काए आभिणि०दंडओ इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसाउ०-चदुसंठा०-चदुसंध० आणदभंगो । सेसं ओघं ।

२०९. भवसि० ओघं । अबभवसि० आभिणि०दंडओ ओघं । साद० उ० वं० पंचणा०- णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०-उप०-पंचंत० णि०

दण्डकका भङ्ग नारकियोंके समान है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार, संस्थान, चार संहनन और उद्योतका भङ्ग नारकियोंके समान है । चार आयुका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि देवायुके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, बारह कपाय, पौंच नोकपाय, देवगति आदि अष्टाईस प्रकृतियों, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । अथवा यदि मिथ्यादृष्टिके भी होता है तो विकल्प जानना चाहिए । नरकगतिके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । शेष प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । देवगति चतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कृष्णलेश्याके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नपुंसक जीवोंके समान है । उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष पहली पृथिवीके समान है । कापोत्तलेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष नारकियोंके समान है ।

२०८. पीत लेश्यामें आभिनियोधिक ज्ञानावरण दण्डकका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, दो आयु, चार संस्थान और पौंच संहननका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । देवायुका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्यगति पञ्चकका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्रार कल्पके समान है । शुक्ललेश्यामें आभिनियोधिकज्ञानावरणदण्डक, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, मनुष्यायु, चार संस्थान और चार संहननका भङ्ग आनत कल्पके समान है । शेष भङ्ग ओषके समान है ।

२०९. अब्य जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । अभव्य जीवोंमें आभिनियोधिक ज्ञानावरण दण्डक ओषके समान है । सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण

अर्णतगु० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० अर्णतगु० । मणुसगदिपंचग-  
देवगदि०-उज्जो'०-उच्चा० सिया० । तं तु० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ० [४-]  
अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि० णिय० । तं तु० । एवं उच्चागोदं पि ।  
णवरि तिरिक्खसंजुत्तं वज्ज ।

२१०. मणुस-देवगदि० उ० वं० पसत्थाणं णि० । तं तु० । अप्पसत्थाणं अर्णत-  
गु०ही० । एवं मणुसाणु०-देवगदि०४ ।

२११. ओरालि० उ० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० अर्णतगु० ।  
मणुसग०-मणुसाणु०-उज्जो० सिया० । तं तु० । सेसं मणुसगदिभंगो । एवं ओरालि०-  
अंगो०-वज्जरि० । एवं उज्जो० । सेसं ओघो ।

२१२. सासणे आभिणि० उ० वं० चटुणा०-णवदंसणा०-असादा०-सोलसक०-

नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है। मनुष्यगतिपञ्चक, देवगति चतुष्क, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। इसी प्रकार उच्चगोत्रकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतिसंयुक्त प्रकृतियोंको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

२१०. मनुष्यगति और देवगतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है। अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट अनन्तगुणहीन बन्ध करता है। इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगतिचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२११. औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च-  
गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है।  
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनु-  
भागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनु-  
भागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित हानिरूप होता है। शेष भङ्ग मनुष्यगतिके समान  
है। इसी प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वक्षर्षमनापाच संदनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना  
चाहिए। तथा इसी प्रकार उद्योत प्रकृतिकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष भङ्ग  
ओघके समान है।

२१२. सासादनसन्ध्यष्टि जीवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध

इत्थि०--अरदि--सोग-भय--दुगुं०--तिरिक्ख०--वामण०--खीलिय०--अप्पसत्थ०४--तिरि-  
क्खाणु०--उप०--अप्पसत्थवि०--अथिरादिद्ध०--णीचा०--पंचंत० णि० । तं तु० । पंचिदि०-  
ओरालि०-तेजा०--क०--ओरालि०अंगो०--पसत्थ०४--अगु०३--तस०४--णिमि० णी०  
अणंतगु०ही० । उज्जोवं सिया० अणंतगु० । एवं तं तु० पदिदाणं ।

२१३. साद० उ० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० अणंतगु० ।  
दोगदि-दोसरीर--दोअंगो०--वज्जरिस०-दोआणु०--उज्जो०-उच्चा० सिया० । तं तु० ।  
पंचणाणावरणादिअप्पसत्थाणं णिय० अणंतगु० । पंचिदियादिपसत्थाणं णि० ।  
तं तु० । इत्थि०-पुरिस०--हस्स-रदि--तिण्णिआउ-तिण्णिसंठा०-तिण्णिसंघ०-उज्जो०  
ओधं । सेसाणं कम्मणं हेट्ठा उवरिं सादभंगो । णाम० सत्थाणभंगो ।

२१४. सम्मामिच्छादिट्ठी० आभिणि०भंगो । मिच्छादिट्ठी० मदि०भंगो ।  
ओरालि० उ० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० अणंतगुणही० । मणुसगदि-

करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, सोलह कषाय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यङ्गगति, वामन संस्थान, कीलक संहनन, अप्रशस्त वर्षाचतुष्क, तिर्यङ्ग-  
गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विद्यायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका  
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका  
भी बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप  
होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्यशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,  
प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो  
अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा  
हीन होता है । इसी प्रकार तं तु०पतित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२१३. सातावेदनीयके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्यानु-  
पूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । दो गति,  
दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षमनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित्  
बन्ध करता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी  
बन्ध करता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता  
है । पाँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुत्कृष्ट अनन्तगुणा  
हीन होता है । पञ्चेन्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह  
उत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनु-  
त्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद,  
हास्य, रति, तीन आयु, तीन संस्थान, तीन संहनन और उद्योतका भङ्ग ओषके समान है ।  
शेष कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका  
भङ्ग सातावेदनीयके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

२१४. सन्धगिमध्यादृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । मिध्या-  
दृष्टि जीवोंमें मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । किन्तु औदारिक शरीरके उत्कृष्ट अनुभागका  
बन्ध करनेवाला जीव तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता

१. आ० प्रती तिरिक्खाणु० अणंतगु० इति पाठः । २ ता० आ० प्रत्यो वेगणं षामाणं हेट्ठा  
इति पाठः ।

उज्जोवं सिया० । तं तु० । ओरालि०अंगो०-वज्जरि० णि० । तं तु० । सेसाओ पसत्याओ णि० अणंतगु० । एवं ओरालिअंगो०-वज्जरि० ।

२१५. सण्णि० ओघं । असण्णी० तिरिक्खोघो । साददंओ मदि०भंगो । आहार० ओघं । अणाहार० कम्मइग०भंगो ।

एवं उकस्सं सम्मत्तं ।

२१६. जहण्णपरत्थाणसण्णिण्यासे पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० आभिणि० जह० अणुभागं बंधंतो चदुणा०-चदुदंस०-पंचंत० णि० वं० जहण्णा । साद०-जस०-उच्चा० णि० वं० णि० अजहण्णं अणंतगुणव्बहिंयं बंधदि । एवं चदुणा०-चदुदंस०-पंचंत० ।

२१७. णिइणिइए जहण्णं वं० पंचणा०-उदंसणा०-सादा०-वारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगु०--देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०अंगो०-पसत्यापसत्थ०-देवाणु०-अगु०-पसत्थवि०--तस०-थि-रिआदिइ०-णिमि०-उच्चा०-

हैं जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । मनुष्यगति और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह उकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहननका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह उकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है और अनुकृष्ट अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित हानिरूप होता है । शेष प्रशस्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अनुकृष्ट अनन्तगुणा हीन होता है । इसी प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२१५. संज्ञियोंमें ओघके समान भङ्ग है । असंज्ञियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयदण्डक मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उकृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

२१६ जघन्य परस्थान सन्निकर्षका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागका नियमसे बन्ध करता है । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२१७. निद्रानिद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्लघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, अस-चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो

१. ता० प्रतौ उज्जोवं तं तु० इति पाठः । २ आ० प्रतौ णिमि० णि० उच्चा० इति पाठः ।

पंचत०-णि०वं० णि० अज० अणंतगु० । पचलापचला-धीणगिद्धि०-मिच्छ०-अणंताणु०४  
णि० । तं तु० । छद्वाणपदिदं वं० अणंतभागबन्धियं वा ५ । एवं पचलापचला०-  
धीणगिद्धि०-मिच्छ०-अणंताणु०४ ।

२१८. णिहाए ज० वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-चदुसंज०-पंचणोक०-णामाणि  
णिहाणिहाए भंगो । उच्चा०-पंचंत० [णि०] अणंतगुणबन्ध० । पचला० णि० । तं तु०  
छद्वाणपदिदं० । आहारदुग-तित्य० सिया० अणंतगुणबन्ध० । एवं पचला० ।

२१९. साद० ज० वं० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-पसत्या-  
पसत्य०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० णिय० अणंतगुणबन्ध० । धीणगिद्धि३-  
मिच्छ०-वारसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-दोसरीर-दोअंगो०-तिरिक्खाणु०-  
पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस०४-तित्य०-णीचा० सिया० अणंतगुणबन्ध० । तिणिण-  
आउ-दोगदि-चदुजादि-उस्संठा०-उस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-थिरादिउयुग०-उच्चा०

नियमसे अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप बन्ध करता है । अर्थात् या तो अनन्तभागवृद्धिरूप या असंख्यात-भागवृद्धिरूप, संख्यातभागवृद्धिरूप, संख्यातगुणवृद्धिरूप, असंख्यातगुणवृद्धिरूप या अनन्तगुण-वृद्धिरूप बन्ध करता है । इसी प्रकार प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व, और अनन्तानुबन्धी चार की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२१८. निद्राके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संव्वलन, पाँच नोकषाय और नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है । उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । प्रचलाका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है तो और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । आहारकट्टिक और तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार प्रचलाप्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२१९. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संव्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्षचतुष्क, अप्र-शस्त वर्षचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, वारह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चन्द्रिय जाति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, तीर्थङ्कर और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । तीन आयु, दो गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार

सिया० । तं तु० । एवं असाद०-अथिर-अमुभ-अजस० । णवरि णिरयाणु-णिरयगदि-  
देवगदि-दोआणु० सिया० । तं तु० । देवाउ० वज्ज ।

२२०. अपञ्चक्खा० कोध० ज० वं० तिण्णि क० । तं तु० । सेसं णिहाए  
भंगो । णवरि अट्टकसायं भाणिद्वं<sup>१</sup> । एवं तिण्णं क० ।

२२१. पञ्चक्खाणकोध० ज० वं० तिण्णि क० णि० । तं तु० । सेसं णिहाए  
भंगो । एवं तिण्णिं क० ।

२२२. कोधसंज० ज० वं० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-तिण्णिसंज०-जसगि०-  
उच्चा०-पंचंत० णिअणंतगुणभ० । माणसंज० ज० वं० दोसंज० णि० अणंतगुणभ० । सेसं०  
कोधभंगो । मायसंज० ज० वं० लोभसंज० णि० अणंतगुणभ० । सेसं माणभंगो । लोभ-  
संज० ज० वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणभ० ।

२२३. इत्थि० ज० वं० पंचणा०-णवर्दंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-

असातावेदनीय, अस्थिर, अमुभ और अयराःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नरक्रायु, नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्विका कदाचिन् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । मात्र देवायुको छोड़कर इन असातावेदनीय आदिकी मुख्यतासे यह सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

२२०. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन कषायोंका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग निद्राके समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कषाय ऋत्नाना चाहिए । इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२२१. प्रत्याख्यानावरण क्रोधके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन कषायोंका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । शेष भङ्ग निद्राप्रकृतिके समान है । इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२२२. क्रोध संव्वलनके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, तीन संव्वलन, यराःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । मानसंव्वलनके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दो संव्वलनका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष भङ्ग क्रोध संव्वलनके समान है । मायासंव्वलनके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव लोभ संव्वलनका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष भङ्ग मान संव्वलनके समान है । लोभ संव्वलनके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यराःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है ।

२२३. लोभके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,

पंचिदि०-तेजा०-क्र०-पसत्यापसत्य०४-अणु०४-पसत्य०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-  
णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । सादासाद०-चदुणोफ०-तिण्णिगदि-दोसरर-  
तिण्णिसंठा०-दोअंगो०-तिण्णिसंघ०-तिण्णिआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-  
अजस०-णीचुच्चागो० सिया० अणंतगुणम्भ० । एवं णवुंस० । णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ०  
सिया० अणंतगुणम्भ० ।

२२४. पुरिस० ज० वं० क्रोधसंजलणभंगो । णवरि चदुसंज० णि० अणंतगुणम्भ० ।

२२५. हस्स० ज० वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-  
जस०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । रदि-भय-दु० णियमा । तं तु० । एवं रदि-  
भय-दु० ।

२२६. अरदि० ज० वं० पंचणा०-छदंसणा-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-  
दु०-देवगदि-पसत्यद्वावीस-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । तित्थ० सिया० अणंत-  
गुणम्भ० । सोग० णि० । तं तु० । एवं सोग० ।

मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण-  
चतुष्क, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर,  
आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक  
होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, तीन गति, दो शरीर, तीन संस्थान, दो  
आह्नोपाह्न, तीन संहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशः-  
कीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता  
है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच  
संस्थान और पाँच संहननका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है ।

२२४. पुरुषवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग क्रोध संव्वलनके समान  
है । इतनी विशेषता है कि चार संव्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा  
अधिक होता है ।

२२५. हास्यप्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार  
दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संव्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका  
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । रति, भय और जुगुप्साका  
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य  
अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान  
पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२२६. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण,  
सातावेदनीय, चार संव्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति आदि प्रशस्त अष्टादश प्रकृतियों,  
उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता  
है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शोकका  
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु-  
भागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित  
वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२२७. गिरयाड० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-  
पंचि०-वेडव्वि०-तेजा०-क०-वेडव्वि०-अंगो०-पसत्यापसत्य०४-अणु०४-तस०४-  
णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । असाद०-णिरय०-हुंड०-णिरयाणु०-  
अप्पसत्यवि०-अथिरादिछ० णि० । तं तु० । एवं गिरयगदि-णिरयाणु० ।

२२८. तिरिक्खाड० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-  
भय-दु०-तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्यापसत्य०४-अणु०३-उप०-णिमि०-  
णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । सादासा०-चदुजादि-असंप०-धावर-सुहुम-साधा२०  
सिया० । तं तु० । चदुणोक०-पंचि०-ओरालि०-अंगो०-तस०-वादर-पत्ते० सिया०  
अणंतगुणम्भ० । हुंड०-अपज्ज०-अथिरादिपंच० णि० । तं तु० । मणुसाड० ज० तिरि-  
क्खाड०-भंगो । णवरि मणुस०-हुंड०-असंप०-मणुसाणु०-अपज्ज०-अथिरादिपंच णि० ।  
तं तु० ।

२२७. नरकायुके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस-चतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्त-गुणा अधिक होता है। असातावेदनीय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और अस्थिर आदि छहका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२२८. तिर्यञ्चायुके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचक्रिक, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार जाति, असम्प्राप्तास्तुपाटिका संहनन, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका कदाचित् बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। चार नोकषाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, त्रस, वादर और प्रत्येकका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। हुण्ड संस्थान, अपर्याप्त और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। मनुष्यायुके जघन्य अनु-भागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तास्तुपाटिका संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अपर्याप्त और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका

१. आ० प्रतौ तस० षिमि० इति पाठः । २ आ० प्रतौ पत्ते० अणंतगुणम्भ० इति पाठः ।

३. आ० प्रतौ मणुसाड० उ० तिरिक्खभंगो इति पाठः ।



२२६. देवाउ० ज० वं पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०-  
पंचि०-वेव्वि०-तेजा०-क०-वेव्वि०-अंगो०-पसत्यापसत्य०४-अणु०४-तस०४-णिमि०-  
पंचंत० णिय० अणंतगुणम्भ० । सादा०--देवग०--समचटु०--देवाणु०--पसत्यवि०-  
थिरादिद्व०-उच्चा० णि० । तं तु० । इत्थि०-पुरिस० सिया० अणंतगुणम्भ० ।

२३०. तिरिक्ख० ज० वं० पंचणा०--णवदंस०--सादा०-मिच्छ०--सोलसक०-  
पंचणोक०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । णाम० सत्याणभंगो । णीचा० । तं तु० ।  
एवं तिरिक्खाणु०-णीचा० ।

२३१. मणुसं० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-  
पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । सादासाद०-मणुसाउ०-उस्संठा०-उस्संघ०-दोविहा०-  
अपज्ज०-थिरादिद्वयुग०-उच्चा० सिया० । तं तु० । सत्तणोक०-पर०-उस्सा०-पज्ज०-  
णीचा० सिया० अणंतगुणम्भ० । पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो-पसत्या-

भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धि-  
रूप होता है ।

२२६. देवायुके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,  
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण-  
शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अप्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस-  
चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक  
होता है । सातावेदनीय, देवगति, समचतुररूपसंस्थान, देवगत्यात्पूर्व, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर  
आदि छह और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता  
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो  
वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । खीवेद और पुरुषवेदका कदाचित् बन्ध करता है जो  
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है ।

२३०. तिर्यञ्चगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध  
करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान  
है । नीचगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और  
अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह  
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यात्पूर्व और नीचगोत्रकी मुख्यतासे  
सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२३१. मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो  
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यायु, छह संस्थान, छह  
संज्ञान, दो विहायोगति, अपर्याप्त, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता  
है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है ।  
यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात  
नोकषाय, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य  
अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,

पसत्थ०४-अगु०-उप०-तस०-वादर-पत्ते०-णिमि० णि० अणंतगुणब्भ० । मणुसाणु० णि० । तं तु० । एवं मणुसाणु० ।

२३२. देवगदि० ज० वं पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद०-देवाउ० सिया० । तं तु० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० अणंतगुणब्भ० । उच्चा० णि० । तं तु० । णाम० सत्याणभंगो । एवं देवाणु० ।

२३३. एइदि० ज० वं पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णुंस०-भय०-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद०-तिरिक्खाउ० सिया० । तं तु० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्याणभंगो । एवं वेइ०-तेइ०-चदुरि० हेट्टा उवरिं एइदियभंगो । णाम० सत्याणभंगो ।

औदारिकआज्ञोपाज्ञ, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अप्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगत्यानुपूर्विका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्यानुपूर्विकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२३२. देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और देवायुका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्विकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२३३. एकेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, और तिर्यञ्चायुका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति और चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष एकेन्द्रिय जातिके समान है तथा नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

१. ता० प्रतौ एवं मणुसाणु० । णि० त तु० एवं मणु० [एतच्चिन्हान्तर्गतः पाठोऽधिकः प्रतीयते ।] देवगदि०, आ० प्रतौ एवं मणुसाणु० णि० तं तु० एवं मणुस० देवगदि० इति पाठः । २. आ० प्रतौ सोलसक० यच्च स० भयदु० णीचा० पंचंत० इति पाठः ।

२३४. पंचिदि० ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-  
पंचणोक०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुण०भ० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं तस० ।

२३५. ओरालि० जं० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
पंचणोक०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुण०भ० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं  
उज्जो० ।

२३६. वेउच्चि० ज० बं० रेडा उवरिं पंचिदिय०भंगो । णाम० सत्थाणभंगो ।  
एवं वेउच्चि०अंगो० ।

२३७. आहार० ज० बं० पंचणा०-अदंस०-सादा०-चदुसंज०-पंचणोक०-देव-  
गदिपसत्थद्वावीसं-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुण०भ० । आहार०अंगो० णि० । तं तु० ।  
तित्थ० सिया० अणंतगुण०भ० । एवं आहारंगोवंग० ।

२३८. तेजाक० हेडा उवरिं पंचिदिय०भंगो । णाम० सत्थाणभंगो । एवं तेजग्ग-  
भंगो कम्मइ०-पसत्थवण्ण४-अगु०३-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० ।

२३४. पञ्चोन्द्रिय जातिके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार त्रस प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२३५. औदारिकशरीरके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२३६. वैक्रियिकशरीरके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोगा भङ्ग पञ्चोन्द्रिय जातिके समान है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२३७. आहारकशरीरके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकषाय, देवगति आदि प्रशस्त अट्टाईस प्रकृतियों, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। आहारक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अणुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार आहारक आङ्गोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२३८. तैजसशरीरके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चोन्द्रिय जातिके समान है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार तैजसशरीरके समान कार्यणशरीर, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलुप्तिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२३६. समचदु० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-  
पंचंत० णि० अणंतगुणवभ० । सादासाद०-उच्चा० सिया० । तं तु० । सत्तणोक्क०-  
दोआउ०-णीचा० सिया० अणंतगुणवभ० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं पसत्थवि०-  
सुभग-सुस्सर-आदें० ।

२४०. णग्गोद० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-  
पंचंत० णिय० अणंतगुणवभ० । सादासाद०-उच्चा० सिया० । तं तु० । सत्तणोक्क०-  
दोआउ०-णीचा० सिया० अणंतगुणवभ० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं णग्गोद०-भंगो  
तिण्णिणसंठा०-पंचसंघ० ।

२४१. हुंड० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-पंचंत०  
णि० अणंतगुणवभ० । दोवेदणी०-तिण्णिआउ०-उच्चा० सिया० । तं तु० । सत्तणोक्क०-  
णीचा० सिया० अणंतगुणवभहियं० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं हुंड०-भंगो दूभग-अणादें० ।

२३६. समचतुरस्र संस्थानके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शानावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, देवायु और उच्चगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है। यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकषाय, दो आयु और नीचगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

40981

२४०. न्यग्रोध संस्थानके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शानावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय और उच्चगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है। यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकषाय, दो आयु और नीचगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार न्यग्रोध संस्थानके समान तीन संस्थान और पाँच संहननकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४१. हुण्ड संस्थानके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शानावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। दो वेदनीय, तीन आयु और उच्चगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है। यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। सात नोकषाय और नीचगोत्र का कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है। इसी प्रकार हुण्ड संस्थानके समान दुर्भग और अनादेयकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२४२. ओरालि०अंगो ज० वं० हेद्वा उवरिं ओरालिय०भंगो । णाम० सत्थाणभंगो ।

२४३. असंप० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दुग्गु०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । दोवेदणी०-तिरिक्ख०-मणुसाउ०-उच्चा० सिया० । तं तु० । सत्तणोक०-णीचा० सिया० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो ।

२४४. आदाउज्जो० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो ।

२४५. अप्पसत्थवि० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दुग्गु०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद०-णिरयाउ०-उच्चा० सिया० । तं तु० । सत्तणोक०-दोआउ०-णीचा० सिया० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं दुस्सर० ।

२४६. सुहुम० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णुंस०-भय०-दुग्गु०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । सादासाद०-तिरिक्खाउ० सिया० । तं तु० ।

२४२. औदारिक आद्गोपाद्गके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका भंग औदारिकशरीरके समान है । तथा नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

२४३. असम्प्राप्तासृपाटिका संहननके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । दो वेदनीय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकषाय और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

२४४. आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

२४५. अप्रशस्त विहायोगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, नरकायु और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकषाय, दो आयु और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भंग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार दुःस्वर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२४६. सुहृत्के जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नष्टसकवेद, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और तिर्यञ्चायुका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अज-

चदुणोक० सिया० अणंतगुणम्भ० । गाम० सत्याणभंगो । एवं अपज्ज०-साधार० । णवरि  
अपज्जत्तो दोआउ० सिया० । तं तु० ।

२४७. थिर० ज० वं० पंचणा०-द्धदंस०-चदुसंज०-भय०-दु०-पंचंत० णि०  
अणंतगुणम्भ० । थीणगिद्धि०-३-मिच्छ०-वारसक०-सचणोक०-तिरिक्ख-मणुसाउ०-  
णीचा० सिया० अणंतगु० । सादासाद०-देवाउ०-उच्चा० सिया० । तं तु० । गाम०  
सत्याणभंगो । एवं सुभ-जस० ।

२४८. तित्थ० ज० वं० पंचणा०-द्धदंस०-असाद०-वारसक०-पुरिस०-अरदि-  
सोग-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । गाम० सत्याणभंगो ।

२४९. उच्चा० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-  
पंचि०-तेजा०-क०-पसत्यापसत्थ०-अगु०-४-तस०-४-णिमि०-पंचंत० णि० अणंत-  
गुणम्भरिह्यं । सादासाद०-देवाउ०-द्धसंठा०-द्धसंध०-दोगदि-दोआणु०-दोविहा०-

घन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । चार नोकषायका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अपर्याप्तके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दो आयुओंका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है ।

२४७. स्थिरके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संव्वलन, भय, जुगुप्सा और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व, वारह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चल्यु, मनुष्यायु और नीचगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, देवायु और उच्चगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार शुभ और यशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

२४८. तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

२४९. उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय जुगुप्सा, पञ्चन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, देवायु, छह संस्थान, छह संहनन, दो गति, दो आयुपूर्वी, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है तो

धिरादिद्वयुग० सिया० । तं तु० । सत्तणो०-मणुसाउ०-दोसररीर-दोअंगो० सिया०  
अणंतगुणबभहियं वंधदि ।

२५०. आदेशेण गिरएसु आभिणि० ज० वं० चटुणा०-द्धदंसणा०-चारस-  
क०-पंचणो०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० । तं तु० । साद०-मणुसग०-  
पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचटु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०-४-  
मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-धिरादिद्व०-णिमि०-उच्चा० णि० अणंत-  
गुणबभ० । तित्थ० सिया० अणंतगुणबभ० । एवं आभिणि०अंगो० तं तु० पदिदाणं  
सव्वाणं ।

२५१. गिहाणिहाए ज० वं० पंचणा०-द्धदंस०-साद०-चारसक०-पंचणो०-  
पंचि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचटु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थापसत्थ०४-  
अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-धिरादिद्व०-णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगु० । पचला-  
पचला०-थीणगिदि०-मिच्छ०-अणंताणु०४ णि० । तं तु० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-  
णीचा० सिया० । तं तु० । मणुस०-मणुसाणु०-उज्जो०-उच्चा० सिया० अणंतगुणबभ० ।

वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकषाय, मनुष्यायु, दो शरीर और दो आङ्गोपाङ्ग-  
का कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक अनुभागबन्ध करता है ।

२५०. आदेशसे नारकियोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध  
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्ण-  
चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका  
भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध  
करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति,  
औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामैणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, बर्षम-  
नाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,  
स्थिर आदिद्वय, निर्माण और चङ्गोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता  
है । तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार  
तं तुमत्तित सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके समान जानना चाहिए ।

२५१. निदानिद्वारे जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-  
वरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,  
कामैणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, बर्षमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण  
और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचारका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु  
वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि  
अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्गगति,  
तिर्थङ्गगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य  
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य  
अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्या-

एवं पचलापचला०-धीणगिद्धि०-मिच्छ०-अणंताणु०४ ।

२५२, साद० ज० वं० पंचणा०-द्वर्दसणा०-वारसक०-भय०-दु०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क० - ओरालि०-अंगो०-पसत्यापसत्य०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगुण० । धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-सत्तणो०-तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-तित्य०-णीचा० सिया० अणंतगुणम्भ० । दोआड०-मणुसग०-द्वस्तंठा०-द्वस्तंघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-थिरादिद्व०-उच्चा० सिया० । तं तु० । एवं सादभंगो असाद०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० ।

२५३, इत्थि० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पसत्यापसत्य०४-अगु०४-पसत्य०-तस०४-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । सदासाद०-चदु-णो०-दोगदि-तिणिसंठा०-तिणिसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०-दोमोद० सिया० अणंतगुणम्भ० । एवं णवुंस० । णवरि पंचसंठा०-पंचसंघ० सिया० अणंतगुणम्भ० ।

नुपूर्वा, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारकी मुख्यतासे जानना चाहिए ।

२५२. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। स्त्यानगृद्धिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्या-नुपूर्वा, उद्योत, तीर्थङ्कर और नीचगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। दो आयु, मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, दो विहायोगति, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रका कदाचित् वन्ध करता है। यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार सातावेदनीयके समान असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशः-कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५३. स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, दो गति, तीन संस्थान, तीन संहनन, दो आयुपूर्वा, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और दो गोत्रका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्त-गुणा अधिक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह पाँच संस्थान और पाँच संहननका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य



२५४. अरदि० ज० वं० पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-वारसक०-पुरिस०-भय-  
दु०-मणुसग०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-अंगो०-वज्जरी०-  
पसत्यापसत्य०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्यवि०-तस०४-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-  
आदे०-जसगि०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । तित्य० सिया० अणंत-  
गुणब्भ० । सोग० णि० । तं तु० । एवं सोग० ।

२५५. तिरिक्खाउ० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-  
दु०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पसत्यापसत्य०४-  
तिरिक्खाणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्भ० । सादा-  
साद०-इस्संठा०-इस्संघ०-दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० । तं तु० । सत्तणोक०-  
उज्जो० सिया० अणंतगुणब्भ० । एवं मणुसारु० । णवरि सत्तणोक०-णीचा० सिया०  
अणंतगुणब्भ० । सादादि याव उच्चा० सिया० । तं तु० । मणुस०-मणुसाणु०

अनन्तगुणा अधिक होता है ।

२५४. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चोन्द्रिय जाति, औदारिक-शरीर, तैजसशरीर, कार्मण्यशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रपैभनाराच-संहनन, प्रशस्त वर्षचतुष्क, अप्रशस्त वर्षचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःक्रीति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शोकका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५५. तिर्यञ्जायुके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्जगति, पञ्चोन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण्यशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्षचतुष्क, अप्रशस्त वर्षचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकपाय और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार मनुष्यायुकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सात नोकपाय और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीयसे लेकर उच्चगोत्र तककी प्रकृतियोंका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका

१. ता० प्रतौ० ज० वं० पं० ( १ ) पंचणा० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः मणुषाणु० इति पाठः ।

मणुसाड०भंगो० ।

२५६. पंचिदि० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दु०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्ध० । णाम० सत्याण-भंगो । एवं पंचिदियभंगो ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-उज्जो०-तस०४-णिमि० ।

२५७. समचदु० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-णि० अणंतगुणब्ध० । सादासाद०-दोआड०-उच्चा० सिया० । तं तु० । सत्तणो०-णीचा० सिया० अणंतगुणब्ध० । णाम० सत्याणभंगो । एवं समचदुर०भंगो पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोविहा०-सुभादितिणियुग० ।

२५८. तित्थ० ज० वं० पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-वारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणब्ध० । णाम० सत्याणभंगो ।

२५९. उच्चा० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय० दु०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्यापसत्थ०४-अगु०४-तस०४-

बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष मनुष्यायुके समान जानना चाहिए ।

२५६. पञ्चोन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार पञ्चोन्द्रिय जातिके समान औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण्यशरीर, औदारिक आङ्गीपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-त्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्मायकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५७. समचतुरस्रसंस्थानके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनु-भागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकषाय और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार सम-चतुरस्रसंस्थानके समान पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहायोगति और शुभादि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२५८. तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है ।

२५९. उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चोन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,

१. आ० प्रती पसत्यापसरथ० ५ तस० ४ इति पाठः ।

णिमि० णि० अणंतगुणम्भ० । सादासाद०--मणुसाउ०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा०-  
थिरादिछ्युग० सिया० । तं तु० । सत्तणोक्क० सिया० अणंतगुणम्भ० । मणुसगदि-  
मणुसाणु० णि० । तं तु० । एवं सत्तमाए पुढवीए । णवरि मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा०  
तित्थयरभंगो । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणु० ४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंच-  
संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० एदेसिं तिरिक्खगदी धुवं कादव्वं ।  
णवरि थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणु० ४ ज० वं० तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा०  
णि० । तं तु० । एवमेदाओ अण्णोणस्स तं तु० । णवरि साद० ज० वं० दोगदि-  
दोआणु०-उज्जो०-दोगो० सिया० अणंतगुणम्भ० । एवं असाद०-थिरादितिण्णियुगलणं ।  
छसु उवरिमासु णिरयोयो । णवरि तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०-णीचा० परियत्त-  
माणियाणं कादव्वं । थीणगिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणु० ४-इत्थि-णवुंसगाणं मणुसगदि-  
दुगं कादव्वं ।

कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्याणु, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकषायका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है । तथा स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्र इनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहते समय तिर्यङ्गतिको ध्रुव करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु वह स्थानगृद्धि तीन आदिकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान ही जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो आनुपूर्वी, उद्योत और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रको परिवर्तमान प्रकृतियोंमें करना चाहिए । तथा स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके मनुष्यगति द्विक करना चाहिए ।

२६०. तिरिक्खेसु आभिणि० ज० वं० चट्टुणा०-द्धदंस०-अहकसा०-पंचणोके०-  
अप्पसत्थ०-४-उप०-पंचंत० णिय० । तं तु० । साद०-देवग०पसत्थसत्तावीसं-उच्चा०  
णि० अणंतगुणभ० । एवं तं तु पदिदाओ अणमणस्स तं तु० । सेसं ओधं । णवरि  
अरदि० ज० वं० पंचणा०-द्धदंस०-अहक०-पुरिस०-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि अणंत-  
गुणभ० । सेसं णामाणं णाणावरणभंगो । एवं पंचिदिय०तिरि०३ । णवरि तिरिक्ख०-  
तिरिक्खाणु०-णीचा० परियत्तमाणियाणं कादव्वं तिरिक्खेसु० । णवरि पंचिदियजादीणं  
ओरालि०-ओरालि०अंगो०-उज्जो०-तिरिक्खगदिदुग० अप्पणो सत्याणं कादव्वं ।

२६१. पंचिदि०तिरि०अपज्ज० आभिणि० ज० वं० चट्टुणा०-णवदंसणा०-  
मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०-४-उप०-पंचंत० णि० । तं तु० । साद०-  
मणुस०-पंचिदि०-तिणिणसरिीर-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जि०-पसत्थ०-४-मणु-  
साणु०-अगु०३-पसत्थवि०-तस४-थिरादिदु०-णिमि०-उच्चा० णि० अणंतगुणभ० ।  
एवं तं तु० पदिदाओ अण्णोणं तं तु० ।

२६०. तिर्यञ्चोमें आभिनिवोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकषाय, अग्रशस्त, वर्णचतुष्क उपघात, और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सातावेदनीय, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियों और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार तं तु०मत्तित जितनी प्रकृतियों हैं, उनकी मुख्यतासे परस्पर आभिनिवोधिकज्ञानावरणकी मुख्यतासे जिस प्रकार सन्निकर्ष कहा है उस प्रकार जानना चाहिए । शेष भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष नामकर्मकी प्रकृतियोंका ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अर्थात् सामान्य तिर्यञ्चोके समान पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चोमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रको परिवर्तमान प्रकृतियोंमें करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियजाति आदिमें औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, उद्योत और तिर्यञ्चगतिद्विकका अपना-अपना स्वस्थान सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

२६१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें आभिनिवोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सातावेदनीय, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रवभेनाराच-संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक

२६२. साद० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०--क०--पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०--णिमि०--पंचंत० णि० अणंतगुणव्भ० । सत्तणोक०--ओरा०अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० सिया० अणंतगुणव्भ० । दो आउ०-दोगदि-पंचजादि-द्धस्संठा०-द्धस्संघं०-दोआणु०-दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग०-दोगो० सिया० । तं तु० । एवं सादभंगो असाद०-अथिर-असुभ०-अजस० ।

२६३. इत्थि० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थविं०तस०४-सुभग-सुस्वर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंत-गुणव्भ० । सादासाद०-चट्टुणोक०-तिणिसंठा०-तिणिसंघ०-थिरादितिणियुग० सिया अणंतगुणव्भ० । एवं णतुंस० । णवरिं पंचसंठा०-पंचसंघ० ।

२६४. अरदि० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-

होता है । इसी प्रकार तं तु०पतित जितनी प्रकृतियाँ हैं,उनकी मुख्यतासे परस्पर सन्निकर्ष अभिनि-  
बोधिकज्ञानावरणके समान जानना चाहिए ।

२६२. सातावेदनीयके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,  
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका  
नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सात नोकपाय, औदारिक  
आज्ञापाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य  
अनन्तगुणा अधिक होता है । दो आयु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह सहनन, दो  
आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल और दो गौत्रका कदाचित् बन्ध करता है ।  
किन्तु वह जघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अणुभागका भी बन्ध करता है ।  
यदि अजघन्य अणुभागका बन्ध करता है-तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार  
सातावेदनीयके समान असातावेदनीय, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
जानना चाहिए ।

२६३. स्त्रीवेदके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,  
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चोद्विजजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,  
कर्मणशरीर, औदारिक आज्ञापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगौत्र  
और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है ।  
सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, तीन संस्थान, तीन संहनन और स्थिर आदि तीन  
युगलका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार  
नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें पाँच संस्थान  
और पाँच संहनन कहने चाहिए ।

२६४. अरतिके जघन्य अणुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,

१. ता० प्रती पंचजादि० छ्दं० इति पाठः । २ ता० प्रती अगु० पसत्थापसत्थ० इति पाठः ।

०-दु०-मणुसं०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जि०-  
पसत्यापसत्य०४-मणुसाणु०-अणु०४-पसत्यवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-  
उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । सादासाद०-धिरादितिण्णियुग० सिया०  
अणंतगुणम्भ० । सोग० णि० । तं तु० । एवं सोग० । तिरिख०-मणुसाउ०-मणुसग०-  
मणुसाणु० ओघं ।

२६५. तिरिक्ख० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-  
पंचंत० णि० अणंतगुणम्भ० । सादासाद०-तिरिक्खाउ० सिया० । तं तु० । सत्त-  
णोक्क० सिया० अणंतगुणम्भ० । णीचा० णि० । तं तु० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं  
तिरिक्खाणु०-णीचा० । चदुजादि-खसंठा०-खसंघ०-दोविहा०-धिरादि०४ ओघं ।

२६६. पंचिदि० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-  
पंचंत० णियमा० अणंतगुणम्भ० । सादासाद०-दोआउ०-दोगोद० सिया० । तं तु० ।

मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आंगोपांग, चर्चरभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्षचतुष्क, अप्रशस्त वर्षचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शोकका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

२६५. तिर्यञ्चगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और तिर्यञ्चायुका कदाचित् बन्ध करता है जो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकपायका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नीचगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति और स्थिर आदि चार युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है ।

२६६. पञ्चेन्द्रिय जातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पौंच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा और पौंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह

सत्तणोक्क० सिया० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं पंचिंदियजादिभंगो तस०४ । थिरादिद्धयुग० हेद्दा उवरिं पंचिंदियभंगो । णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणभंगो ।

२६७. ओरालि० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक्क०-णीचा०-पंचंत० णिय० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो । एवं ओरालियभंगो तेजा०-क०-पसत्थव०४-अगु०-णिमि०-ओरालि०अंगो०-पर०-वस्सा० । आदाउज्जो० एवं चेव । सादासाद०-चट्टणोक्क०-सिया० अणंतगुणब्भ० । णाम० सत्थाणभंगो । उच्चा० ओघो । णवरिं पंचिंदिय० णि० । तंतु० । एवं सन्वअपज्जत्ताणं सन्वविगल्लिंदियाणं पुढ०-आउ०-वणप्फदि०-त्रादरपत्ते०-णियोदाणं च । तेऊणं [वाऊणं] पि एवं चेव । णवरिं मणुसगदिचट्टकवं वज्ज । तिरिक्खगदिपुत्रिगाणं सन्वाणं आभिणि०भंगो । एइंदिएसु अपज्जत्तभंगो । णवरिं तिरिक्खगदित्तिं तिरिक्खोघं ।

२६८. मणुस०३ खविगाणं संजमपाओग्गाणं ओघं । सेसाणं पंचिंदिय-तिरिक्खभंगो ।

छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सात नोकपायका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियजातिके समान त्रसत्तुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । स्थिर आदि छह युगलकी मुख्यतासे नामकर्मसे पूर्वकी और वादकी प्रकृतियोंका सन्निकर्ष पञ्चेन्द्रियजातिके समान है । तथा नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थान सन्निकर्षके समान जानना चाहिए ।

२६७. औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार औदारिकशरीरके समान तैजसशरीर, कार्माणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात और उच्छ्वासकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । आतप और उद्योतकी मुख्यतासे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि यह सातावेदनीय, असातावेदनीय, और चार नोकपायका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । उच्चगोत्रकी मुख्यतासे ओघके समान सन्निकर्ष है । इतनी विशेषता है कि यह पञ्चेन्द्रिय जातिका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार अर्थात् पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, वनस्पतिकायिक वादर प्रत्येक और निगोद जीवोंके जानना चाहिए । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति चतुष्कको छोड़कर जानना चाहिए । तथा तिर्यञ्चगति आदि सब ध्रुव प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानावरणके समान है । एकेन्द्रियोंमें अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

२६८. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियों और संयम प्रायोग्य प्रकृतियों इनका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।

२६६. देवेषु सत्तणं कम्मणं पढमपुदविभंगो । सादावे० ज० वं० दोगदि-  
एइदि०-इस्संठा०-इस्संय०-दोआणु०-दोविदा०-यावर-यिरादिद्वयुग०-दोगो० सिया० ।  
तं तु० । पंचि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-नस०-तित्य० सिया० अणंतगुणव्भ० ।  
सैसाणं णिरयभंगो । णामाणं तिरिक्खगदितिणं परियत्तमाणियाणं कादच्चं । एइदि०-  
आदाव-यावर० ओयं । पंचि०-ओरालि०अंगो०-तस० णिरयभंगो । णाम० सत्याणभंगो ।  
सेसं पढमपुदविभंगो ।

२७०. भवण०-वाणवे०-जोदिसि०-सोथम्भीसाणं सत्तणं कम्मणं देवोयं ।  
णामाणं हेट्ठा उवरिं देवोयं । णवरि णामाणं अप्पणो सत्याणभंगो । सणक्कुमार  
याव सहस्सार ति पढमपुदविभंगो । आणद याव णवरोवज्ज ति सत्तणं कम्मणं एवं  
चेव । णामाणं पि तं चेव । णवरि मणुस० ज० वं०-पंचणा०-णवटंस०-असाद०-मिच्छ०-  
सोलसक०-पंचणोक्क०-णीत्ता०-पंचंत० णि० अणंतगुणव्भ० । णामाणं सत्याणभंगो । एवं  
सव्वसंकिलिट्ठाणं ।

२७१. अणुदिस याव सव्वट्ठ ति आभिणि०दंडओ देवोयं । साद० ज० वं०-पंचणा०-

२६९. देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है । सातावेदनीयके जघन्य अनु-  
भागका दन्व करनेवाला जीव दो गति, एकेन्द्रियजाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी,  
दो गिहायोगति, स्यावर, स्थिर आदि छह युगल और दो गोत्रका कदाचिन् दन्व करता है । यदि  
दन्व करता है, तो जघन्य अनुभागका भी दन्व करना है और अजघन्य अनुभागका भी दन्व करता  
है । यदि अजघन्य अनुभागका दन्व करता है, तो छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । पञ्चेन्द्रिय-  
जाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप, उद्योत, व्रत और तीर्थङ्करका कदाचिन् दन्व करता है जो  
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । जोष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । किन्तु  
नामकर्मकी तिर्यञ्चगतित्रिकको परिवर्तमान करना चाहिए । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्यावरका  
भङ्ग ओवके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और व्रतप्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके  
समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । जोष भंग पहली  
पृथिवीके समान है ।

२७०. भवणवासी, व्यन्तर, ज्योतिर्नी और सौवर्ण-ऐशान कल्पके देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग  
सामान्य देवोंके समान है । नामकर्मके पहले और अन्तकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके  
समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग अपने-अपने स्वस्थानके समान है । सनकुमारसे  
लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है । आनत कल्पसे लेकर नौ प्रैव-  
यक तकके देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग इसी प्रकार है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग भी इसी प्रकार  
है । इदानी गिगेयता है कि मनुष्यगतिके उचन्य अनुभागका दन्व करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण,  
नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नीचगोत्र और पाँच  
अन्दरायका निरमसे दन्व करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नामकर्मकी  
प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार सर्व संकलेशसे जघन्य वैधनेवाली  
प्रकृतियोंके सम्बन्धमें जानना चाहिए ।

२७१. अनुदिससे लेकर सर्वसिद्धि तकके देवोंमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरण दण्डका

१. ता० आ० प्रयोः यद्वचदि इति पाठः । २. आ० प्रवौ पाठ उभार्यं हेहा इति पाठः ।



छद्दस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-मणुसगदि-पंचि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०-श्रंगो०-वज्जिरि०-पसस्थापसत्य०-४-मणुसाणु०-अगु०-४-पसत्यवि०-तस०-४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगुणभ० । चदुपोक०-तित्य० सिया० अणंतगुणभ० । मणुसाउ०-थिरादितिणियुग० सिया० । तं तु० । एवं सादभंगो असाद०-मणुसाउ०-थिरादितिणियुग० । अरदि-सोगं देवोघं ।

२७२. मणुसग० ज० वं० पंचणा०-छद्दस०-असादा०-वारसक०-पंचणो०-पंचंत० णि० अणंतगुणभ० । उच्चा० णि० । तं तु० । णाम० सत्याणभंगो० । एवं सन्वसंकिलिटाण भंगो उच्चा० ।

२७३. पंचिदि०-तस०-२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगी० ओघो । ओरालि० मणुसभंगो । णवरि तिरिक्ख०-३ मूलोघं । ओरालियमि० आभिणि०-दंडओ तिरिक्खोघं । णवरि वारसक० णि० । तं तु० । तित्य० सिया० अणंतगुणभ० । थीण-

भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रभ-नाराच संहनन, प्रशस्त बर्णचतुष्क, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । चार नोकषाय और तीर्थङ्करका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । मनुष्यायु और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार सातावेदनीयके समान असातावेदनीय, मनुष्यायु और स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अरति और शोकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है ।

२७२. मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्श-नावरण, असातावेदनीय, वारह कषाय, पाँच नोकषाय और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । उच्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इस प्रकार सर्व संकलेशसे जघन्य वन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके समान उच्चगोत्रकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२७३. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी और काययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्गरतित्रिकका भङ्ग मूलोघके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरण दण्डकका भङ्ग सामान्य तीर्थङ्गोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वारह कषायका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य

गिद्धि०३-अणंताणुबंध० देवोधं । सादासाद०-धिरादितिष्णियुग० ओघं । णवरि  
असाद० जह० बंधगस्स विसेसो । देवगदिपंचग० सिया० अणंतगुणब्ध० । इत्थि०-  
पुरिस०-दोआउ०-मणुसग०-पंचजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-द्वस्संडा०-ओरालि०-  
अंगो०-द्वस्संध०-पसत्थापसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-दोविहा०-तसा-  
दिदसयुग०-उच्चा० पंचिदियतिरिक्खभंगो । अरदि-सोणं देवोधं । णवरि देवगदिसंजुत्तं ।  
तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ओघं । देवगदिपंचगं तित्थयरभंगो ।

२७४. वेउच्चि० आभिणि०दंडओ धीणगिद्धिदंडओ च णिरयोघं । तिरिक्खायु-  
तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० णिरयोघं । सेसाणं पगदीणं देवांघं । णवरि इत्थि०-  
णणुंस० णिरयोघं । एवं वेउच्चियमि० ।

२७५. [आहार०-]आहारमि० आभिणि० ज० वं० चदुणा०-द्वदंसणा०-चहुसंज०-  
पंचपोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० । तं तु० । साद०-देवगदिआदिसत्तावीसं-  
उच्चा० णि० तित्थि० सिया० अणंतगुणब्ध० । एवमण्णोणं तं तु० । साद ज० वं०  
सव्वदु०भंगो । णवरि अट्ठक० वज्ज० । देवगदी धुवं । एवं सादभंगो देवाउ०-धिर-सुभ-

अनन्तगुणा अधिक होता है । स्थानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । सातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भंग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि असातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके विशेष जानना चाहिए । देवगति पञ्चकका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेशशरीर, छह संस्थान, औदारिक आंगोपाग, छह संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और उच्चगोत्रका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । अरति और शोकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिसंयुक्त करना चाहिए । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग ओषके समान है । देवगतिपञ्चकका भङ्ग तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है ।

२७४. वैक्रियिककायोगी जीवोंमें अभिनिबोधिकज्ञानावरणदण्डक और स्थानगृद्धिदण्डक सामान्य नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । इसी प्रकार वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए ।

२७५. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अभिनिबोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । सातावेदनीय, देवगति आदि सत्ताईस प्रकृतियों और उच्चगोत्रका नियमसे तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार तं तुपतित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग सर्वार्थसिद्धिके समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कथार्योंकी छोड़कर कहना चाहिए ।

जस० । एवं तप्पडिपकखाणं । णवरि देवाउ० णत्थि ।

२७६. देवगदि० ज० वं० पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-चदुसंज०-पंचणो०-  
अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० अणंतगुणव्भ० । उच्चा० णि० । तं तु० । णामाणं  
सत्थाणभंगो । एवं सब्वसंकिल्लिहाणं ।

२७७. कम्मइ० आभिणि० ज० वं० दोगदि -दोसररी -दोअंगो०-वज्जरी०-  
दोआणु०-तित्थ० सिया० अणंतगुणव्भ० । सेसं ओरालियमिस्स०भंगो । थीणगि०[३-]  
मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० वं० मणुस०--मणुसाणु०-उज्जो०--उच्चा० सिया० अणंत-  
गुणव्भ० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० । तं तु० । सेसाणं ओधं ।  
णवरि दोगदि-दोसररी-दोअंगो०-वज्जरी०-दोआणु० सिया० अणंतगुणव्भ० । देव-  
गदि०४ ओरालियमिस्स०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सत्तमपुढविभंगो ।

२७८. ओरालि० ज० वं० एइदि०--थावरादि०४ सिया० अणंतगुणव्भ० ।

देवगतिको ध्रुव कहना चाहिए । इसी प्रकार सातावेदनीयके समान देवायु, स्थिर, शुभ और यशः  
कीर्तिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी मुख्यतासे  
सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवायु नहीं है ।

२७६. देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-  
वरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अमरास्त वर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच  
अन्तरायका निर्वमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । उच्चोत्रका  
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका  
भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप  
होता है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार सर्व संकलेशसे  
जघन्य बंधनेवाली प्रकृतियोंका जानना चाहिए ।

२७७. कर्मण्काययोगी जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध  
करनेवाला जीव दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आयुपूर्वा और  
तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष भङ्ग  
औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । स्थानगुद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचारके  
जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उद्योत और उच्चोत्रका  
कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्या-  
नुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता  
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो  
वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता  
है कि दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन और दो आयुपूर्वाका कदाचित्  
बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । देवगतिचतुष्कका भङ्ग औदारिकमिश्र-  
काययोगी जीवोंके समान है । तिर्यङ्गगति, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग सातवें  
पृथिवीके समान है ।

२७८. औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रियजाति और  
स्थावर आदि चारका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है ।

पंचि०-ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस४ सिया० । तं तु० । एवं ओरालिय०भंगो तेजा०-क०-पसत्य०४-अगु०-णिमि०-पंचि०-पर०-उस्सा०-उज्जोव० । तस०४ मूलोबंधं । सेसाणं ओरालियमिस्स०भंगो ।

२७६. इत्थिवेदेसु आभिणि० ज० वं० चदुणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-पंचंत० णि० जहणणा० । साद०-जस०-उच्चा० णि० अणंतगुणव्भ० । एवमेदाओ अण्णोएणं जहणणा० । सेसाणं खवगपगदीणं ओघं ।

२८०. सादा० ज० वं० पंचणा०-इदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-पंचंत० णि० अणंतगुणव्भ० । सेसं पंचिदियतिरिक्खभंगो । तित्थं० सिया० अणंतगुणव्भ० । एवं असाद०-थिरादितिणियु०। इत्थि०-णवुंस०-चदुआउ०-चदुगदि-चदुजादि द्दस्संठा०-इस्संघ०-चदुआणु०-दोविहा०-थावरादि०४-मज्झिभल्ल०३-दोगो० पंचि०तिरिक्खभंगो ।

२८१. पंचिदि० ज० वं०पंचणा०-णवदंस०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक्क०-णिरयण०-हुंडसंठा०-अप्पसत्य०४-णिरयाणु०--उप०-अप्पसत्य०-अथिरा-दिद्व०-णीचा०-पंचंतरा० णि० अणंतगुणव्भ० । वेउच्चि०-तेजा०-क०-वेउच्चि०अंगो०-

पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और त्रसचतुष्कका कदाचित् वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है, तो वह जघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी वन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका वन्ध करता है, तो वह छह स्थानपतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार औदारिकशरीरके समान तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण, पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और उद्योतकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । त्रसचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष मूलोघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग औदारिकनिश्क्राययोगी जीवोंके समान है ।

२७६. स्त्रीवेदी जीवोंमें आभिनित्रोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायका नियमसे जघन्य अनुभाग वन्ध करता है । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार परस्पर जघन्य अनुभाग वन्ध करनेवाली इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । शेष क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

२८०. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, लुगुसा और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार आयु, चार गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, मध्यके तीन युगल और दो गोत्रका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।

२८१. पञ्चेन्द्रियजातिके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरु-

पसत्थ०४-अणु०३-तस०४-णिमि० णि० । तं तु० । एवं वेचव्वि०-वेचव्वि०-अंगो०-[तस०]॥

२८२. ओरालि० ज० वं० हेहा उवरिं पंचिदियजादिभंगो । तिरिक्ख०-  
एइदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावर०-अथिरादिपंच०-णीचा०-  
पंचंत० णि० अणंतगुणभ० । तेजइगादीणं० णि० । तं तु० । आदाउज्जो० सिया० ।  
तं तु० । [ एवं आदाउज्जो० ] ।

२८३. तेज० जह० हेहा उवरिं ओरालिय०भंगो । दोगदि-एइदि-दोआणु०-  
अप्पसत्थ०-थावर०-दुस्सर० सिया० अणंतगु० । पंचि०-ओरालि०-वेचव्वियदुग-  
आदाउ०-तस० सिया० । तं तु० । कम्म०-पसत्थ०४-अणु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-  
णिमि० णि० । तं तु० । हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिरादिपंच० णि० अणंतगु० ।  
एवं कम्मइगादिसंक्लिद्धाणं ।

जघुन्निक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२८२. औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पूर्वकी और अन्तकी प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चन्द्रियजातिके समान है। तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। तैजसशरीर आदिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। आतप और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार अर्थात् औदारिकशरीरके भङ्ग समान आतप और उद्योतका भंग है।

२८३. तैजसशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पूर्वकी और अन्तकी प्रकृतियोंका भंग औदारिकशरीरके समान है। दो गति, एकेन्द्रियजाति, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विद्यायोगति, स्थावर और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीरद्विक, आतप और त्रसका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुन्निक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और अस्थिर आदि पाँचका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। इसी प्रकार संक्लेशसे बंधनेवाली कार्मणशरीर आदि प्रकृतियोंका सन्निकर्ष जानना चाहिए।

२२४. ओरालि०अंगो० ज० वं० हेडा उवरिं तेजइगभंगो । वीइंदि०-पंचि०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-अप्पसत्थं०-पज्जत्तापज्जत्त०-दुस्सरै० सिया० अणंतगु० । तिरिक्ख-गदिसंजुत्ताओ गिय० अणंतगु० । तित्थयरं ओघं ।

२२५. पुरिसेसु सत्तणं कम्मणं इत्थिभंगो । पंचिदिय०-ओरालि०-वेज्जि०-आहार०-तेजा०-क०-तिणि अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-आदाउज्जो०-तस०४-णिमि०-खविगणं तित्थय० ओघं । सेसाणं इत्थिभंगो ।

२२६. णवुंसगे पढमदंडओ इत्थिभंगो । सेसं ओघं । णवरि पंचिदि० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अप्पसत्थ०-अधिरादिद्व०-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगु० । दोगदि०-असंप०-दोआणु०-णीचा० [ सिया० ] अणंतगु० । दोसरीर-दोअंगो०-उज्जो० सिया० । तं तु० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० णि० । तं तु० । एवं पंचिदि-यभंगो तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० । ओरालि०-ओरालि०-

२२४. औदारिक आङ्गोपागके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके पूर्वकी और अन्तकी प्रकृतियोंका भग तैजसशरीरके समान है । द्वीन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, अपर्याप्त और दुःस्वरका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । तिर्यञ्चगति सयुक्त प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

२२५. पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, तीन आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, क्षपक प्रकृतियों और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है ।

२२६. नपुंसकवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । शेष भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियजातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उषघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । दो गति, असम्प्राप्ताष्टपाटिका संहनन, दो आनुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । औदारिक

१. आ० प्रती अप्पसत्थ०४ इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्येः -पञ्च पचे० दुस्सर इति पाठः ।  
३. ता० प्रती दोगदि० अल्पं (अप्पस) त्थ दोग्गाणु०, आ० प्रती दोगाद० अप्पसत्थं० दोग्गाणु० इति पाठः । ४. ता० प्रती अगु०४ इति पाठः । ५. आ० प्रती तस् ४ णिमि० ओरालि० इति पाठः ।

अंगो०-उज्जो० णिरयभंगो । आदाव० तिरिक्खभंगो । सेसं ओघं ।

२८७. अवगद्वेदेसु अप्पणो पगदीओ ओघो ।

२८८. कोधादि०४ ओघं । णवरि कोधे०१८ णिय० जह० । माणे०१७ जह० । मायाए१६ जह० । लोभे० ओघो ।

२८९. मदि-सुद०-आभिणि० ज० वं० चटुणा० णवदंसणा०-मिच्छ०-सोल-सक०-पंचणोका०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० णि० । तं तु० । सादावे०-देवगदिसत्ता-वीसं-उच्चा० णि० अणंतगु० । एवमेदाओ तं तु० पदिदाओ' अणमण्णस्स तं तु० ।

२९०. अरदि० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचटु०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थै०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगु० । सादासाद०-तिण्णिगदि-दोसरीर-दोअंगो' वज्जरि०-तिण्णिआणु०-उज्जो०-थिरादि' तिण्णियुग०-दोगो०-सिया०-अणंतगु० ।

शरीर, औदारिकआंगोपाग और उद्योतका भंग नारकियोके समान है । आतपका भग तिर्यञ्चोके समान है । शेष भंग ओघके समान है ।

२८७. अपगतवेटी जीवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है ।

२८८. क्रोधादि चार कपायोंमें ओघके समान हैं । इतनी विशेषता है कि क्रोध कपायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तराय इन अठारह प्रकृतियोंका नियमसे एक साथ जघन्य अनुभागबन्ध होता है । मानकपायमें संज्वलन क्रोधके सिवा सत्रह प्रकृतियोंका नियमसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है । माया कपायमें संज्वलनक्रोध और संज्वलन मानके सिवा सोलह प्रकृतियोंका नियमसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है । लोभकपायमें ओघके समान भंग है ।

२८९. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सातावेदनीय, देवगति आदि सत्ताईस प्रकृतियों और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इसी प्रकार इन तं तु० पतित प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष परस्पर आभिनिवोधिक-ज्ञानावरणके समान जानना चाहिये ।

२९०. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय, लुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तीन गति, दो शरीर, दो आंगोपांग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्योत, स्थिर आदि तीन युगल और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष भंग ओघके

१. ता० प्रतौ तं तु० पंचिदा (दिया) ओ, आ० प्रतौ तं तु० पंचिदियाओ इति पाठः । २. आ० प्रतौ अगु० ३ पसत्थ० इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्योः दोगो० इति पाठः । ४. आ० प्रतौ तिण्णि आणु० थिरादि० इति पाठः ।

सेसं ओषं । एवं विभंग० ।

२६१. आभिणि०-सुद०-ओधि० खविगाणं पगदीणं अरदि-सोगाणं च ओषं संजमपाओग्गाणं च । साद० ज० वं० पंचणा०-छदंस०-चहुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-पंचि०-समचदु०-तेजा०-क०-पसत्यापसत्य०-अगु०-पसत्य०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगु० । अट्टक०-चदुणोक०-दोगदि-दोसरीर-दोअंगो०-वज्जरि०-दोआणु०-तित्थय० सिया० अणंतगु० । दोआउ०-थिरादितिणिण-युग० सिया० । तं तु० । एवमसा०-दोआउ०-थिरादितिणिणयु० ।

२६२. मणुस० ज० वं० पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-वारसक०-पंचणोक०-अपसत्य०-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० णि० अणंतगु० । पंचिदियादि याव णिमि०-उच्चा० णि० । तं तु० । एवं मणुसगदिपंच० ।

२६३. देवगदि ज० वं० हेट्टा उवरि मणुसगदिभंगो । णाम० सत्याणभंगो । एवं देवगदि०४ ।

२६४. पंचिदि० ज० वं० हेट्टा उवरि मणुसगदिभंगो । णामाणं० दोगदि-

समान है । इसी प्रकार अर्थात् मत्यज्ञानी जीवोंके समान विभङ्गज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए ।

२६१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अबधिज्ञानी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका, अरति शोकका व संयमप्रायोग्य प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संव्यलन, पुरुषवेद, भय, लुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगि, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । आठ कपाय, चार नोकपाय, दो गति, दो शरीर, दो आङ्गापाङ्ग, वज्रपभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । दो आयु और स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार असातावेदनीय, दो आयु और स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२६२. मनुष्यगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय बारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात, अस्थिर, अशुभ, अयश कीति और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तक और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार मनुष्यगतिपञ्चककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२६३. देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । तथा नामकर्मका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षके समान है । इसी प्रकार देवगतिचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

२६४. पञ्चेन्द्रियजातिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके नामकर्मसे पूर्वकी और



दोसरीर-दोअंगो०-वज्जरिस०-दोआणु०-तित्थ० सिया० । तं तु० । तेजइगादिपस-  
त्याओ उच्चा० णि० । तं तु० । अप्पसत्थवण्ण०- [ उप०-अथिर-असुभ-अजस० ] णि०  
अणंतगु० । एवं सव्वसंकिल्लिद्धानं पंचिदियभंगो । [ अहारदुग्गं अप्पसत्थ०-उप०  
ओघं । ] एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइगसम्मा०-वेदग०-उवसम०-सम्माभि० । णवरि  
उवसम० पसत्थाणं तित्थ० वज्ज असंजमपाओग्गा कादच्चा ।

२६५. मणपज्जवे खविगाणं ओघो । सेसाणं ओधिभंगो । एवं संजद-सामाइ०-  
छेदो०-परिहार-संजदासंजद० । णवरि परिहारवज्जाणं पसत्थपगदीणं तित्थयरं वज्ज० ।  
सुहुमसंप० अरवगदवेदभंगो ।

२६६. असंजदेसु आभिणि०दंडओ धीणगिद्धिदंडओ देवगदिसंजुत्तं कादच्चं ।  
सादासाद०-थिरादितिणियुग० सम्मादिद्वि-मिच्छादिद्विसंजुत्ताओ कादच्चाओ । इत्थि०-  
णवुंस० ओघं ।

२६७. अरदि० ज० वं० दोगदि--दोसरीर--दोअंगो०--वज्जरि०--दोआणु०--

बादकी प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । नामकर्मकी दोगति, दो शरीर, दो आगोपांग, वज्ज-  
र्षभनाराचसंहनन, दो आलुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता  
है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता  
है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होना है ।  
तेजसशरीर आदि प्रशस्त प्रकृतियों और उच्चगोत्रका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य  
अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य  
अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । अप्रशस्त वर्षचतुष्क,  
उपघात, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा  
अधिक होता है । इस प्रकार जिनका सर्वसंक्लेशसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है, उनकी मुख्यतासे  
सन्निकर्ष पञ्चन्द्रियजातिके समान जानना चाहिए । आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्ष चार और उप-  
घातकी मुख्यतासे सन्निकर्ष ओघके समान है । इसी प्रकार अर्थात् आभिनिबोधकज्ञानी जीवोंके  
समान अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्य-  
ग्भिष्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें प्रशस्त प्रकृतियोंको  
तीर्थङ्करप्रकृतिको छोड़कर असंयमप्रायोग्य करना चाहिए ।

२६५. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामयिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत,  
परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि परिहार-  
विशुद्धिसंयतोंमें प्रशस्त प्रकृतियोंका तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । सूक्ष्म-  
साम्परायसंयत जीवोंमें अप्रगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है ।

२६६. असंयत जीवोंमें आभिनिबोधिकदण्डक और स्थानगृद्धिदण्डकको देवगतिसंयुक्त  
करना चाहिए । सातावेदनीय, असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलको सम्यग्दृष्टि और  
भिष्यादृष्टिसंयुक्त करना चाहिए । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग ओघके समान है ।

२६७. अरतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दो गति, दो शरीर, दो आङ्गी-

तिथ्य० सिया० अणंतगु० । सेसं ओघं ।

२६८. चक्खु०-अचक्खु० ओघं । किण्णाए आभिणि०दंडओ थीणगिद्धिदंडओ गिरयभंगो । सादादिचट्टुयुग०--अरदि--सोगं असंजदभंगो । इत्थि०--णवुंस० ओघं । सेसं णवुंसगभंगो ।

२६९. नील-काऊए पढमदंडओ विदियदंडओ तदियदंडओ अरदि-सोगदंडओ किण्णभंगो । इत्थि० ज० वं० तिरिक्खोघं । मणुस०--देवगदि--दोआणु० सिया० अणंतगु० । णवुंस०-थीणगिद्धिदंडओ पंचिदि०दंडओ गिरयोघं ।

३००. वेउच्चि० ज० वं० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०--सोलसक०-पंचणो०--गिरयगदिअट्टावीसं-णीचा०-पंचंत० णि० अणंतगु० । वेउच्चि०अंगो० आदावं तिरिक्खोघं । सेसं किण्णभंगो ।

३०१. तेऊए आभिणि०दंडओ परिहार०भंगो । विदियदंडओ ओघं । साद० ज० वं० पंचणा०--द्वदंसणा०--चट्टुसंज०--भय--दु०--तेजा०--क०--पसत्थापसत्थ०४--अणु०४--वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० णि० अणंतगु० । थीणगि०३-मिच्छ०-वारसक०-सत्तणो०-देवगदि-दोसरीर-दोअंगो०-देवाणु०-आदाउज्जो०-तिथ्य० सिया०

पाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, दो आतुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । शेष भङ्ग ओघके समान है ।

२६८. चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । कृष्णलेश्यामे आभि-निबोधिकज्ञानावरणदण्डक और स्थानगृद्धिदण्डकका भङ्ग नारकियोंके समान है । साता आदि चार युगल, अरति और शोकका भङ्ग असंयतोंके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है ।

२६९. नील और कापोत लेश्यामे प्रथम दण्डक, द्वितीय दण्डक, तृतीय दण्डक और अरति-शोकदण्डकका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । मनुष्यगति, देवगति, और दो आतुपूर्वीका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । नपुंसकवेद, स्थानगृद्धिदण्डक और पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

३००. वैक्रियिकशरीरके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति आदि अट्टाईस प्रकृतियों नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और आतपका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियों का भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है ।

३०१. पीतलेश्यामें आभिनिबोधिकज्ञानावरण दण्डक परिहारविशुद्धिसयत जीवोंके समान है । द्वितीय दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करने वाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । स्थान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, बारह कषाय, सात नोकषाय, देवगति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, देवगत्याहु,

अणंतगु० । तिग्णिआउ०-दोगदि-दोजादि-द्वस्संठा०--द्वस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-  
तस-थावर-थिरादिद्वयुग०-दोगो० सिया० । तं तु० । एवं असाद०-थिरादितिग्णि-  
युग० । इत्थि० ज० बं० णीलभंगो । णवुंस०-दोआउ० देवभंगो ।

३०२. देवाउ० ज० बं० सादा०-थिर-सुभ-जस० णि० । तं तु० । मिच्छा-  
दिद्विसंजुत्ता कादव्वा । सेसं णि० अणंतगु० ।

३०३. देवगदि ज० बं० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०--मिच्छ०-सोलसक०-  
इत्थि०-अरदि-सोग-भय-दु०-उच्चा०-पंचंत० णि० अणंतगु० । वेउच्चि०-वेउच्चि०-अंगो०-  
देवाणु० णि० । तं तु० । णामाणं सत्थाणभंगो । सेसं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए  
वि० । णवरि णामाणं सहस्सारभंगो । देवगदि०४ तेउभंगो । णवरि पुरिस० धुवं० ।

३०४. सुकाए खविगाणं ओघं । सादादिचदुयुग० पम्मभंगो । देवगदि०४  
पम्मभंगो । सेसं णवगेवज्जभंगो ।

पूर्वा, आतप, उद्योत और तीर्थङ्करका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। तीन आयु, दो गति, दो जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायो-  
गति, त्रस स्थावर, स्थिर आदि छह युगल और दो गोत्रका कदाचित् बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। इसी प्रकार अर्थात् सातावेदनीयके समान असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग नीललेख्याके समान है। नपुंसकवेद और दो आयुका भङ्ग देवोके समान है।

३०२. देवायुके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सातावेदनीय, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। किन्तु इन्हे मिथ्यादृष्टिसंयुक्त करना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है।

३०३. देवगतिके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, स्त्रीवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है। वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आह्लापोह और देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है। यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकर्षके समान है। शेष भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। इसी प्रकार अर्थात् पीत लेख्याके समान पद्मलेख्यामे भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें नामकर्मकी प्रकृतियों का भङ्ग सहस्रार कल्पके समान है। तथा देवगतिचतुष्कका भङ्ग पीतलेख्याके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदको ध्रुव करना चाहिए।

३०४. शुक्ललेख्यामे क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। सातावेदनीय आदि चार युगलोंका भङ्ग पद्मलेख्याके समान है। देवगतिचतुष्कका भङ्ग पद्मलेख्याके समान है। शेष प्रकृतियों का भङ्ग नौत्रैवेयकके समान है।

३०५. भवसि० ओषं । अब्भवसि० आभिणि०दंडओ [मदि०भंगो । णवरि] तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०-णीचा० सिया० । तं तु० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो-वज्जरि०--दोआणु०-उज्जो०-उच्चा० सिया० अणंतगु० । इत्थि०-णवुंस० ओषं । अरदि-सोग० मदि०भंगो । उवरि सन्वमोषं ।

३०६. सासणे आभिणि० ज० वं० चटुणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-पंच-णोक०-अप्पसत्थि०४-उप०-पंचंत० णि० । तं तु० । सादा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थि०४-अगु०३-पसत्थि०-तस०४-थिरादिद्धि०-णिमि० णि० अणंतगु० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०--णीचा० सिया० । तं तु० । दोगदि-दोसरीर-दोअंगो--वज्जरि०-दोआणु०-उज्जो०-उच्चा० सिया० अणंतगु० । एवमेदाओ ँक्कमेक्कस्स तं तु० ।

३०७. सादा० ज० वं० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दु०--पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थि०४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० अणंतगु० । चटुणोक०-

३०५. भव्योंमें ओषके समान भङ्ग है । अब्भव्योंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणदण्डकके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है । इनकी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग ओषके समान है । अरति और शोकका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । आगोंका सब भङ्ग ओषके समान है ।

३०६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्ण-चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस-शरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका कदाचित् बन्ध करता है । किन्तु वह जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागका बन्ध करता है, तो वह छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत और उच्चगोत्रका कदाचित् बन्ध होता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । इस प्रकार तंतु० पतित इन प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

३०७. सातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-वरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क,

१. आ० प्रती उव्वमोहं इति पाठः ।

तिरिक्ख०३-दोसरीर-दोअंगो०-उज्जो० सिया० अणंत्यु० । तिण्णिआउ०-मणुसग०-  
देवग०-पंचसंटा०-पंचसंध०-दोआणु०-थिरादिळ्युग०-उच्चा० सिया० । तं तु० । एवं  
तंतु० पदिदाणं सव्वाणं सादभंगो । पंचिदियदंडओ गिरयभंगो । दोआउ० देवभंगो ।  
देवाउ० ओघं ।

३०८. मिच्छादिट्ठी० मदि०भंगो । सण्णी० ओघो । असण्णीसु आभिणि-  
दंडओ देवगदिसंजुचं० कादव्वं । सेसं तिरिक्खोघं । आहार० ओघं । अणाहार०  
कम्मइगभंगो ।

एवं जहणपरत्याणसण्णियासो समत्तो ।

## १६ भंगविचयपरुवणा

३०६. णाणाजीवेहि भंगविचयं दुवि०-जह० उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं ।  
तत्थ इमं अट्ठपदं मूलपगदिभंगो । एदेण अट्ठपदेण दुवि०-ओघे० आदे० ।  
ओघे० सव्वपगदीणं उक्कस्साणुक्कस्स० झभंगा । तिण्णिआउणं उक्कस्साणुक्कस्स०  
सोलसभंगा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्म-  
इग०-णुंसं०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंजद०-अचक्खु०-तिण्णले०-भवसि०

अप्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क और निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो  
अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । चार नोकषाय, तिर्यञ्चगतित्रिक, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग  
और उद्योतका कदाचित् बन्ध करता है जो अजघन्य अनन्तगुणा अधिक होता है । तीन आयु,  
मनुष्यगति, देवगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वा, स्थिर आदि छह युगल और  
उत्तमोत्तका कदाचित् बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है, तो जघन्य अनुभागका भी बन्ध करता  
है और अजघन्य अनुभागका भी बन्ध करता है । यदि अजघन्य अनुभागबन्ध करता है, तो वह  
छह स्थान पतित वृद्धिरूप होता है । इसी प्रकार तंतु-पतित सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष  
सातावेदनीयके समान है । पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग नारकियोंके समान है । दो आयुओंका  
भङ्ग देवोंके समान है । देवायुका भङ्ग ओघके समान है ।

३०८. मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । सञ्जी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग  
है । असंज्ञियोंमें आभिनिबोधिकज्ञानावरण दण्डक देवगतिसंयुक्त करना चाहिए । शेष भङ्ग सामान्य  
तिर्यञ्चोके समान है । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाय-  
योगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार जघन्य परस्थान सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

## १६ भङ्गविचयपरुवणा

३०९. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका  
प्रकरण है । उसके विषयमें यह अर्थपद मूलप्रकृतिके समान है । इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो  
प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टअनुभागबन्धके छह  
भङ्ग हैं । तीन आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके सोलह भङ्ग हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य  
तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी,

अभ्रवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारएसु-देवगदिपंच० उक्कस्साणुक्कस्स० सोलस भंगा ।

३१०. णेरइएसु-दोआउ० दो वि पदा सोलस भंगा । सैसाणं सव्वपगदीणं दोपदा छभंगा । एवं णिरयभंगो पंचि०तिरि०अपज्ज० मणुस०३-सव्वदेव०-सव्व-विगल्लिदि०-पंचि०-तस० तेसिं पज्जत्तापज्जत्ता वादर-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ० वाउ०-वादरवणप्फदिपत्तेयपज्जत्ताणं च पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग-आभिणि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद० याव संजदासंजदा० चक्खुदं०-ओधिदं०-तिण्णिल्ले०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-सण्णि ति ।

३११. मणुस०अपज्ज०-वेउव्वियमि०-आहार०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसं०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० उक्क० अणुक्क० सोलस भंगा । एइदिएसु दोआउ ओयं । सैसाणं उक्कस्साणुक्कस्स० अथिरवंधगा य अवंधगा य । एवं एइदियभंगो वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०अपज्ज०-सव्ववणप्फदिवादर-पत्तेय०अपज्ज०-सव्व-णियोदाणं सव्वसुहुमाणं च । णवरि एइदि०-वादरएइदि० तस्सेव पज्जत्तगेसु उज्जोवं ओयं । पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादर-पत्ते० सव्वपगदीणं ओयं ।

एवं उक्कस्सं समत्तं ।

क्रोधदि चार कपायबाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्याबाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके सोलह भङ्ग हैं ।

३१०. नारकियोंमें दो आयुओंके दोनों ही पदोंके सोलह भङ्ग हैं । शेष सब प्रकृतियोंके दो पदोंके छह भङ्ग हैं । इसी प्रकार नारकियोंके समान पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीन, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्यत्रिक, सब देव, सब विकलिनद्रिय, पञ्चेन्द्रिय और त्रस तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अग्निकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वनस्पति प्रत्येक शरीर और इन पाँचोंके पर्याप्त, पाँचो मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयतासे लेकर संयतासंयत तकके नीव, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, तीन लेख्या-बाले, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

३११. मनुष्यअपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्मसात्परायिक संयत, उपशमसम्यग्दृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके सोलह भङ्ग हैं । एकेन्द्रियोंमें दो आयुओंका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके वन्धक जीव हैं और अवन्धक जीव हैं । इसी प्रकार एकेन्द्रियोंके समान वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त, सब वनस्पति कायिक, वादर प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सब तिगोद और सब सूक्ष्म जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त जीवोंमें द्योत ओषके समान है । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक

३१२. जहण्णए पग० । तत्थ इमं अट्टपदं मूलपगदिभंगो । एदेण अट्टपदेण हुवि०-ओधे० आदे० । ओधे० सादासाद०-तिरिक्खाउ०-मणुस०-चहुजादि-द्धस्संठा०-द्धस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-थावरादि०४-थिरादिद्धयु०-उच्चा० ज०अज० अत्थि वंधगा य अवंधगा य । सेसाणं पगदीणं ज० अज० उक्कस्सभंगो । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमि०-कम्मइ०-गणुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णत्ते०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-अमण्णि०-आहार०-अणाहारए ति ।

३१३. एइंदिय-वादरएइंदिय-पज्जत्त मणुसाउ०-तिरिक्खगदितिगं ओघं । सेसाणं ज० अज० अत्थि वंधगा य अवंधगा य । वादरएइंदियअपज्ज० सन्वसुहुमाणं वादर-चहुक्कायअपज्जत्तगाणं सन्ववणप्फदि-वादरपत्तेयअपज्जत्त०-सन्वणियोद० मणुसाउ० ओघ । सेसाणं ज० अज० अत्थि वंध० अवंध० । पुहवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादर-पत्ते०-वादरपुहवि०-आउ०-तेउ० [ वाउ० ] धुविगाणं पसत्थापसत्थायाणं केसिं च परियत्तीणं च मणुसाउ० ज० अज० उक्कस्सभंगो । सेसाणं ज० अज० अत्थि वंधगा

और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट समाप्त हुआ ।

३१२ जघन्यका प्रकरण है । उसके विषयमें यह अर्थपद मूल प्रकृतिके समान है । इस अर्थ-पदके अनुसार दो प्रकारका निर्देश है-ओघ और आदेश । ओघसे सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विद्यायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके वन्धक जीव हैं और अवन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण्यकाययोगी, नपुसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यहानी, श्रुताहानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असही, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३१३. एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायु और तिर्यञ्च-गतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव हैं और अवन्धक जीव हैं । वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सब सूक्ष्म, वादर चार कायवाले अपर्याप्त, सब वनस्पतिकायिक, वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त और सब निगोद जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव हैं और अवन्धक जीव हैं । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक वायुकायिक, वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अग्निवायिक और वादर वायुकायिक जीवोंमें प्रशस्त और अप्रशस्त ध्रुववन्धवाली, कितनी ही परावर्तमान प्रकृतियों और मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव हैं और अवन्धक जीव हैं ।

१. आ० प्रती अज० यत्थि इति पाठः । २. आ० प्रती तेउ० वादरपत्ते० इति पाठः ।

य अवंधगा य । वादरपज्जत्ताणं उक्कस्सभंगो । सेसाणं णेरइगादीणं याव अणाहारगे ति उक्कस्सभंगो ।

एवं भंगविचयं समत्तं ।

### १७ भागाभागपरुवणा

३१४. भागाभागं दुवि०-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआड०-वेउच्चियद्ध०-तित्थ० उक्कस्सअणुभागवंधगा जीवां सव्वजीवाणं केवद्वियो भागो ? असंखेज्जिभागो । अणुक० अणुभागवं० जीवा० सव्वजीवाणं केव० भागो ? असंखेज्जा भागा । आहारदुगं उक्क० अणुभागवंध० सव्वजी० केव० ? संखेज्ज० । अणु० संखेज्जा भागा । सेसाणं उक्क० केव० ? अणंतभा० । अणु० केव० ? अणंतभागा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णत्तंस०-कोधादि०-४-मदि०-मुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारएसु देवगदिपंचग० आहारसरीरभंगो । किण्ण-णीलाणं तित्थ० आहार०भंगो । एवं ओरालिय० इत्थि०वं० । णिरएसु सव्वपगदीणं उक्क० असंखेज्जदि० । अणु० असंखेज्जा

वादर पर्याप्त जीवोंका भङ्ग उच्छृष्टके समान है । शेष नारकियोंसे लेकर अनाहारक तकके जीवोंमें उच्छृष्टके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

### १७ भागाभागपरुवणा

३१४. भागाभाग दो प्रकारका है-जघन्य और उच्छृष्ट । उच्छृष्ट च प्रकारण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रीयिक छह और तीर्थङ्करके उच्छृष्ट अनुभागके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनुच्छृष्ट अनुभागके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । आहारकच्छृष्टके उच्छृष्ट अनुभागके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनुच्छृष्ट अनुभागके वन्धक जीव सख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंके उच्छृष्ट अनुभागके वन्धक जीव कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अनुच्छृष्ट अनुभागके वन्धक जीव कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, मन्थ, अभन्थ, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इत्थनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति-पञ्चकका भङ्ग आहारकशरीरके समान है । कृष्ण और नीललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग आहारक-शरीरके समान है । इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीवोंमें स्त्रीवेदके वन्धक जीवोंका भङ्ग जानना चाहिए । नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उच्छृष्ट अनुभागके वन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण

१. ता० प्रतौ एषं भागामागं चमत्तं इति पाठो नास्ति । २. ता० आ० प्रत्योः जीवाण्यं इति पाठः । ३. ता० प्रतौ सव्वजीवे० केव० इति पाठः । ४. ता० प्रतौ अणंतभागा इति पाठः ।



भागा । गवरि मणुसाड० आहारभंगो । एवं सेसाण पि ओषेण साधेद्व्वं<sup>१</sup> । एवं ए असंखेज्जजीविगा ते देवगदिभंगो । ए संखेज्जजीविगा ते आहार०भंगो । एइदिय-वणप्फदि०-णियोदेसु तिरिक्खाउं० ओषं । एइदिए उज्जो० उ० अणंतभागा । अणु० अणंता भागा । सेसाणं णिरयभंगो ।

३१५. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०--सोलसक०--णवणोक०--तिरिक्ख०--पंचि०-ओरालि०-तेजा०-क०--ओरालि०-अंगो<sup>२</sup>०-पसत्थापसत्थ०४--तिरिक्खाणु०-अणु०४--आदाउ०-तस०४--णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० अणुभा० सच्चजी० केव० ? अणंतभा० । अज० अणंता भा<sup>३</sup>० । सादा-साद०-चदुआउ०-तिण्णिगदि-चदुजादि-खस्संठा०--खस्संघ०--तिण्णिआणु०--दोविहा०-थावरादि४--थिरादिद्वयुग०--उच्चा०--वेउच्चि०--वेउच्चि०अंगो०--तित्थ० ज० असं-खेज्जदिभा० । अज० असंखेज्जा भागा । आहारदुगं उक्खसभंगो । एवं ओषभंगो तिरिक्खोषं कायजो०-ओरालि०-ओरालियमि० कम्मइ०-णुवंस०-कोधादि०४--मदि०-सुद०-असंज०--अचक्खु०--तिण्णित्ते०-भवसि०--अभवसि०--मिच्छादि०--असण्णि०-

हैं । अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि मनु-ष्यायुका भङ्ग आहारकशरीरके समान है । इसी प्रकार शेष मार्गणांशमें भी ओषके अनुसार साध लेना चाहिए । इसी प्रकार जो असंख्यात जीवोंवाली मार्गणाएँ हैं, उनमें देवगतिके समान भङ्ग है और जो संख्यात जीवोंवाली मार्गणाएँ हैं, उनमें आहारकशरीरके समान भङ्ग है । एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग ओषके समान है । एकेन्द्रियोंमि स्थितके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

३१५. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकपाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आज्ञापात्र, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव सत्र जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, तीन गति, चार जाति, छह सस्थान, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल, उच्चगोत्र, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आज्ञापात्र और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । आहारकद्विकका भंग उत्कृष्टके समान है । इसी प्रकार ओषके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकायोगी नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

१. आ० प्रती पि साधेद्व्व इति पाठः । २. आ० प्रती वणप्फदि० तिरिक्खाउ० इति पाठः ।

३. नः० आ० प्रत्योः अणंतभागा इति पाठः । ४. आ० प्रती पंचि० ओरालि०अंगो इति पाठः ।

५. ता० आ० प्रत्योः अणंतभा० इति पाठः ।

आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालि०-ओरालियमि०-इत्थिवे०-किण्ण-णील०-उवसम० तित्य० ज० अर्ज० आहार०भंगो । ओरालियमि०-कम्मइ०-अणहार० देव-गदिपचंग उक्कस्सभंगो । सेसाणं णिरयादि याव सणिण ति अप्पप्पणो उक्कस्सभंगो संखेज्जजीविगाणं असंखेज्जजीविगाणं अणंतजीविगाणं च । णवरि ईदिदिएसु तिरिक्ख-गदित्तिगं ओघं । सेसं णिरयोघं । अवगद०-सुहुमसंप० ज० अज० आहार०भंगो ।

एवं भागाभागं समत्तं ।

## १८ परिमाणपरूषण

३१६. परिमाणं दुवि०-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आद० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-दोगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-द्धसंघ०-अप्पसत्थ०४-दोआणु०-उप०-आदाव०-अप्पसत्थवि० -- थावरादि४-अधिरादि४ -- णीचा० -- पंचंत० उक्कस्सअणुभागबंधगा केत्तिया ? असंखेज्जा । अणुक्क० अणुभा०वं० के० ? अणंता । साद०-तिरिक्खाउ०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थव०४-अगु० ३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादि४०-णिमि०-उच्चा० उक्कस्स० संखेज्जा० । अणु० अणंता । णिरयाउ०-णिरयगदि०-णिर-

इतनी विशेषता है कि औदारिकिकाययोगी, औदारिकमिश्रिकाययोगी, स्त्रीवेदी, कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले और उपशमसन्त्यष्टि जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग आहारकशरीरके समान है । औदारिकमिश्रिकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । शेष नरकगतिसे लेकर संज्ञी तककी संख्यात जीवोंवाली, असंख्यात जीवोंवाली और अनन्त जीवोंवाली मार्गणाओंमें अपने-अपने उत्कृष्ट के समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंमें तीर्थङ्करगतित्रिकका भंग ओघके समान है । शेष सामान्य नारकियोंके समान है । अपगतवेदवाले और सूक्ष्मसान्प्रराय संयत जीवोंमें जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग आहारकशरीरके समान है ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

## १८ परिमाणपरूषण

३१६. परिमाण दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकार का है-ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोक्त्याय, दो गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आंगो-पांग, छह संदहन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपयात, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायो-गति, स्वानर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सातावेदनीय, तीर्थङ्कराणु, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुत्तुष्टिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और

१ आ० प्रतौ तित्य० अज० इति पठः । २ ता० प्रतौ एवं भागाभागं समत्तं इति पाठो नास्ति । ३ आ० प्रतौ आदाव० इति पाठः ।

याणु० उक्क० अणु० असंखेंजा । दोआउ०-देवग०-[ वेउज्वि०- ] वेउज्वि०अंगो०-  
देवाणु०-तित्थ० उ० संखेंजा । अणु० असंखेंजा । आहारदुर्ग उक्क० अणु० संखेंजा ।  
एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-गणुंस०-कोधादि०४-पदि०-सुद०-असंज०-  
अचक्खु०-भवसि०-अभवसि०-भिच्छा०-आहारग ति । णवरि ओरालि० तित्थ० उक्क०  
अणुक० संखेंजा० ।

३१७. णेरइएसु मणुसाउ० उक्क० अणुक० कँतिया ? संखेंजा । सेसाणं उक्क०  
अणुक० असंखेंजा । एवं सव्वणेरइगणं ।

उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने-  
वाले जीव अनन्त हैं । नरकायु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग  
का बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । दो आयु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आंगोपांग,  
देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट  
अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका  
बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी,  
नमुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचछुदरानी, भव्य,  
अभव्य, मिथ्याहृदि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिक-  
काययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव  
संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव  
असंख्यात हैं और इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं, इसलिए यहाँ इनका  
परिमाण उक्त प्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट  
अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं और इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले  
जीव अनन्त हैं, इसलिए इनका परिमाण उक्त प्रमाण कहा है । नरकायु आदि तीसरे दण्डकमें कही  
गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं, इसलिए ये  
असंख्यात कहे हैं । तथा दो आयु आदि दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध  
करनेवाले जीव संख्यात हैं और इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं,  
अतएव इनका उक्तप्रमाण परिमाण कहा है । आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध  
करनेवाले जीव संख्यात हैं, यह स्पष्ट ही है । यह सब संख्या उत्कृष्ट अनुभागका स्वामित्व और  
तत्तत् प्रकृतिके बन्धक जीवोंका विचार करके कही गई है । आगे ऐसी मार्गोपाई गिनाई है, जिनमें  
यह ओघप्ररूपणा अविफल बन जाती है । उनमें एक मार्गोपाई औदारिककाययोग भी है । परन्तु  
इस मार्गोपाईमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध पर्याप्त मनुष्य ही करते हैं और उनका परिमाण संख्यात है,  
इसलिए औदारिककाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध  
करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं ।

३१७. नारकियोंमें मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव  
कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले  
जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नारकी जीव यदि मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं, तो गर्भज मनुष्योंमें ही उत्पन्न होते  
हैं । अतः इनमें मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे

३१८. तिरिक्खेसु गिरयाउ०-वेउव्वियद्ध० उक्क० अणु० असंखेज्जा<sup>१</sup> । तिण्णि-  
आउ० [ ओघं । ] सेसाणं उ० असंखेज्जा । अणु० अणता । पंचि०तिरि०३ तिण्णि-  
आउ० उ० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । सेसाणं उ० अणु० असंखेज्जा । पंचि०-  
तिरि०अपज्ज० मणुसाउ० उ० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । सेसाणं उक्क० अणुक०  
के० ? [ अ०- ] संखेज्जा । एवं सव्वअपज्जत्ताणं [ पंचिदिय०- ] तसाणं सव्वविगल्लिदियाणं  
सव्वपुडवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०--वादरपत्तेगसरीराणं च । णवरि तेउ-वाउणं मणुस-  
गदिचदुक्कं णत्थि ।

३१९. मणुसेसु दोआउ०-वेउव्वियद्ध०-आहारदु०-तित्थि० उक्क० अणुक०  
संखेज्जा । सेसाणं उ० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । मणुसप०-मणुसिणीसु सव्व-  
पगदीणं [ उक्क० ] अणु० संखेज्जा ।

३२०. देवाणं गिरयभंगो याव अपराजिता ति । सव्वट्ठे सव्वपगदीणं उ०  
हैं । शेष कथन सुगम है ।

३१८. तिर्यञ्चोमें नरकायु और वैक्रियिक छहके उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट अनुभागका बन्ध  
करनेवाले जीव असंख्यात हैं । तीन आयुधोका भङ्ग ओषके समान हैं और शेष प्रकृतियोंके उच्छ्रष्ट  
अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं तथा अनुच्छ्रष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव  
अनन्त हैं । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चनिक्रम तीन आयुधोके उच्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं  
और अनुच्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट अनु-  
भागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोम मनुष्यायुके उच्छ्रष्ट अनुभागके  
बन्धक जीव संख्यात हैं और अनुच्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके  
उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब अपर्याप्त,  
पञ्चन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, संघ जलकायिक, सब  
अग्निकायिक, सब वायुकायिक और सब वादर प्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिए । इतनी  
विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगतित्तुष्कका बन्ध नहीं होता ।

विशेषार्थ—ओषसे देवगतित्तुष्कके उच्छ्रष्ट अनुभागका बन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है । किन्तु  
तिर्यञ्चोके वह संयतासंयतके होगा और इनका परिणाम असंख्यात है, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चोमें  
नरकायु आदिके उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं । शेष कथन  
स्पष्ट ही है ।

३१९. मनुष्योंमें दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके उच्छ्रष्ट और अनु-  
च्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके उच्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात  
हैं और अनुच्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनिर्योमें सब  
प्रकृतियोंके उच्छ्रष्ट और अनुच्छ्रष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें नरकायु, देवायु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका  
बन्ध अपर्याप्त मनुष्य नहीं करते, इसलिए इनका दोनों प्रकारका परिमाण संख्यात कहा है । शेष  
कथन स्पष्ट ही है ।

३२०. देवोंमें अपराजित तक नारकियोंके समान भङ्ग है । सर्वार्थसिद्धिमें सब प्रकृतियोंके

१. आ०-तौ संखेज्जा० इति पाठः ।

अणु० संखेँज्जा ।

३२१. एईदिय--सव्ववणप्फदि--णियोदाणं तिरिक्त्वाउ० उ० असंखेँज्जा ।  
अणु० अणंता । मणुसाउ० ओघं । सेसाणं उक्क० अणु० अणंता । णवरि एईदि०-  
उज्जो० ओघं ।

३२२. पंचि०-तस०२ सादं०-तिण्णिआउ०-देवगदि-पंचि०-वेउ०-तेजा०-क०-  
समचहु०-वेउ०अंगो०--पसत्थव०४-देवाणु०--अणु०३-पसत्थ०--तस०४-थिरादिह्व०-  
णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उ० संखेँज्जा । अणु० असंखेँज्जा । सेसाणं उ० अणु० असंखेँज्जा ।  
आहारहुगं ओघं । एवं एस भंगो पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं-  
सण्णि ति । णवरि इत्थि० तित्थ० उक्क० अणु० संखेँज्जा ।

उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—अपराजित तक प्रत्येक स्थानमें देवोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए वहाँ तक जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, उनकी अपेक्षा नारकियोंके समान भंग वननेमें कोई बाधा नहीं आती । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३२१. एकेन्द्रिय, सब वनस्पति और निगोद जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । मनुष्यायुका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति और उद्योतका भङ्ग ओषके समान है ।

विशेषार्थ—ये मार्गाणएँ अनन्त संख्यावाली होकर भी इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले सर्वविद्युद्ध जीव होते हैं, जिनका प्रमाण असंख्यातसे अधिक नहीं होता; क्योंकि एकेन्द्रियोंके सिवा शेष तिर्यञ्च ही असंख्यात हैं । इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले संख्यात जीवोंको कारण जानना चाहिए । एकेन्द्रियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, उच्चगोत्र तथा अन्य प्रशस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्वामित्वकी जो विशेषता कही है, उसके अनुसार यह प्रकारण दृष्टव्य है । स्वामित्व सम्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएँ भी ध्यान देने योग्य हैं ।

३२२. पञ्चोन्द्रिय, पञ्चोन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंके सातावेदनीय, तीन आयु, देवगति, पञ्चोन्द्रियजाति, वैकियिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक आह्नोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि ह्रद, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारकदिकका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार यह भङ्ग पौषों मनोयोगी, पौषों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गज्ञानी, चक्षुदर्शनी और सङ्गी जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव मनुष्योंमें ही होते हैं, इसलिए इनमें उसके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । शेष कथन सुगम है ।

३२३. ओरालियमि० दोआउ० एइदियभंगो । देवगदिपंचग० उ० अणु० संखेंजा । सेसाणं उ० अणु० ओधं । एवं कम्मइग०-अणाहार० । वेउन्वि० देवोयं । एवं चेव वेउन्वियमित्स० । णवरि तित्थ० उक्क० अणु० संखेंजा । आहार०-आहारमि० सव्वट्ठभंगो । एवं अवगद०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुम० ।

३२४. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-द्धदंसणा०--असादा०--वारसक०-सत्त-णोक०-मणुस०-ओरा०-ओरा०-अंगो०-वज्जरि०-अप्पसत्थ०४-मणुसाणु०-उप०-अधिर-असुभ०-अजस०-पंचंत० उ० अणु० असंखेंजा । सेसाणं उ० संखेंजा । अणु० असंखेंजा । णवरि मणुसाउ०-आहारदुगं उ० अणु० संखेंजा । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम० । णवरि सच्चाणं मणुसाउ० उ० अणु० संखेंजा । खइगस० दोआउ० उ० अणु० संखेंजा । उवसम० आहारदुगं तित्थं उ०

३२३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव ओषके समान हैं । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । इसीप्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अपगतवेदी, मनः-पर्यवहानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्प्रयाय संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो सम्यग्दृष्टि देव और नारकी मर कर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं, इनके अपर्याप्त अवस्थामें औदारिकमिश्रकाययोग होता है और ये जीव संख्यात होते हैं, इसलिए इस योगमें देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य देवों और नारकियोंमें उत्पन्न होते हैं, उन्हींके वैक्रियिक-मिश्रकाययोगमें तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होता है और ये जीव संख्यात होते हैं, इसलिए इस योगमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३२४. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, वारह कपाय, सात नोकपाय, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आंगोपांग, बर्द्धमनराच संहनन, अप्रशस्त वर्षचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशार्कति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु और आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन सबमें मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं तथा उपशमसम्यग्दृष्टि

अणु० संखेज्जा ।

३२५. संजदासंजदेसु सादादीणं उक्क० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । तित्य० मणुसि०भंगो । सेसाणं उ० अणु० असंखेज्जा ।

३२६. किण्ण०-णील० च्छुआउ०-वेउन्वियळ्ळ० ओधं । तित्य० मणुसि०भंगो । सेसाणं उक्क० असंखेज्जा । अणु० अणंता । एवं काऊए पि । णवरि तित्य० उ० अणु० असंखेज्जा ।

३२७. तेऊए सादादीणं तिण्णिआउ० देवगदिपसत्याणं तित्य० उच्चा० उ० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । सेसाणं उ० अणु० असंखेज्जा० । एवं पम्माए । सुक्काए

जीवोंमें आहारकद्विक और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—गर्भज मनुष्य संख्यात हैं और इन्हींमें आहारकद्विकका बन्ध होता है, इसलिए आभिनिवोधिकज्ञानी आदिमें मनुष्यायु और आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । आगे अवधिदर्शनी आदि मार्गाणाओंमें भी इन प्रकृतियोंके सम्बन्ध में इसी प्रकार जानना चाहिए । मात्र क्षात्रिकसम्यक्त्वका प्रारम्भ मनुष्य करते हैं और ये ही चारों गतियोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें मनुष्यायुके समान देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । तथा जो मनुष्य उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं या ऐसे जीव मर कर देव होते हैं, उनमेंसे ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले होते हैं, अन्य उपशमसम्यग्दृष्टि नहीं। अतः इनमें आहारकद्विकके समान तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । शेष कथन सुगम है ।

३२५. संघतासंघत जीवोंमें सातावेदनीय आदित्रे उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भद्र मनुष्यनियोंके समान हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—जो मनुष्य संघतासंघत होते हैं, उनमें ही कुछ तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करते हैं, अतः यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । शेष कथन स्पष्ट ही हैं ।

३२६. कृष्ण और नील लेश्यामें चार आयु और वैक्रियिक छहका भद्र ओषके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भंग मनुष्यनियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार कापोत लेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—जो नारकी कृष्ण और नील लेश्यावाले होते हैं, उनमें नरकायु, देवायु और वैक्रियिक छहका बन्ध नहीं होता; इसलिए यह प्ररूपणा ओषके समान बन जानी है । तथा इन लेश्याओंमें नरकमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिका भंग मनुष्यनियोंके समान कहा है । मात्र कापोत लेश्यामें नरकमें भी इसका बन्ध होता है, इसलिए इस लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं । शेष कथन सुगम है ।

३२७. पीतलेश्यामें सातावेदनीय, तीन आयु, देवगति आदि प्रशस्त प्रकृतियों तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात

खड्गाणं पंचिन्द्रियभंगो । दोआउ० मणुसि० भंगो । सेसाणं आणदभंगो । आहारदुगं ओघं ।

३२८. अबभवमि० गिरयाउ०-वेउ०छ० उ० अणु० असंखेज्जा । तिण्णिआउ० ओघं । सेसाणं उ० असंखेज्जा । अणु० अणंता । सासणे दोआउ० उ० संखेज्जा । अणु० असंखेज्जा । मणुसाउ० मणुसि० भंगो । सेसाणं उ० अणु० असंखेज्जा । सम्मामि० सन्वपगदीणं उ० अणु० असंखेज्जा । असण्णीसु दोआउ०-वेउच्चियछ० उ० अणु० असंखेज्जा । मणुसाउ० ओघं । सेसाणं उ० असंखेज्जा । अणु० अणंता ।

एवं उक्कस्सं परिमाणं समत्तं ।

३२९. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० अणु० केत्तिया ? संखेज्जा । अज० अणुभा० के० ? अणंता । सादासाद०-तिरिक्खाउ०-मणुसगदि-चहुजादि-अस्संठा०-अस्संध०-मणुसाणुं०-दोविहा०-थावरादि०४-थिरादिछ०-उच्चा०

हैं । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें जानना चाहिए । शुक्ललेश्यामें क्षायिक प्रकृतियोंका भंग पञ्चन्द्रियोंके समान है । दो आयुओंका भंग मनुष्यिनियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग आनत कल्पके समान है । आहारकट्टिकका भंग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—शुक्ललेश्यामें मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध असंयतसम्यग्दृष्टि देव और देवायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्रमत्तसंयत मनुष्य करता है । इसी प्रकार इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक भी संख्यात हैं, इसलिए इनका भंग मनुष्यिनियोंके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३२८. अभग्योमें, नरकायु और वैक्रियिक छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । तीन आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायुका भंग मनुष्यिनियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । असंज्ञी जीवोंमें दो आयु और वैक्रियिक छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायुका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुआ ।

३२९. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं ? सख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर

० ता० प्रती एवं उक्कस्सं परिमाणं समत्तं इति पाठो नास्ति । २. ता० प्रती मणुसाउ इति पाठः ।



ज० अज० अणंता । इत्थि०-णवुंस०--तिरि०-पंचिन्दि०--ओरा०--तेजा०-क०--ओरा०-  
अंगो०-पसत्थव०४--तिरिक्खाणु०--अगु० ३--आदाउज्जो०--तस०४--णिमि०-णीचागो०  
ज० असंखेज्जा । अज० अणंता । तिण्णिआउग०-वेउच्चियळ्ळ० ज० अज० असंखेज्जा ।  
आहारहुगं ज० अज० संखेज्जा । तित्थ० ज० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । एवं  
ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०--णवुंस०--कोधादि०४--अचक्खु०--भवसि०-आहारए  
त्ति । णवरि ओरालि० [ तित्थ० ] ज० अज० संखेज्जा ।

आदि छह और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आंगोपांग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, प्रसवतुष्क, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। तीन आयु और वैकृतिक छहके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले अचक्षुदर्शनी, भय और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं।

विशेषार्थ—पौंच ज्ञानावरणादिमें से कुछ का जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकभेदिमें होता है, स्थानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका जघन्य अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टिके होता है। आठ कषायोंका जघन्य अनुभागबन्ध भी संयमके अभिमुख हुए अविरत-सम्यग्दृष्टि और संयतासंयतके होता है। अरति और शोकका जघन्य अनुभागबन्ध प्रमत्तसंयतके होता है। यतः इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं, अतः ये संख्यात कहे हैं। इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं, यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध चारो गतिके जीव करते हैं और तिर्यञ्चायु और तीन जातिका जघन्य अनुभागबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य तथा एवंन्द्रियजाति और स्थावरका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिके जीव करते हैं। ये बन्ध करनेवाले जीव अनन्त हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त कहे हैं। स्त्रीवेद आदिका जघन्य अनुभागबन्ध यथायोग्य सद्गी पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त कहे हैं। तीन आयु आदिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव पञ्चेन्द्रिय हैं मात्र मनुष्यायुके विषयमें यह नियम नहीं है। पर मनुष्य असंख्यात होते हैं, इसलिए इनके बन्धक भी असंख्यात ही होंगे, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं। आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं, यह स्पष्ट ही है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मनुष्य ही करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं। यह ओघ प्ररूपणा काययोगी आदि मार्गणाओंमें घटित हो जाती है, इसलिए उनकी प्ररूपणा ओघके समान कही है। मात्र औदारिककाययोगमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध गर्भज मनुष्य

१. आ० प्रती धिरादिळ्ळ० उक्क० उच्चा० ज० इति पाठः । २ आ० प्रती संखेजा इति पाठः ।  
३. आ० प्रती ज० अरखेजा इति पाठः ।

३३०. पेरङ्ग-सव्वदेवाणं ज० अज० उक्कस्सभंगो । तिरिक्खेसु साददंओ तिण्णिआउ०-वेउव्वियद्ध० ओघं । सेसाणं ज० असंखेज्जा । अज० अणंता । सव्व-पंचिद्विय तिरि० सव्वपग० ज० अज० असंखेज्जा । एवं सव्वअपज्ज०-सव्वविगल्लिदि०-सव्वपुह०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपत्ते० ।

३३१. मणुसेसु पंचणा०-णवदंसणा०-भिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्यापसत्य०४-अगु०४-आदाइज्जो०-तस०४-णिमि०--पंचंत० ज० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । सादासाद०-दांआउ०-दोगदि-चटुजा०-द्धस्संडा०-द्धसंव०--दोआणु०-दोविहा०--धावरादि०४-धिरादिद्धयु०-दोगो० ज० अज० असंखेज्जा । दोआउ०-वेउव्वियद्ध०-आहारदुग-तित्थ० ज० अज० संखेज्जा । मणुसज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपग० ज० अज० उक्कस्सभंगो ।

३३२. एहंदिएसु तिरिक्ख-मणुसाउ०-तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० अज० ओघं । सेसाणं ज० अज० अणंता । वणप्फदि-णियोदाणं मणुसाउ०-तिरिक्ख०-

ही करते हैं और वे संख्यात हैं, अतः इस योगमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनु-भागके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं ।

३३०. नारकियों और सव देवोंमें सव प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग उच्छेद्य प्ररूपणान्ने समान है । तिर्यञ्चोंमें सातावेदनीयदण्डक, तीन आयु और वैक्रियिकद्धका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । सव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सव प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सव अपर्याप्त, सव विकलेन्द्रिय, सव पृथिवीकायिक, सव जलकायिक, सव अग्निकायिक, सव वायुकायिक और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिए ।

३३१. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, दो गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आयुपूर्वा, दो विहायोगति, स्यावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और दो गोरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । दो आयु, वैक्रियिक छह, आहारकट्टिक और तीर्थङ्करके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सव प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग उच्छेद्यके समान है ।

३३२. एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा और नीचगोरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें मनुष्यायु, तिर्यञ्च-

१ ता० प्रती यावपदि० यिपादिद्धयु० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः असंखेजा० इति पाठः ।

तिरिक्त्वाणु०-णीचा० ज० अज० ओघं । सेसाणं ज० अज० अणता । पंचि०-त्स०२  
पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक्क०-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थय०-पंचंत०  
ज० संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । आहारदुगं ओघं । सेसाणं ज० अज० असंखेज्जा ।  
एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खु०-सण्णि त्ति ।

३३३. ओरालियमि० पंचणा०-द्धदंसणा०-वारसक०-अप्पसत्थ०४-उप०-  
पंचंत० ज० संखेज्जा । अज० अणता । मणुसाउ० ओघं । देवगदिपंचगस्स उक्कस्स-  
भंगो । सेसाणं ओरालियकायजोगिभंगो । वेउन्वि०-वेउन्विमि०-आहार०-आहारमि०  
उक्कस्सभंगो । कम्मइ० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्क०-तिरिक्त्वाणु०-  
पंचि०-ओरा०-तेजा०-क०-ओरा०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्त्वाणु०-अणु०४-  
आदाउज्जो०-त्स०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० ज० असंखे० । अज० अणता । देवगदि-  
पंचगं उक्कस्सभंगो । सेसाणं सादादीणं ज० अज० अणता ।

३३४. अवगद०-मणपज्जव०-संजद-सामाइ०-द्धेदो०-परिहार०-मुहुमसंप०  
उक्कस्सभंगो ।

गति, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थहृत् और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । आहारकद्विक्रमा भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

३३३. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, द्वादश दर्शनावरण, बारह कषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । मनुष्यायुका भंग ओघके समान है । देवगतिपञ्चक्रका भंग उक्कष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग औदारिककाययोगी जीवोंके समान है । वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और ज्ञाहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें उक्कष्टके समान भंग है । कर्मण्यकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्यङ्गगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आंगोपांग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं । देवगतिपञ्चक्रका भंग उक्कष्टके समान है । शेष सातावेदनीय आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं ।

३३४. अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, द्वेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंका भंग उक्कष्टके समान है ।

३३५. मदि-मुद० पंचगणावावरणादिदंडओ साद्रादिदंडओ पंचिदियदंडओ ओवं । णवरि अरदि-सोग ज० असंखेज्जा । अज० अणंता । एवमसंजद्रा० मिच्छा-दिदि ति । आभिगि-मुद-ओधि० पंचणा०-द्वदंसणा०-वारसक०-सत्तणोक०-अप्य-सत्य०४-उप०-वित्त्य०-पंचंत० ज० के० ? संखेज्जा । अज० असंखेज्जा । मणुसाउ०-आहारदुगं उक्कस्सभंगो । सेसाणं ज० अज० असंखेज्जा । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-त्तइग०-वेदग०-उवसम० । णवरि त्त्तइगं दोआउ०-आहारदुगं उक्कस्सभंगो । उवसम० वित्त्य० उक्कस्सभंगो । संजदासंजदे वित्त्य० मणुसि०भंगो । सेसाणं ओधिभंगो ।

३३६. क्किण्ण०-णीळ०-काउ० तिरिक्खोयं । णवरि वित्त्य० मणुसि०भंगो । काऊए णिरयभंगो । तेऊए पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-अप्य-सत्य०४-उप०-पंचंत० ज० संखे० । अज० असंखे० । मणुसाउ०-आहारदुगं उक्कस्स-भंगो । सेसाणं ज० अज० असंखे० । एवं पम्माए । मुक्काए खविगाणं संजमपाओ-नाणं ज० संखे० । अज० असंखे० । दोआउ०-आहारदुगं उक्कस्सभंगो । सेसाणं ज० अज० असंखे० ।

३३५. मत्तज्जानी और कृत्तज्जानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदिदृक्क, साउवेदनीयदृक्क और पञ्चोन्द्रियजादिदृक्कका भङ्ग ओउके समान है । इतनी विशेषता है कि अरुणि और शोकके जवन्नु अनुभागके वन्वक जीव असंख्यात हैं और अजवन्नु अनुभागके वन्वक जीव अनन्त हैं । इसी प्रकार असंयत और निध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । आभिनिगोविकज्जानी, कृतज्जानी और अणुविज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, दृढ दर्शनावरण, वारह क्कणाय, साउ नोकणाय, अणुशस्तवर्ण-वत्तुक्क, उववाउ, तीर्यङ्क और पाँच अन्तरायके जवन्नु अनुभागके वन्व जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजवन्नु अनुभागके वन्वक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकृदिकका भङ्ग उक्कट्टके समान है । इगं प्रकृतिदोके जवन्नु और अजवन्नु अनुभागके वन्वक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार अणुविदरानी, सन्धदृष्टि, कायिकसन्धदृष्टि, वेदकसन्धदृष्टि और उपशानसन्धदृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशिष्टता है कि क्षायिकसन्धदृष्टि जीवोंमें दो आयु और आहारकृदिकका भंग उक्कट्टके समान है । उपशानसन्धदृष्टि जीवोंमें तीर्यङ्क प्रकृतिका भंग उक्कट्टके समान है । संयदासंयद जीवोंमें तीर्यङ्क प्रकृतिका भंग मनुष्यिनियोंके समान है । शन प्रकृतियोंका भंग अणुविज्ञानी जीवोंके समान है ।

३३६. कृए, नीउ और काउवेदेष्यामें सत्तान्य तिर्यङ्गोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्यङ्क प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । मात्र काउवेदेष्यामें नारकियोंके समान भंग है । पीउ तेष्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, निध्यात्त, सोलह क्कणाय, साउ नोकणाय, अणुशस्त वत्तुक्क, उववाउ और पाँच अन्तरायके जवन्नु अनुभागके वन्वक जीव संख्यात हैं । अजवन्नु अनुभागके वन्वक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकृदिकका भंग उक्कट्टके समान है । शन प्रकृतियोंके जवन्नु और अजवन्नु अनुभागके वन्वक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार उदण्णेष्यामें जानना चाहिए । शुक्लतेष्यामें कनक और संयमप्रयोन्य प्रकृतियोंके जवन्नु अनुभागके वन्वक जीव संख्यात हैं । अजवन्नु अनुभागके वन्वक जीव असंख्यात हैं । दो आयु और आहारकृदिकका भंग उक्कट्टके समान है । शन प्रकृतियोंके जवन्नु और अजवन्नु अनुभागके वन्वक जीव असंख्यात हैं ।

३३७. अबभवसि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-तिरिक्ख०-  
पंचिंदियजादि-तिण्णसररी-ओरा०अंगो०--पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खणु०-अणु०४-  
आदाउज्जो०-तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० ज० असंखे० । अज० अणंता । सेसाणं  
ओघं । एवमसण्णिं ति । सासणे मणुसाउ० देवभंगो । सेसाणं ज० अज० असंखे० ।  
सम्मामि० सन्वपग० ज० अज० असंखेज्जा । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं परिमाणं समत्तं ।

## १६ खेत्तपरूवणा

३३८. खेत्तं दुविधं—जहणयं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे०  
आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०-वेउच्चियद्ध०-आहारदुग-तित्थ० उक्क० अणुक० अणु-  
भागबंध० केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सेसाणं उ० अणुभा० केव० ?  
लोगस्स असंखेज्ज० । अणुक० सन्वलोगे । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-  
ओरालि०--ओरालियमि०-कम्मइ०--णत्तंस०--कोधादि०४--मदि०-सुद०--असंज०-

३३७. अभन्योमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय,  
तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त  
वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र  
और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अजघन्य अनुभागके बन्धक  
जीव अनन्त हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार असंखी जीवोंके जाननां  
चाहिए । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यायुका भंग देवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य  
और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके  
जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अनाहारक जीवोंमें कामणकाययोगी  
जीवोंके समान भंग है ।

विशेषार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव कितने  
हैं इसका स्पष्टीकरण किया ही है । उसी प्रकार अपने अपने स्वामित्वको ध्यानमें रखकर सब मार्ग-  
णाओंमें स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । कोई विशेषता न होनेसे अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं  
किया है ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

## १६ क्षेत्रपरूवणा

३३८. क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका  
है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिक लह, आहारकद्विक और तीर्थद्विके उत्कृष्ट  
और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है ।  
शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका किनना क्षेत्र है ? लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र  
है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य  
तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुसकदेवी,

१. आ० प्रतौ एवं लण्णि ति इति पाठः । २. ता० प्रतौ एवं परिमाणं समत्तं इति पाठो नास्ति ।

अचक्वु०-तिणिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असपिण०-आहार०-अणाहारगति ।

३३६. एइदि० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड०-अपसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-धावरादि४-अथिरादि-पंच०-णीचा०-पंचत० उ० अणु० सव्वलोगे । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ओयं । सेसाणं उ० लोग० संखे०, अणु० सव्वलोगे ।

क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यजानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शन, तीन लेश्यावाले, भन्व, अमन्व, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकायु, देवायु और वैकिकियिक्क छहका असंज्ञी आदि, आहारकद्विकका अप्र-मत्तसंयत और तीर्थकरका सम्यग्दृष्टि जीव बन्ध करते हैं । इन जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण होनेसे इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनका क्षेत्र तो लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ही, परन्तु मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट अनुभाग के बन्धक जीवोंका भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि एकेन्द्रियादि सभी जीव इसका बन्ध करनेवाले होते हुए भी वे स्वल्प हैं । उन जीवोंके क्षेत्रका योग लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए मनुष्यायुकी अपेक्षा भी यह क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है । अब रहीं शेष प्रकृतियों से उनके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध सामान्यतः संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव करते हैं और इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण नहा है । तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध एकेन्द्रियादि सभी जीव करते हैं, इसलिए यह सर्वलोक कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गाएँ कही हैं, उनमें यह प्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनको ओषके समान कहा है ।

३३६. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, त्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, सात नोक्तपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजानि, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, उपघान, स्यान्नर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भंग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अन्यतर यथायोग्य संक्लेश युक्त एकेन्द्रिय जीव करते हैं और ये सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सर्व लोक क्षेत्र कहा है । दो आयु, मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका भंग ओषके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक और वादर प्रत्येक वनस्त्रातिकायिक जीव हैं और इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा एकेन्द्रिय जीव सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । ओषसे इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण ही कहा है । अब रहीं शेष प्रकृतियों से उनमेंसे प्रशस्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीव करते हैं और जो एकेन्द्रिय सन्धन्वी न होकर अन्य प्रकृतियों हैं, उनके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध अन्यतर करते हुए वे

३४०. वादरएइंदियपज्जतापज्जता० पंचणाणावरणादि याव अप्पसत्थाणं थावर-  
पगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । सादावे०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-  
अणु०३-पज्ज०-पत्ते०-थिर-सुभ०-णिमि० उ० लोग० संखे०, अणु० सव्वलो० ।  
इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-अस्संथ०-आदाउज्जो०-दोविहा०-  
तस०-वादर०-सुभग०-दोसर०-आदेज्ज०-जस० उ० अणु० लोग० संखे० । तिरि-  
क्खाउ० उ० लोग० असंखे०, अणु० लोग० संखे० । मणुसाउ०-मणुस०-मणुसाणु०-  
उच्चा० उक्क० अणु० लोग० असंखे० । सव्वसुहुमाणं' तिरिक्ख०-मणुसाउ० ओघं ।  
सेसाणं उ० अणु० सव्वलो० ।

३४१. पुढवि०-आउ०-तेउ० सव्वैथावरपगदीणं उ० लो० असंखे०, अणु०  
सव्वलो० ? णवरि मणुसाउ० ओघं । वादरपुढवि०-आउ०-तेउ० पंचणा०-णवदंस०-  
सादासाद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरि०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-  
हुंड०-पसत्थापसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-थावर-सुहुम-पज्जतापज्जत-पत्ते०-साधार०-

सब लोकमें नहीं पाये जाते, अतः उन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र  
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक कहा है ।  
आगे अन्य मार्गाणाओंमें जो क्षेत्र कहा है उसे इसी प्रकार स्वामित्वका विचार कर घटितकर लेना  
चाहिए । विचार करनेकी दिशाका ज्ञान इससे ही हो जाता है ।

३४०. वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणसे लेकर  
अप्रशस्त स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है ।  
सातावेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक,  
पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें  
भागप्रमाण है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद  
चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आंगोपाग, छह संहतन, आतप, उद्योत, दो विहायोगति,  
त्रस वादर, सुभग, दो स्वर, आदेय और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका  
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्या-  
तवें भागप्रमाण क्षेत्र है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उन्नगोत्रके उत्कृष्ट और  
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सब सूक्ष्म जीवोंमें  
तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भंग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु-  
भागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है ।

३४१. पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवोंमें सब स्थावर प्रकृतियोंके  
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है और अनुत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भंग ओषके समान है ।  
वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक और वादर अग्निकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति,  
एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क,

१. आ० प्रलो जस० उ० अणु० लोग० असंखे० संखसुहुमाणं इति पाठः । १. ता० आ० प्रलो-  
तेउ वादरपत्ते० सव्व- इति पाठः ।

थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादें-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उ० लोगस्त  
असंखेंज्जदिभागे । अणुक्कस्सं सव्वलोगे । सेसाणं सव्वतसपगदीणं वादर-जसगित्ति-  
सहिदाणं उ० अणु० लो० असंखें० । वादरपुढ०-आउ०-तेउ०पज्जत्ता पंचि०तिरि०-  
अपज्ज०भंगो । वादरपुढ०-आउ०-तेउ०अपज्जत्त० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-  
मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोको-तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-  
उप०-थावरादि४-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० उ० अणु० सव्वलो० । सादा०-  
ओरात्ति०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०३-पज्जत्त-पत्ते०-थिर०-सुभ०-णिमि० उ०  
लोग० असं०, अणु० सव्वलो० । सेसाणं तसपगदीणं वादर-जसगित्ति-सहिदाणं उ०  
अणु० लो० असंखें० । वाऊणं पि तेउभंगो । णवरि यम्हि लोग० असंखें० तम्हि  
लोग० संखें०कादव्वं । णवरि वादरवाउ० आउ० वादरएइदियभंगो ।

३४२. वणप्फदि-णियोद० थावरपगदीणं अप्पसत्थाणं उ० अणु० सव्वलो० ।  
सेसाणं सादादीणं तस-थावरपगदीणं उ० लो० असंखें०, अणु० सव्वलो० । मणु-  
साउ० ओर्धं । वादरवणप्फदि-वादरणियोद-पज्जत्तापज्जत्त० थावरपगदीणं अप्पसत्थाणं

अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक  
साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और  
पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और  
अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । वादर और यशःकीर्ति सहित शेष सब  
त्रसप्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग-  
प्रमाण है । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त और वादर अग्निकायिक पर्याप्त  
जीवोंमें पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भंग है । वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जल-  
कायिक अपर्याप्त और वादर अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,  
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड  
संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि  
पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र सब  
लोक है । सातावेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-  
विक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका लोकके असं-  
ख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है और अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । वादर  
और यशःकीर्ति सहित गेय त्रस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका  
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । वायुकायिक जीवोंका भी अग्निकायिक जीवोंके समान  
भंग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहा है, वहाँ पर  
लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र बर्तना चाहिये । इतनी विशेषता है कि वादर वायुकायिक जीवों  
में आयुका भंग वादर एकेन्द्रियके समान है ।

३४२. वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें अप्रशस्त स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और  
अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । शेष सातावेदनीय आदि त्रस-स्थावर-  
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है और अनु-  
कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । मनुष्यायुका भंग ओषधके समान है । वादर

१ ता० आ० प्रत्येकः सव्वलोगो इति पाठः । २ आ० प्रतौ तेउ० वाउ० पज्जत्ता इति पाठः ।



उ० अणु० सव्वलो० । सादा०-ओरा०--तेजइगादीणं थावरपगदीणं पसत्थारणं उ० लो० असंखे०, अणु० सव्वलो० । सेसाणं तसपगदीणं आदाउज्जो०-वादर-जसगित्ति-सहिदाणं उ० अणु० लो० असंखे० । वादरपचे० वादरपुढविभंगो । गेरइगादि याव सण्णि ति उक्क० अणु० लो० असंखेज्जदि० ।

एवं उक्कस्सं समत्तं ।

३४३, जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्क०-तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०--तेजा०-क०-ओरालि०-अंगो०-पसत्थापसत्थ०-४--तिरिक्खाणु०--अणु०४--आदाउज्जो०--तस०४--णिमि०--णीचा०-पंचंत० ज० अणुभागबंधगा केवडि खेचै ? लोग० असंखे० । अज० अणु० केव ? सव्वलो० । सादासाद०-तिरिक्खाउ०-मणुस०-चहुजादि-उक्कंठा०-उक्कंसंय०-मणुसाणु०-दोविहा०-थावरादि४-थिरादिउयुग०-उच्चा० ज० अज० सव्वलो० । तिण्णिआउ०-वेउज्जियउ०-आहारदुग-तित्थ० ज० अज० लो० असंखे० । एवं ओघ-भंगो कायजोगि--णउंस०-कोधादि४-मदि०-मुद०--असंज०--अचवखु०--किण०-

वनस्पतिकायिक, वादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें अप्रशस्त स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । सातावेदनीय, औदारिकशरीर और तैजसशरीर आदि प्रशस्त स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । आतप, उद्योत, वादर और यशःकीर्ति सहित शेष व्रसप्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंका वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भंग है । तथा नारकियोंसे लेकर संधी तक अन्य जितनी मार्गणार्थ शेष रही हैं, उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट क्षेत्र ममाप्त हुआ ।

३४३, जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्यङ्गगति, पञ्चभ्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण्यशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यङ्गत्वानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, व्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अनवन्ध अनुभागके वन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । सातावेदनीय, आसातावेदनीय, तिर्यङ्गाणु, मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उवगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । तीन आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यहानी, श्रुताहानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेदयावाले, भन्य, अभन्य, मिथ्यादि

भवसि०-अभवसि०-भिच्छा०--आहारए त्ति । तिरिक्खोघं ओरा०-ओरालियमि०-णील०-फाउ०-असण्णीसु च ओघं । णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० लो० संखे०, अज० सन्वलो० ।

३४४, एइंदिएसु पंचणा०-णवदंस०-भिच्छ०-सोलसक०-णवणो०-तिरिक्ख०-ओरालि०अंगो०--अप्पसत्थ०४--तिरक्खाणु०--उप०-आदाउज्जो०--[ अप्पसत्थवि०- ] णीचा०-पंचंत० ज० लो० संखे०, अज० सन्वलो० । सादासाद०-तिरिक्खाउ०-

और आहारक जीवोके जानना चाहिए । सामान्य तिर्यञ्च, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, नीललेशयावाले, कापोललेशयावाले और असंज्ञी जीवोमें भी ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमे कही गई पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग-बन्ध या तो गुणस्थानप्रतिपन्न जीव करते हैं और जिन स्त्यानगृद्धि तीन आदिका मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं वे सब संज्ञी पञ्चन्द्रिय ही होते हैं और ऐसे जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध एकेन्द्रिय आदि सब जीव करते हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभाग के बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र कहा है । दूसरे दण्डकमे कही गई सातावेदनीय आदिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध एकेन्द्रिय आदि चारो गतिके जीव करते हैं, अतः इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक कहा है । शेष रही तीसरे दण्डकमे कही गई तीन आयु आदि प्रकृतियों सो इनमेसे मनुष्यायुके सिवा शेष प्रकृतियोंका बन्ध यथायोग्य पञ्चन्द्रिय जीव ही करते हैं और मनुष्योंका प्रमाण असंख्यात होनेसे मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले जीव स्वल्प हैं, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यहाँ काययोगी आदि अन्य जितनी मार्गाणाँ गिनाई हैं उनमें यह ओघ-प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा है । यद्यपि सामान्य तिर्यञ्च आदि मार्गाणाओमें भी यह ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है और इसलिए उनकी प्ररूपणाको भी ओघके समान जाननेकी सूचना की है पर उनमे तिर्यञ्चगति आदि तीन प्रकृतियोंकी अपेक्षा कुछ विशेषता है । यात यह है कि ओघमे और काययोगी आदि मार्गाणाओमें तो तिर्यञ्चगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अमिमुख हुआ सातवें नरकका नारकी जीव करता है और सामान्य तिर्यञ्च आदि मार्गाणाओमें बादर अग्निकायिक और बादर वायु-कायिक जीव इन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध करता है और बादर वायुकायिक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इन मार्गाणाओमें उक्त तीन प्रकृतियोंके जघन्य अनु-भागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक कहा है ।

३४४. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्यञ्चगति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक

मणुस०-पंचजादि--ओरालि०--तेजा०--क०-द्वस्तंठा०-द्वस्तंघ०--पसत्य०४-मणुसाणु०-  
अगु०३-[पसत्यवि०] तसथावरादिदसयुग०-णिमि०-उच्चा० ज० अज० सव्वलो० ।  
मणुसाउ० ज० अज० ओघं ।

३४५. वादरपज्जत्त-[अपज्जत्त०] पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
सत्तणोक०--तिरिक्ख०--अपसत्य०४-तिरिक्खाणु०-उप०-णीचा०--पंचत्त० ज० लो०  
संखे०, अज० सव्वलो० । सादासाद०-एइदि०--ओरा०-तेजा०-क०--हुंड०--पसत्य-  
वण्ण४--अगु०३-थावर-सुहुम-पज्ज०-अपज्ज०--पत्ते०--साधार०--थिराधिर-मुभासुभ-  
दूभग-अणादें-अजस०-णिमि० ज० अज० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-तिरिक्खाउ०-  
चदुजादि--पंचसंठा०--ओरा०अंगो०--द्वस्तंघ०-आदाउज्जो०-दोविहा०--तस०--वादर०-

है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तैजस-  
शरीर, कार्मणशरीर, ब्रह्म संस्थान, ब्रह्म संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरु-  
लघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य और  
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनु-  
भागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध वादर जीव करते हैं और  
इनका स्वस्थानकी अपेक्षा क्षेत्र लोकका संख्यातवां भागप्रमाण है और समुद्रघातकी अपेक्षा सर्व  
लोक क्षेत्र है । इसी विशेषताकी ध्यानमें रखकर यहाँ क्षेत्र कहा है । जिन प्रकृतियोंका सर्वविशुद्ध  
और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे जघन्य अनुभागबन्ध होता है । या तत्प्रायोग्य सक्लिष्ट परि-  
णामोंसे जघन्य अनुभागबन्ध होकर भी जो प्रतिपन्न प्रकृतियोंसे रहित हैं उनका जघन्य अनुभाग-  
बन्ध स्वस्थानमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें  
भागप्रमाण कहा है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक कहा है । मात्र  
परघात और उच्छ्वास इस नियमकी अपवाद प्रकृतियों हैं, क्योंकि उपघात अप्रशस्त प्रकृति है  
और ये प्रशस्त प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका ग्रहण सातावेदनीय आदिके साथ होता है । अथ रहीं  
शेष सातावेदनीय आदि उच्छ्वात सक्लिष्ट या तत्प्रायोग्य सक्लिष्ट परिणामो से बँधनेवाली प्रकृतियों  
सो इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र कहा है, क्योंकि इनका  
मारणान्तिक समुद्रघातके समय भी जघन्य अनुभागबन्ध हो सकता है । मात्र दो आयुओंके विपन्न  
में स्वतन्त्ररूपसे विचार करना चाहिए । कारण स्पष्ट है । इसी प्रकार आगे भी स्वामित्वका विचार  
कर क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए ।

३४५. वादर तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,  
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,  
उपघात, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें  
भागप्रमाण है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । सातावेदनीय, असाता-  
वेदनीय, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड सस्थान, प्रशस्त वर्ण  
चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर, सुद्ध, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ,  
अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक  
जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तिर्यञ्चआयु, चार जाति, पाँच सस्थान, औदारिक  
आज्ञोपाद्म, ब्रह्म संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, वादर, सुभग, दो स्वर, आदेय

मुभग०-जोसर०-आदे०-जस० ज० अज० लोग० संखे० । मणुसाड०-मणुसग०-मणु-  
साणु०-उच्चा० ज० अज० लो० असंखे० । सव्वसुहुमाणं सव्वपगदीणं ज० अज०  
सव्वलो० । गवरि मणुसाड० ओघं ।

३४६. पुढ०-आड० पंचणा०-गवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-ओरा०-  
तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थापसत्थ०४--अगु०४-आदाडज्जो०-णिमि०-पंचंत०  
ज० लो० असंखे०, अज० सव्वलो० । सादासाद०--तिरिक्खाड०-दोगदि-पचजादि-  
द्वस्संठा०-द्वस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-तसादिदसयुगल-दोगो० ज० अज० सव्वलो० ।  
मणुसाड० [ ज० अज० ओघं । ] वादरपुढ०--आड० पंचणा०-गवदंस०-मिच्छ०-  
सोलसक०-सत्तणोक०-ओरा०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४--अगु०--णिमि०-पंचंत०  
ज० लो० असंखे०, अज० सव्वलो० । सादासाद०-तिरिक्ख०-एइंदि०--हुंड०-तिरि-  
क्खाणु०--धावर-सुहुम०--पज्ज०--अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-थिराथिर--सुभासुभ-दूभग-  
अणादे०-अजस०-णीचागो० ज० अज० सव्वलो० । सेसाणं ज० अज० लो० असंखे० ।  
वादरपुढ०-आड०पज्ज० मणुसअपज्जत्तभंगो । वादरपुढ०-आड०अपज्ज० पंचणा०-

और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग-  
प्रमाण है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनु-  
भागके दन्धक जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सत्र सूत्रम जीवोमें सत्र प्रकृतियों  
के जघन्य और अजघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका सब लोक क्षेत्र हैं । इतनी विशेषता है कि  
मनुष्यायुका भंग ओघके समान है ।

३४६. पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व,  
सोलह कपाय, नौ नोकपाय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,  
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, निर्माण और पाँच  
अन्तरायके जघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और  
अजघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका क्षेत्र सब लोक हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, निर्यञ्जायु,  
दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहागोमति, त्रसादि दस  
युगल और दो गोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका सब लोक क्षेत्र हैं ।  
मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका क्षेत्र ओघके समान है । वादर  
पृथिवीकायिक और वादर जलकायिक जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह  
कपाय, सात नोकपाय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त  
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका क्षेत्र  
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अजघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका क्षेत्र सब लोक हैं ।  
सातावेदनीय, असातावेदनीय, निर्यञ्जायु, हुण्डसंस्थान, निर्यञ्जगत्यानुपूर्वी,  
स्यावर, सूत्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय,  
अयशःकीर्ति और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका क्षेत्र सब लोक  
हैं । श्रेय प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके दन्धक जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें  
भागप्रमाण है । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त और वादर जलकायिक पर्याप्त जीवोमें मनुष्य

णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० लो० असं०, अज० सन्वलो० । सादासाद०-तिरि०-एइदि०-ओरा०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्थ०४- [ तिरिक्वाणु०-] अर्गु० ३-धावर-सुहुम-पज्ज०-अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभा-सुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा० ज० अज० सन्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-चहुजा०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-द्धस्संघ०-मणुसाणु०-आदा-उज्जो०-दोविहा०-तस-वादर-सुभग-दोसर-आदे०-जस०-उच्चा० ज० अज० लो० असंखे० । एवं वादरवणप्फदिका०-वादरणियोद-पज्जत्तापज्जत-वादरपत्तेयअपज्जत्ताण-च । तेउ० पुद्विभंगो० । णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० आभिणि०भंगो । एवं चैव वाउका० । णवरि यम्हि लोग० असंखे० तम्हि० लोग० संखेज्जो कादव्वो ।

३४७. वणप्फदि-णियोदेमु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-णव-णोक०-ओरालि०-अंगो०-अप्पसत्थ०४-उप०-आदाउज्जो०-पंचंत० ज० लो० असंखे०, अज० सन्वलो० । सादासाद०-तिरिक्खाउ० दोगदि-पंचजादि-ओरालि०-तेजा०-क०-द्धस्संठा०-द्धस्संघ०-पसत्थव०४-दोआणु०-अर्गु० ३-दोविहा०-तस०-थावरादिदसपुग०-

अपर्याप्तकोंके समान भद्र है । वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त और वादर जलकायिक अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, स्यावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । स्त्रीवैद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच सस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह सहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, दों विहायोगति, त्रस, वादर, सुभग, दो स्वर, आदेय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार वादर वनस्पतिकायिक और वादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । अग्निकायिक जीवोंमें पृथिवीकायिक जीवोंके समान भद्र है । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भद्र आभिनियोगिकज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहा है वहाँ पर लोकके सख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए ।

३४७. वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, आतप, उद्योत और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, छह सस्थान, छह

णिमि०-दोगो० ज० अज० सच्चलो० । [ मणुसाउ० ज० अज० ओषं । ] पत्तेय० वादरपुढविभंगो । कम्मइ० अणाहारए त्ति मूलोषं । सेसाण णिरयादीणं याव सण्णि त्ति ज० अज० लोगस्स० असंखें० ।

एवं खेत्तं समत्तं ।

३४८. फोसणं दुविट्ठं-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०--सोलसक०-पंचणो०-तिरिक्ख०-हुंड०-अप्प-सत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणुभागबंधगोहि केवडि खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असंखें०, अट्ठ-तेरह चौदसभागा वा देसणा । अणुक्क० अणुभागबंध० के० फोसिदं ? सच्चलोगो । सादा०-तिरिक्खाउ०-चट्टुजा०-तेजा०-[क०-] समचट्टु०-पसत्थ०४-अणु० ३-उज्जो०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिक्ख०-णिमि०-उच्चा० उ० लो० असंखें० । अणु० सच्चलो० । इत्थि०-पुरिस०--चट्टुसंठा०-पंचसंघ०-अप्प-सत्थवि०-दुस्सर० उक्क० अणुभा० अट्ठ-वारह चौद० । अणु० सच्चलो० । हस्स-रदि

संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आलुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल, निर्माण और दो गोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र ओषके समान है । प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंका भङ्ग वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है । धार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंका भङ्ग मूलोषके समान है । नरकगतिसे लेकर संह्री तक शेष मार्गणाश्रमि सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ जितनी मार्गणाएँ कही हैं उन सयमें अपने अपने क्षेत्र और स्वामित्वका विचारकर अपनी अपनी प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्र ले आना चाहिए ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

३४९. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-गत्यालुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, चार जाति, तैजमशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और हुःस्वरके उत्कृष्ट

१. ता० प्रती ष्वं खेत्तं समत्तं इति पाठो नास्ति । २. ता० आ० प्रत्योः पचसंठा० इति पाठः ।

उक्त० अदृचो० सन्वलो० । अणु० सन्वलो० । गिरय-देवाउ०-आहारदुगं उक्त० अणु०  
 लो० असंखे० । मणुसाउ० उ० लो० असंखे० । अणु० लो० असंखे० अदृ  
 चो० सन्वलोगो वा । गिरयगदि-गिरयाणु० उ० अणु० लो० असंखे०  
 छचोद० । मणुस०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-आदाव० उ०  
 लो० असंखे० अदृ चो० । अणु० सन्वलो० । देवग०-देवाणु० उ० खेतभंगो० । अणु०  
 छचो० । एइदि०-थावर० उ० अदृ-णवचो० । अणु० सन्वलो० । वेउन्वि०-वेउन्वि०-  
 अंगो० उ० खेतभंगो० । अणु० वारह चो० । सुहुम०-अप०-साधार० उ० लो० असंखे०  
 सन्वलो० । अणु० सन्वलो० । तित्थ० उ० खेतभंगो० । अणु० [ लोग० ] असंखे०  
 अदृ चोद० ।

अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम वारह बटे चौदह राजू  
 क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन  
 किया है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू  
 और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक  
 क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकायु, देवायु और आहारकदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके  
 बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट  
 अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट  
 अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और  
 सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु-  
 भागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम छह बटे चौदह राजू क्षेत्रका  
 स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रपैभनाराचसहनन,  
 मनुष्यगत्यानुपूर्विके और आतपके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण  
 और कुछ कम आठ बटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
 जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति और देवगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट अनुभागके  
 बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह  
 बटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
 जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया  
 है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैकिकिशरीर  
 और वैकिकिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा  
 अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम वारह बटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
 सूक्ष्म, अपयोस और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण  
 और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण  
 क्षेत्रका स्पर्शन किया है और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है  
 और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और कुछ कम आठ बटे  
 चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पौष ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चारो गतिके मिथ्यादृष्टि जीव  
 उत्कृष्ट सकलेश परिणामसे करते हैं । इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है  
 और वैकिकिकक्राययोगमे विहारवस्वस्थान आदिकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और

मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम तेरह वटे चौदह राजू है। इन सब अवस्थाओंमें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव होनेसे इस अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। इन प्रकृतियोंके अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्व लोक है यह स्पष्ट ही है। दूसरे दृष्टकर्म कही गई सातवेदनीय आदिका ध्रुवक्रभ्रैणिमं, तिर्यञ्चायु और चार जातिका मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्यके तथा उद्योतका सातवें नरकके नारकीके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है। यतः इनका वर्तमान और अतीतकालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। इनके अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्व लोक है यह स्पष्ट ही है। आगे जिन प्रकृतियोंके अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका अतीत कालीन स्पर्शन सर्व लोक कहा है वहाँ भी उनका ऐन्ड्रियादि चारों गतियोंमें वन्ध होता है इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है ऐसा समझना चाहिए। स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यादृष्टि संज्ञी पञ्चैन्द्रिय करते हैं, इसलिए वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। अतीत स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू कहनेका कारण आभिनवोधिक ज्ञानावरणके ही समान है। कुछ कम धारद वटे चौदह राजू स्पर्शन कहनेका कारण यह है कि इन प्रकृतियोंका वन्ध उन्हीं जीवोंके होता है जो त्रससम्बन्धी प्रकृतियोंका ही वन्ध करते हैं। अतएव इनके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाले जीव ऊपर और नीचे कुछ कप छह छह राजू क्षेत्रका ही स्पर्शन कर सकते हैं जो कुछ कम बारह वटे चौदह राजू होता है। हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंके वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणका और अतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूका स्पष्टीकरण पहलेके ही समान है। हास्य और रतिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चारों गतिके संज्ञी जीव करते हुए भी ऐसे मनुष्य और तिर्यञ्च भी करते हैं जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका अतीत कालीन स्पर्शन सर्व लोक भी कहा है। आयुवन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता और संज्ञी पञ्चैन्द्रिय तिर्यञ्च व मनुष्योंका शेष स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है इसलिए नरकायु आदिके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके स्पर्शनका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। तथा इनका अनुकृष्ट अनुभागवन्ध वैक्यिक-काययोगके समय भी सम्भव है और मारणान्तिक समुद्घातको छोड़कर विहारादिके समय इसका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू है, इसलिए इससे अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू कहा है। जो मनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके भी नरकगतिक्रमका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजू कहा है। इनका वन्ध असंज्ञी आदि ही करते हैं और नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका वन्ध होते समय ही होता है, अतः इनके अनुकृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका भी वही स्पर्शन कहा है। मनुष्यगति आदिका देव और नारकी तथा आत्पका नारकियोंके सिवा शेष तीन गतिके जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं। उसमें भी मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले देव और नारकियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता। इनके विहारादि शेष पदोंका स्पर्शन इतना ही है। हँ जो देव विहारादि शेष पदोंसे युक्त हैं और इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कर रहे हैं उनके कुछ कम आठ वटे चौदह राजू स्पर्शन पाया जाता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू कहा है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध देव करते हैं और देवोंका अतीत स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम नौ वटे चौदह राजू है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। वैक्यिकद्विकका उत्कृष्ट



३४६. षेरइएगु साद०-पंचि०-ओरा०-तेजा०-क०--समचहु०--ओरा०अंगो०-  
वज्जरी०-पसत्थवण०४--अणु०३--उज्जा०-पसत्थ०--त्स०४--थिरादिद्ध०-णिमि० उ०  
खेंत्तं० । अणु० इच्चोद० । दोआउ०-मणुसगदिदुग-तित्थ-उच्चा० उ० अणु० खेत-  
भंगो । सेसाणं उ० अणु० इच्चो० । एवं सच्चणेरइगाणं अप्पण्णो फोसणं णेदव्वं ।

३५०. तिरिक्खेसु पंचणा०--णवदंस०-सादासाद०--मिच्छ०-सोलसक०-पंच-

अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिये होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान और अतीत स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है और वैकियिकद्विकका बन्ध करनेवाले मनुष्य और तिर्यञ्च ऊपर व नीचे कुछ कम छह छह राज्जुका स्पर्शन करते हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम चारह बटे चौदह राज्जु कहा है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका देव और नारकी बन्ध नहीं करते। साथ ही एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले मनुष्य और तिर्यञ्चोंके भी इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक रूहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिये होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान और अतीत स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा देवोंमें भी उसका बन्ध होता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राज्जु कहा है। प्रथमादि नरकोंमें और मारणान्तिक समुद्घातके समय इसका बन्ध होनेसे उक्त स्पर्शानमें कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

३४६. नारकियोंमें सातावेदनीय, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग. बर्ज्यभनाराचसंदहन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राज्जु है। दो आयु, मनुष्यगतिद्विक, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राज्जु है। इसी प्रकार सब नारकियोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उद्योतके सिवा प्रथम दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि नारकी और उद्योतका सम्यक्त्वके अभिसुख हुआ सातवें नरकका नारकी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम छह बटे चौदह राज्जु है यह स्पष्ट ही है। मनुष्य-गतिद्विक, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके बन्धक जीव मनुष्य लोकमें ही मारणान्तिक समुद्घात कर सकते हैं और दो आयुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राज्जु बन जाता है ।

३५०. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व,

गोक०-पंचि०-तेजा०-क्र०-समचदु०-हुंड०-पसत्यापसत्य०४-अगु०४-दोविहा०-तस०४-  
धिरादिद्वयु०-णिमि०-दोगो०-पंचंत० उ० छच्चोई० । अणु० सच्चलो० । इत्थि०-पुरिस०-  
तिणिण्जाउ०-मणुसग०-तिणिण्जा०-ओरा०-चदुसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-  
मणुसाणु०-आदाउज्जो० उ० अणु० खेत्तंभंगो । इस्स-रदि-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिरि-  
क्खाणु०-थावरादि०४ उ० लो० असं० सच्चलो० । अणुक० सच्चलो० । मणुसाउ०  
उ० खेत्तं । अणु० लो० असंखेत्तं सच्चलोगो वा । गिरयगदि०-[देवगदि०-]  
दोआणु० उ० अणु० छच्चो० । वेउच्चि०-वेउच्चि०-अंगो० उ० छच्चो० । अणु० वारस० ।

सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, दो विहायोगति, त्रस-  
चतुष्क, स्थिर आदि छह युगल, निर्माण, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तीन आयु, मनुष्यगति,  
तीन जाति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिक आज्ञोपाद्, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा,  
आतप और उद्योतके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।  
हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा और स्यावर आदि चारके उत्कृष्ट  
अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोकका स्पर्शन किया  
है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुके  
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति,  
देवगति और दो आनुपूर्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे  
चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आज्ञोपाद्के उत्कृष्ट  
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट  
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—प्रथमदण्डकर्म कही गई प्रकृतियोंमेंसे पाँच ज्ञानावरणादिका संज्ञी पञ्चेन्द्रिय  
मिथ्यादृष्टि जीव और सातवेदनीय आदिका संयत्तासंरत उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करते हैं, इस  
लिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजू कहा है ।  
मात्र मिथ्यादृष्टियोंका मारणात्मिक समुद्धान् द्वारा नीचे छह राजू स्पर्शन कराके यह स्पर्शन लाना  
चाहिए । इनका बन्ध एकेन्द्रिय आदि सब जीव करते हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका सब लोक स्पर्शन कहा है । स्त्रीवेद आदि सब प्रकृतियों त्रस और मनुष्यों सम्बन्धी हैं,  
इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे  
वह उक्तप्रमाण कहा है । हास्य और रति आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एकेन्द्रियोंमें मार-  
णात्मिक समुद्धान् करनेवालेके भी होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका  
वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक कहा है । इनके  
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है यह स्पष्ट ही है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट  
अनुभागबन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय ही करते हैं, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है और मनुष्यायुका एकेन्द्रिय आदि सब जीव बन्ध करते हैं, इसलिए

१. वा० प्रती तिरिक्ख० एइंदि० तिरिक्ख० तिरिक्खाणु०, आ० प्रती तिरिक्ख० तिरिक्खाणु०  
इति पाठः ।

३५१. पंचिदिय०तिरिक्त्व०३ पंचणा०—णवदंस०--सादासाद०--मिच्छ०--  
सोलसक०-पंचणो०-तेजा०-क०-हुंडसंठा०--पसत्थापसत्थ०४--अणु०४--पज्जत्-पत्ते०-  
थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०--अजस०--णिमि०-णीचा०-पंचंत० उ० छ० । अणु०  
लो० असं० सव्वलो० । इत्थि० उ० खेंत्तंभंगो । अणु० दिवट्टुच्चो० । पुरिस० उ०  
खेंत्तं० । अणु० च्चवो० । हस्स-रदि-तिरि०-एईदि०-तिरिक्त्वाणु०-थावरादि०४ उ०  
अणु० लो० असं० सव्वलो० । चट्ठआउ०-मणुसग०-तिण्णजादि-चट्ठसंठा०-ओरालि०-  
अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव० उ० अणु० खेंत्तंभंगो । दोगदि-समचट्ठु०-दोआणु०-  
दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० उ० अणु० छ० । पंचि०-वेउच्चि०-वेउच्चि०-अंगो०-  
तस० उ० छ० । अणु० वारस० । ओरालि० उ० खेंत्तं० । अणु० लो० असं० सव्वलो० ।

इसके अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक कहा है । जो नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, उनके नरकगतिद्विकका और जो देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके देवगतिद्विकका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिये इनके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम छहवटे चौदह राजू स्पर्शन कहा है । वैकियिकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयतासंयतके होता है, इसलिये इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छहवटे चौदह राजू प्रमाण कहा है । तथा इनके अनुकृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीव मारणान्तिक समुद्घातके समय नीचे और ऊपर कुछ कम छह राजूका स्पर्शन करते हैं, इसलिये यह कुछ कम बारह राजू कहा है ।

३५१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असाता-  
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तैजसशरीर, कार्माणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त  
वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,  
दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम छहवटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुकृष्ट अनु-  
भागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुकृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदके उत्कृष्ट  
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने  
कुछ कम छहवटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय-  
जाति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभाग के बन्धक  
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार आणु,  
मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और  
आतपके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो गति,  
समचतुरस्रसंस्थान, दो आणुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उबगोत्रके  
उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । पञ्चेन्द्रियजाति, वैकियिकशरीर, वैकियिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके उत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुकृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिकशरीरके उत्कृष्ट

१. आ० प्रतौ अणु० पजस इति पाठः । २ आ० प्रतौ सव्वलो० । उज्जो० उ० खेंत्तं०, अणु०  
छुच्चो० इति पाठः ।

उज्जो० उ० खँच० । अणु० लो० असंखँ० सत्तचो० । वादर० उ० छचो० । अणु०  
तेरह० । जस० उ० छं० । अणु० सत्तचो० ।

अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और कुछ कम सात वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम तेरह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है । यशस्कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजू क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिके स्पर्शनका स्पष्टीकरण जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । मात्र इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका सर्व लोक प्रमाण स्पर्शन एकेन्द्रियोंमें समुद्घात कराके लाना चाहिए । स्त्रीवेद और पुरुषवेद तिर्यञ्चादि तीन गति सम्बन्धी प्रकृतियोंमें हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इन प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम डेढ़ राजू और कुछ कम छह राजू स्पर्शन देखा जाता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि यद्यपि मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, पर देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय यह नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्पर्शन इस अपेक्षासे नहीं कहा है । हास्य और रति आदिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी होता है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक कहा है । चार आयुओंका मारणान्तिक समुद्घातके समय वन्ध नहीं होता, और शेष प्रकृतियों मनुष्यों और ब्रह्म तिर्यञ्चों सम्बन्धी हैं । एक आतप इसकी अपवाद है सो वह भी वादर पृथिवीकाय सम्बन्धी होकर भी प्रशस्त प्रकृति है, अतः इनका दोनों प्रकारका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । देवोंमें और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करने वाले तिर्यञ्चोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजू होता है, इसलिए दो गति आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि यथायोग्य ऐसे समयमें इन प्रकृतियोंका दोनों प्रकारका वन्ध सम्भव है । जो संयतासंयत तिर्यञ्च देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, उनके पञ्चेन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध सम्भव है और जो देवों और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं । उनके इनका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है । इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका कुछ कम छह वटे चौदह राजू और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका कुछ कम बारह वटे चौदह राजू प्रमाण स्पर्शन कहा है । औदारिकशरीरका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संही पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च करते हैं और ये एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इसका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध उन जीवोंके भी होता है जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक कहा है । उद्योतका

३. ता० प्रती छुचो० अणु० जस० उ० खँच० तेरह० जस० उ० छं०, आ० प्रती छुचो० अणु०  
तेरह० । जस० छं० इति पाठ ।

३५२. पंचि०तिरि०अप०पंचणा०--णवदंस०--असादा०- मिच्छ०- सोलसक०- सत्तणोक०-तिरि०-एईदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि०४-अधि- रादिपंच०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० लो० असंखे० सन्वलो० । सादा०-ओरा०- तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अणु०३-पज्जत्त-पत्ते०-धिर-सुभ-पिभि० उ० खेंत्तं० । अणु० लो० असं० सन्वलो० । उज्जो०-वादर०-जस० उ० खेंत्तं० । अणु० सत्तचोहं० । सेसाणं उ० अणु० खेंत्तंभंगो । एवं सन्वअपज्ज०-सन्वविगल्लिदि०--वादरपुठ०-आउ०- तेउ०-वाउ०--वादरवणप्फदिपत्ते०पज्ज० । णवरि वादरवाउ०पज्जत्त० जम्हि लोग० असं० तम्हि लोग० संखे० कादच्चा । णवरि आउ० चट्टमाणखेंत्तं० ।

उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वविद्युद्ध तिर्यञ्जके होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा प्रकृतिबन्धमें इसके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजू कहा है, वह ही यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके वन जाता है। बादर व यशका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयत्तासंयतके होता है, अतः इन दोनोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजू कहा है तथा इनके बन्धक जीवोंका स्पर्शन प्रकृतिबन्धमें क्रमशः कुछ कम तेरह राजू व सात राजू कहा है, वह ही यहाँ अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धक जीवोंका स्पर्शन बतलाया है।

३५२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज अर्प्याप्तिकोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वा, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण- शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्ता वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर और यशःकीतिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार सब अर्प्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त, बादर अग्नि- कायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिकपर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें जहाँ लोकका असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है, वहाँ लोकका सख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आयु का स्पर्शन वर्तमान क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समु- द्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक कहा है। उद्योत, बादर और यशस्कीर्ति प्रशस्त प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका मारणान्तिक समुद्घातके समय उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नहीं होता। यही कारण है कि इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है।

३५३. मणुस०३ पंचगा०-णवदंस०-दोवेदणी०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-  
ओरा०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्यापसत्य०४-अगु०४-पज्ज०-पते०-थिराथिर-सुभासुभ-  
दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उ० खेंत० । अणु० लो० असं०  
सव्वलो० । हस्स-रदि-तिरिक्ख०-एईदि०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०४ उ० अणु० लो०  
असं० सव्वलो० । उज्जो०-वादर-जस० उ० खेंत० । अणु० सत्त चो० । सेसाणं  
उ० अणु० खेंतं० ।

३५४. देवेसु पंचगा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-  
तिरिक्ख०-एईदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावर--अथिरादिपंच०-

३५३. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कथाय, पाँच नोकथाय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर, हुण्ड संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशाःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, वादर और यशाःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिक उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंके समय एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते, अन्यत्र यह स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम दण्डकमे कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है; क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा मनुष्योंका उक्त प्रमाण स्पर्शन उपलब्ध होता है । जो मनुष्य एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी हास्यादि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक कहा है । उद्योत आदि तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है । मारणान्तिक समुद्घातके समय इनका ऐसे मनुष्य भी बन्ध करते हैं जो एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं, पर ये एकेन्द्रिय जीव ऊपर सात राजूके भीतरके होने चाहिए, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात वटे चौदह राजू कहा है । शेष जितनी प्रकृतियों बचनी हैं वे सब त्रससम्बन्धी हैं, इसलिए उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।

३५४ देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कथाय, सात नोकथाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,

णीचा०-पंचंत० उ० अणु० लो० असंखे० अह-णव० । सादा०-ओरा०-तेजा०-क०-  
पसत्य०४-अणु०३-उज्जो०-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-धिर-सुभ-जस०-णिमि० उ० अह० ।  
अणुक० अह-णव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-पंचि०-पंचसंग०-ओरालि०-  
अंगो०-ह्रस्संघ०-मणुसाणु०-आदा०-दोविहा०-तस०-सुभग-दोसर-आदे०-तित्य०-उच्चा०  
उ० अणु० अहचो० । एवं सन्वदेवार्ण अप्पपणो फोसणं कादव्वं ।

३५५. एइदिएसु पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-  
तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड०-अप्पसत्य०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि०४-अधिरादि-  
पंच०-णीचा०-पंचंत० उ० अणु० सन्वलो० । तिरिक्खाउ० ओघं । मणुसाउ० तिरि-

उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, ब्रह्म, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना-अपना स्पर्शन करना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो देव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी पाँच ज्ञानावरणा-दिका उत्कृष्ट अनुभागबन्धक सम्भव है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम आठ व नौ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्धक सम्यग्दृष्टि देव करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु कहा है और इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु कहनेका कारण स्पष्ट ही है, क्योंकि देवोंके इससे अधिक स्पर्शन नहीं उपलब्ध होता । स्त्रीवेद आदि कुछ ब्रह्मसम्बन्धी प्रकृतियों हैं । इनमेंसे कुछका स्मरणदृष्टि देव बन्ध करते हैं, आयुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवालेके आतपका बन्ध नहीं होना, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । इन विशेषताओंके साथ सब देवोंके अपना-अपना स्पर्शन ले आना चाहिए ।

३५५. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोरुपाय, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्ज-गत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्जयुका

क्लोथं । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उ० अणु० खेत्त० । सेसाणं उ० लो० संखेत्त०, अणु० सव्वलो० ।

३५६. वादरपज्जतापज्ज० पंचणाणावरणादिधावरदंडओ एइंदियभंगो । एवं [ अ ] साददंडओ वि । दोआउ०-मणुस०३ उ० अणु० खेत्त० । णवरि तिरिक्खाउ० उ० अतीतं लोग० संखेत्त० । उज्जो०-वादर०-जस० उ० खेत्त०, अणु० लो० संखेत्त० सत्तचोई० । सेसाणं तसपगदीणं उ० अणु० लो० संखेत्त० । सादादीणं उ० लो० संखेत्त०, अणु० सव्वलो० ।

मङ्ग ओषके समान है । मनुष्यायुक्त भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वा और च्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय सब लोकमें हैं, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । तिर्यञ्चायुक्त भङ्ग ओषके समान है और मनुष्यायुक्त भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है, यह स्पष्ट ही है । मनुष्यगतिद्विक और च्चगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध वादर पृथिवीकायिकपर्याप्त आदि जीव करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध यथायोग्य वादर वायुकायिक पर्याप्त जीव भी करते हैं, अतः उनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है ।

३५६. वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि स्थावर वण्कका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । इसी प्रकार असातावेदनीयदण्डका भङ्ग भी जानना चाहिए । दो आयु और मनुष्यगतित्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इतना विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अतीत कालीन स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । उद्योत, वादर और यशःकर्मातिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम सात बटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष त्रस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—आयुक्रमका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता और वादर एकेन्द्रिय तथा उनके भेदोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अतीत कालीन स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है । उद्योत आदिका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, पर ऐसे जीव ऊपर सात राजूके भीतर ही मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजू प्रमाण कहा है । शेष त्रस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है; क्योंकि जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक



३५७. सन्वसुहृमाणं पणुसाउ० उ० अणु० लो० असं० सन्वलो० । तिरि-  
क्त्वाउ० उ० लो० असंखे० सन्वलो०, अणुक० सन्वलो० । सेसाणं उ० अणु०  
सन्वलो० ।

३५८. पंचिदि०२ पंचणा०-णवदंस० [ असादा०- ] मिच्छ०-सोलसक०-पंच-  
णोक०-तिरि०-हुंड०-अप्पसत्य०४-तिरिक्त्वाणु०-उप०--अधिरादिपंच-णीचा०-पंचंत०  
उ० अद्द-तेरह०, अणु० अद्द चोदं० सन्वलो० । सादा०-तेजा०-क०-पसत्य०४-  
अणु०३-पज्ज०-पत्ते०-धिर-सुभ-णिमि० उक्क० ख्वंतं०, अणु० अद्द चो० सन्वलो० ।  
इत्थि०-पुरिस०-चहुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्य०-दुस्सर० उक्क० अणु० अद्द-चारह० ।

समुद्रघात करते हैं, उनके इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता । सातावेदनीय आदिका मारणान्तिक  
समुद्रघातके समय भी अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन लोकको संख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन  
सब लोक कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३५७. सब सूक्ष्म जीवोंमें मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने  
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया है । तिर्यच्चायुके उत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट  
अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और  
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सूक्ष्म जीवोंका सब लोक आवास है, इसलिए दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंके स्पर्शनको छोड़कर शेष सब स्पर्शन सर्वलोक है, यह स्पष्ट ही है । रहीं दो आयु सो  
इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामो से होता है, और ऐसे परिणाम बहुत ही  
कम जीवोंके होते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके  
असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक कहा है । तथा मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले  
जीव थोड़े ही होते हैं, कयोकि मनुष्योंका प्रमाण भी स्वल्प है, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सब  
लोक कहा है । परन्तु तिर्यच्चायुका बन्ध करनेवाले अनन्त जीव होते हैं और ये वर्तमानमें भी सब  
लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका दोनो प्रकारका स्पर्शन  
सब लोक कहा है ।

३५८. पञ्चोन्द्रयद्विकमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व  
सोत्सह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यच्चगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त चर्षुचतुष्क, तिर्यच्चगत्यलु-  
पूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब  
लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त चर्षुचतुष्क,  
अमुक्लघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे  
चौदह राजू और सब लोक है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायो-

हस्त-रदि उ० अणु० अह चो० सन्वलो० । दोआउ०-तिणिणजा०-आहारदु० उ०  
अणु० खेत्त० । दोआउ०-तित्य० उ० खेत्त०, [ अणु० ] अह चो० । गिरय० गिर-  
याणु० उ० अणु० छ्वो० । मणुस०-मणुसाणु०-आदाव०-उच्चा० [ उ० ] अणु०  
अह० । देवग०-देवाणु० ओघं । एईदि०-थावर० उ० अह-णव०, अणु० अह०  
सन्वलो० । पंचिदि०-समचदु०-पसत्यवि०-तस०-सुभग-सुस्मर-आदे० उ० खेत्त०,  
अणु० अह-वारह० । ओरा० उ० अह, अणु० अह० सन्वलो० । वेउन्वि०-वेउन्वि०-  
अंगो० ओघं । ओरालि०अंगो०-वज्जरि० उ० अह०, अणु० अह-वारह० । उज्जो०-  
वादर०-जस० उ० खेत०, अणु० अह-तेरह० । सुहुम-अपज्जत्त-साधार० उ० अणु०  
लो० असंखेज्जदि० सन्वलो० । एवं पंचिदियभंगो तस०-तसपज्जत्त०-पंचमण०-  
पंचवचि०-चक्खु०-सणिण ति ।

गति और दुःस्वरके उच्छ्र और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजू चेत्रका स्पर्शन किया है । हास्य और रतिके उच्छ्र और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति और आहारकक्षिकके उच्छ्र और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन चेत्रके समान है । दो आयु और तीर्थङ्करके उच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके उच्छ्र और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्विके, आतप और उच्चगोत्रके उच्छ्र और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति और देवगत्यानुपूर्विका भङ्ग ओघके समान है । एकेन्द्रियजाति और स्यावरके उच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोक प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चोन्द्रिय-जाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशास्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदेयके उच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिक-शरीरके उच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोक-प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग का भङ्ग ओघके समान है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्मनाराचसंहननके उच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । उच्चोत्त, वादर और यशःकांतिके उच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उच्छ्र और अनुच्छ्र अनुभागके बन्धक जीवों ने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पञ्चोन्द्रिय जीवोंके समान त्रस, त्रसपर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचन-

योगी, चन्द्रदर्शनी और संज्ञी जीवों के जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पॉच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन जिस प्रकार ओघमें स्पष्ट कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । तथा पञ्चेन्द्रियद्विकका वेदनादि की अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और मारणान्तिककी अपेक्षा सर्वलोक स्पर्शन है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । मात्र यहाँ सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन उपपादपदकी अपेक्षा कहना चाहिए । श्वीवेद आदिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका ओघसे जैसा स्पष्टीकरण किया है, उसी प्रकार यहाँ पर उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंकी अपेक्षा कर लेना चाहिए । जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी हास्यद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सर्व लोकप्रमाण कहा है । तिर्यञ्जयु, मनुष्यायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध देवोंके कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते समय भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । जो नीचे नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं उनके भी नरकगतिद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । देवोंके विहारादिके समय मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध भी सम्भव है इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । जो देव ऊपर त्रसनालीके भीतर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी एकेन्द्रियजाति और स्थावरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजू कहा है । तथा सब एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके भी इनका बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोक कहा है । देवोंके विहारादिके समय और नीचे व ऊपर कुछ कम छह छह राजू प्रमाण क्षेत्रके भीतर समचतुरस्र आदिका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजू प्रमाण स्पर्शन कहा है । विहारादिके समय देवोंके औदारिक शरीरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इसका सब एकेन्द्रियोंमें समुद्घात करनेवाले जीव भी बन्ध करते हैं, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण कहा है । विहारादिके समय देवोंके औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वर्ज्यभनाराच संहननका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पष्टीकरण श्वीवेदके समान कर लेना चाहिए । उद्योत आदिका देवोंके विहारादिके समय और ऊपर सात राजू व नीचे छह राजूके भीतर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजू प्रमाण कहा है । पञ्चेन्द्रियद्विकका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और मारणान्तिक समुद्घात की अपेक्षा सब लोक प्रमाण स्पर्शन सम्भव है तथा ऐसी अचस्थाने सूक्ष्मादि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध हो सकता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

३५६. पुढ०-आउ० पंचणा०-णवदंस-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-  
तिरि०-एईदि०-हुंडसंठा०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावरादि०४-अधिरादि-  
पंच०-णीचा०-पंचंत० उ० लो० असं० सच्चलो०, अणु० सच्चलो० । सेसाणं उ० लो०  
असं०, अणु० सच्चलो० । णवरि मणुसाउ० तिरिक्खोघं ।

३६०. वादरपुढ०-आउ० पंचणाणावरणादीणं थावरपगदीणं पुढविभंगो' ।  
सादा०-ओरा०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-पज्जत्त-पत्ते०-थिर-सुभ-णिमि० उ०  
खेंत्त०, अणु० सच्चलो० । उज्जो०-वादर०-जस० उ० खेंत्त०, अणु० सत्त चोई० ।  
सेसाणं उ० अणु० खेंत्तभंगो ।

आगे त्रस आदि जितनी मार्गएाएँ गिनाई हैं, उनमे पञ्चन्द्रियोंकी ही प्रधानता है, अतएव उनकी प्ररूपणा पञ्चन्द्रियद्विषके समान जाननेकी सूचना की है ।

३५६. पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता-  
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अग्र-  
शस्त बर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र  
और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातवें भागप्रमाण और सप्त  
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध वादर पर्याप्त जीव करते हैं,  
किन्तु इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असख्यातवें भागप्रमाण और मारणान्तिक समुद्घातकी  
अपेक्षा सर्व लोक है । इन दोनों अवस्थाओंमे पाँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव  
है, इसलिए इस अपेक्षासे लोकके असख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है ।  
तथा इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वत्र सम्भव है, क्योंकि पृथिवीकायिक और जलकायिक जीव  
सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण स्पर्शन  
कहा है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एक तो मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता,  
जिनका होता भी है वे द्वीन्द्रियादि तिर्यञ्च और मनुष्य सम्बन्धी प्रकृतियों हैं इसलिए यहाँ इनके  
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इनके  
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । यहाँ मनुष्यायु  
का भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहनेका कारण यह है कि इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता । सामान्य तिर्यञ्चोंके  
यह इतना ही बतलाया है ।

३६०. वादर पृथिवीकायिक और वादर जलकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि और  
स्थावर प्रकृतियों का भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके समान है । सातावेदनीय, औदारिकशरीर, तैजस  
शरीर, कामणशरीर, प्रशास्त बर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके  
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने  
सर्वलोकका स्पर्शन किया है । उद्योत, वादर और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका

१ ता० प्रतौ याथावस्थादीर्णं पुढविभंगो इति पाठः ।

३६१. वादरपुढ०-आउ०अपज्जत्तएसु पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-  
सोलसक०-सत्तणोक०-तिरि०-एइदि०-हुंड०संठा०-अप्पस०४-तिरिक्खाणु०उप०-  
थावरादि०४-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० उ० अणु० सव्वलो० । सादा०-ओरा०-  
तेजा०-क०-पसत्थव०४-अणु०३-पज्जत्त-पत्ते०-थिर-सुभ-णिमि० उ० खेंत्त०,  
अणु० सव्वलो० । उज्जो०-वादर०-जस० उ० खेंत्त०, अणु० सत्त चो० । सेसाणं उ०  
अणु० खेंत्तभंगो । एवं वादरवणप्फदि-पज्जत्तापज्जत्त-वादरणियोदपज्जत्तापज्जत्त-वादर-  
पत्ते०अपज्जत्तगाणं च । तेउ० पुढवि०भंगो । वाऊणं पि तं चेव । णवरि जम्हि लोग०  
असंखें० तम्हि लोग० संखेंज्जं कादच्चं । वणप्फदि-णियोद० णाणावरणादीणं थावर-  
पगदीणं उ० अणु० सव्वलो० । सेसाणं उ० खेंत्त०, अणु० सव्वलो० । मणुसाउ०  
एइदियभंगो ।

स्पर्शन क्षेत्रके समान तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजु है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

३६१. वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त और वादर जलकायिक अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञान-  
वरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, सात नोकवाय, तिर्यञ्चगति,  
एकेन्द्रियजाति, द्रुपहसंस्थान, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपवात, स्थावर आदि  
चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,  
कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्लपुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कृष्ट  
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब  
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, वादर और यशस्कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे  
चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके  
बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार वादर वनस्पतिकायिक और उनके पर्याप्त  
और अपर्याप्त, वादर निगोद और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक  
अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । अग्निकायिक जीवोंका भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके समान है ।  
वायुकायिक जीवोंका भी इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकके असंख्यातवें  
भागप्रमाण कहा है, वहाँ पर लोकके संख्यातवें भागप्रमाण करना चाहिए । वनस्पतिकायिक और  
निगोद जीवोंमें ज्ञानावरणादि स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने  
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । मात्र मनुष्यायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है ।

विशेषार्थ—पहले एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें स्पर्शनका स्पष्टीकरण  
किया है । उसे देखकर यहाँ भी उसे घटित कर लेना चाहिए । मात्र यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके  
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन एक मात्र सर्व लोक कहा है सो वर्तमान स्पर्शनकी  
अविवक्षासे ही ऐसा कहा है, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए । तथा इन जीवोंमें उद्योत, वादर  
और यशस्कीर्तिका बन्ध करनेवाले जीव ब्रसनालीके भीतर ऊपर सात राजु तक ही मारणान्तिक

३६२. कायजोगि०-क्रोधादि०४-अचक्वु०-भवसि०-आहारए ति ओषभंगो । ओरालि० खड्गणं उ० मणुसभंगो । अणु० सेसाणं च उ० अणु० तिरिक्वोघं । ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणो०-एइंदि०-हुंहु०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्वाणु०-उप०-थावरादि४-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० उ० लो० असंखे० सव्वलो०, अणु० सव्वलो० । सेसाणं॑ उ० खेत्तं, अणु० सव्वलो० । मणुसाउ० तिरिक्वोघं ।

३६३. वेउच्चि० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणो०-तिरि०-हुंहुं०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्वाणु०-उप०-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० उ० अणु० अह-तेरह० । सादा०-ओरा०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-थिरादितिण्ण-णिमि० उ० अहचो०, अणु० अह-तेरह० । इत्थि०-पुरिस०-चटुसंठा०

समुद्घात करते हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राज्जु प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३६२. काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । औदारिककाययोगी जीवोंमें चाथिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक और शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है और ये जीव सब लोकमें मारणान्तिक समुद्घात करते हुए पाये जाते हैं, इसलिए यह स्पर्शन सर्व लोक प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३६३. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोरुषाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राज्जु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राज्जुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामण्यशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राज्जुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राज्जु और कुछ कम तेरह बटे

१ आ० प्रतौ लो० असंखे० सव्वलो० ठेवाणं इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः तिरि० एइंदि० हुंहुं इति पाठः ।

पंचसंघ०--अप्ससत्य०--दुस्सर० उ० अणु० अट्ट-वारह० । दोआउ०--मणुस०३-  
आदा०-तित्य० उ० अणु० अट्ट० । एइंदि०-थावर० उ० अणु० अट्ट-णव० । पंचि०-  
समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिस०-पसत्य०-तस०-सुभग-सुस्सर-आदे० उ० अट्ट०,  
अणु० अट्ट-वारह० । उज्जो० उ० खैत्तभंगो, अणु० अट्ट तेरह० ।

३६४. वेउज्वियमि०-आहार०-आहारमि० खैत्तभंगो । कम्मइय० पंचणा०-

चौदह राजूप्रमाण चैत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार सस्थान, पाँच सहनन, अग्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम वारह वटे चौदह राजूप्रमाण चैत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगतित्रिक, आतप और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण चैत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम नौ वटे चौदह राजूप्रमाण चैत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रपभनाराचसहनन, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदेयके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण चैत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम वारह वटे चौदह राजूप्रमाण चैत्रका स्पर्शन किया है। उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चैत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण चैत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिकके समय सम्भव न होनेसे इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू कहा है। शेष पूर्ववत् जानना चाहिए। स्त्रीवेद आदि एकेन्द्रियजाति सम्यन्धी प्रकृतियों नहीं हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम वारह वटे चौदह राजू कहा है। कुछ कम वारह वटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन तिर्यञ्चोमें देवों और नारकियोंका समुद्घात कराके ले आना चाहिए। दो आयु आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। जो देव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनका स्पर्शन कुछ कम नौ वटे चौदह राजूप्रमाण उपलब्ध होता है और एकेन्द्रियजाति तथा स्थावरका मारणान्तिक समुद्घातके समय उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम नौ वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका और सब विचार स्त्रीवेददण्डके समान है। मात्र मारणान्तिक समुद्घातके समय इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन मात्र कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सातवें नरके नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चैत्रके समान कहा है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है।

३६४. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें

णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०--णवणोक०--तिरिक्व०-पंचसंठा०-चटुसंघ०-  
अप्पसत्य०४-तिरिक्वाणु०-उप०-अधिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० उ० वारह०, अणु०  
सव्वलो० । सादा०-पंचि०-तेजा०-क०-समचटु०-पसत्यव०४-अणु०३-पसत्यवि०-  
तस०४-धिरादिछ०-णिमि०-उच्चा० उ० छ०, अणु० सव्वलो० । मणुसगदिपंचग० उ०  
अणु० तं चव । देवगदिपंचग० खेंत्तभंगो । [ एइंदिय०-थावर० उ० दिवडूचोईस०,  
अणु० सव्वलो० । असंप०-अप्पसत्य०-दुस्सर० उ० ँक्कारस०, अणु० सव्वलो० । ]  
तिग्णिजादि-आदाउज्जो०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० उ० खेंत्तभं०, अणु० सव्वलो० ।

चेत्रके समान भद्र है । कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, चार संहनन, अग्रशस्त वर्ण-चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम वारह वटे चौदह राजू चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन पूर्वोक्त ही है । देवगतिपञ्चकका भद्र चेत्रके समान है । एकेन्द्रियजाति और स्वधारके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने डेढ़ वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । असम्प्राप्तपादिकासंहनन, अग्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । तीन जाति, आतप, उद्योत, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका भद्र चेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवै भगप्रमाण है, इसलिए इन मार्गणाओंमें सब स्पर्शन चेत्रके समान कहा है । जो चारों गति के संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव कार्मणकाययोगी होते हैं, उनके पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्धक सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम वारह वटे चौदह राजू प्रमाण कहा है और कार्मणकाययोगीका स्पर्शन सब लोक है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । सम्यग्दृष्टि कार्मणकाययोगी जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजू प्रमाण होनेसे सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । मनुष्य-गतिपञ्चक का उत्कृष्ट अनुभागबन्धक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी करते हैं, इसलिए इनका भद्र सातावेदनीयके समान ही कहा है । देवगतिचतुष्कका सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य तथा तीर्थङ्कर का तीन गतिके सम्यग्दृष्टि जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्धक करते हैं । तथा देवगतिचतुष्कका बन्धक असंज्ञी आदि और तीर्थङ्कर प्रकृतिका तीन गतिके संज्ञी जीव बन्धक करते हैं । ऐसे जीवोंका यदि

१. ता० त्रौ पंचया० असादा० इति पाठः । २. ता० आ० प्रथोः पंचसंव० इति पाठः ।  
३. ता० आ० प्रथोः उप० अप्सत्य० अधिरादिपंच० इति पाठः ।



३६५. इत्थिवे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचथोक०-  
 हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० उ० अट्ट-नेरह०, अणु०  
 अट्टचो० सव्वलो० । सादा०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०३-पज्ज०-पत्ते०-थिर-सुभ-  
 णिमि० उ० खेंत्तंभंगो, अणु० अट्ट० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-मणुस०-चट्टसंठा०-  
 ओरा०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव० उ० अणु० अट्ट० । हस्स-रदि उ० अणु०  
 अट्ट० सव्वलो० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थय० उ० अणु० खेंत्तं-  
 भंगो । दोआउ०-समचट्टु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ० खेंत्तंभंगो, अणु०  
 अट्ट० । णिरयगदिदुग० उ० अणु० छच्चो० । तिरि०-एईदि०-तिरिक्खाणु०-थावर०  
 उ० अट्ट-णव०, अणु० अट्ट० सव्वलो० । देवगदिदुग० उ० खेंत्तं, अणु० छच्चो० ।

स्पर्शनका विचार करते हैं तो वह सब क्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। एकेन्द्रियजाति और स्थावरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध ऐशान कल्पतकके देव करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजू प्रमाण कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन सर्व लोक है, यह स्पष्ट ही है। अम्भाशस्रपाटिकासहनन आदि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नारकी और सहस्रार कल्प तकके देव करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन नीचे छह और ऊपर पाँच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है और इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन पूर्ववत् सब लोक कहा है। तीन जाति आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका जो स्पर्शन कहा है, वह स्पष्ट ही है।

३६५. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्षाचतुष्क, वषघात, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, तेजसशरीर, फारमणशरीर, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, चार संस्थान, औदारिक आज्ञोपाज्ञ, छह सहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हास्य और रतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु, समचतुरस्रस्थान, प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और चच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगतिद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और स्थावरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट

पंचि०-तस० उ० खैत्त०, अणु० अट्ट-वारह० । ओरालि० उ० अट्ट०, अणु० अट्टचौ०  
सन्वलो० । वेचन्वि०-वेचन्वि०अंगो० उ० खैत्त०, अणु० वारह० । उज्जो०-जस० उ०  
खैत्त०, अणु० अट्ट-णव० । णवरि उज्जो० उ० अट्ट० । अप्पस०-दुस्सर० उ० छं०,  
अणु० अट्ट-वारह० । वादर० उ० खैत्त०, अणु० अट्ट-तेरह० । सुहुम०-अपज्ज०-साधार०  
उ० अणु० लो० असं० सन्वलो० । एवं पुरिसेसु । णवरि तित्थ० उ० अणु० ओघं ।

अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम नौ वटे चौदह राजूप्रमाण  
चेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू  
और सब लोक प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिद्विकके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका  
स्पर्शन चेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू-  
प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चोन्द्रियजाति और त्रसके उत्कृष्ट अनुभाग के वन्धक जीवोंका  
स्पर्शन चेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और  
कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिकशरीरके उत्कृष्ट अनुभाग  
के वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट  
अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन  
किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन  
चेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण  
चेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशस्कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके  
समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम  
नौ वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि उद्योतके उत्कृष्ट अनु-  
भागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रशस्त  
विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण  
चेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू  
और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । यादरके उत्कृष्ट अनुभागके  
वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ  
वटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अप-  
याप्त और साधारणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातर्वे भाग-  
प्रमाण और सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें जानना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक  
जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है ।

विशेषार्थ—देवियों विहारदिकी अपेक्षा कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका  
स्पर्शन करती हैं । यद्यपि पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चयोनियों और मनुष्यिनी मारणान्तिक समुद्घातकी  
अपेक्षा सब लोक चेत्रका स्पर्शन करती हैं, परन्तु पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट वन्धके समय यदि  
मारणान्तिक समुद्घात होता है, तो वह त्रस नालीके भीतर नीचे छह राजू और ऊपर सात राजू  
इस प्रकार कुछ कम तेरह वटे चौदह राजू प्रमाण ही होता है । यही सब देखकर यहाँ इन प्रकृतियों  
के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कहा है । स्पर्शनका उक्त विधिसे  
निर्देश मूलमें ही किया है । सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन  
पाँच ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंके समान ही घटित कर लेना चाहिए ।  
जो तिर्यञ्चगति आदि तीनमे उत्पन्न होते हैं, जहाँके खीवेद आदिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग-  
वन्ध सम्भव है और ऐसे खीवेदी जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण होता है,

इसलिए स्त्रीवेद आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। जो सर्वत्र एकेन्द्रियोंमें भी उत्पन्न होते हैं, उनके भी हास्य और रतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा है। जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, उनके दो आणु और समचतुरस्र संस्थान आदि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। जो नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, उनके भी नरकगतिद्विकका दोनों प्रकार का अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम छह राजूप्रमाण कहा है। यद्यपि स्त्रियों छठे नरक तक ही जाती हैं, ऐसा आगम-बचन है, पर यह नियम योनि-कुचवाली स्त्रियोंके लिए ही है। जिनके स्त्रीवेदका उदय है और जो योनि-कुचवाली नहीं हैं अर्थात् जो स्त्रीवेदके उदयके साथ द्रव्यसे पुरुष हैं, उनका गमन सातवें नरक तक सम्भव है, यह इस स्पर्शन नियमसे सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, इससे द्रव्यवेद और भाववेदका जो वैषम्य माना जाता है, उसकी भी सिद्धि होती है। जो त्रसनालीके भीतर ऊपर एकेन्द्रियोंमें समुद्घात करते हैं, उनके भी तिर्यञ्चगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है; इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजू प्रमाण कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोके स्पर्शनका स्पष्टीकरण पाँच ज्ञानावरण आदिके समान कर लेना चाहिए। जो तिर्यञ्च और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, उनके भी देवगतिद्विकका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। जो नीचे छह और ऊपर छह, इस प्रकार कुछ कम बारह राजूप्रमाण क्षेत्रका मारणान्तिक समुद्घातके समय स्पर्शन कर रहे हैं, उनके भी पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसप्रकृतिका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके औदारिकशरीरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नहीं होता, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। इसलिए एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय इसका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन पाँच ज्ञानावरण आदिके समान कहा है। जो देवों और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उन मनुष्य और तिर्यञ्चोंके वैक्रियिकद्विकका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। जो एकेन्द्रियोंमें त्रसनालीके भीतर समुद्घात करते हैं, उनके उद्योत और यशस्कीर्तिका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। मात्र उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य तिर्यञ्च आदि तीन गतिके जीव करते हैं, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। जो नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन पञ्चेन्द्रियजातिके समान घटित कर लेना चाहिए। जो नीचे छह और ऊपर सात इस प्रकार कुछ कम तेरह राजूका मारणान्तिक समुद्घातके समय स्पर्शन करते हैं, उनके भी बादर प्रकृति का बन्ध होता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन कुछ

३६६. णलुंसग० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोके०-  
तिरिक्ख०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अधि-  
रादिछ०-णीचां०-पंचंत० उ० छच्चोँ, अणु० सव्वलो० । सादा०-तिरिक्खाउग०-मणुस०  
चहुजा०-ओरा०-तेजा०-क०-समचट्टु०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-  
अणु०३-आदाउ०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा० उ० ख्वँत्त०, अणु०  
सव्वलो० । [हस्स-रदि० उ० छच्चोँ सव्वलो०, अणु० सव्वलो० । ] दोआउ०-वेउच्चिय-  
छ०-आहारदुगं ओघं । मणुसाउ० तिरिक्खोघो । [ एइंदिय-थावरादि४ तिरिक्खोघं । ]  
तित्थय० इत्थिभंगो ।

कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । जो तिर्यञ्च और मनुष्य एकेन्द्रियमे मारणान्तिक समुद्रघात करते हैं, उनके भी सूत्रमादिका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोके अस्त्वयातवे भागप्रमाण और सब लोक कहा है । पुरुषवेदी जीवोंमे भी यह स्पर्शन प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमे स्त्रीवेदी जीवोंके समान कहा है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा कुछ विशेषता है । बात यह है कि पुरुषवेदी देव भी तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करते हैं और इनका विहारादिकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू होनेसे पुरुषवेदी जीवोंके तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा यह स्पर्शन भी पाया जाता है । इसलिए यह स्पर्शन ओघके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३६६. नपुंसकवेदी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कथाय, सात नोकथाय, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है तथा अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । हास्य और रतिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, वैक्रियिक छह और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चके समान है । एकेन्द्रियजाति और स्थावर आदि चारका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—नपुंसककोमे तीन गतिके सँझी पञ्चेन्द्रिय जीव प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं । इनका अतीत स्पर्शन उत्कृष्ट या तत्रायोग्य संकिलाष्ट परिणामके समय कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा नपुंसकवेदी सब लोकमे पाये जाते

१ ता० आ० प्रत्योः सोलसक० पंचयोक० इति पाठः । २ ता० आ० प्रत्योः अयिगदिपंच यीनुच्चा० इति पाठ ।

३६७. मदि०--सुद० ओषं । णवरि देवगदिदुगंउ० खेंत्त०, अणु० पंच चोँद० । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो० उ० खेंत्तभंगो, अणु० ँकारह० । विभंगे० पंचिदियभंगो । णवरि देवगदिचहुक्क० मदि०भंगो ।

३६८. आभिणि-सुद०-ओधि० पंचणा०--छदंसणा०-असादा०-वारसक०-सत्त-  
णोक०-मणुसगदिपंच०-अप्पसत्थ०४-उप०-अधिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उ० अणु०  
अट्ट० । एवं मणुसाउ० । सादा०-पंचि०-तेजा०-क०-समचहु०-पसत्थ०४-अणु०३-

हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनके अनुत्कृष्टके समान सातावेदनीय आदि, हास्य, रति और एकेन्द्रियजाति आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक प्रमाण स्पर्शन जान लेना चाहिए। सातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। हास्य और रतिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध नारकियोंके तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें तथा तिर्यञ्चों और मनुष्योंके एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेके समय भी होता है। इसी प्रकार तिर्यञ्चों और मनुष्योंके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी जानना चाहिए, इसलिए इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम छह वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। एकेन्द्रिय जाति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संबन्धी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्य तो करते ही हैं, साथ ही ये जब एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं तब भी होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

३६७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओषके समान स्पर्शन है। इतनी विशेषता है कि देवगतिद्विकके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच वटे चौदह राजूप्रमाण है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंके कुछ कम ग्यारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—जो मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य वारहवें कल्प तक समुद्घात करते हैं, उनके देवगतिद्विकका बन्ध होता है। यद्यपि मनुष्य मिथ्यादृष्टि नौवें प्रवैयक तक उत्पन्न होते हैं पर उससे इस स्पर्शनमें अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका प्रमाण संख्यात है और ऐसे जीवोंका कुल स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ देवगतिद्विकके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन कुछ कम पाँच वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। तथा वैक्रियिकद्विकका नीचे छह राजू और ऊपर पाँच राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम ग्यारह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

३६८. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अबधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, वारह कपाय, सात नोकपाय, मनुष्यगति पञ्चक, अग्रशस्त वर्ष-चतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंमें कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार मनुष्यायुकी अपेक्षसे स्पर्शन जानना चाहिए। सातावेदनीय, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मण-

पसत्थ०-तस०४-थिरादिङ्ग०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उ० खेंत्तंभं०, अणु० अट्ठ० ।  
देवाउ०-आहारदुग्गं ओघं । देवगदि०४ उ० खेंत्तं०, अणु० छं० । एवं ओधिदंस०-  
सम्मादि०-खइग्ग०-वेदग्ग०-उवसम०-सम्माणि० । णवरि खइग्ग०-उवसम०-सम्माणिच्छा०  
देवग०४ खेंत्तंभंगो । उवसम० तित्थय० खेंत्तंभंगो ।

३६६. अचगद०-मणपज्ज०-संज०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० खेंत्त-  
भंगो । संजदासंज० हस्स-रदि० उ० अणु० छं० । देवाउ० तित्थय० उ० अणु०  
खेंत्तं० । सेसाणं उ० खेंत्तं०, अणु० छच्चो० । असंजद० ओघं ।

शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज्ञ-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदक-सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए चारों गतिके जीव करते हैं । उसमें भी हास्य और रतिका तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामोंसे स्वस्थानमें और मनुष्यगतिपञ्चकका देव और नारकी जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं । इनमेंसे तीन गति के जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और देवोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राज्ञ-प्रमाण होता है । सब मिलाकर यह स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राज्ञप्रमाण ही है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है और इसी कारणसे इनके तथा सातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है । सम्यग्दृष्टि तीर्थञ्च और मनुष्य देवोंमें मारणांतिक समुद्घातके समय कुछ कम छह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं । इसलिए देवगति चतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । यहाँ अवधिदर्शनी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको आभिनियोगिकहानी आदिके समान कहा है । मात्र क्षायिकसम्यग्दृष्टि आदि तीन मार्गणाओंमें मारणांतिक समुद्घात करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, इसलिए इनमें देवगति चतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहनेका भी यही कारण है ।

३६६. अपगतवेदी, मनःपर्ययहानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार-विशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । संयतासंयत जीवोंमें हास्य और रतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंयत जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

३७०. किण्ण०-णील०-काउ० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलस-  
क०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-४-तिरिक्खणु०-उप०-  
अप्पसत्थ०-अधिरादिद्ध०-णीचा०-पंचंत० उ० छच्चो० चत्तारि-बेचोदं, अणु० सन्वल्लो० ।  
सादा०-तिरिक्खाउ०-मणुसग०-चदुजा०-ओरा०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरा०-अंगो०-  
वज्जरि०-पसत्थ०-४-मणुसाणु०-अणु० ३-आदाउ०-पसत्थ०-तस०-४-धिरादिद्ध०-  
णिमि०-उच्चा० उ० खेंत्तभंगो । अणु० सन्वल्लो० । हस्स-रदि-एइदि०-थावरादि०-४  
उ० लो० असंखे० सन्वल्लो०, अणु० सन्वल्लो० । णवरि-णील-काउणं हस्स-रदि०  
असादभंगो । [णिरयाउ-] देवाउ०-देवगदि० [२-] तिथ० खेंत्तभंगो । मणुसाउ० णुं-  
सगभंगो । णिरय०-णिरयाणु० उ० अणु० छ-चत्तारि-बेचोदं । वेउच्चि०-वेउच्चि०-  
अंगो० उ० खेंत्तभंगो । अणु० छ-चत्तारि-बेचो० ।

विशेषार्थ—संयतासंयत जीवोंका मारणान्तिक समुद्रघातकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौदह राजपूप्रमाण स्पर्शन होता है । हास्यद्विकका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्ध तथा देवाय और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा शेष प्रकृतियोंका अनुकृष्ट अनुभागबन्ध ऐसी अवस्थामें सम्भव है, अतः हास्यद्विकके दोनों प्रकारके अनुभागके और शेष प्रकृतियोंके अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३७०. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यङ्गगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अश्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी, उपघात, अश्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंन क्रमसे कुछ कम छह बटे चौदह राजू, कुछ कम चार बटे चौदह राजू और कुछ कम दो बटे चौदह राजपूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, तिर्यङ्गायु, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकआज्ञोपाङ्ग, वज्रपमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, व्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है । हास्य, रति, एकेन्द्रियजाति और स्यावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके अस्त्व्यातर्वे भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि नील और कापोत लेश्यामें हास्य और रतिकका भङ्ग असातावेदनीयके समान है । नरकायु, देवायु, देवगातिद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है । नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने क्रमसे कुछ कम छह बटे चौदह राजू, कुछ कम चार बटे चौदह राजू और कुछ कम दो बटे चौदह राजपूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैकिकशरीर और वैकिकआज्ञोपाङ्गके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजू, कुछ कम चार बटे चौदह राजू और कुछ कम दो बटे चौदह राजपूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

१. ता० आ० प्रत्योः असंबद० ओषं । चक्खु० तवभंगो । किण्ण० इति पाठः । २. ता० प्रतो हस्सपदि ४ असादभंगो इति पाठः ।

३७१. तेज्ज' पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-  
तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्ख०-उप०-थावर-अथिरादिपंच०-णीचा०-  
पंचंत० उ० अणु० अह-णव० । सादा०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०३-वादर-पज्जत्त-  
पत्ते०-थिर-सुभ-जस०-णिमि० उ० खेंत्त०, अणु० अह-णव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआब०-  
मणुस०२-चहुसंठा०-ओरा०अंगो०-अस्संव०-आदा०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उ० अणु०

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके स्वामीको देखनेसे विदित होता है कि इन लेश्याओंमें परस्पर तीन गतिके सङ्गी जीवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके यथायोग्य उक्त प्रकृष्ट अनुभागवन्ध होता है और इस दृष्टिसे इन लेश्याओंका क्रमसे स्पर्शन कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो वटे चौदह राजूप्रमाण है, अतः यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । तथा एकेन्द्रियोंके भी तीनों लेश्याएँ होती हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्व लोक कहा है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है । मात्र तिर्यञ्चायु, आतप और उद्योत इसके अपवाद हैं सो इनका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन ज्ञानावरणादिके समान समझ लेना चाहिए । जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी हास्य आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण कहा है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन है, यह स्पष्ट ही है । यहाँ इतनी विवेचता है कि नील और कापोतलेश्यामे मारणान्तिक समुद्घातके समय भी हास्य और रतिका नारकी जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं, इसलिए इन दो प्रकृतियोंकी अपेक्षा असातावेदनीयके समान स्पर्शन वन जाता है । वैसे सामान्य नारकियोंमें इन दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजू वतला आये हैं । पर यहाँ कृष्ण लेश्यामें वह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्यो रहने दिया गया है, यह अवश्य ही विचारणीय है । जो तिर्यञ्च और मनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, उनके नरकगतिद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । इसी प्रकार वैक्रियिकद्विकके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी घटित कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

३७१. पीत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह-  
कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, दण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्या-  
नुपूर्वी, उपघात, स्थानर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और अनु-  
त्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम नौ वटे चौदह  
राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, तैजसशरीर, कामाणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त प्रत्येक, स्थिर, शुभ, यश कीर्ति और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे  
चौदह राजू और कुछ कम नौ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद,  
दो आयु, मनुष्यगतिद्विक, चार सस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संदहन, आतप, अप्रशस्त

१. आ० प्रती छ-चचारि वेडए इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः मणुस० ४ चहुसंठा० इति  
पाठः । ३. ता० आ० प्रत्योः अप्पसत्थ० दुस्सर० इति पाठः ।



अहचौं । देवाउ०-आहारदुगं ओघं । देवगदि०४ उ० खेच०, अणु० दिवदुचौं० ।  
 पंचि०-समचदु०-पसत्य०-तस०-सुभग-सुस्वर-आदे०-तित्यय०-उच्चा० उ० खेचभंगो ।  
 अणु० अणुभा० अह० । ओरा०-उज्जो० उ० अह चौं, अणु० अह-णव० । एवं  
 पम्माए वि । णवरि अह चौं । देवगदि०४ अणु० पंच चौं ।

विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रस्थान, प्रशस्त विहायोगति, ग्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिकशरीर और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पद्मलोदयामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए । तथा देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट अनुभागबन्धक पेशान कल्पतकके देव करते हैं और मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इनका बन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु कहा है । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्धक अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका क्षेत्रके समान स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार अन्य प्रशस्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धके विषयमें जानना चाहिए । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणादिके समान है, यह स्पष्ट ही है । जो देव एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके अविद आदिका बन्ध नहीं होता, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । देवायु और आहारकद्विक का भङ्ग ओघके समान है, यह स्पष्ट ही है । जो देवोंमे मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी देवगतिचतुष्कका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । जो देव एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके पञ्चेन्द्रियजाति आदिका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । औदारिकशरीरका सम्पृष्टि देव और उद्योतका तत्प्रायोग्य विशुद्ध, देव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है और इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु कहा है । पद्मलोदयामे मरकर देव एकेन्द्रिय नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ कम आठ बटे व नौ बटे चौदह राजुके स्थानमें केवल कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

१. आ० प्रती० उच्चा० खेचभंगो इति पाठः । २. ता० प्रती० अहचौं० अह-णव० इति पाठः ।

३७२. सुक्काए पढमदंडओ उ० अणु० छच्चो० । खविगाणं उक्क० खेत्त०, अणु० छच्चो० । देवाउ०-आहारदुग० खेत्त० ।

३७३. अबभवसि० पढमदंडओ मदि०भंगो । सादा०-पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरा०अंगो०--वज्जरि०-पसत्थ०४--अणु०३--पसत्थ०-तस०४--थिरादि-द्वि०-णिमि० उ० अद्व-वारह०, अणु० सन्वलो० । मणुस०--मणुसाणु०--आदाउज्जो०

मात्र पद्मलेख्यामे मारणान्तिक समुद्रघातद्वारा तिर्यञ्च और मनुष्य कुञ्ज कम पाँच वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिए इस लेख्यामे देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। इस लेख्यामे शेष सब परुवणा पीतलेख्याके समान है। मात्र यहाँ अपनी प्रकृतियों कहनी चाहिए।

३७२. शुक्तलेख्यामे प्रथम दण्डके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुञ्ज कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। क्षपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुञ्ज कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—शुक्तलेख्यामे कुञ्ज कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन है, क्योंकि आनतादि-देवोंका मेरुके मूलसे नीचे गमन नहीं होता। यहाँ पर प्रथम दण्डकमे ये प्रकृतियों ली गई हैं—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर, अशुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय, अचराः-कीर्ति नीचगोत्र और पाँच अन्तराय। क्षपक प्रकृतियों ये हैं—सातावेदनीय, देवगति, पञ्चन्द्रिय-जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थकर और उच्चगोत्र। यहाँ प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध देवोंके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुञ्ज कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। क्षपक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिये होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है और इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध देव भी करते हैं। मात्र देवगतिचतुष्कका बन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, सो देवोंमे मरणान्तिक समुद्रघात करनेवाले इनका भी स्पर्शन कुञ्ज कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण उपलब्ध होता है। देवोंका तो इतना है ही, इसलिए इन सब क्षपक प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभाग के बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है।

३७३. अभन्योंमे प्रथम दण्डकका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। सातावेदनीय, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक-आङ्गोपाङ्ग, वज्रवभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुञ्ज कम आठ वटे चौदह राजू और कुञ्ज कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी,

उच्चा० उ० अट्ट०, अणु० सन्वलो० । देवगदिदुग० उक्क० अणु० पंचचो० । वेउज्जि०-  
वेउज्जि० अंगो० उ० पंचचो०, अणु० एँकारह० । गिरयगदिदुगं ओघं । अथवा  
सव्वणां मदिअण्णाणिभंगो कादव्वो ।

२७४. सासणे पंचणा०--णवदंसणा०--असादा०--सोलसक०--अट्टणोक०--  
तिरिक्ख०-चदुसंठा०-चदुसंघ०--अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०--उप०--अप्पसत्थ०--अधि-  
रादिक्ख०-णीच्चा०-पंचंत० उ० [अणु०] अट्ट-वारह० । सादा०-पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०-  
समचदु०-ओरा० अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०४-अणु० ३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिक्ख०-  
णिमि० उ० अट्ट०, अणु० अट्ट-वारह० । देवाउ० ओघं । दोआउ० उ० खेंचं०, अणु०

आतप, उद्योत और उद्योगके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह  
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ  
कम पाँच बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग  
के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । नरकगतिद्विकका भङ्ग ओघके समान है । अथवा सब प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके  
समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो ऊपर छह और नीचे छह इस प्रकार कुछ कम बारह बटे चौदह राजुके  
भीतर मारणान्तिक समुदघात करते हैं, ऐसे जीवोंके भी सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध  
होता है । देवोंके विहारादिके समय तो हो ही सकता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा  
है । मात्र मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कई कारणोंसे कुछ कम बारह बटे चौदह  
राजु नहीं प्राप्त होता, इसलिए यह कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । इन सातावेदनीय  
आदि और मनुष्यगति आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण है,  
यह स्पष्ट ही है । जो तिर्यञ्च और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुदघात करते हैं, उनके देवगति-  
द्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है; इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । इसी प्रकार वैक्रियिकद्विकके  
उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिये । मात्र इसमें नीचेका कुछ कम  
छह राजु स्पर्शन मिलाने पर कुछ कम ग्यारहबटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन वैक्रियिकद्विकके अनुत्कृष्ट  
अनुभागके बन्धक जीवोंका होता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३७४. सासादनमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, सोलह कणाय, आठ  
नोकषाय, तिर्यञ्चगति, चार संस्थान, चार सहनन, अग्रशस्त वर्षचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यासुपूर्वी, उप-  
घात, अग्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट और  
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह  
राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, पञ्चोद्भिन्नयजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,  
कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रयभनाराचसंहनन, अग्रस्रन वर्षचतुष्क,  
अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माणके उत्कृष्ट  
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और

अह० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उ० अणु० अहचौ० । देवगदि०४ उ० अणु०  
पंचचौ० । उज्जो० उ० खेच०, अणु० अह-वारह० । मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो ।

३७५. असण्णीसु<sup>१</sup> पंचणा०-णवदंस०-दोवेदणी०-मिच्छ०-सोलसक०-सचणोक०-  
तिरिक्वाउ०-मणुस०--चदुजा०-ओरा०-तेजा०--क०-इससंठा०-ओरा०अंगो०--इससंघ०-  
पसत्यापसत्य०४-मणुसाणु०--अणु०४--आदाउज्जो०--दोविहा०--तस०४--थिरादिछ०-  
णिमि०-दोगो०--पंचंत० उ० लो० असखे०, अणु० सव्वलो० । हस्स-रदि०-

अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । देवायुका भङ्ग ओषके समान है । दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू-प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—सासादनसम्यक्त्वका विहार आदिकी अपेक्षा कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और मारणांतिक समुद्घातकी अपेक्षा कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन है । प्रथम दुष्कर्मकी प्रकृतियोंके दोनों प्रकारके अनुभागके वन्धक जीवोंका यह दोनों प्रकारका स्पर्शन सम्भव है और जातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन सम्भव नहीं है, इसलिए इन वार्ताको ध्यानमें रखकर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कहा है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध विहारादिके समय सर्वत्र सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । इसी प्रकार मनुष्यगति आदि तीनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका वन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । उद्योतका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध मारणांतिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३७५. असंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकक्षारी, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, छह संस्थान, आदारिकआज्ञोपाज्ञ, छह संहनन, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अप्रशस्त वर्षाचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, दो गोन और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके

१. आ० प्रवो मणुसाणु० उ० इति पाठः । २ ता० आ० प्रयोः मदि०भंगो । सण्णी पंचदिय-भंगो । अचर्गासु इति पाठः ।

तिरिक्ख०--एईदि०--तिरिक्खाणु०--थावरादि०४--[अथिरादिद्व०] उ० लो० असं०  
सव्वलो०, अणु० सव्वलो० । दोआउ०-वेउव्वियळ० उ० अणु० खँत्तभंगो । मणुसाउ०  
तिरिक्खोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सफोसणं समत्तं ।

३७६. जहण्णए पणदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-  
सोलसक०-सत्तणोक० तिरिक्ख०--अप्पसत्थ०४--तिरिक्खाणु०--उप०-णीचा०--पंचंत०  
जहण्णं अणुभागं बंधगेहि केवडियं खँत्तं फोसिदं ? लोग० असंखँ०, अज० सव्वलो० ।  
सादासाद०-तिरिक्खाउ०-मणुस०--चदुजा०--उस्संठा०--उस्संसंघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-

असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और वैक्रियिक छहके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । अनाहारक जीवोंमें कार्मण्काययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका व अन्य सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपने-अपने योग्य परिणामोके साथ असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव करते हैं । उसमें भी प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है और दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है। अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और अतीत कालीन स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । इन सबका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध एकेन्द्रिय जीव भी करते हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । नरकायु, देवायु और वैक्रियिकछहका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय ही करते हैं और ऐसे जीवोंका उनका बन्ध करते समय एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं होता, इसलिए इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । मनुष्यायुका भङ्ग स्पष्ट ही है । संसारी जीवोंके अनाहारक अवस्था कार्मण्काययोगके समय होती है, इसलिए अनाहारकोकी रूपायु कार्मण्काययोगी जीवोंके समान कही है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शन समाप्त हुआ ।

३७६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पौंच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, अप्रशस्त वर्षचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र और पौंच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन,

धावर०४-थिरादिख्युग०-उच्चा० ज० अज० सव्वलो० । इत्थि-णलुंस० ज० अट्ट-वारह०,  
अज० सव्वलो० । दोआउ०-आहारदुग० ज० अज० खेत्तभंगो । मणुसाउ० ज० लो०  
असंखेँ० सव्वलो०, अज० अट्ट० सव्वलो० । गिरय०-गिरयाणु० ज० अज० छुच्चोँ ।  
देवग०-देवाणु० जह० दिवहुचोँदं, अथवा पंचचोँ, अज० छुच्चोँ । पंचि०-ओरा०-  
अंगो०-तस० जह० अट्ट-वारह०, अज० सव्वलो० । ओरा०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-  
अणु०३-उज्जो०-वादर-पज्जत्त-पचो०-णिमि० ज० अट्ट-नेरह०, अज० सव्वलो० ।  
वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो० [ ज० ] छुच्चोँदं, अज० वारहचोँ । आदाव० ज० अट्ट०,  
अज० सव्वलो० । तित्थ० ज० खेत्तं, अज० अट्ट० ।

मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावरचतुष्क, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम वारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सबलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और आहारकदिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। मनुष्यायुके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ वटे चौदह राजू अथवा कुछ कम पाँच वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम वारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीर, तैजसगरीर, काम्यण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्तलघुत्रिन्, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम वारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आतपके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठवटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—यहाँ वैक्रियिक छह, आहारकदिक, नरकायु व देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्धक एकेन्द्रिय जीव नहीं करते। इनके सिवा सब प्रकृतियोंका बन्धक एकेन्द्रिय जीव करते हैं, इसलिये उन सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्व लोक कहा है। इसके सिवा

१. आ० प्रती याक० थिरादिख्युग० इति पाठ. ।

जहाँ जो विशेषता होगी, वह उस उस प्रकृतिके निरूपणके समय कहेंगे। अब रहा जघन्य अनुभाग-  
 वन्धका विचार, सो प्रथम दण्डरुमे कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध जिनके होता है,  
 उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय  
 आदिका जघन्य अनुभागवन्ध यथासम्भव चार, तीन या दो गतिके जीव मध्यम परिणामोसे  
 करते हैं। इनका स्पर्शन सर्वे लोक होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। स्त्रीवेद और नपुसकवेदका  
 जघन्य अनुभागवन्ध चारों गतिके संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव करते हैं, किन्तु यह वन्ध करते समय  
 एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रघात नहीं होता। यथासम्भव अन्यत्र भी नहीं होता, इसलिए इनके  
 जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ घटे चौदह राजू और कुछ कम बारह  
 घटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। नरकायु, देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है, यह  
 स्पष्ट ही है। मनुष्यायुका जघन्य अनुभागवन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हुए भी एकेन्द्रिय जीव  
 भी करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें  
 भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है। तथा देव भी विहारादिके समय इसका  
 अजघन्य अनुभागवन्ध करते हैं, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ  
 कम आठ घटे चौदह राजूप्रमाण अलगसे बतलाया है। तिर्यञ्च और मनुष्य मारणान्तिक  
 समुद्रघातके समय भी नरकगतिद्विकका जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध करते हैं, इसलिए  
 इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह घटे चौदह राजू  
 प्रमाण कहा है। ऐशानकल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्रघात करनेवाले तिर्यञ्च और मनुष्यके  
 देवगतिद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, ऐसा मानने पर इनके जघन्य अनुभागके वन्धक  
 जीवोंका स्पर्शन कुछ कम डेढ़ घटे चौदह राजू प्रमाण प्राप्त होता है और सहस्रारकल्प तकके  
 देवोंमें मारणान्तिक समुद्रघात करनेवाले जीवोंके भी यह जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, ऐसा  
 मानने पर इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच घटे चौदह राजूप्रमाण  
 कहा है। इनका अजघन्य अनुभागवन्ध करनेवाले जीव सर्वार्थसिद्धि तक मारणान्तिक समुद्रघात  
 करते हैं और इनका स्पर्शन कुछ कम छह घटे चौदह राजूसे अधिक नहीं है, इसलिए इनके  
 अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह घटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। जो  
 पञ्चेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रघात करते हैं, उनके भी पञ्चेन्द्रियजाति आदिका जघन्य  
 अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ  
 घटे चौदह राजू और कुछ कम बारह घटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। जो देव वादर एकेन्द्रियोंमें  
 ऊपर सात राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्रघात करते हैं, उनके भी औदारिकरारी आदिका  
 जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम  
 आठ घटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह घटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। जो तिर्यञ्च और  
 मनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्रघात करते हैं, उनके भी वैक्रियिकद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध  
 होता है। तथा देव और नारकियोंमें समुद्रघात करते समय इनका अजघन्य अनुभागवन्ध भी  
 होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका कुछ कम छह घटे चौदह राजूप्रमाण  
 और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका कुछ कम बारह घटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है।  
 ऐशान तकके देवोंके विहारादिके समय भी आतपका जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए  
 इसके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ घटे चौदह राजूप्रमाण कहा है।  
 तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए मनुष्य असंयत सन्त्यद्वि  
 करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है और  
 तिर्यञ्चोंके सिवा तीनों गतिके जीवोंके यथायोग्य इसका वन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अजघन्य  
 अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ घटे चौदह राजूप्रमाण कहा है।

३७७. गिरएमु पंचणा०-णवदंस०-भिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-अप्पसत्थ०-४-तिरिक्खाणु०-उप०-णीचा०-पंचंत० ज० खेंत्त०, अज० छच्चो० । दोवेदणी०-इत्थि०-णवुंस-पंचि०-ओरालि०-तेजा०-क०-द्धस्संठो०-ओरा०अंगो०-द्धस्संघ० पसत्थ०४-अगु०३-[उज्जो०-] दोविहा०-तस०४-थिरादिद्धयु०-णिमिं० ज० अज० इ० । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-तित्य०-उच्चा० ज० अज० खेंत्त० । एवं सत्तमाप्प पुदवीए । छमु उवरिमासु एसेव भंगो । णवरि तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० साद-भंगो । एवं अप्पप्पणो रज्जू भाणिदव्वं । इत्थि०-णवुंस० ज० खेंत्त० ।

३७८. तिरिक्खेमु पंचणा०-द्धदंस०-अट्ठक०-सत्तणोक०-पंचि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-[अगरु०४-]तस०४-णिमि०-पंचंत० ज० छ०, अज० सच्चलो० ।

३७७. नारकियोमं पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपधात, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजपूत्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेदनीय, स्त्रीवेद, नर्पुंसकवेद, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थान, औदारिक-आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस चतुष्क स्थिर आदि छह युगल और निर्माणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजपूत्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्य-गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । पहलेकी छह पृथिवियों में यही स्पर्शन जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार अपनी-अपनी रज्जू कहना चाहिए । तथा इनमें स्त्रीवेद और नर्पुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजपूत्रमाण है, इसलिए यहाँ कुछ प्रकृतियोंके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है और सातावेदनीय आदिना जघन्य अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भी उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । मात्र पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य अनुभागबन्धके स्वामीको तथा दो आयु आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके स्वामीको देखते हुए यह लोकके असंख्यातमें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, इसलिए यह क्षेत्रके समान कहा है । प्रथमादि पृथिवियोंमें अपना-अपना स्पर्शन समझ कर सब प्ररूपणा इसी प्रकार कहनी चाहिए । वैश्व तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध इन पृथिवियोंमें मिथ्यादृष्टि नारकी परिवर्तमान मध्यम परिणामोसे करते हैं । अतः यहाँ इनका भङ्ग सातावेदनीयके समान कहा है ।

३७८. तिर्यञ्चोमं पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, सात नोकषाय, पञ्चन्द्रिय-जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस-चतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह

१. ता० प्रती तेजाक० द्धस्संठा० तेजाक० द्धस्संठा० ( १ ) आ० प्रती तेजाक० पचचंठा० इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः अप्पसत्थ०४ इति पाठः । ३. ता०आ०प्रत्योः थिरादिद्ध० णिमि० इति पाठः ।



यीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अद्वक०-णवुंस०-ओरा०अंगो०-आदाव० ज० खैतभंगो ।  
 अज० सव्वलो० । साददंडओ ओघो । इत्थि० ज० दिवडु०, अज० सव्वलो० ।  
 दोआउ०-वेउन्विद्य० ओघं । मणुसाउ० ज० अज० लो० असखें० सव्वलो० ।  
 ओरा० ज० लो० असखें० सव्वलो०, अज० सव्वलो० । तिरिक्खे०-तिरिक्खाणु०-  
 णीचा० खैतभंगो । उ० ज० सत्तचोदं०, अज० सव्वलो० ।

राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, आठ कषाय, नपुंसकवेद, औदारिकआद्वापोयद्द और आतपके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीयदण्डकका भद्र ओषके समान है। ऋग्वेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और वैकियिकछहका भद्र ओषके समान है। मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योतके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण होनेसे यहाँ एकेन्द्रियोंमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है। जहाँ विशेषता होगी उसे अलगसे कहेंगे। नारकियोंमें और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके भी स्वामित्वके अनुसार पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम छह बटे चौदह राजप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्यानगृद्धि आदिका जघन्य अनुभागबन्ध पञ्चैन्द्रिय तिर्यञ्चोंके स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। ऋग्वेदका जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाले तिर्यञ्चोंके ऐशान कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करना सम्भव है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजप्रमाण कहा है। मनुष्यायुका जघन्य अनुभागबन्ध एकेन्द्रिय जीव भी करते हैं। किन्तु इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है और अतीत स्पर्शन सब लोक प्रमाण है। इसके अजघन्य अनुभागबन्धकी अपेक्षा भी यही स्पर्शन जानना चाहिये। जो एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी औदारिकशरीरका जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्यञ्च-गतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। जो ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम सात बटे चौदह राजप्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन सुगम है।

३७६. पंचिदि०तिरिक्त्व०३ पंचणा०-द्वंदसणा०--अद्वक०-द्वण्णोक०-तेजा०-  
क०-पसत्यापस०४-अणु०४-पज्ज०-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० ज० छ०, अज० लो०  
असं० सव्वलो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अद्वक०-णत्तुंस० ज० खेंत्त०, अज० लो०  
असं० सव्वलो० । सादासाद०-तिरिक्त्व०-एइंदि०-ओरा०--हुंड०-तिरिक्त्वाणु०-थाव-  
रादि४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग०-अणादें०-अजस०-णीचा० ज० अज० लो० असं०  
सव्वलो० । इत्थि० ज० अज० दिवहु० । पुरिस०-णिरय०--णिरयाणु०-अप्प-  
सत्य०-दुस्सर० ज० अज० द्दच्चोदें० । चदुआउ०-मणुस०-तिण्णिजा०-[ चदुसंठा०- ]  
ओरा०अंगो०--द्वस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव० ज० अज० खेंत्त० । देवग०--समचहु०-  
देवाणु०-पसत्य०--सुभग०--सुस्सर०-आदें०--उच्चा० ज० पंच चो०, अज० द्दच्चो० ।  
पंचिदि०-वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-तस० ज० छ०, अज० वारह० । उज्जो०-जसगि०  
ज० अज० सच्चो० । वादर० ज० छ०, अज० तेरह० ।

३७६. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकर्म पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, छह नोक-  
षाय, तैजसशरीर, कामरूपशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त,  
प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह  
राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें  
भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धितीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय और  
मनुसकवेदके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके  
वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्च-  
गत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति  
और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण  
और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक  
जीवोंने कुछ कम ढेढ़ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, नरकगति, नरक-  
गत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक  
जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार आयु, मनुष्यगति,  
तीन जाति, चार संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके  
जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । देवगति, समचतुरस्र-  
संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनु-  
भागके वन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य  
अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चन्द्रिय-  
जाति, वैकिकिकशरीर, वैकिकिकआङ्गोपाङ्ग और त्रसके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ  
कम छह वटे चौदह राजू और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम बारह वटे चौदह  
राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके  
वन्धक जीवोंने कुछ कम सात वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादरके जघन्य  
अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने  
कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

१ ता०आ०प्रत्योः अणु०३ इति पाठः । २ ता०आ०प्रत्योः चदुब्बादि ओय०अंगो०  
इति पाठः । ३. आ०प्रती पसत्य० सुत्तर० इति पाठः ।

३८०. पंचि०तिरिक्त्वअपज्जत्तएसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-  
सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० खेंत्त०, अज० लो० असं० सव्वलो० ।  
सादासाद०-तिरिक्त्व०-एईदि०-ओरा०-तेजा०-क०-हुंढ०-पसत्थ०४-तिरिक्त्वाणु०-  
अग्रु०३-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर०-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-  
अजस०-णिमि०-णीचा० ज० अज० लो० असं० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-

विशेषार्थ—प्रथम दण्डककी प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके घटित करने वतला आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चक्रिका स्वस्थान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और एकेन्द्रियोमि मारणान्तिक समुद्घात करने पर सब लोक प्रमाण हैं। पाँच ज्ञानावरणादिके अजघन्य अनुभाग-बन्धके समय उक्त स्पर्शन सम्भव है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंका जघन्य या अजघन्य यह स्पर्शन कहा हो, उसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। स्थानगृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। ऐशान कल्पककी देवियोंमें मारणान्तिक समुद्घात-के समय भी स्त्रीवेदका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तिर्यञ्चोंके पुरुषवेदका और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तिर्यञ्चोंके नरकगति आदिका दोनों प्रकारका अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है। सहस्राररूपतकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तिर्यञ्चोंके देवगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध और आगे तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तिर्यञ्चोंके देवगति आदिका अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक तिर्यञ्चोंके क्रमसे कुछ कम पाँच और कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले पञ्चेन्द्रियजाति आदिका जघन्य तथा नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवालेके इनका अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्रमसे कुछ कम छह बटे चौदह राजू व कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। ऊपरके वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवालेके उद्योत और यशःकीर्तिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। नारकियोंमें और नारक व देवोंके साथ ऊपरके वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले तिर्यञ्चोंके क्रमसे वादर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक तिर्यञ्चोंका स्पर्शन क्रमसे कुछ कम छह बटे चौदह राजू व तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

३८०. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अर्थात्कौमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह-कषाय, सात भोकषाय, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्यणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क तिर्यञ्चगत्युत्पूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य

मणुस०-चहुजो०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-असंसंघ०--मणुसाणु०-आदाव०-दोविहा०-  
तस०-सुभग०-दोसर०--आदे०-उच्चा० ज० अज० लो० असं० । उज्जो०--बादर-जस०  
जह० अज० सत्तचो० । एवं सन्वअपज्जत्तगाणं सच्चविगल्लिदियाणं वादरपुढ०-आउ०-  
तेड०-वाउ०-पत्ते०-पज्जत्ताणं च । णवरि वादरवाऊणं यम्हि लो० असंखे० तम्हि लो०  
असंखे०ज्ज० कादव्वो ।

३२१. मणुस०३ पंचणा०-णवदंस०--मिच्छ०--सोलसक०-सत्तणोक०--तेजा०-  
क०-पसत्थापसत्थ०४--अणु०४--पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० ज० खेत्त०, अज० लो०  
असं० सन्वलो० । सादासाददंडओ पंचिदियतिरिक्खभंगो । उज्जो० ज० अज० सत्त

और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण  
चेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान,  
औदरिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग,  
दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके  
असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्तिके जघन्य और  
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है ।  
इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त,  
बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर प्रत्येकवत्स्पत्तिकायिक पर्याप्त  
जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, वहाँ  
वायुकायिक जीवोंके लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध सबी जीव सर्वविशुद्ध  
या तत्सायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोका स्वस्थान  
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन  
सर्वलोकप्रमाण है । पाँच ज्ञानावरणादिका अजघन्य अनुभागबन्ध इनके हो सकता है, इसलिए  
इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंके  
जघन्य या अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है, वहाँ भी ऐसा ही  
जानना चाहिए । स्त्रीवेद आदि ऐसी प्रकृतियों हैं जो अधिकतर त्रसादिसम्बन्धी हैं, आयुका बन्ध  
मारणान्तिक समुद्घातके समय होता नहीं और आतप एकेन्द्रियसम्बन्धी होकर भी उसका उदय  
वादर पर्याप्त पृथिवीकायिक जीवोंमें होता है, इसलिए इन सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य  
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान कहा है । जो ऊपर सात राजूके भीतर बादर  
एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी उद्योत आदिका जघन्य और अजघन्य  
अनुभागबन्ध सम्भव है; इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम  
सात बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३२२. मणुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात  
नोकषाय, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशास्त वर्णचतुष्क, अप्रशास्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क,  
पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके  
समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक-  
प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय और असातावेदनीयदण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय

१. ता०आ०प्रत्योः मणुसु०३ चहुजा० इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः तस्य सुभग इति पाठः ।  
३. ता० प्रती ज० ज० अज० इति पाठः ।

चौ० । वादरजहण्णं खँत्तभंगो । अज० सत्तचौ० । सैसाणं ज० अज० खँत्तभंगो ।

३८२. देवेसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-अप्पसत्थ४-  
उप०-पंचंत० ज० अट्ट०, अज० अट्ट-णव० । सादासाद०-तिरिक्ख०-एइंदिय०-ओरा०-  
तेजा०-क०-हुंड०-पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-अणु० ३-उज्जो०-थावर-वादर-पज्जत-पत्ते०-  
थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादँ०-जस०-अजस०-णिमि०-णीचा० ज० अज० अट्ट-णव० ।  
इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०--पंचि०-पंचसंठा०--ओरालि०अंगो०--इत्तसंघ०-मणु-  
साणु०-आदाव०-दोविहा०--तस०--सुभग-दोसर०-आदँ०--तित्थि०-उच्चा० ज० अज०  
अट्ट० । एवं सन्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं गेद्वं ।

तिर्यञ्चोंके समान है । उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादरके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके तमान है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध जो जीव करते हैं, उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे वह उक्त प्रमाण कदा है । तथा उक्त मनुष्योंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण होनेसे उक्त प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । जो ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है । वादरके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३८२. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, हुण्ड-संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, औदारिकआह्नोपाह्न, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायो-गति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार मनु देवोंके अपना-अपना स्पर्शन जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें समुद्घात करते समय पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभाग

३८३. एइदिणसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-तिरिक्ख०-ओरा०-अंगो०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-आदा०-णीचा०-पंचंत० ज० लो० संखें०, अज० सव्वलो० । दोवेदणीय०-तिरिक्खाउ०-मणुस०-पंचजा०-ओरा०-तेजा०-क०-इसंसंठा०-इससंघ०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अणु०३-दोविहा०-तस०थावरादि-दसयुग०- [ णिमि०- ] उच्चा० ज० अज० सव्वलो० । मणुसाउ० तिरिक्खोयं । उज्जो० जं सत्तचोदं, अज० सव्वलो० ।

३८४. बादरपज्जत्तापज्जत्त० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-णीचा०-पंचंत० ज० लो० संखें०, अज० सव्वलो० । सादासाद०-एइदि०-ओरा०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्थ०४-अणु०३-

बन्ध, और स्त्रीवेद आदिका दोनों प्रकारका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रघात करते समय भी पाँच ज्ञानावरणादिका अजघन्य अनुभागबन्ध और सातावेदनीय आदिका दोनों प्रकारका अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३८३. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्यङ्गगति, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी, उपघात, आतप, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातर्वे भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेदनीय, तिर्यङ्गायु, मनुष्यगति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थान, छह सहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अणुरुलघु त्रिक, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यङ्गोंके समान है । उद्योतके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध बादर एकेन्द्रिय जीव सर्वविशुद्ध परिणामोसे करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण कहा है । एकेन्द्रिय जीव सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक प्रमाण स्पर्शन कहा है । दो वेदनीय आदिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध सबके होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३८४. बादर पर्याप्त और अपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यङ्गगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यङ्गगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असानावेदनीय, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड-

१. आ० प्रती तिरिक्ख० ओपालि० ओय०अंगो० इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः उज्जो० जस० ज० इति पाठः ।

थावर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्ते०-साधार०--थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-  
णिमि० ज० अज० सच्चलो० । इत्थि०--पुरिस०--तिरिक्त्वाड०--चहुजा०--पंचसंवा०-  
ओरा०अंगो०-इससंध०-आदाव०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर०-आदे० ज० अज० लो०  
संखे० । मणुसाड०-मणुस०३ ज० अज० लो० असं० । [ उज्जो०-वादर-जस० ज०  
अज० सत्तचो० । ] सच्चसुहुमाणं सच्चपगदीणं ज० अज० सच्चलो० । मणुसाड० ज०  
अज० लो असं० सच्चलो० ।

३८५. पंचि०२ पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-इणणोक्क०--तिरिक्त्वा०-  
अप्पसत्थ०४--तिरिक्त्वाणु०--उप०--णीचा०--पंचंत० [ ज० ] खेंत्त०, अज० अट्ट०  
सच्चलो० । सादासाद०--एहंदि०-हुंड०-थावर०--थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-

संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अणुरूपधुत्रिक, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तिर्यञ्चायु, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, दो विद्यायोगति, ब्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायु और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, वादर और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—इन जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोकप्रमाण है। इसलिए इस स्पर्शन और स्वामित्वको ध्यानमें रखकर यहाँ सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कहा गया है। विशेषताका स्पष्टीकरण अनेक बार कर आये हैं। इन जीवोंमें उच्चगोत्रका बन्ध मनुष्यगति आदिके साथ ही सम्भव है, और मनुष्यायु आदिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन हर अवस्थामें लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। उद्योत आदिका बन्ध या तो स्वस्थानमें होता है या ऊपर सात राजूके भीतर एकेन्द्रियोंमें मारखान्तिक समुद्रघात करते समय होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। सूक्ष्म जीव सर्वत्र होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है। मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले सूक्ष्म जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अतीत स्पर्शन सब लोकप्रमाण है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है।

३८५. पञ्चोन्द्रिय और पञ्चोन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, छह नोकषाय, तिर्यञ्चगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अणुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, स्थावर,

अजस० ज० अज० अह० सव्वलो० । इत्थि०--पंचिदि०--पंचसंठा०--ओरा०अंगो०-  
 द्वस्संघ०-दोविहा०-तस०-सुभग-दोसर०-आदे० ज० अज० अह-वारह० । पुरिस०  
 ज० खेंत्त०, अज० अह-वारह० । गुणुसं० ज० अह-वारह०, अज० अह० सव्वलो० ।  
 दोआउ०-तिण्णजादि-आहारदु० ज० अज० खेंत्त० । दोआउ०-तित्थि० ज० खेंत्त०,  
 अज० अह० । गिरय०-गिरयाणु० ज० अज० छ० । मणुसग०-मणुसाणु०-आदाव०-  
 [ उच्चा० ] ज० अज० अह० । देवग०-देवाणु० ज० पंचचो०, अज० छच्चो० ।  
 ओरा०-तेजा०-क०-पसत्थव०४-अगु०३-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० ज० अह-तेरह०, अज०  
 अह० सव्वलो० । [ वेचव्वि०-वेचव्वि०अंगो० ओघं । ] उज्जो०-वादर०-जस० ज०  
 अज० अह-तेरह० । सुहुम-अपज्ज०-साधार० ज० अज० लो० असंखें० सव्वलो० ।  
 एवं तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु०-सणिण ति ।

स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनु-  
 भागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया  
 है। स्त्रीवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस,  
 सुभग, दो स्वर और आदेयके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे  
 चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेदके जघन्य  
 अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
 आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसक-  
 वेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह  
 वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
 आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति और  
 आहारकट्टिकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो  
 आयु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य  
 अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरक-  
 गति और नरकगत्यानुपूर्विके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे  
 चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके  
 जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका  
 स्पर्शन किया है। देवगति और देवगत्यानुपूर्विके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच  
 वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह  
 वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशास्त  
 वर्णचतुष्क, अगुरुत्तष्टुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ  
 कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।  
 अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका  
 स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका भद्र ओघके समान है। उद्योत,  
 वादर और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे  
 चौदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सूक्ष्म, अपर्याप्त  
 और साधारणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और  
 सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार त्रसद्विक, पाँचो मनोयोगी, पाँचो वचन-  
 योगी, चञ्चुवर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

१. ता० प्रतौ ज० अह इति पाठः । २. ता० प्रतौ अपज्ज० सादा० ज० इति पाठः ।



३८६. पुढवि १-आउ० पंचगा०-पवदंस०-मिच्छ०-सोतसक०-पवणो०-  
ओरा०अंगो०-अपसत्य०४-उप०-आदाव०-पंचंत० ज० तो० असंत०, अज० सव्यो०।

विशेषार्थ—जो पाँच ज्ञानावर्यादिका जघन्य अनुभागवन्ध करते हैं, उनका स्पर्शन लोकके रुसल्यातवे भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता, इसलिए यह क्षेत्रने समान कहा है। तथा इनका स्वल्पान विहारादिके समय और एकेन्द्रियोंमें नारखान्तिक समुद्रघात करते समय अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रनाय कहा है। आगे जहाँ भी कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रनाय स्पर्शन कहा है, वह इस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। एकेन्द्र आदिका स्वल्पान विहारादिके समय तथा नीचे छह व ऊपर छह इस प्रकार नारखान्तिक समुद्रघात द्वारा कुछ कम बारह राजूका स्पर्शन करते समय जघन्य व अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य व अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रनाय स्पर्शन कहा है। पुरुषदेवका जघन्य अनुभागवन्ध उपकप्रेषियमें होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान करा है। इसके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंके स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूका खुलासा पहले कर आये हैं, इसी प्रकार यहाँ भी व आगे भी बतलावा चाहिए। तिर्यञ्जालु, मनुष्यायु व तीर्थह्वर प्रकृतिका अजघन्य अनुभागवन्ध स्वल्पान विहारादिके समय सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रनाय कहा है। यद्यपि तीर्थह्वर प्रकृतिका अजघन्य अनुभागवन्ध नारखान्तिक समुद्रघातके समय भी होता है, पर इस कारण स्पर्शनमें अन्तर नहीं पड़ता। मनुष्यगति आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम आठ वटे चौदह राजू प्रनाय स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। नारखियोंने नारखान्तिक समुद्रघात करते समय भी नरक गतिद्विकका जघन्य व अजघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य व अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजू प्रनाय कहा है। जो सहस्रार कल्पतक देवोंमें नारखान्तिक समुद्रघात करते हैं, उनके भी देवगतिद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध होता है और इनमें व इनसे ऊपरके देवोंमें भी नारखान्तिक समुद्रघात करनेवालोंके इनका अजघन्य अनुभागवन्ध होता है, ऊपर: इनके जघन्य व अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्रमसे कुछ कम पाँच वटे चौदह राजू और कुछ कम छह वटे चौदह राजू प्रनाय कहा है। विहारादिके समय तथा नीचे छह राजू और ऊपर सात राजू इत कुछ कम तेरह राजूके भीतर नारखान्तिक समुद्रघात करनेवाले जीवोंके औदारिकारों आदिका जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम तेरह वटे राजूप्रनाय कहा है। इसी प्रकार उद्योत आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रनाय स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। स्वल्पानमें व एकेन्द्रियोंने नारखान्तिक समुद्रघात करते समय भी सूदन आदिका दोनों प्रकारका अनुभागवन्ध सम्भव है, ऊपर: इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके रुसल्यातवे भागप्रनाय और सब लोकप्रनाय कहा है। जो व जो स्पर्शन स्वप्न नहीं किया है, उसे पूर्णपर देखकर व स्वल्पान देखकर समझ लेना चाहिए। यहाँ अन्य जितनी नारखान्तिक गिनई है, उनमें वह स्पर्शन उचितकर घटित हो जाता है, इसलिए उनमें पञ्चान्द्रियद्विकके समान कहा है।

३८६. पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावर्या, नौ दूरानावर्या, निष्कान सोतह कषाय, नौ नोकषाय, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अत्रास्त बर्षचतुष्क, उपधात, कान्ध और पाँच अन्तारके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंमें लोकके रुसल्यातवे भागप्रनाय केरका स्पर्शन

सादासाद०-तिरिक्खाड०-दोगदि०-पंचजा०-द्वस्संठा०-द्वस्संघ०--दोआणु०--दोविहा०-  
तसथावरादिदसयुग०-दोगो० ज० अज० सव्वलो० । मणुसाड० तिरिक्खोघं ।  
ओरा०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०३-णिमि० ज० लो० असं० सव्वलो०, अज०  
सव्वलो० । उज्जो० ज० सत्तचो०, अज० सव्वलो० ।

३८७. वादरपुढ०-आड० पंचणा०-णवदंस०-भिच्छ०--सोलसक०--सत्तणोक०-  
अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० खेंच०, अज० सव्वलो० । सादासाद०--तिरिक्ख०-  
एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर०-सुहुम०-पज्ज०-अपज्ज०--पत्ते०-साधार०-थिराथिर-  
मुभासुभ-दूभग-अणार्दो०--अजस०--णीचा० ज० अज० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-

किया है और अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता-  
वेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पंच जाति, छह सत्यान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी,  
दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल और दो गोत्रके जघन्य और अज्ञघन्य अनुभागके  
बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुका भद्र सामान्य तिर्यञ्चोके  
समान है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक और  
निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया  
है । उद्योतके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है और अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—उक्त वादर जीवोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और ये जीव  
एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय पंच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध करते  
नहीं, अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा  
है । सातावेदनीय आदिका सब पृथिवी और जलकायिक जीव जघन्य अनुभागबन्ध करते हैं,  
अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । औदारिकशरीर  
आदिका अज्ञघन्य अनुभागबन्ध करते हुए भी एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी  
सम्भव है, इसीलए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग-  
प्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा है । जो ऊपर सात राज्ञके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते  
हैं, उनके उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, अतः इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका  
स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राज्ञप्रमाण कहा है । पृथिवीकायिक और जलकायिक जीव सब  
लोकमें पाये जाते हैं, अतः इनमें पंच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक  
जीवोका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है । मनुष्यायुका भद्र स्पष्ट ही है ।

३८७. वादर पृथिवीकायिक और वादर जलकायिक जीवोंमें पंच ज्ञानावरण, नौ दर्शना-  
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पंच अन्त-  
रायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक  
जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति,  
एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, सूक्ष्म, पयोम, अपयोम, प्रत्येक, साधारण,  
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्मग, अनादेय, त्रयशःकीर्ति और नीचगोत्रके जघन्य और  
अज्ञघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद,

दोआड०-मणुसग०-चदुजा०--पंचसंठा०--ओरा०अंगो०--द्वस्संघ०-मणुसाणु०--आदा०-  
दोविहा०-तस०--सुभग-दोसर०-आदे०-उचा० ज० अज० लो० असं । ओरा०-तेजा०-  
क०-पसत्थ०४-अगु०३-णिमि० ज० लो० असं० सव्वलो०, अज० सव्वलो० ।  
उज्जो०-वादर-जस० ज० अजं० सत्तचो० ।

३८८. वादरपुढ०-[ आड० ] अपज्ज० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-  
सत्तणोक०--अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० खेंत्त०, अज० सव्वलो० । दोवेद०--  
तिरिक्ख०-एईदि०--ओरा०-तेजा०-क०-हुंड०-पसत्थ०४-[ तिरिक्खाणु०- ] अगु०३-

दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह सहनन, मनुष्य-  
गत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चोत्रके जघन्य  
और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्लघुत्रिक और  
निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । उद्योत, वादर और यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ  
कम सात बटे चौदह राज्जुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—वादर पृथिवीकायिक और वादर जलकायिक जीव एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक  
समुद्घात करते समय पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध नहीं करते, मात्र अजघन्य अनु-  
भागबन्धके होनेमे कोई बाधा नहीं है। अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन क्रमसे लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकरुप्रमाण कहा है । सातवेद-  
नीय आदिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है।  
अतः इनके दोनो प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है । खीवेद  
आदि प्रायः त्रस सम्बन्धी प्रकृतियों हैं। दो आयुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं  
होता और वादर पृथिवीकायिक जीवोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके ही मारणान्तिक समुद्घातके  
समय आतपका बन्ध होता है। इसलिए इन खीवेद आदि प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनु-  
भागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । औदारिकशरीर आदिका  
स्वस्थानमे और मारणान्तिक समुद्घातके समय दोनो अवस्थाओमे जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव  
है। अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब  
लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण  
है, यह स्पष्ट ही है । उद्योत आदिका स्वस्थान आदिमे और ऊपर सात राज्जुके भीतर मारणान्तिक  
समुद्घात करनेकी अवस्थामे भी दोनो प्रकारका अनुभागबन्ध सम्भव है। अतः इनके जघन्य और  
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राज्जु प्रमाण कहा है ।

३८८. वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त और वादर जलकायिक अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञाना-  
वरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, अत्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात  
और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य  
अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेद, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय  
जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यग्गत्यानु-

धावरादि०४-पञ्ज०-पत्ते०-थिराथिर--सुभासुभ-दूभग०--अणादें०--अजस०-णिमि०-  
णीचा० ज० अज० सन्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-चदुजा०-पंचसंठा०-  
ओरालि०अंगो०--द्वससंध०-मणुसाणु०-आदा०-दोविहा०-तस०-सुभग-दोसर०-आदें०-  
उच्चा० ज० अज० लो० अर्स० । उज्जो०-वाद्र०-जस० मणुस०अपज्ज०भंगो । एवं  
तेउ०-वाऊणं पि । णवरि वाऊणं वादरैएईदियभंगो कादव्वो ।

३८६. वणप्फदि-णियोद० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्क०-  
अप्पसत्थि०४-उप०-पंचंत० ज० खेंत्त०, अज० सन्वलो० । मणुसाउ० तिरिक्खोघं ।  
सेसाणं ज० अज० सन्वलो० । वादरणियोद-पज्जत्तापज्जत्त-वादरपत्ते०अपज्जत्ताणं  
च वादरपुढविअपज्जत्तभंगो । वादरपत्तेय० वादरपुढविभंगो ।

३९०. कायजोगि०-क्रोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारए त्ति ओघभंगो ।

पूर्वी, अगुरुज्युत्रिक, स्थावर आदि चार, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग,  
अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने  
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति,  
पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, दृढ़ संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति,  
त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने  
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, वादर और यशःकीर्तिका भङ्ग  
मनुष्य अपर्याप्तिकोके समान है । इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके भी कहुना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि वायुकायिक जीवोंके वादर एकेन्द्रियोंके समान स्पर्शन करना  
चाहिए ।

विशेषार्थ—वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त और वादर जलकायिक पर्याप्त जीवोंके जिस प्रकार  
स्पष्टीकरण कर आये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । जो विशेषता कही है, उसे समझ  
लेना चाहिए ।

३८६. वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व,  
सोलह कषाय, नौ नोक्रषाय, अग्रशस्त वर्षाचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके  
वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य  
और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादर निगोद  
पर्याप्त, वादर निगोद अपर्याप्त और वादर प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंका भङ्ग वादर पृथिवीकायिक  
अपर्याप्त जीवोंके समान है, तथा वादर प्रत्येकशरीर जीवोंका भङ्ग वादर पृथिवीकायिक जीवोंके  
समान है ।

विशेषार्थ—वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें वादर जीव पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य  
अनुभागवन्ध करते हुए भी सब एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुदघात करते समय नहीं करते। अतः  
इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३९०. काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचञ्जुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें

१. ता० प्रतौ मणुस० पंचसठा० इति पाठः । २ ता० प्रतौ णवरि वाऊणं पि णवरि (?) वादर,  
आ० प्रतौ णवरि वाऊणं पि वादर इति पाठः ।

ओरालियका० तिरिक्खोघं । ओरालियमि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-  
णवणोक०-[ओरा०अंगो०-] अप्यसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० खेंत०, अज० सव्वलो० ।  
एवं आदा० । दोवेद-तिरिक्खाउ०-मणुस०-पंचजा०-उससंठा०-उससंधं०-मणुसाणु०-  
दोविहा०-तसथावरादिदसयुग०-उच्चा० ज० अज० सव्वलो० । मणुसाउ०-तिरिक्ख०-  
तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० तिरिक्खोघं । ओरा०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अणु०३-  
णिमि० ज० लो० असं० सव्वलो०, अज० सव्वलो० । देवगदिपंच० खेंतभंगो ।

३६१. वेउव्वियका० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-उण्णोक०-अण्ण-  
सत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० अट्ट०, अज० अट्ट-तेरह० । दोवेद०-ओरा०-तेजा०-क०-  
हुंड०-पसत्थ०४-अणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादें०-

शोधके समान भंग है । औदारिककाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । औदा-  
रिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय,  
औदारिक आङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके  
बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण  
चेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार आतप प्रकृतिका भङ्ग जानना चाहिए । दो वेद, तिर्यञ्चायु,  
मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस-स्थायर  
आदि दस युगल और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक  
प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायु, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीच-  
गोत्रका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त  
वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें  
भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने  
सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिपञ्चकका भङ्ग चेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—स्वामित्त्वको देखते हुए प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके व आतप प्रकृतिके  
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः  
चेत्रके समान कहा है । तथा औदारिकमिश्रकाययोगी जीव सब लोकमें पाये जाते हैं, अतः इनके  
अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है । दो वेद आदिका कोई भी  
मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अनुभागबन्ध करते हैं, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके  
बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है । औदारिकशरीर आदिका जघन्य अनुभागबन्ध  
संज्ञी पञ्चन्द्रियोंके स्वस्थान आदि और मारणान्तिक समुद्घातके समय होता है, अतः इनके  
जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण  
कहा है । इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है ।  
देवगतिपञ्चकका बन्ध सम्यग्दृष्टि करते हैं, अतः इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह चेत्रके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३६१. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह  
कषाय, छह नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके  
बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ घटे चौदह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभाग  
के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ घटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह घटे चौदह राजुप्रमाण  
चेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेदनीय, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान,  
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग,

जस०-अजस०-णिमि० ज० अज० अद्-तेरह० । इत्थि०-पंचि०-पंचसंठा०--ओरा०-  
अंगो०-द्वस्संघ०-दोविहा०-तस०४-सुभर्ग-दोसर०-आदे० जै० अज० अद्-वारह० ।  
पुरिस०ज० अद्, अज० अद्-वारह० । णडुंस० ज० अद्-वारह०, अज० अद्-तेरह० ।  
दोआच०-मणुस०-मणुसाणु०-आदा०-तित्थ०-उच्चा० ज० अज० अद् । तिरिक्ख०२-  
पीचा० ज० खेंत्त०, अज० अद्-तेरह० । एइदि०-धावर० ज० अज० अद्-पार्व० ।  
वेज्ज्वि० [ मिस्स०- ] आहार०-आहारमि० खेंत्तभंगो ।

अनादेय, दशःकीर्ति, अचराःकीर्ति और निर्माणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । खीवेद, पञ्चन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संदहन, दो विद्यायोगति, अक्षयुष्क, सुभग, दो स्वर और आदेयके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यासुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगतिद्विक और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रियजाति और स्यावरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्धक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी करते हैं । इसमें भी सत्यानृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका सम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टि करते हैं । इनका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण होनेसे पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । तथा तिर्यञ्चो, मनुष्यो और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले नारकियों और देवोंके भी इनका अजघन्य अनुभागबन्धक होना है; स्वस्थान आदिके समय तो होता ही है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंके जघन्य, अजघन्य या दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है, उसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । जिनका कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है, वहाँ नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन लेना चाहिए । जिनका कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है, वहाँ एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कराके वह स्पर्शन लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि इन विशेषताओंका ध्यानमें रखकर और

१. ता० आ० प्रत्योः तत० सुभग० इति पाठ । २. आ० प्रती दोसर० न० इति पाठः ।

३. आ० प्रती न० अठणव० इति पाठः ।

३६२. कम्मइ० पंचणा०-छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०--अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० छ०, अज० सव्वलो० । धीणगिद्धि०३-मिच्छ०--अंगताणुवं०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचि०-ओरा०-तेजा०-क०--पसत्थ०४-अगु०३-उज्जो०-तस०४-णिमि० ज० ऐंकारह०, अज० सव्वलो० । साददंडओ ओघो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ओघं । देवगदिपंचगं ख्वंतभंगो । सेसं ओरालिय०भंगो । ओदा० ज० ख्वंत०, अज० सव्वलो० ।

३६३. इत्थिवेदेसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० ख्वंत०, अज० सव्वलो० । एवं छण्णोक० । सादासाद०-तिरि०-एइदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-यावर०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णीचा० ज० अज० अट्ट० सव्वलो० । इत्थि०-मणुस०-पंचसंठा०-ओरा०-अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०

स्वामित्वाका विचारकर स्पर्शन का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३६२. कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, सात नोकषाय, अग्रशस्त वर्षाचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, व्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिपञ्चकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष भङ्ग औदारिककाययोगी जीवोंके समान है । आतपके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—कार्मणकाययोगका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन है । यहाँ जिन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है, वह इसी दृष्टिसे कहा है । पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध सन्यगृष्टि जीव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । कार्मणकाययोगमें नीचे छह और ऊपर पाँच राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके स्थानगृद्धि तीन आदिका जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष प्रकृतियोंका स्पर्शन निर्दिष्ट स्थानोंको देखकर घटित कर लेना चाहिए ।

३६३. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अग्रशस्त वर्षाचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार छह नोकषायोंका भङ्ग है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, मनुष्यगति, पाँच संस्थान,

आदाव-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० अज० अट्ट० । पुरिस०-दोआउ० ज० खेंत्त०, अज० अट्ट० । गवुंस० ज० अट्ट०, अज० अट्ट० सव्वलो० । गिरय-देवाउ०-तिणिणजा०-आहारदुग-तित्थ० खेंत्तर्भंगो । गिरय०--गिरयाणु० ज० अज० छच्चो० । देवग०-देवाणु० ज० पंचचो०, अज० छच्चो० । पंचि०-तस० ज० छच्चो०, अज० अट्ट०-वारह० । ओरा० ज० अट्ट-णव०, अज० अट्ट० सव्वलो० । तेजा०- [क०-] पसत्थ०४-अणु०३-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० ज० अट्ट-तेरह०, अज० अट्ट० सव्वलो० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० ज० छ०, अज० वारह० । उज्जो०-जस० ज० अज० अट्ट-णव० । अपसत्थ०-दुस्सर० ज० अट्ट०, अर्ज० अट्ट-वारह० । वादर० ज० अज०

औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेद और दो आयुके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकायु, देवायु, तीन जाति, आहारकादिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगति और देवगत्यानुपूर्विके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चन्द्रियजाति और ब्रह्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तैजसशरीर, कर्मिणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अणुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिक-शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत और अयशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजू-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वादरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह

१. ता० ज० अज० इति पाठः ।



अह-तेरह० । सुहुम०-अपज्ज०-साधार० ज० अज० लो० असं० सव्वलो० ।

राजू और कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूत्रम, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवों'ने लोकके असख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंके व छह नोकपार्योंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असख्यातवें भाग है, अतः यह क्षेत्रके समान कहा है, तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है। अतः इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है । शीवेदी जीवोंका स्व-स्थानविहार आदिकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन सब लोकप्रमाण है । इन दोनों अवस्थाओंमें सातावेदनीय आदिका दोनों प्रकारका अनुभागबन्ध सम्भव है, अतः यह स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । शीवेद आदिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध एकेन्द्रियों और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं हो सकता । मात्र आतप इसका अपघात है । वह भी मारणान्तिक समुद्घातके समय यदि हो, तो बादर पृथिवीकायिकोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय ही सम्भव है । इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । पुरुषवेदका जघन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणियोंमें होता है । तथा तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता व तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । इनके अजघन्य अनुभाग-बन्धका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । नारकियों और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागबन्ध नहीं होता, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । तथा स्वस्थान विहारादिके समय व नपुंसको में मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इसका बन्ध होता है, इसलिए इसके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू व सब लोकप्रमाण कहा है । नरकायु आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है । जो नारकियों में मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी नरकगतिद्विकका दोनों प्रकारका अनुभागबन्ध होता है। अतः इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । देवोंमें सहस्रारकल्पक मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके देवगतिद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध और सब देवों में मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके इनका अजघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका क्रमसे कुछ कम पाँच और कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है । तिर्यञ्चों और मनुष्योंके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजू प्रमाण कहा है । तथा स्वस्थान-विहार आदिके समय व नीचे और ऊपर कुछ कम छह-छह राजूप्रमाण क्षेत्रके भीतर यथायोग्य मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिये इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम बारह वटे चौदह राजू प्रमाण कहा है । औदारिकशरीरका जघन्य अनुभागबन्ध देव करते हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम नौ वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । इसी प्रकार उद्योत व यशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका यह स्पर्शन

३६४. पुरिसेसु पढमदंडओ विदियदंडओ इत्थिभंगो । इत्थि०-मणुस०-पंच-  
संठा०-ओरा०-अंगो०-अस्संघ०-मणुसाणु०-आदा०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०  
ज० अज० अट्ठचोई० । पुरिस०--दोआउ०-तित्थ० ज० खेंत्त०, अज० अट्ठ० ।  
णवुंस० ज० अट्ठ०, अजह० अट्ठचोईस० सव्वलो० । दोआउ०-तिण्णजा०-आहार-  
दुगं ज० अज० खेंत्त० । वेउन्वियद्ध० ओघं । पंचि०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० ज०

घटित कर लेना चाहिए । औदारिकशरीरके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । तैजसशरीर आदिका जघन्य अनुभागवन्ध स्वस्थान-विहारादिके समय तो होता ही है, पर नीचे छह राजू और ऊपर सात राजू कुल कुछ कम तेरह राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । जो नीचे नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उन तिर्यञ्च और मनुष्योंके भी वैक्रियिकद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है और इनका अजघन्य अनुभागवन्ध देवों व नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है। इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । अग्रशस्त विद्यायोगति और दुःस्वरका जघन्य अनुभागवन्ध नारकियोंमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय नहीं होता। इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । तथा इनका अजघन्य अनुभागवन्ध स्वस्थान विहारादिके समय तो होता ही है, पर नीचे व ऊपर कुछ कम बारह राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम बारह वटे चौदह राजू प्रमाण भी कहा है । बादर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध स्वस्थान विहारादिके समय भी होता है और नीचे छ व ऊपर सात राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी होता है । इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ व कुछ कम तेरह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । तिर्यञ्च और मनुष्य स्वस्थानमें व एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय सूक्ष्म आदिका दोनों प्रकारका अनुभागवन्ध करते हैं, इसलिए इनके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा है ।

३६४. पुरुषोमे प्रथम दण्डक और दूसरे दण्डकका भङ्ग खीवेदो जीवोके समान है । खीवेद, मनुष्यगति, पंच संस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, दो आयु और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति और आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है । वैक्रियिकशरीर आदि छहका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चन्द्रियजाति, अग्रशस्त विद्यायोगति, त्रस और दुःस्वरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके

अज० अट्ट-वा० । तेजा०- [ क०- ] पसत्थ०४-अणु०३-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० ज०  
अट्टतेरह०, अज० अट्ट चौदह० सव्वलो० । ओरा० ज० अट्ट-णवचौ०, अज० अट्ट०  
सव्वलो० । उज्जो०-जस० ज० अज० अट्ट-णव० । वादर० ज० अज० अट्ट-तेरह०  
सुहुम०-अपज्ज०-साधार० ज० अज० लो० अर्सं सव्वलो० ।

३६५. णवुंसगे पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोत्तसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-  
अणपसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-आदा०-णीचा०-पंचंत० ज० खेंत्त०, अज० सव्वलो० ।  
सादादिदंडओ ओधं । इत्थि०-णवुंस०-पंचि०--ओरा०--तेजा०--क०--ओरा०अंगो०-

बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिकशरीरके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशस्कीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादरके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके अर्सं ख्यातर्वे भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदी जीवोंमें स्पर्शन प्रायः स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । जहाँ थोड़ा-बहुत अन्तर है भी, उसे स्वाभित्वको देखकर घटित कर लेना चाहिए । उदाहरणार्थ—स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध केवल मनुष्यनिर्यो ही करती हैं, इसलिए वहाँ इसकी अपेक्षा जघन्य और अजघन्य दोनो प्रकारका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । किन्तु पुरुषोंमें देव भी इसका बन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहकर भी अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । इसी प्रकार स्त्रीवेदी जीवोंसे यहाँ पञ्चन्द्रियजाति और त्रस प्रकृतिके स्पर्शनमें भी अन्तर घटित कर लेना चाहिए ।

३६५. नपुंसकमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात लोकषाय, तीर्थञ्जगति, अग्रशस्त वर्षाचतुष्क, तीर्थञ्जगत्यानुपूर्वी, उपघात, आतप, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदीय आदि दण्डकका ब्रह्म ओषधके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माण

पसत्य०४-अगु०३-जजो०-तस४-णिमि० ज० छ०, अज० सन्वलो० । दोआउ०-वेउचिचयउ०-आहारदुग-तित्य० इत्यिभंगो । मणुसाउ० तिरिकवोयं ।

३६६. अवगद०-मणपज्जव०-संज०-सामाइ०-छेदो०-परिहा०-सुहुम० ज० अज० खेंत० । मदि-सुद० ओघं । विभंगे पंचिदियभंगो ।

३६७. आभिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-द्धदंस०-वारसक०-सत्तणोक०-अप्प-सत्य०४-उप०-तित्य०-पंचंत० ज० खेंत०, अज० अहचोँ । दोवेदणी०-मणुसाउ०-मणुसगदिपंचग०-पंचि०-तेजा०-क०-सपचहु०-पसत्य०४-अगु०३-पसत्य०-तस०४-

के जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अलघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, वैश्विकि छह, आहारकरारीरदिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग खीवेदी जीवोंके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ आतपके सिवा पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व ओघके समान है और आतपके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । यतः ओघसे पाँच ज्ञानावरणादि और सामान्य तिर्यञ्चोंके आतपके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान बतला आये हैं, अतः यहाँ भी यह क्षेत्रके समान कहा है । तथा नपुंसक सब लोकमें पाये जाते हैं, अतः इनके अलघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओघके समान, नरत्रायु, देवायु और वैश्विकि छह आदिका भङ्ग क्षेत्रके समान और मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है, यह स्पष्ट ही है । अब रहा खीवेददण्डक सो स्पर्शान्की दृष्टिसे सङ्गी पञ्चेन्द्रिय नपुंसकोमें नारकियों की मुख्यता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । तथा इनके अलघन्य अनुभागका वन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके सम्भव है, अतः इनके अलघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है ।

३६६. अपगतवेदी, मनःपर्यचक्षानी, संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जघन्य और अलघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान है । तथा विभङ्गज्ञानियोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान है ।

विशेषार्थ—अपगतवेदी आदि जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है, इसलिए इन मार्गणाओंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंके जघन्य और अलघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें स्वामित्व सम्बन्धी विशेषताके होने पर भी स्पर्शन ओघके समान बन जाता है, इसलिए वह ओघके समान कहा है । तथा चारों गतिके पञ्चेन्द्रिय जीव विभङ्गज्ञानी हो सकते हैं, इसलिए विभङ्गज्ञानी जीवोंमें स्पर्शन पञ्चेन्द्रियोंके समान बन जानेसे वह पञ्चेन्द्रियोंके समान कहा है ।

३६७. आभिनिवोधिक्क्षानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, सात नोकषाय, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अलघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगतिपञ्चक, पञ्चेन्द्रियजाति, वैजशरीर, कामशरीर, समचतुरस्रसंस्थान,

थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-उच्चा० ज० अज०  
अह० । देवाउ०-आहारदुगं ज० अज० खैत्त० । देवगदि०४ ज० खैत्त०, अज०  
छर्चो० । एवं ओधिर्दस०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सम्माभि० । णवारि  
खइग०-उवसम० किंचि० विसेसो णाद्वो ।

३६८. संजदासंज० सादासाद०-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०  
ज० अज० छर्चो० । सेसाणं ज० खैत्त०, अज० छर्चो० । देवाउ०-तित्य० ज० अज०  
खैत्त० । असंजदेसु ओघं ।

प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति अयशःकीर्ति, निर्माण और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवों ने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवों ने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यगृष्टि, क्षायिकसम्यगृष्टि, वेदकसम्यगृष्टि, उपशमसम्यगृष्टि और सम्यग्मिथ्यागृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यगृष्टि और उपशमसम्यगृष्टि जीवोंमें कुछ विशेषता जाननी चाहिए।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध ओघके समान है और ओघसे इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान पटित करके बतला आये हैं, अतः यह क्षेत्रके समान कहा है। तथा अभिनिबोधिकज्ञानी आदिका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण है, इसलिए इनके अजघन्य व दूसरे दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। देवायुका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य तथा आहारकद्विकका दोनों प्रकारका अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं। यतः इन जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इन प्रकृतियोंके दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। देवगतिचतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इन जीवोंके मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इनका बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

३६८. संयतासंयत जीवोंमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और तिर्यङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। असंयतोमें ओघके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—संयतासंयतोमें सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागबन्ध मारणान्तिक एव

३६६. किण्णाए पंचणा०-णवर्दस०-भिच्छ०-सोतसक०-सत्तणोक्क०-तिरिक्ख-  
गदित्तिग-अप्पसत्थ०४-उप०-आदा०-पंचंत० ज० खेंत्त०, अज० सव्वलो० । सादादि-  
दंढओ ओघो । इत्थि०-णवुंस०-पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०-ओरा०अंगो०-पसत्थ०४-  
अगु०३-उज्जो०-तस०४-णिमि० ज० छ०, अज० सव्वलो० । दोआउ०--देवगदि-  
दुग०-तित्थि० ज० अज० खेंत्त० । मणुसाउ० णवुंसगभंगो । गिरयगदिदुग-वेउच्चि०-  
वेउच्चि०अंगो० ज० अज० छुच्चो० । एवं णील-काऊण । णवरि अप्पप्पणो रज्जू  
भाणिदन्वा । तिरिक्ख०३ एइंदियभंगो ।

दूघातके समय भी सम्भव है । इनका तथा देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा शेष प्रकृतियों का अजघन्य अनुभागवन्ध तो मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव है ही । इसलिए यह सब स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है तथा सातावेदनीयदण्डकके सिवा शेष प्रकृतियों का जघन्य और देवायु व तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इस अपेक्षासे यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिका अजघन्य अनुभागवन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, पर सबसे स्पर्शनमें कोई विशेषता नहीं आती । शेष कथन सुगम है ।

३६६. कृष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगतित्रिक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, आतप और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । ऋग्वेद, नपुंसकवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, देवगतिद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग नपुंसकोंके समान है । नरकगतिद्विक, वैक्रियिक्शरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार नील और कापोत लेश्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी राजू कहनी चाहिए । तथा तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके स्वामियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा कृष्ण लेश्याका स्पर्शन सब लोक होनेसे यहाँ इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है । आगे भी सब लोकप्रमाण स्पर्शनका इसी प्रकार स्पष्टीकरण करना चाहिए । सातावेदनीय दण्डकके स्पर्शनका स्पष्टीकरण ओघके समान कर लेना चाहिए । नीचे छह राजू प्रमाण यथायोग्य स्पर्शन करनेवाले जीवोंके भी ऋग्वेदका जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है; अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । नरकायु, देवायु और देवगतिद्विकका जघन्य अनुभागवन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध मनुष्य करते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । नपुंसकोंमें मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य

४००. तेज्ज् पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-द्वण्णो०-अण्यसत्थ०४-  
उप०- पंचंत० ज० खेंत्त०, अज० अट्ट-णव० । सादासाद०-तिरि०-ईदि०-ओरा०-  
तेजा०- [ क०- ] हुंड०--पसत्थव०४-तिरिक्खाणु०-अणु०३-उज्जो०-थावर०-बादर-  
पज्जत्त०-पत्ते०-थिरादिदिट्ठिण्यु०-दूभग--अणादें०-णिमि०-णीचा० ज० अज० अट्ट-  
णव० । इत्थि०-दोआउ०-मणुस०-पंचि०-पंचसंठा०-ओरा०-अंगो०-द्वसंसंघ०-मणुसाणु०-  
आदा०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर०--आदें०--तित्थि०-उच्चा० ज० अज० अट्टचो० ।  
पुरिस० ज० खेंत्त०, अज० अट्ट० । णवुंसगे सोधम्मभंगो । देवाउ०-आहारदुगं  
खेंत्त० । देवगदि०४ ज० अज० दिवडुचोदं० । एवं पम्माए वि । णवरि सच्चाणं  
रज्जू० अट्टचो० । देवगदि०४ पंचचो० ।

तिर्यञ्चोके समान कहा है । वह स्पर्शन यहाँ भी प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्यायुका भङ्ग नपुंसकोके समान कहा है । जो तिर्यञ्च और मनुष्य नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके भी नरकगतिद्विक और वैकियिकद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । नील और कापोत लेहयामे तिर्यञ्चगतित्रिकका स्वामी बदल जानेसे स्पर्शन बदल जाता है । शेष सब स्पर्शन कृष्णलेहयाके ही समान है । मात्र नील लेहया पंचवें नरक तक और कापोत लेहया तीसरे नरक तक होती है, इसलिए जहाँ कुछ कम छह राजू स्पर्शन कहा है, वहाँ कुछ कम चार और कुछ कम दो राजू स्पर्शन कहना चाहिए ।

४००. पीतलेहयामे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, छह लोक-  
षाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ और कुछ कम नौ  
राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति,  
औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, स्यावर, बादर पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय,  
निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे  
चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, दो आयु,  
मनुष्यगति, पञ्चैन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानु-  
पूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके जघन्य  
और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है । पुरुषवेदके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनु-  
भागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसक-  
वेदका भङ्ग सौधर्मकल्पके समान है । देवायु और आहारकेद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगति-  
चतुष्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पद्मलेहयामें भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है  
कि यहाँ सबके कुछ कम आठ बटे चौदह राजू कहने चाहिए । तथा देवगतिचतुष्कके कुछ कम  
पाँच बटे चौदह राजू कहने चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंका एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय जघन्य,

४०१. सुक्राण खविगाणं ज० खेंच०, अज० छ०। साददंडओ इत्थि०-णवुंस०-  
मणुसाब०-मणुस०-पंचिदियादि याव पीजुच्चा० देवगदि०४-तित्य० ज० अज० छच्चौ०।  
देवाब०-आहारदुगं खेंच०।

४०२. अबभवसि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-पंचि०-  
ओरा०अंगो०-अप्पसत्थ०४-उप०--पंचंत० ज० अइ-वारह०, अज० सव्वलो०।

अजघन्य या दोनों अनुभागवन्ध सम्भव है, उनके बन्धक जीवोंका कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजू प्रमाण स्पर्शन कहा है। जिनका जघन्य या अजघन्य अनुभाग-  
वन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता और स्वस्थान-विहारदिके समय  
सम्भव है, उनके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू प्रमाण कहा है। प्रथम  
दण्डक की प्रकृतियों, पुरुषवेद, देवायु और आहारकदिकके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका तथा  
देवायु और आहारकदिकके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है,  
यह स्पष्ट ही है। देवोंमें नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागवन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव करता  
है। यही स्वामित्व यहाँ पीतलेरयामे भी कहा है, इसलिए यहाँ नपुंसकवेदका भङ्ग सौधर्मकल्पके  
समान कहा है। तिर्यञ्च और मनुष्य ऊपर डेढ़ राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय  
भी देवगतिचतुष्कका जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध करते हैं, इसलिए इनके दोनों प्रकारके  
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। पद्मलेरयामें देवगतिचतुष्कका यह  
स्पर्शन कुछ कम पाँच राजू है, क्योंकि पद्मलेरयामे साथ तिर्यञ्च और मनुष्योंका स्पर्शन बारहवें  
कल्प तक देखा जाता है। शेष सब कथन पीतलेरयामे समान है। मात्र पद्मलेरयामें कुछ कम  
नौ बटे चौदह राजू नहीं कहने चाहिए, क्योंकि इस लेरयावाले एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात  
नहीं करते।

४०१ शुक्ललेरयामें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके  
समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है। सातवेदनीयदण्डक, खीवेद, नपुंसकवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति व पञ्चेन्द्रिय  
जातिसे लेकर नीच व उच्चगोत्र तक तथा देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्करके जघन्य और अजघन्य  
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छहबटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु  
और आहारकदिकका भङ्ग क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—यहाँ क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। तथा यहाँ शुक्ल-  
लेरयाका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजू प्रमाण होनेसे इनके अलुल्लुष्ट अनुभागके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है। यहाँ पञ्चेन्द्रियजातिसे नीचगोत्रके मध्यकी प्रकृतियों, अर्थात्  
चपकप्रकृतियों, आहारकदिक, देवगतिचतुष्क व तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा नामकर्मकी शुक्ललेरयामें  
बैधनेवाली सब प्रकृतियों ली गई हैं। इनका यथा सम्भव जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध  
देवोंमें व देवों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय होता है। अतः इनके जघन्य  
और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजू प्रमाण कहा है।  
इसी प्रकार देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा भी स्पर्शन जान लेना चाहिए।  
शेष कथन सुगम है।

४०२. अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय  
पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, अप्रशस्त बर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य  
अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजू-  
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका  
२५



ओरा०-तेजा०-क०-पसत्य०४-अणु०३-उज्जो०-वादर-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० ज०  
अट्ट-तेरह०, अज० सन्वल्लो० । सेसाणं मदि०भंगो ।

४०३. सासणे सच्चविसुद्धाणं ज० अट्ट०, अज० अट्ट-वारह० । दोआउ०-  
मणुसगदिदुगं ज० अज० अट्टचो० । देवाउ० खेंत० । देवगदि०४ ज० अज०  
पंचचो० । तिरिक्खगदितिगं ज० खेंत०, अज० अट्ट-वारह० । सेसाणं ज० अज०  
अट्ट-वारह० । मिच्छादिद्वि० मदि०भंगो ।

स्पर्शन किया है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—अमन्व्योंमें चारों गतिके संज्ञी जीव पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध करते हैं। यह बन्ध नीचे छह व ऊपर छह राजूके भीतर यथायोग्य मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। औदारिकशरीर आदिका नीचे छह और ऊपर सात राजूके भीतर यथायोग्य मारणान्तिक समुद्घातके समय भी जघन्य अनुभाग-बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

४०३. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सर्व विशुद्ध प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और मनुष्यगतिद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायुका भंग क्षेत्रके समान है। देव-गतिचतुष्कके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजू-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यञ्जगतित्रिकके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनु-भागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—सर्व विशुद्ध परिणामो से जघन्य वैधनेवाली प्रकृतियों ज्ञानावरणादि हैं। यहाँ चारों गतिके संज्ञी जीव इनका जघन्य अनुभागबन्ध करते हैं। मारणान्तिक समुद्घातके बिना इनका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। इनके अजघन्य तथा जिन प्रकृतियोंका यहाँ नामोच्चारके साथ स्पर्शन नहीं कहा गया है, उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है; क्योंकि उनका यह दोनों प्रकारका अनुभागबन्ध नीचे पाँच और ऊपर सात इस प्रकार कुल बारह राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करनेवालोंके भी होता है। आयुकर्मका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता और मनुष्यगतिद्विकका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातमें होकर भी मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवालोंके ही सम्भव है,

४०४. असण्णीसु पंचणा०—णवर्दंस०—मिच्छ०—सोलसक०—णवणोक०—पंचि०—  
तेजा०— [ क०— ] ओरा०—अंगो०—पसत्यापसत्य०—अणु०—आदाव—तस४—णिमि०—  
पंचंत० ज० खैत०, अज० सव्वलो० । दोआउ०—वेउच्चियद्धकं ज० अज० खैत० ।  
साददंडओ ओघो । मणुसाउ० किण्णभंगो । तिरिक्खगदित्तिग—ओरा०—उज्जो० तिरि-  
क्खोघं । अणाहार० कम्मइगर्भंगो ।

एवं फोसणं समत्तं ।

## २१. कालपरुवणा

४०५. कालं दुविधं—जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे०

अतः स्वस्थान विहारादिकका अपेक्षा इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन प्रधान होनेसे यह कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । देवोंमें सहस्रारकल्प तक मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले सासादन जीवोंके भी देवगतिचतुष्कका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । देवायुका जघन्य अनुभागबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तिर्यञ्चगतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध सातवें नरकके नारकी करते हैं । अतः इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध नीचे पाँच व ऊपर सात कुल बारह राजूके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीव भी करते हैं । इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

४०४. असंक्षिप्तोमं पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोक-  
पाय, पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामण्यशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क,  
अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य  
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब  
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और वैक्रियिक ब्रह्मके जघन्य और अजघन्य  
अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग औघके समान  
है । मनुष्यायुका भङ्ग कृष्णलेखाके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिक, औदारिकशरीर और उद्योतका  
भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चके समान है । अनाहारक जीवोंका भङ्ग कामण्यकाययोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध पञ्चन्द्रिय  
असंक्षी करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।  
एकेन्द्रिय सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब  
लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

## २१ कालपरुवणा

४०५. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उक्कृत । उक्कृतका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका

पंचणा०-णवर्दस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-तिष्णिगां०-चदुजा०-ओरा०-  
 पंचसंठा०-ओरा०-अंगो०-द्वस्संघ०-अप्पसत्थ०४-तिष्णिआणु०-उप०-आदा०-उज्जो०-  
 अप्पसत्थ०-यावर४-अधिरादिद्व०-णीचा०-पंचंत० उक्कस्सअणुभागबंधगा केवचिरं  
 कालादो होंति ? जहण्णेणं एगसमयं । उक्कस्सेण आवलियाए असंखेंज्जिदिभागो ।  
 अणुक० अणुभाग० सव्वद्धा । सादा०-तिरिक्खाउ०-देवगदि०-पंचि०-चदुसरीर-  
 समचदु०-दोअंगो०-पसत्थ०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिद्व०-  
 णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उ० ज० एग०, उ० संखेंज्जस० । अणुक० सव्वद्धा ।  
 णिरयाउ० उ० ज० ए०, उ० आवलि० असंखें० । अणु० ज० ए०, उ० पलि०  
 असं० । दोआउ० उ० ज० ए०, उ० संखेंज्जस० । अणु० ज० ए०, उ० पलिदो०  
 असंखें० । एवं ओघभंगो पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरो०-  
 इत्थि०-पुरिस०-णडुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-  
 मिच्छा०-सण्णि०-आहारए ति । णवरि चदुण्णं आडगाणं अणुक० बंधगा असंखेंज्ज-  
 रासीणं अप्पप्पणो पगदिकालो कादव्वो ।

है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आह्मोपाह्म, छह संहनन, अमरास्त वर्षचतुष्क, तीन आनुपूर्वी, उपघात, आतप, उद्योत, अमरास्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । सातावेदनीय, तिर्यञ्चायु, देवगति, पञ्चन्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्र संस्थान, दो आह्मोपाह्म, प्ररास्त-वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्ररास्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । नर-कायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । दो आयुओंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान पञ्चन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यहानी, श्रुता-हानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि, सङ्गी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात सख्यावाली राशियोंमें चार आयुओंके अनुत्कृष्ट अणु-भागके बन्धक जीवोंका अपनी-अपनी प्रकृतियोंका जो बन्धकाल हो, वह कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक प्रकृतिका बन्धक-काल कितना है, इसका विचार

१. ता० प्रती पंचणा० असादा० मिच्छ० सोलसक० तिष्णिग० इति पाठः । २. ता० प्रती होंति होंति ( ? ) जहण्णेण इति पाठः । ३. ता० प्रती सव्वद्धा (द्धा) इति पाठः । ४. ता० आ० प्रत्योः बंधगा लो० असंखेंज्ज० इति पाठः ।

४०६. एइदिएसु तिरिक्वाउ०-उज्जो० उ० ज० ए०, उ० आवलि० असखें० ।  
अणु० सव्वद्धां । मणुसाउ० ओघो । सेसाणं दोपदा सव्वद्धा । एवं वादरतिगाणं ।

किया गया है । उसमें भी ओघसे प्रत्येक प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागका जघन्य और उत्कृष्ट बन्धकाल कितना है, इसका सर्वप्रथम निर्देश किया गया है । कुल बन्ध प्रकृतियों १२० हैं । उनमेंसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल किसीका एक समय और किसीका दो समय बतलाया है । अब यदि नाना जीव निरन्तर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करें तो कितने काल तक करेंगे, इसी प्रश्नका यहाँ उत्तर दिया गया है । जैसा कि बन्धस्वामित्वके देखनेसे विदित होता है कि इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संज्ञी पञ्चोन्द्रिय मिथ्यादृष्टि होते हैं और वे असंख्यात हैं, अतः यह भी सम्भव है कि नाना जीव एक समय तक इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करें और यह भी सम्भव है कि लगातार एकके बाद दूसरा निरन्तर उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते रहे । इस प्रकार निरन्तर यदि बन्ध करें भी तो वह सब काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं हो सकता । यही कारण है कि यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंका काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है जब इन प्रकृतियोंके बन्धक जीव न हों अर्थात् वे सर्वदा पाये जाते हैं । दूसरे दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं, अतः उनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है । नरकायुके उत्कृष्ट अनुभागका जघन्य और उत्कृष्ट बन्धकाल, तो ज्ञानावरणके समान ही है । इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धकके कालमें अन्तर है । वात यह है कि एक आयुका बन्धकाल अन्तमुहूर्त है, उसमें भी अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्धकाल कमसे कम एक समय है । यह सम्भव है कि नाना जीव एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके दूसरे समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करने लगें और उस दूसरे समयमें एक भी जीव अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध न करे, इसलिए तो नरकायुके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय कहा है और निरन्तर अन्तमुहूर्त अन्तमुहूर्तके क्रमसे यदि नाना जीव नरकायुका बन्ध करते रहे, तो इस सब कालका योग पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होगा। इसीलिए नरकायुके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । अब वहीं मनुष्यायु और देवायु सो इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं, उनमें यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनके कथनको ओघके समान कहा है । मात्र असंख्यात संख्यावाली राशियोंमें चार आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंके कालके ओघसे अन्तर है । अतः उसे प्रकृतिबन्धके समान जानने की सूचना की है । सो प्रकृतिबन्धके अनुसार उसे समझ लेना चाहिए ।

४०६. एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायु और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धकोंका काल सर्वदा है । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके दोनों पदोंके बन्धक

१ ता० प्रतौ सव्वद्धा० ( आ ) हति पाठः । ता० प्रतौऽप्येवमेव बहुलतया पाठो निबद्धः ।

सव्वसुहुमाणं दोआउ० एईदियभंगो । सेसाणं दोपदा सव्वद्धा ।

४०७. अवगद०-सुहुमसं० सव्वपग० उ० ज० ए०, उ० संखेज्ज० अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं गिरयगदीणं याव सण्णि ति एसिं परिमाणेण संखेज्ज० तेसिं उ० ज० ए०, उ० संखेज्जस० । एसिं परिमाणेण असंखेज्जा तेसिं उक्क० ज० ए०, उ० आवल्लिगा० असंखे० । णवरि वादरपुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्फदिपत्तेयअपज्जत्ता० आउगवज्जाणं सव्वासिं पगदीणं दोपदा सव्वद्धा ति । तिरिक्खाउ० उक्क० गिरयाउभंगो । अणुक्क० सव्वद्धा । मणुसाउ० ओघो । एसिं परिमाणे अर्णता तेसिं सव्वद्धा । अणुक्क० अणुभागबंधो सव्वेसिं अप्पण्णेण पगदि-कालो एदेण वीजेण याव अणाहारए ति णेदव्वं ।

एवं उकस्सकालो समत्तो ।

४०८. जह० पगदं । दुवि० ओघे०—आदे०।ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०--सत्तणोक०-आहारदुग०--अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थ० पंचंत० ज० ज० ए०,

जीव सर्वदा हैं । इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त और वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये । सब सूक्ष्म जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है ।

विशेषार्थ—यहाँ एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायु और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात होनेसे उनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवल्लिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इसी प्रकार सब काल घटित कर लेना चाहिए ।

४०७. अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तयुक्त है । नरकगतिसे लेकर संज्ञी-मार्गणा तक शेष जितनी मार्गणाएँ हैं, उनमेंसे जिनका परिमाण संख्यात है उनमें उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । जिनका परिमाण असंख्यात है, उनमें उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवल्लिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, वादर जलकायिक अपर्याप्त, वादर अग्निकायिक अपर्याप्त, वादर वायुकायिक अपर्याप्त और वादर वनस्पति-कायिक प्रत्येकशरीर अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके दो पदोंके बन्धक जीव सर्वदा हैं । मात्र तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल नरकयुके समान है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । तथा जिनका परिमाण अनन्त है, उनमें सर्वदा काल है । सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धक काल अपने-अपने प्रकृतिबन्धके कालके समान है। इस प्रकार इस बीजके अनुसार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

४०८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यादम, सोलह कषाय, सात नोकषाय, आहारकट्टिक, अपरास्त

१. ता० प्रती अणु० उ० ज० ए० संखेज्ज० अणु० ज० ए० उ० [ एतच्चिन्हात्तगतं पाठोऽधिकः प्रतीयते ] अंतो०, आ० प्रती अणु० ज० ए०, उ० संखेज्ज०, अणु० ज० ए०, उ० अंतो० इति पाठः ।

७० संखेँज्ज० । अज० सव्वद्धा । सादासाद०-तिरिक्त्वा७०-मणुस०-चदुजा०-द्धसंसं०-  
द्धसंसं०-मणुसाणु०-दोविहा०-थावरादि०-ध-थिरादिद्धयुग०-उच्चा० ज० अजह० सव्वद्धा ।  
इत्थि०-णवुंस०-तिण्णिगदि०-पंचि०--चदुसररी--दोअंगो०-पसत्थ०-४-तिण्णिआणु०-  
अणु०३-आदाउज्जो०-तस०-४-णिमि०-णीचा० ज० ज० ए०, ७० आवलि० असं० ।  
अजह० सव्वद्धा । तिण्णिआउ० ज० ज० ए०, ७० आवलि० असं० । अजह० ज०  
ए०, ७० पल्लिदो० असंखेँ० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-कोधादि०-४-  
मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छा०-आहार ए ति ।

४०६. गिरयादि याव अणाहार ए ति एसिं संखेँज्जजीविगा तेसिं ज० ज०  
ए०, ७० संखेँज्ज० । अज० सव्वद्धा । एसिं असंखेँज्जजीविगा तेसिं ज० ज० ए०,  
७० आवलि० असंखेँ० । अज० सव्वद्धा । एसिं अणंतरासी० तेसिं ज० सव्वद्धा ।  
सव्वणं अजहण्णं० अणुभागबंधकाले अप्पणो पगदिकालो कादव्वो । एदेण वीजेण  
णेदव्वं जहणुक्क० काले० पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्पदिपत्तेयाणं च किंचि

वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर और पौच अन्तरायके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उल्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, तिर्यञ्जायु, मनुष्यगति, चार जाति, ब्रह्म संस्थान, ब्रह्म संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह शुगल और उच्चोन्नतेके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । ऋग्वेद, नपुंसकवेद, तीन गति, पञ्चोन्नियजाति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशान्त वर्णचतुष्क, तीन आतुपूर्वी, अगुस्तधुनिक, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उल्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तीन आयुओंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उल्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उल्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । उसी प्रकार ओषके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भग्य मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

४०६. नरकगतिसे लेकर अनाहारक मार्गणा तक जिनके संख्यात संख्यावाले स्वामी हैं, उनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उल्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । जिनके असंख्यात जीव स्वामी हैं, उनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उल्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । जिनके अनन्त जीव स्वामी हैं, उनके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल अपने-अपने प्रकृतिबन्धके कालके समान करना चाहिए । इस बीजपदके अनुसार जघन्य और उल्कृष्ट काल जान लेना चाहिए । किन्तु पृथिवी-क्रौंचिक, जलक्रौंचिक, अग्निक्रौंचिक, वायुक्रौंचिक और बादर वनस्पतिक्रौंचिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें

१. वा० प्रवो एहं ( चि ) इति पाठः ।

विसेसो साधेद्वं । वादरअपज्जत्तएसु ज० अज० सव्वद्धा ।

एवं कालो समयो ।

## २२ अंतरपरूवणा

४१०. अंतरं दुविधं—जह० उक्क०। उक्क० पगदं। दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० सादा०-जस०-उच्चा० उ० अणुभागबंधंतरं ज० ए०, उ० इम्मसं० । अणु० णत्थि अंतरं । सेसाणं सव्वेसिं उ० ज० ए०, उ० असंख्वेज्जा लोगा । अणुक० णत्थि अंतरं । णवरि तिण्णं आउगाणं अणुक० ज० ए०, उ० चदुवीसं सुहुत्तं ।

४११. एइदिएसु सव्वपगदीणं उ० अणु० णत्थि अंतरं । दोआउ०-उज्जो० ओघं । एवं वादरअपज्जत्तापज्जत्त० । सव्वसुहुम--सव्ववणप्फदि--णियोद०-वादरपुढ०-

कुञ्ज विशेषे साध लेना चाहिए । वादर अपर्याप्तकोंमें जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवों का काल सर्वदा है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

## २२ अंतरप्ररूपणा

४१०. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सातावेदनीय, यज्ञाःकीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है । शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि तीन आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकभ्रेणिमं होता है। अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है । यद्यपि देवगति आदि अन्य प्रकृतियोंका भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकभ्रेणिमं होता है, पर सातावेदनीय आदिके समान सब जीवोंके उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो ही ऐसा कोई नियम नहीं है; इसलिए उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर परिणामोंके अनुसार कहा है । अनुभागबन्धके योग्य कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं । जिनमेंसे उत्कृष्ट अनुभागबन्धके योग्य परिणाम एक समय के अन्तरसे भी हो सकते हैं और क्रमसे सब परिणामोंका अन्तर देकर भी हो सकते हैं । इसलिए यहाँ शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । नरकायु, मनुष्यायु और देवायु इन तीन आयुओंका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध अन्य प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके समान निरन्तर नहीं होता । उस-उस गतिमें उत्पन्न होनेका जो अन्तर है, वही यहाँ इन आयुओंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर है । यही देखकर यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त कहा है ।

४११. एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । दो आयु और उद्योतका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार वादर, वादर पर्याप्त और वादर अप-

आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपत्ते०अपज्जत्तगाणं च दोआउ० ओषं । सेसाणं गत्थि  
 अंतरं । पुढविद्यादिचहुण्णं तेसिं वादर०-वादरपत्तेय० दोआउ० ओषं । सेसाणं  
 दोपदा ओषं आभिणि०भंगो । एवमेदेसिं वादरपज्जत्तगाणं च । णवरि तिरिक्खवाउ०  
 अणुक्क० पगदिअंतरं । एवं ओषभंगो णेरइग-तिरिक्ख-मणुस-देव-विगल्लिदि०-पंचि०-  
 तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-वेउन्वि०-वेउ०मि०-  
 आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-अवगद०-कोधादि०४-मदि०-  
 सुद०-विभंग०-आभिणि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-  
 सुहुमसं०-संजदासंजद०-असंज०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-अल्लोस्सि०-भवसि०-  
 अभवसि०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्माभि०-मिच्छा-सण्णि-  
 असण्णि-आहार०-अणाहारए ति । णवरि सन्वाणं अणुक्क०अणुभागबंधंतरं अणुक्कस्स-  
 द्विदिवंधंतरं अणुक्कस्सद्विदिवंधभंगो । णवरि अवगद०-सुहुमसं०-[सादा०-]जस०-उच्चा०  
 उ० अणु० अणुभाग० ज० ए०, उ० इम्मासं० । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० वासपुधत्तं । अणु०  
 ज० ए०, उ० इम्मासं० । उवसम० सादा०-जस०-उच्चा० उ० ज० ए०, उ० वासपुधत्तं ।  
 एवमुक्कस्समंतरं समत्तं ।

योनि जीवोंके जानना चाहिए । सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, निगोद, वादर पृथिवीकायिक अप-  
 योनि, वादर जलकायिक अपयोनि, वादर अग्निकायिक अपयोनि, वादर वायुकायिक अपयोनि और  
 वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपयोनि जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग ओषके समान है । तथा शेष प्रकृ-  
 तियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । पृथिवी आदि चार, उनके वादर  
 और वादर प्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंके  
 दो पदोंका भङ्ग ओषसे कहे गये आभिनिवोधिकज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार इनके वादर  
 पर्याप्तकोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चायुके अनुकृष्ट अनुभागबन्धका  
 अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है । इस प्रकार ओषके समान नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य,  
 देव, विकलेंद्रिय, पञ्चेंद्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदा-  
 रिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारक-  
 काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी,  
 क्षोधादि चार ऋषयवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि-  
 ज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्म-  
 साम्प्रदायसंयत, संयतासंयत, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, ब्रह्म लेश्यावाले, भव्य,  
 अभव्य, सन्ध्यादृष्टि, क्षौयिकसन्ध्यादृष्टि, वेदकसन्ध्यादृष्टि, उपशमसन्ध्यादृष्टि, सासादनसन्ध्यादृष्टि, सन्ध-  
 गिमिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संवी, असंही, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी  
 विशेषता है कि सबके अनुकृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका भङ्ग अनुकृष्ट स्थितिवन्धके अन्तरके  
 समान है । इतनी और विशेषता है कि अपगतवेदी, और सूक्ष्मसाम्प्रदायसंयत जीवोंमें साता-  
 वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक  
 समय है और उत्कृष्ट अन्तर ब्रह्म महीना है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य  
 अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धका

१. ता० प्रती संजदासंबद्ध० चक्खु० इति पाठः । २. ता० प्रती उच्चा० उ० वासपुधत्तं इति पाठः ।  
 ता० प्रती एवं उत्कृष्टमंतरं समत्तं इति पाठे नास्ति ।



४१२. जह० पगदं । द्रुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चद्रुदंसणा०-चद्रु-  
संज०-पुरिस०-पंचंत० ज० ज० ए०, उ० छम्मासं० । अज० णत्थि अंतरं । पंचदंस०-  
मिच्छ०-वारसक०-अट्टणोक०-तिण्णिआउ०-तिण्णिगदि-पंचि०-पंचसरीर-तिण्णिअंगो०-  
पसत्थापसत्थ०४-तिण्णिआणु०-अगु०४-आदाउज्जोव-तस०४-णिमि०-तित्य०-णीचा०  
ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अज० णत्थि अंतरं । णवरि तिण्णिआरुणं  
अज० अणु०भंगो । सादासाद०-तिरिक्खाउ०-मणुसग०-चद्रुजा०-छस्संडा०-छस्संध०-  
मणुसाणु०-दोविहा०-थावरादि०४-थिरादिअयुग०-उच्चा० ज० अज० णत्थि अंतरं ।  
एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-  
आहारप ति ।

४१३. मणुस०३-पंचि०-तस०४-पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-

जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । उपशमसम्यगृष्टि जीवोंमें साता-  
वेदनीय, यशाकीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्व प्रमाण है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर समाप्त हुआ ।

४१२. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच  
ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संस्वलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्ध-  
का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीनाप्रमाण है । अजघन्य अनुभाग-  
बन्धका अन्तरकाल नहीं है । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, आठ नोकषाय, तीन  
आयु, तीन गति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, तीन आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्ण-  
पतुष्क, तीन आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और  
नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यति  
लोकप्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि तीन  
आयुओंके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है । सातावेदनीय, असाता-  
वेदनीय, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, छह सस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहा-  
योगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनु-  
भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपु-  
सकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध चपकश्रेणिमे होता है । अतः  
जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है । चार  
दर्शनावरण आदिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय, जघन्य अनुभागबन्ध एक  
समयके अन्तरसे सम्भव है, इसलिए कहा है और परिणामोंकी दृष्टिसे उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात  
लोकप्रमाण कहा है । तीन आयुओंके अजघन्य अनुभागबन्धकी विशेषता अनुत्कृष्टके समान है ।  
कारण कि नरकगति आदिमे उत्पत्तिका जो अन्तर है, वही इन आयुओंके अजघन्य अनुभागबन्धका  
अन्तर जानना चाहिए । तथा सातावेदनीय आदिका जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध किसी  
न किसीके निरन्तर होता रहता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तर  
कालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है । आगे भी इसी प्रकार अन्तर घटित कर लेना चाहिए ।

४१३. मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी,

सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदोव०-चक्खु०-ओधिदं०-मुक्खले०-सम्मादि०-  
खइय०-उवसम०-सण्णीसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिसं०-पंचंत० ज० ज०  
ए०, उ० इम्मासं० । अज० णत्थि अंतरं । सेसाणं पगदीणं उक्खस्सभंगो । अवगद०-  
सुहुमसं० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिसवेद-पंचंतं० ज० अज० ज० ए०,  
उ० इम्मासं० । [ णवरि सुहुमसं० चदुसंज०-पुरिसवे० वज्ज० । ] सादा०-जस०-  
उच्चा० ज० ज० ए०, उ० वासपुथ० । अज० ज० ए०, उ० इम्मासं० ।

४१४. ईदिएसु मणुसाउ०-तिरिक्ख०३ ओधं । सेसाणं ज० अज० णत्थि  
अंतरं । वादरईदिय-पज्जत्तापज्जत्त-सव्वसुहुमाणं मणुसाउ० ओधं । सेसाणं ज० अज०  
णत्थि अंतरं । एवं पंचणं कायाणं अप्पज्जत्तगाणं वणप्फदि-णियोदाणं च । अवसेसाणं  
णिरय-तिरिक्खादीणं जासिं दोण्हं पदा सव्वद्धा तासिं णत्थि अंतरं । एसि ण सव्वद्धा  
तेसिं उक्खस्सभंगो । एदेण बीजेण गेद्व्वं याव अणाहारए त्ति । णवरि ओधिणा०-  
इत्थि०-णवुंसं०-ओधिदं०-उवसम० वासपुथत्तं ।

एवं अंतरं समत्तं<sup>१</sup> ।

पुरुषवेदी, आभिनिवोषिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, खलुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललोश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संखी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायके लघन्य अनुभागबन्धका लघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायके लघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका लघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें चार संज्वलन और पुरुषवेदको छोड़कर कइना चाहिए । सातावेदनीय, यशाःकीति और उच्चगोत्रके लघन्य अनुभागबन्धका लघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है । अजघन्य अनुभागबन्धका लघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है ।

४१४. एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायु और तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग ओवके समान है । शेष प्रकृतियोंके लघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । वादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त व अपर्याप्त और सब सूक्ष्म जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओधके समान है । शेष प्रकृतियोंके लघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार पाँच स्थावरकाय, उनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक और तिगोद जीवोंके जानना चाहिए । अवशेष नरक और तिर्यञ्चगति आदिमें जिनके दोनों पदोंका काल सर्वदा है, उनका अन्तर काल नहीं है और जिनका सर्वदा काल नहीं है, उनका उत्कृष्टके समान भङ्ग है । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी, खीवेदी, नपुंसकवेदी, अवधिदर्शनी

१. आ० प्रतौ चदुदंसं पुरित० इति पाठः । २. ता० प्रतौ चदुदंसं पुरितवेदं चदुदवेदं [१] चदुवञ्च० पंचंतं, आ० प्रतौ चदुदंसं पुरितवेदं चदुदवेदं चदुदंसं पंचंतं इति पाठः । ३. ता० प्रतौ एवं अंतरं समत्तं इति पाठो नास्ति ।

## २३ भावपरूवणा

४१५. भावं दुवि०—ज० उ०। उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे०आदे०। ओघे० सव्वपगदीणं उक्कस्साणुक्कस्सअणुभागबंधए त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारए त्ति ।

४१६. जह० दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं ज० अज० अणु-भागबंधए त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारए त्ति ।

एवं भावं समत्तं ।

## २४ अप्पाबहुअपरूवणा

४१७. अप्पाबहुगं दुवि०—सत्थाणअप्पाबहुगं चेव परत्थाणैअप्पाबहुगं चेव । सत्थाणअप्पाबहुगं दुविधं—जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वत्तिव्वाणुभागं केवलणाणावरणीयं । आभिणि० अणंतगुणहीणं । सुद० अणंतगु० । ओधि० अणंतगु० । मणपज्जव० अणंतगुणहीणं ।

और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर है ।

इस प्रकार अन्तर-काल समाप्त हुआ ।

## २३ भावपरूवणा

४१५. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कौन भाव है ? औदधिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४१६. जघन्य दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धकोंका कौन भाव है ? औदधिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जीवके औपशमिक आदि अनेक भाव हैं । उनमें बन्धका प्रयोजक एकमात्र औदधिक भाव है; अन्य सब नहीं, यही इससे सिद्ध होता है ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

## २४ अल्पबहुत्वपरूवणा

४१७. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व । स्वस्थान अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे केवलज्ञानावरण सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे आभिनि-बोधिक ज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे भ्रतज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अवधिज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनःपर्ययज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।

१. ता० प्रती एवं भावं समत्तं इति पाठो नास्ति । २. ता० प्रती -बहुगे ( वं ) चेति परत्थाण-इति पाठः ।

४१८. सव्वतिव्वाणुभागं केवलदंस० । चक्खु० अणंतगु० । अचक्खु०<sup>१</sup>  
अणंतगु० । ओधिदं० अणंतगुण० । थीणं० अणंतगु० । णिद्दिण्णिद्दि० अणंतगु० । पचल्ला-  
पचल्ला० अणंतगु० । णिद्दि० अणंतगु० । पचल्ला० अणंतगु० ।

३१६. सव्वतिव्वाणुभागं साद० । असाद० अणंतगु० ।

४२०. सव्वतिव्वाणु० मिच्छ० । अणंताणुबंधिलो० अणंतगु० । माया० विसेसा० ।  
कोषे विसे० । माणो विसे० । संजलणाए लोभो अणंतगु० । माया० विसे० । कोषे  
विसे० । माणो विसे० । एवं पच्चक्खाण०४—अपच्चक्खाण०४ । णवुंस० अणंतगु० ।  
अरदि० अणंतगु० । सोग० अणंतगु० । भय० अणंतगु० । दुग्गुच्छ० अणंतगु० । इत्थि०  
अणंतगु० । पुरिस० अणंतगु० । रदि० अणंतगु० । हस्स० अणंतगु० ।

४२१. सव्वतिव्वाणुभागं देवाड० । णिरयाड० अणंतगु० । मणुसाड०  
अणंतगु० । तिरिक्खाड० अणंतगु० ।

४२२. सव्वतिव्वाणुभागं देवगदि० । मणुस० अणंतगु० । णिरय० अणंतगु० ।

४१८. केवलदर्शनावरण सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे चक्षुदर्शनावरणका अनुभाग  
अनन्तगुणा हीन है । इससे अचक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अवधि-  
दर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे स्त्यानगृद्धिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।  
इससे निद्रानिद्राद्रिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा  
हीन है । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।

४१६. सातावेदनीय सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे असातावेदनीयका अनुभाग  
अनन्तगुणा हीन है ।

४२०. मिथ्यात्व सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे अनन्तानुबन्धी लोभका अनु-  
भाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अनन्तानुबन्धी मायाका अनुभाग विशेष हीन है । इससे  
अनन्तानुबन्धी क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है । इससे अनन्तानुबन्धी मानका अनुभाग  
विशेष हीन है । इससे संज्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे संज्वलन  
मायाका अनुभाग विशेष हीन है । इससे संज्वलन क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है ।  
इससे संज्वलन मानका अनुभाग विशेष हीन है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चार और  
अप्रत्याख्यानावरण चारका अनुभाग सम्बन्धी अल्पबहुत्व कहना चाहिए । इससे नपुंसक-  
वेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे  
शोकका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे जुगुप्सा-  
का अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे स्त्रीवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे पुरुष-  
वेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे हास्यका  
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।

४२१. देवायु सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।  
इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यञ्चायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।

४२२. देवगति सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा

१. ता० आ० प्रत्योः अचंतगु० थीचा० अचक्खु० इति पाठः । २ ता० प्रतौ थि ( थि ) थ०  
इति पाठः ।

तिरिक्ख० अणंतगु० । सव्वतिव्वाणुभागं पंचिदिय० । एईदि० अणंतगुणही० । वेईदि० अणंतगु० । तेईदि० अणंतगु० । चदुरिदि० अणंतगु० । सव्वतिव्वाणुभागं कम्मइ० । तेजा० अणंतगु० । आहार० अणंतगु० । वेउच्चि० अणंतगु० । ओरालि० अणंतगु० । सव्वतिव्वाणुभागं समचदु० । हुंड० अणंतगु० । णग्गोद० अणंतगु० । सादि० अणंतगु० । खुज्ज० अणंतगु० । वामण० अणंतगु० । सव्वतिव्वाणुभागं आहार-अंगो० । वेउच्चि० अणंतगु० । ओरालि० अंगो० अणंतगु० । संघट्ठणं संठाणभंगो । सव्वतिव्वाणुभागं पसत्थवण्ण०४ । अप्पसत्थ०४ अणंतगुणही० । यथा गदी<sup>१</sup> तथा आणुपु० । [ सव्वतिव्वाणु० अगुरु० । उस्सास० अणंतगुणही० । परघाद० अणंत-गुणही० । उप० अणंतगुणही० । ] एत्तो सव्वयुगलाणं सव्वतिव्वाणि पसत्थाणि । अप्पसत्थाणि पडिपक्खाणि अणंतगुणही० ।

४२३. सव्वतिव्वाणुभागं विरियंत० । हेट्ठा दाणंतरां० अणंतगु० ।

४२४. णिरएसु यत्तियाओ<sup>१</sup> पगदीओ अत्थि तत्तियाओ मूलोघो । एवं सत्तसु

हीन है । इससे नरकात्मिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यञ्चगत्मिका अनुभाग अनन्त-गुणा हीन है । पञ्चेन्द्रियजात्मिका अनुभाग सबसे तीव्र है । इससे एकेन्द्रियजात्मिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे द्वीन्द्रियजात्मिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे त्रीन्द्रिय जात्मिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे चतुरिन्द्रियजात्मिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । कामेशशरीर सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे आहारकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्त-गुणा हीन है । इससे औदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । समचतुरस्रस्थान सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे हुण्डकसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे न्यग्रोध-परिमण्डल संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे स्वातिसंस्थानका अनुभाग अनन्त-गुणा हीन है । इससे कुञ्जकसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे वामन-संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । आहारकआङ्गोपाङ्ग सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे औदारिक आङ्गोपाङ्गका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । छह संहननोंका अल्पबहुत्व छह संस्थानोंके समान है । प्रशस्त वर्षचतुष्क सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे अप्रशस्त वर्षचतुष्कका अनुभाग अनन्त-गुणा हीन है । चार आनुपूर्वियोंके अनुभागका अल्पबहुत्व चार गतियोंके समान है । अगुरुलपु सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे उच्छ्वासका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे परघातका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे उपघातका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । यहाँ सब युगलोंमें प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग सबसे तीव्र है । इससे अप्रशस्त प्रतिपत्त प्रकृतियोंका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।

४२३. वीर्यान्तराय सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे पूर्व दानान्तरायतक क्रमसे प्रत्येकका अनुभाग अनन्तगुणा हीन, अनन्तगुणा हीन है ।

४२४. नारकियोंमें जितनी प्रकृतियों हैं, उनका अल्पबहुत्व मूलोघके समान है । इसी प्रकार

१. ता० प्रती० पगदि इति पाठः । २. ता० प्रती० हेट्ठाहु दंडाण ( दाणं ) तय, आ० प्रती० हेहा हुंडं दाणंतय इति पाठः । ३. आ० प्रती० यत्तियाओ इति पाठः ।

पुढवीसु । तिरिक्वेसु सव्वतिव्वाणुभागं णिरयाउ० । देवाउ० अणंतगु० । मणुसाउ० अणंतगु० । तिरिक्वाउ० अणंतगु० । सव्वतिव्वाणुभागं देवग० । णिरयग० अणंतगु० । तिरिक्वग० अणंतगु० । मणुसग० अणंतगु० । सेसं मूलोघं । एवं सव्वतिरिक्वाणं । पंचि० तिरि०अपज्ज० णेरइगभंगो । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वएइदि० सव्वविगल्लिदिय-सव्वपंचकायाणं च । मणुस०३ गदीओ तिरिक्वभंगो । सेसं मूलोघं । देवाणं मूलोघं । पंचि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजो०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४-मटि०-सुद०-विभंग०-असंज०-चक्खु०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-सएणले०-आहारए ति मूलोघं । णवरि मदि०-सुद०विभंग०-असंज०-किएणले०-अभवसि०-मिच्छा०-सएणीसु० तिरिक्वभंगो । ओरालि० मणुसि०भंगो । ओरालियमि० तिरिक्वोघं । वेउव्वि०-वेउव्वि०मि० देवगदिभंगो । आहार०-आहारमि० सव्वट्ट०भंगो । कम्मइ० ओरालियमिस्स०भंगो । एवं अणाहार० । अवगद० ओघं । एवं सुहुमसंप० । आभिणि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-झेदो०-ओधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०-उव-सम०

सातो वृथिविओमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें नरकायु सवसे तीव्र अनुभागवाली है । इससे देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यञ्चायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । देवगति सवसे तीव्र अनुभागवाली है । इससे नरकगति का अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यञ्चगति का अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनुष्यगति का अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । शेष भङ्ग मूलोघके समान है । इसी प्रकार सव तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तकोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सव अपर्याप्त, सव एकेन्द्रिय, सव विकलेन्द्रिय और सव पाँच स्थावर त्रयिक जीवोंके जानना चाहिए । मनुष्यनिक्रमें चार गतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है । शेष भङ्ग मूलोघके समान है । देवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गाज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गाज्ञानी, असंयत, कृष्णलेख्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और संज्ञी जीवोंमें तिर्यञ्चोंके समान अल्पबहुत्व है । औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिके समान भङ्ग है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । कार्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्प्रायसंयत जीवोंके जानना चाहिए । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामाधिकसंयत, जेदोपस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, शुक्ललेख्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें

१. आ० प्रत्ये सव्वएइदि० विगल्लिदिय-पंचकायाणं च इति पाठः । २. आ० प्रत्ये सेवं मूलोघं पाँच० इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्ये तिण्णिले० इति पाठः । ४. ता० आ० प्रत्ये अचक्खणीसु इति पाठः । ५. ता० आ० प्रत्ये जेदो० परिहार० ओधिदं इति पाठः । ६. ता० आ० प्रत्ये खइग० वेदग० उवम० इति पाठः ।

ओषं । णवरि अप्यप्यणो पगदीओ णाद्व्वाओ ।

४२५. परिहार०-संजदासंज०-वेदग० सव्वद्वभंगो । णील-काऊणं सव्वत्तिव्वाणु-  
भागं देवग० । मणुसग० अणंतगु० । तिरिक्ख० अणंतगु० । गिरय० अणंतगु० ।  
एवं आणु० । सेसाणं किरण्ण० भंगो । तेउ० देवभंगो । एवं पम्माए वि । सासणे  
णिरयभंगो । सम्मामि० वेदग० भंगो । असएणी० तिरिक्खभंगो ।

एवं उक्कस्ससत्थाणअप्पावहुगं समत्तं ।

४२६. जह० पग० । दुवि०-ओवे० आदे० । ओवे सव्वमंदाणुभागं मणपज्ज० ।  
ओधिणा० अणंतगुणभहियं । सुद० अणंतगुणभ० । आभिणिं० अणंत० भहि० ।  
केवल० अणंतगु० ।

४२७. सव्वमंदाणुभागं ओधिदं० । अचक्खु० अणंतगु० । चक्खु० अणंतगु० ।  
केवलदं० अणंतगु० । पचला० अणंतगु० । णिदा० अणंतगु० । पचलापचला०  
अणंतगु० । णिदाणिदा० अणंतगु० । थीणगिद्धिं० अणंतगु० ।

४२८. सव्वमंदाणुभागं असादा० । सादा० अणंतगुणभहि० ।

ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए ।

४२५. परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सर्वाथसिद्धिके समान  
भङ्ग है । नील और कापोत लेश्यामें देवगतिका अनुभाग सबसे तीव्र है । इससे मनुष्यगतिका  
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यञ्चगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे नरक-  
गतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इसी प्रकार चार आनुपूर्वियोंका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।  
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है । पीतलेश्यामें देवगतिके समान भङ्ग है । इसी प्रकार  
पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । सासादनमें नारकियोंके समान भङ्ग है । सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंमें  
वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

४२६. जघन्य अल्पबहुत्वका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आवेश ।  
ओषसे मनःपर्ययज्ञानावरण सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे अबधिज्ञानावरणका अनुभाग  
अनन्तगुणा अधिक है । इससे श्रुतज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे आमिनि-  
बोधिकज्ञानावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे केवलज्ञानावरणका अनुभाग अनन्त-  
गुणा अधिक है ।

४२७. अबधिदर्शनावरण सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे अचक्षुदर्शनावरणका अनु-  
भाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे चक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे  
केवलदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक  
है । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा  
अधिक है । इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धिका अनुभाग  
अनन्तगुणा अधिक है ।

४२८. असातावेदनीय सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे सातावेदनीयका अनुभाग  
अनन्तगुणा अधिक है ।

१. ता० आ० प्रत्योः अणंतगुणभहियं इति पाठः । २. आ० प्रतो सुद० अणंतगुणभ० इयं  
अणंतगुणभ० आभियि० इति पाठः ।

४२६. सव्वमंदाणुभागं लोभसंजळ० । मायासंज० अणंतगु० । माणसंज० अणंतगु० । कोषसंज० अणंतगु० । पुरिस० अणंतगु० । हस्स० अणंतगु० । रदि० अणंतगु० । दुगुं० अणंतगु० । भय० अणंतगु० । सोग० अणंतगु० । अरदि० अणंतगु० । इत्थि० अणंतगु० । णडुंस० अणंतगु० । पच्चक्खाणमाण० अणंतगु० । कोषे विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० । एवं अपच्चक्खाणचदुक्क-अणंताणु<sup>१</sup>०४ । मिच्छ० अणंतगु० ।

४३०. सव्वमंदाणुभागं तिरिक्खाड० । मणुसाड० अणंतगु० । णिरयाड० अणंतगु० । देवाड० अणंतगु० ।

४३१. सव्वमंदाणुभागं तिरिक्ख० । णिरय० अणंतगु० । मणुस० अणंतगु० । देव० अणंतगु० । सव्वमंदाणुभागं चदुरिं० । तीईदि० अणंतगु० । वेईदि० अणंतगु० । एईदि० अणंतगु० । पंचिं० अणंतगु० । सव्वमंदाणुभागं ओरात्ति० । वेउन्वि० अणंतगु० । तेज० अणंतगुण० । कम्मइ० अणंतगु० । आहार० अणंतगु० । सव्वमंदाणुभागं

४२६. लोभ संव्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे मायासंव्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे मानसंव्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे क्रोध-संव्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे शोकका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे शीवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे प्रत्याख्यानमानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे प्रत्याख्यान क्रोधमें विशेष अधिक है। इससे प्रत्याख्यान मायाका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे प्रत्याख्यान लोभका अनुभाग विशेष अधिक है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानानावरण चार और अनन्तानुवन्धी चारका कइना चाहिए। अनन्तानुवन्धी लोभके अनुभागसे मिध्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है।

४३०. तिर्यञ्चायुका अनुभाग सबसे मन्द है। इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है।

४३१. तिर्यञ्चगतिका अनुभाग सबसे मन्द है। इससे नरकगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। चतुरिन्द्रियजातिका अनुभाग सबसे मन्द है। इससे त्रीन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे द्वीन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे एकैन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे पञ्चेन्द्रियजातिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। औदारिकशरीर सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे काम्यशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे आहारकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। न्यमोध-

१. आ० प्रती अपच्चक्खाण्यचदुक्कं अणंतगु० इति पाठः ।



णमोद० । सादि० अणंतगु० । खुज्ज० अणंतगुणव्य० । वामण० अणंतगु० । हुंड० अणंतगु० । समचदु० अणंतगु० । सव्वमंदाणुभागं ओरा० अंगो० । वेउव्वि० अंगो० अणंतगु० । आहार० अंगो० अणंतगु० । संघडणं संठाणभंगो । सव्वमंदाणुभागं अप-सत्थ० ४ । पसत्थवण्ण० ४ अणंतगु० । यथा गदी तथा आणुपु० । सव्वमंदाणु० उप० । पर० [ अणंतगु० । ] उस्सास० अणंतगु० । अगुरु० अणंतगु० । सव्वमंदाणु० अप्पसत्थवि० । पसत्थवि० अणंतगु० । तसादिदसयुगल० सादासादभंगो ।

४३२. सव्वमंदाणु० णीचा० । उच्चा० अणंतगु० । सव्वमंदाणु० दाणंतरा० । एवं परिवाहीए उवरिमाणं अणंतगुणव्यभहियंथ ।

४३३. गिरएसु सव्वमंदाणु० पचला० । णिहा० अणंतगु० । ओधिदं अणंतगु० । अचक्खु० [अणंतगु०] । चक्खु० अणंतगु० । केवलदंसं [अणंतगु०] । पचलापचला० अणंतगु० । णिहाणिहा अणंतगु० । थीणगि० अणंतगु० । सव्वमंदाणु० हस्स० । रदि० अणंतगु० । हुयुं० अणंतगु० । भय० अणंतगु० । पुरिस० अणंतगु० । संजलणकोध० अणंतगु० । माणो विसे० । माया० विसे० । लोभो विसे० । सोगो अणंतगु० । अरदि० अणंतगु० ।

परिमण्डल संस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे स्वातिसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे क्लृजक संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे वामनसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे हुण्डक संस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे समचतुरस्रसंस्थानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे आहारक आङ्गोपाङ्गका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । सहननोंका भङ्ग संस्थानोंके समान है । अप्रशस्त वर्णचतुष्क सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे प्रशस्त वर्णचतुष्कका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । चार गतियोंके समान चार आनुपूर्वी जाननी चाहिए । उपघात सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे परघातका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे उद्वासका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अगुरुलघुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । अप्रशस्त विहायोगतिका अनुभाग सबसे मन्द है । इससे प्रशस्त विहायोगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । त्रस आदि दस युगलोंका भङ्ग सातावेदनीय-असातावेदनीयके समान है ।

४३२. नीचगोत्र सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे उच्चगोत्रका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । दानान्तराय सबसे मन्द अनुभागवाला है । इस प्रकार क्रमसे आगेकी प्रकृतियोंका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है ।

४३३. नारकियोंमें प्रचला सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अवधिदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अचक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे चक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे केवलदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे स्त्यानगृद्धिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे हास्य सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे अयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे संवलनकोषका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे संवलनकोषका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे मानसज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मायासंवलनका अनुभाग

इत्थि० अणंतगु० । णवुंस० अणंतगु० ! अपच्चक्खाण०४—पच्चक्खाण०४—अणंताणुवं०४  
सजलणाए भंगो । मिच्छ० अणंतगु० । सव्वमंदाणु० तिरिक्खाउ० । मणुसाउ०  
अणंतगु० । सव्वमंदाणु० तिरिक्खग० । मणुसग० अणंतगु० । सेसाणं पगदीणं मूलोघं ।  
एवं सत्तसु पुढवीसु ।

४३४. सव्वतिरिक्खा णेरइयभंगो । णवरि मोहस्स पच्चक्खाण०४ पुव्वं  
कादव्वं । सव्वअपज्जतयाणं देवाणं सव्वएइंदिय-सव्वविगल्लिंदिय-पंचकायाणं च णेरइग-  
भंगो । किंचि विसेसो साधेदव्वो ।

४३५. मणुस०३—पंचि०-तस०२—पंचमण०-पंचवचि०--कायजोगि--ओरालि०-  
इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० ओघं । अवगदं०-क्रोधादि०४—आभिणि०-सुद०-ओधि०-मण-  
पज्ज०-संजद-सामाइय-खेदो०-सुहुमसं०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुक्खले०-भवसि०-  
सम्मादि०-वइग०-उवसम०-सणिण-आहारए त्ति मूलोघं । ओरालियमि०--कम्मइ०-  
मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-तिणिले०--अभवसि०-मिच्छा०-अणाहारएसु दंसणा-  
वरणीयं मोहणीयं णेरइगभंगो । सेसाणं मूलोघं । वेउव्वि०-वेउव्वियमि० देवभंगो । आहार०-  
आहारमि०-परिहार०-संजदासंज०-सम्मामिच्छादि० सव्वद्वभंगो । तेउले०-पम्मले०

विशेष अधिक है । इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे शोकका अनुभाग  
अनन्तगुणा अधिक है । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे ऋषिदेवका अनु-  
भाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । अप्रत्या-  
ख्यानावरण चार, प्रत्याख्यानावरण चार और अनन्तातुवन्धी चारका भङ्ग संज्वलनके समान  
है । अनन्तातुवन्धी लोभके अनुभागसे मिध्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । तिर्यञ्जयुका  
अनुभाग सबसे मन्द है । इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । तिर्यञ्जगतिका  
अनुभाग सबसे मन्द है । इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । शेष प्रकृतियोंका  
भङ्ग मूलोघके समान है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए ।

४३४. सब तिर्यञ्चोका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि मोहनीयमें  
प्रत्याख्यानावरण चारको पहले करना चाहिए । सब अपर्याप्त, देव, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय  
और पाँच स्थावरकायिक जीवोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । कुछ विशेषता साथ लेनी चाहिए ।

४३५. मनुष्यान्निक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काय-  
योगी, औदारिककाययोगी, ऋषिदेवी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।  
त्रपगतवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः-  
पर्यभ्रज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, खेदोपस्थापनासंयत, सूक्ष्मसाम्प्रदायसंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षु-  
दर्शनी, अवधिदर्शनी, शुकललेख्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि,  
संज्ञी और आहारक जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी,  
मत्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, तीन लेख्यावाले, अभव्य, मिध्यादृष्टि और अना-  
हारकमें दर्शनावरणयोगी और मोहनीयका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग  
मूलोघके समान है । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है ।  
आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत और सम्यग्मिध्यादृष्टि

१. ता० प्रती पुरिस० गुधुंस० । अवगद०, आ० प्रती पुरिस० ओघं । अवगद० इति पाठः ।

दंसणा०-मोह० तिरिक्ख०भंगो । सेसं देवभंगो । वेदग० दंसणा०-मोह० तिरिक्ख-  
गदिभंगो । सेसाणं सव्वद्वभंगो । सासणे णिरयभंगो । असण्णीसु सत्तणं कम्मणं  
णिरयभंगो । णामाणं तिरिक्खभंगो ।

एवं जहणसत्याणअप्पावहुगं समत्तं ।

४३६. एत्तो परत्याणअप्पावहुगं पगदं । दुविधं—अ० उक्क० । उक्क० पगदं ।  
दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० उक्कस्सओ चहुस्सट्ठिपदिदददओ कादव्वो भवदि ।  
तं जहा—सव्वतिव्वाणुभागं सादा० । जस०-उच्चा० दो वि तु० अणंतसुणहीणा । देव-  
गदि० अणंतसु० । कम्मइ० अणंतसुण० । तेज० अणंतसु० । [आहार० अणंतसुणही०] ।  
वेज्जि० अणंतसु० । मणुस० अणंत० । ओराखि० अणंत० । मिच्छ० अणंत० । केवलणा०-  
केवलदं०-असाद०-विरियंतरा० चत्तारि वि तुल्ला० अणंतसु० । अणंताणु०लोभ०  
अणंतसु० । माया विसे० । कोधो विसे० । माणो विसे० । संजलणाए लोभ० अणंतसु० ।  
माया विसे० । कोधो विसे० । माणो विसे० । एवं पच्चवत्ताण०४-[अपच्चवत्ताण०४-] ।  
आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंतसु० । चक्खु० अणंतसु० । सुद०-अचक्खु०-

जीवोंमें स्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । पीतलेहया और पद्मलेहयामें दर्शनावरण और मोहनीयका  
भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । शेष भङ्ग देवोंके समान है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें दर्शनावरण  
और मोहनीयका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है । शेष कर्मोंका भङ्ग स्वार्थसिद्धिके समान है ।  
सासादनमें नारकियोंके समान भङ्ग है । असंझियोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।  
नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है ।

इस प्रकार जघन्य स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

४३६. इससे आगे परस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है । वह दो प्रकारका है—जघन्य और  
उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे उत्कृष्ट चौंसठ-  
पदवाला दण्डक करना चाहिए । यथा—सातवेदनीयका अनुभाग सबसे तीव्र है । इससे यशाकीर्ति  
और उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुण्ये हीन हैं । इनसे देवगतिका  
अनुभाग अनन्तागुणा हीन है । इससे कर्मणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।  
इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे आहारकशरीरका अनुभाग  
अनन्तगुणा हीन है । इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनुष्य-  
गतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे औदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन  
है । इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणाहीन है । इससे केवलज्ञानावरण, केवलदर्शना-  
वरण, असातावेदनीय और वीर्यान्तरायके अनुभाग चारों ही तुल्य होकर अनन्तगुण्ये हीन हैं ।  
इनसे अनन्तानुबन्धी, लोभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अनन्तानुबन्धी मायाका  
अनुभाग विशेष हीन है । इससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है । इससे अनन्ता-  
नुबन्धी मानका अनुभाग विशेष हीन है । इससे संज्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।  
इससे संज्वलन मायाका अनुभाग विशेष हीन है । इससे संज्वलन क्रोधका अनुभाग विशेष हीन  
है । इससे संज्वलन मानका अनुभाग विशेष हीन है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण और  
अप्रत्याख्यानानवरण चारका अल्पबहुत्व है । अप्रत्याख्यानानवरण मानके अनुभागसे आभिनिबोधक  
ज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुण्ये हीन हैं । इनसे

भोगंतरा० तिष्णि वि तुल्ला० अणंतगु० । ओषिणा०-ओषिदं०-लाभंतरा० तिष्णि वि तुल्ला० अणंतगु० । मणपज्ज०-यीणगिद्धि०-दारांतरा० तिष्णि वि तुल्ला० अणंतगु० । णवुंस० अणंत० । अरदि० अणंत० । सोग० अणंत० । भय० [ अणंत० ] । दुगु० अणंत० । णिहाणिहा० अणंत० । पचलापचला० अणंत० । णिहा० अणंत० । पयला० अणंत० । अजस०-णीचा० दो वि तु० अणंत० । णिरयग० अणंत० । तिरिक्ख० अणंत० । इत्थि० अणंत० । पुरिस० अणंत० । रदि० अणंत० । हस्स० अणंत० । देवाड० अणंत० । णिरया० अणंत० । मणुसांउ० अणंत० । तिरिक्खाउ० अणंत० । एवं ओघभंगो पंविं०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-काययोगि०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-अवगद०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-चक्खु०-अचक्खु०-तिष्णिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-सणिण-आहारए ति ।

४३७. णिरयगदीए सव्वतिव्वाणुभागं सादा० । जस०-उच्चा० अणंतगु० । मणुस० अणंत० । कम्म० अणंत० । तेज० अणंत० । ओराल्लि० अणंत० । मिच्छ० अणंत० । केवलणा०-केवलदं०-आसादा०-विरियंत० चत्तारि वि तुल्ला० अणंतगु० ।

चक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और लाभान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे मनःपर्ययज्ञानावरण, स्थानगृद्धि और दानान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे शोकका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अयशाः-कीर्ति और नीचगोत्रका अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इससे नरकगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यङ्गतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे स्त्रीवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यङ्गायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इस प्रकार ओषके समान पञ्चोन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, क्रोधादि चार कथायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, तीन लेखावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

४३७. नरकगतिसं सातावेदनीय सव्वसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे कर्मण्यशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तैलसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे औदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण, असाता-

अयांताणु०लोभो अणंतगु० । माया विसे० । कोधो विसे० । माणो विसे० । संजलण-  
लोभो अणंतगु० । माया विसे० । कोधो विसे० । माणो विसे० । एवं पच्चक्खाण०४-  
अपच्चक्खाण०४ । आभिणि०-परिभोग० दो वि तुल्ला० अयांतगु० । चक्खु० अयांत-  
गु० । सुद०-अचक्खु०-भोग० तिण्णि वि तुल्ला० अणंत० । ओधिणा०-ओधिद०-  
लाभंत० तिण्णि वि तुल्ला० अयांतगु० । मणपज्जव०-थीणगि०-दायांतरा० तिण्णि वि  
तुल्ला० अणंत० । णवुंस० अणंत० । अरदि० अणंत० । सोग० अणंत० । भय०  
अणंत० । दुगुं० अयांत० । णिहाणिहा० अणंत० । पचलापचला० अणंतगु० ही० ।  
णिहा० अणंत० । पचला० अणंत० । पीचा०-अजस० दो वि तु० अणंतगु० ।  
तिरिक्ख० अणंतगु० । इत्थि० अणंत० । पुरिस० अणंत० । रदि० अणंत० । हस्स०  
अणंत० । मणुसाउ० अणंत० । तिरिक्खाउ० अणंतगु० । एवं सत्तमुं पुदवीमु ।  
णवरि [सत्तमीए] मणुसाउ० णत्थिं० ।

४३८. तिरिक्खेसु सव्वतिव्वाणु० सादा० । जस०-उच्चा० अणतगु० । देव-

वेदनीय और वीर्यान्तरायके अनुभाग चारों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे अनन्तानु-  
बन्धी लोभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अनन्तानुबन्धी मायाका अनुभाग विशेष हीन  
है । इससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है । इससे अनन्तानुबन्धी मानका अनुभाग  
विशेष हीन है । इससे संव्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे संव्वलन  
मायाका अनुभाग विशेष हीन है । इससे संव्वलन क्रोधका अनुभाग विशेष हीन है । इससे  
संव्वलन मानका अनुभाग विशेष हीन है । इसी प्रकार क्रमसे प्रत्याख्यानानावरण चार और अप्रत्या-  
ख्यानावरण चारका अल्पबहुत्व है । अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागसे आभिनवोधिक ज्ञाना  
वरण और परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे चक्षुदर्श-  
नावरणका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्त-  
रायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शना  
वरण और लाभान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे मनभर्यय-  
ज्ञानावरण, स्थानगृद्धि और दानान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं ।  
इनसे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।  
इससे शोकका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे  
जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे निदानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे  
प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे  
प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे नीचगोत्र और अयशःकीर्तिके अनुभाग दोनों ही  
तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इससे तिर्यञ्जगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे स्त्री-  
वेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे रतिका  
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनुष्यायुका  
अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यञ्चयुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इसी प्रकार सातों  
पृथिवीयोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मनुष्यायु नहीं है ।

४३८. तिर्यञ्चोमें सातावेदनीय सबसे तीत्र अनुभागवाला है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्र

१. आ० प्रतो णिहाणिहा० अयांत० पचला० इति पाठः । २. ता० प्रतो उचसेसु (सत्तु) इति  
पाठः । ३. आ० प्रतो मणुसाउ० इति० इति पाठः ।

मदि० अर्णत० । कम्मइ० अर्णत० । तेज० अर्णत० । वेउच्चि० अर्णत० । मिच्छ० अर्णत० । सेसं ओघं याव गिरयग० अर्णतगु० । मणुसग० अर्णतगु० । ओरालि० अर्णतगु० । तिरिक्ख० अर्णतगु० । सेसं ओघं याव हस्स० अर्णतगु० । गिरयाउ० अर्णतगु० । देवाउ० अर्णतगु० । मणुसाउ० अर्णतगु० । तिरिक्खाउ० अर्णतगु० । एव पंचिदियतिरिक्ख०३-मणुस०३ !

४३६. पंचि०तिरि०अपज्जत्तगोसु सव्वतिव्वाणुभागं मिच्छ० । सादा० अर्णतगु० ! जस०-उच्चा० दो वि तु० अर्णतगु० । मणुसग० अर्णत० । कम्मइ० अर्णत० । तेज० अर्णत० । ओरा० अर्णत० । केवलणा०-केवलदं०-असादा०-विरयंत० चत्तारि वि तु० अर्णतगु० । उवरि ओघं याव मणुसाउ० अर्णतगु० । तिरिक्खाउ० अर्णत० । एवं सव्वअपज्जत्तगारणं सव्वएइदि०-सव्वविगलिदि०-पंचकायाणं च ।

४४०. देवाणं गिरयभगो । ओरालि० मणुसभंगो । ओरा०मि० सव्वतिव्वाणु-भा० साद० । जस०-उच्चा० दो वि० अर्णत० । देवग० अर्णत० । कम्मइ० अर्णत० । तेज० अर्णत० । वेउच्चि० अर्णत० । मिच्छ० अर्णत० । सेसं पंचिदि०तिरि०भंगो ।

के अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणों हीन हैं । इनसे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे कार्यणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । शेष भद्र नरकगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इस स्थानके प्राप्त होने तक औघके समान है । आगे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे औदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यञ्चगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । शेष भद्र, हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इस स्थानके प्राप्त होने तक औघके समान है । आगे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तिर्यञ्चायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इसी प्रकार पञ्चैन्द्रियतिर्यञ्चत्रिक और मनुष्यत्रिकके जानना चाहिए ।

४३६. पञ्चैन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे यशाःकीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणों हीन हैं । इनसे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे कार्यणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे औदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे केवलज्ञानावरण, केवलदर्शावरण, असातावेदनीय और वीर्यान्तरायके अनुभाग चारों ही तुल्य होकर अनन्तगुणों हीन हैं । आगे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इस स्थानके प्राप्त होनेतक औघके समान भद्र है । इससे तिर्यञ्चायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब एकैन्द्रिय, सब विकल्पेन्द्रिय और पंच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए ।

४४०. देवोंमें नारकियोंके समान भद्र है । औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भद्र है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सातावेदनीय सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे यशाःकीर्ति और उच्चगोत्रका अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणों हीन हैं । इनसे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे कार्यणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे तैजस-

अत्थि ।

४४१. वेदन्वि० गेरङ्गभंगो । एवं वेदन्वियमि० । आहार०-आहारमि० सव्व-  
तिव्वाणु० साद० । जस०-उच्चा० अणंत० । देव० अणंत० । कम्म० अणंत० । तेज०  
अणंत० । वेदन्वि० अणंत० । केवलणा०-केवलदंस०-असाद०-विरियंत० चत्तारि वि  
अणंतगु० । संजलणलोभो अणंत० । माया विसे० । कोपो विसे० । माणो विसे० ।  
आभिणि०-परिभोग० दो वि तु० अणंत० । चक्खु० अणंत० । सुद०-अचक्खु०-  
भोगंत० तिण्णि वि तु० अणंत० । ओधिणा०-ओधिदं०-त्ताभंत० तिण्णि वि तु०  
अणंत० । मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अणंत० । पुरिस० अणंत० । अरदि०  
अणंत० । सोग० अणंत० । भय० अणंत० । दुयुं० अणंत० । णिहा० अणंत० ।  
पचल्ल० अणंत० । अजस० अणंत० । रदि० अणंत० । हस्स० अणंत० । देवाउ०  
अणंत० । एवं मणपज्ज०-संज०-सामाइय-च्छेदो०-परिहार० । एदेसु आहारसरीरं अत्थि ।  
संजदासंजद० परिहारभंगो । णवरि पच्चक्खाण०४ अत्थि ।

शरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे वैकिकिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।  
इससे सिध्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोके समान है ।  
इस मार्गणामे इतना ही अल्पबहुत्व है ।

४४१. वैकिकिककाययोगी जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार वैकिकिकमिश्र-  
काययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें साता-  
वेदनीय सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर  
अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे कार्मणशरीरका अनुभाग  
अनन्तगुणाहीन है । इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे वैकिकिकशरीरका अनु-  
भाग अनन्तगुणा हीन है । इससे केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण, असातावेदनीय और वीर्यान्तरायके  
अनुभाग चारों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे संज्वलन लोभका अनुभाग अनन्तगुणा हीन  
है । इससे संज्वलन मायाका अनुभाग विशेष हीन है । इससे संज्वलन क्रोधका अनुभाग विशेष हीन  
है । इससे संज्वलन मानका अनुभाग विशेष हीन है । इससे अभिनिबोधिक ज्ञानावरण और परि-  
भोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इससे चक्षुदर्शनावरणका अनु-  
भाग अनन्तगुणा हीन है । इससे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभाग तीनों  
ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और लाभान्तरायके  
अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके  
अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा हीन  
है । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे शोकका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।  
इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे  
निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे अयशः-  
कीर्तिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे  
हास्यका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे देवायुका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इसी  
प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत  
जीवोंके जानना चाहिए । इनमें आहारकशरीर है । संयतासंयत जीवोंका भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयत  
जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें प्रत्याख्यानावरण चार हैं ।

४४२. कम्मइ० ओघं । णवरि चटुआउ० णिरयगदिदुगं आहारसररीं वज्ज  
सेसं कादव्वं । एवं अणाहार० । आभिणि०-सुद०-ओधि०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-  
उवसम०-सासण०--सम्माभिच्छादिदि ति ओघं । णवरि अप्पप्पणो पगदिविसेसो  
णादव्वो । तेज० ओघं । णवरि णिरयगदिदुगं वज्ज । एवं पम्माए । सुक्काए ओघं ।  
णवरि दोआउ० णिरयगदिदुगं तिरिक्खगदितिगं च वज्ज । असण्णीसु सव्वतिव्वाणु-  
भार्गं मिच्छ० । साद० अणंत० । जस०-उच्चा० अणंत० । देव० अणंत० । कम्म०  
अणंत० । तेज० अणंत० । वेउव्वि० अणंत० । णवरि तिरिक्खोघं ।

एवं उक्कस्सपरत्थाणअप्यावहुगं समत्तं ।

४४३. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वमंदाणु० लोभ-  
संज० । [ मायासंजल० ] अणंतगुणभ्रियं । माणसंज० अणंतगु० । कोषसंज०  
अणंतगु० । मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अणंतगु० । ओधिणा०-ओधिदं०-छाभंत०  
तिण्णि वि तु० अणंतगु० । सुदणा०-अचक्खु०-भोगंतरा० तिण्णि वि तु० अणंतगु० ।  
चक्खु० अणंत० । आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंतगु० । विरियंत० अणंत० ।

४४२. कर्मणकाययोगी जीवोंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि इतमें चार  
आयु, नरकगतिक्रिक और आहारकट्टिकको छोड़कर शेषका अल्पबहुत्व कहना चाहिए । इसी प्रकार  
अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अबधिज्ञानी, सम्यग्दृष्टि,  
क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि  
जीवोंमें ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रकृतिविशेष जान लेना  
चाहिए । पीतलेश्यामें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नरकगतिक्रिकको छोड़कर कहना  
चाहिए । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें जानना चाहिए । शुक्ललेश्यामें ओषके समान है । इतनी विशेष-  
ता है कि दो आयु, नरकगतिक्रिक और तिर्यञ्चगतिक्रिकको छोड़कर कहना चाहिए । असेही  
जीवोंमें मिथ्यात्व सबसे तीव्र अनुभागवाला है । इससे सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा हीन  
है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हीन हैं । इनसे  
देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे कर्मणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है ।  
इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा हीन है । इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा  
हीन है । आगे सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

४४३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे लोभ-  
संज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे मायासंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है ।  
इससे माससंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका अनुभाग अनन्त-  
गुणा अधिक है । इससे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर  
अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे अबधिज्ञानावरण, अबधिदर्शनावरण और लाभान्तरायके अनुभाग  
तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण, और  
भोगान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक है । इनसे चक्षुदर्शनावरणका  
अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनु-  
भाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे वीर्यान्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा



पुरिस० अर्णत० । हस्स० अर्णत० । रदि० अर्णत० । दुग्धु० अर्णत० । भय०  
 अर्णत० । सोग० अर्णत० । अरदि० अर्णत० । इत्थि० अर्णत० । णत्तुंस० अर्णत० ।  
 केवलणा०-केवलदं० दो वि तु० अर्णत० । पयला० अर्णत० । णिहा० अर्णत० । पच्च-  
 क्त्वाणमाणो अर्णत० । कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० । एवं अपच्च-  
 क्त्वाण०४ । पचलापचला अर्णतगु० । णिहाणिहा अर्णतगु० । थीणगि० अर्णत० ।  
 अर्णाताणु०माणो अर्णतगु० । कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० । भिच्छ०  
 अर्णत० । ओरा० अर्णत० । वेजन्वि० अर्णत० । तिरिक्खाउ० अर्णत० । मणुसाउ०  
 अर्णत० । तेजा० अर्णत० । कम्मइ० अर्णत० । तिरिक्ख० अर्णत० । गिरय० अर्णत० ।  
 मणुस० अर्णत० । देवग० अर्णत० । णीचा० अर्णत० । अजस० अर्णत० । असाद०  
 अर्णत० । जस०-उच्चा० दो वि तु० अर्णत० । साद० अर्णत० । गिरयाउ० अर्णत० ।  
 देव० अर्णत० । आहार० अर्णत० ।

अधिक है । इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे हास्यका अनुभाग अनन्त-  
 गुणा अधिक है । इससे रतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे जुगुप्साका अनुभाग  
 अनन्तगुणा अधिक है । इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे शोकका अनुभाग  
 अनन्तगुणा अधिक है । इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे स्त्रीवेदका  
 अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे  
 केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं ।  
 इनसे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है ।  
 इससे प्रत्याख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण  
 क्रोधका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक है ।  
 इससे प्रत्याख्यानावरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण चारके  
 अनुभागका अल्पबहुत्व है । आगे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे  
 निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे स्त्यानशुद्धिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक  
 है । इससे अनन्तानुबन्धी मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका  
 अनुभाग विशेष अधिक है । इससे अनन्तानुबन्धी मायाका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे  
 अनन्तानुबन्धी लोभका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा  
 अधिक है । इससे औदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे वैकियिकशरीरका  
 अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे तिर्यञ्चायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे  
 मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक  
 है । इससे कार्ययशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे तिर्यञ्जगत्तिका अनुभाग अनन्त-  
 गुणा अधिक है । इससे नरकगत्तिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे मनुष्यगत्तिका अनु-  
 भाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे देवगत्तिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे नीचगोत्र  
 का अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अयशाःकीर्तिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है ।  
 इससे असातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे यशाःकीर्ति और उच्चगोत्रके  
 अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इससे सातावेदनीयका अनुभाग अनन्त-  
 गुणा अधिक है । इससे नरकायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे देवायुका अनुभाग  
 अनन्तगुणा अधिक है । इससे आहारशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है ।

४४४. गिरएसु सञ्चमंदाणु० हस्स० । रदि० अणंत० । दुगुं० अणंत० । भय० अणंत० । पुरिस० अणंत० । माणसंज० अणंत० । कोधसंज० विसे० । मायासंज० विसे० । लोभसंज० विसे० । सोग० अणंत० । अरदि० अणंत० । इत्थि० अणंत० । णवुंस० अणंत० । पचला० अणंत० । णिहा० अणंत० । मणपज्जव०-दाणंत० दो वि० तु० अणंत० । ओधिणा०-ओधिदं०-छाभंत० तिण्णि वि तु० अणंत० । सुद०-अचक्खु०-भोगंत० तिण्णि वि तु० अणंत० । चक्खु० अणंत० । आभिणि०-परिभोग० दो वि तु० अणंत० । अपक्खखाणमाणो अणंत० । कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० । एवं पक्खखाणा०४ । विरियंत० अणंत० । केवलणा०-केवलदंसं० दो वि तु० अणंत० । पचला-पचला अणंत० । णिहाणिहा० अणंत० । थीणगि० अणंत० । अणंताणु०-माणो अणंत० । कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० । मिच्छा० अणंत० । ओरालि० अणंत० । तेज० अणंत० । कम्मइ० अणंत० । तिरिक्ख० अणंत० । मणुस० अणंत० ।

४४४. नारकियोंमें हास्य सबसे मन्द अनुभागवाला है। इससे रतिका अनुभाग अनन्त-गुणा अधिक है। इससे जुगुप्साका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे भयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे पुरुषवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे मानसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे क्रोधसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे माया संज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे शोकका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अरतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे स्त्रीवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे नपुंसकवेदका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे प्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे प्रवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और लाभान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभाग तीनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे चक्षुदर्शनावरणका अनुभाग अनन्त-गुणा अधिक है। इससे आभिनवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अल्पबहुत्व है। प्रत्याख्यानावरण लोभके अनुभागसे वीर्यान्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं। इनसे प्रचलाप्रचलाका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे निद्रानिद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे स्त्यानगृष्टिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी मायाका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे अनन्तानुबन्धी लोभ का अनुभाग विशेष अधिक है। इससे मिथ्यात्वका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इनसे औदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे कामणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे तिर्यङ्गतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा

णीचा० अर्थांत० । अजस० अर्थांत० । असाद० अर्थांत० । जस०-उच्चा० दो वि तु०  
अर्णांत० । साद० अर्णांत० । तिरिक्खाउ० अर्णांत० । मणुसाउ० अर्णांत० । एवं सत्तु  
पुढवीसु । णवरि छसु उवरिमासु णीचा अजस० ऐकदो भाणिदव्वं ।

४४५. तिरिक्खेसु पढमपुढविभंगो याव आभिणि०-परिभोगंतरा० दो वि तु०  
अर्णांत० । पच्चक्खाणमाणो अर्णांत० । कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० ।  
विरियंत० अर्णांत० । केवलणा०-केवलदं० दो वि तु० अर्णांत० । अपच्चक्खाण०माणो  
अर्णांत० । कोधो विसे० । माया विसे० । लोभो विसे० । उवरि ओघं । एवं पंचि०-  
तिरि०३ । णवरि एदेसु णीचा० अजस० ऐकदो भाणिदव्वा ।

४४६. पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्जत्त-विगलिदि०-पंचिदि०-तस०अपज्ज०  
तिण्हं कायाणं च पढमपुढविभंगो । णवरि दोआउ० ओघं । एवं एइंदियाणं पि ।  
णवरि तिरिक्खोघं णीचा० अर्णांत० । अजस० अर्णांत० । एवं तेउ-वाउणं पि । णवरि  
मणुसगदिचहुक्कं वज्ज । देवाणं णेरइगभंगो । मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-

अधिक है । इससे नीचगोत्रका अणुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अयशःकीर्तिका अणुभाग  
अनन्तगुणा अधिक है । इससे असातावेदनीयका अणुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे यशःकीर्ति  
और उच्चगोत्रके अणुभाग दोनों ही तुल्य हो कर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे सातावेदनीयका  
अणुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे तिर्यञ्चायुका अणुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे  
मनुष्यायुका अणुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी  
विशेषता है कि पहलेकी छह पृथिवियोंमें नीचगोत्र और अयशःकीर्ति को एकसाथ कहना चाहिए ।

४४५. तिर्यञ्चोंमें आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तराय के अणुभाग दोनों ही  
तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक है । इस स्थानके प्राप्त होने तक पहली पृथिवीके समान भग है ।  
इससे प्रत्याख्यानावरण मानका अणुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका  
अणुभाग विशेष अधिक है । इससे प्रत्याख्यानावरण मायाका अणुभाग विशेष अधिक है । इससे  
प्रत्याख्यानावरण लोभका अणुभाग विशेष अधिक है । इससे वीर्यान्तरायका अणुभाग अनन्तगुणा  
अधिक है । इससे केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके अणुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे  
अधिक हैं । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानका अणुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अप्रत्याख्या-  
नावरण क्रोधका अणुभाग विशेष अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका अणुभाग विशेष  
अधिक है । इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका अणुभाग विशेष अधिक है । इससे आगे ओषके  
समान भंग है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
इनमें नीचगोत्र और अयशःकीर्ति एकसाथ कहने चाहिए ।

४४६. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्त, मनुष्यअपर्याप्त, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियअपर्याप्त, त्रस-  
अपर्याप्त और तीन स्थावर कायिक जीवोंमें प्रथम पृथिवीके समान भग है । इतनी विशेषता है  
कि इनमें दो आयुओंका भग ओषके समान है । इसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें भी जानना चाहिए ।  
इतनी विशेषता है कि इनमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान नीचगोत्रका अणुभाग अनन्तगुणा अधिक  
है । इससे अयशःकीर्तिका अणुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इसी प्रकार अग्निकायिक और  
वायुकायिक जीवोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर  
कहना चाहिए । देवोंमें नारकियोंके समान भग है । मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियदिक, त्रसदिक, पाँचों

पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि० ओघं । णवरि मणुसेसु णीचा०-अजस० ँकदो भाणिदव्वं ।

४४७. ओरालियमि० णेरइगभंगो याव ओरा० अणंत० । तिरिक्खाउ० अणंत० । मणुसाउ० अणंत० । तेजा० अणंत० । कम्म० अणंत० । तिरिक्ख० अणंत० । मणुस० अणंत० । णीचा० अणंत० । अजस० अणंत० । असाद० अणंत० । जस०-उच्चा० दो वि तु० अणंत० । साद० अणंत० । वेउव्वि० अणंत० । देव० अणंत० ।

४४८. वेउव्वि०-वेउव्वियमि० णिरयोघं । आहार०-आहारमि० सव्वद्वभंगो । णवरि अट्ठक० णत्थि । कम्मइ० ओरालियमिस्सभंगो । इत्थि०-पुरिस० सव्वमंदाणु० कोधसंज० । माणसंज० [ विसे० ] । मायासंज० विसे० । लोभसंज० विसे० । मणपज्ज०-दाणत० दो वि तु० अणंत० । उवरि ओघं । णवुंसगे ओघं । णवरि संजलणाए इत्थि०भंगो । अवगद० ओघं । साद० अणंत० ।

४४९. कोध० [ सव्व०- ] मंदाणु० कोधसंज० । माणो विसे० । माया

मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें नीचगोत्र और अयशःकीर्ति एकसाथ कहने चाहिए ।

४४७. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें औदारिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इस स्थानके प्राप्त होने तक नारकियोंके समान भङ्ग है । इससे तिर्यञ्चगुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे मनुष्यायुका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे तैजसशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे कामणशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे तिर्यञ्चगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे मनुष्यगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे नीचगोत्रका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे अयशःकीर्तिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे असातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इनसे सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे वैक्रियिकशरीरका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे देवगतिका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है ।

४४८. वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें आठ कपाय नहीं हैं । कामणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवों क्रोधसंज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे मानसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मायासंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्त-रायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । नपुंसकवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनका भङ्ग स्त्रीवेदीके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । मात्र सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है, यहाँ तक कहना चाहिए ।

४४९. क्रोधकषायमें क्रोधसंज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे मानसंज्वलनका

विसे० । लोभो विसे० । मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अणंत० । उवरि ओघं । माणे सच्चमंदाणु० माणसंज० । मायासंज० विसे० । लोभसं० विसे० । कोधसं० अणंत-गुण० । मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अणंत० । उवरि ओघं । मायाए सच्चमंदाणु० मायासंज० । लोभसंज० वि० । माणसंज० अणंत० । कोधसंज० अणंत० । मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० अणंत० । उवरि ओघं । लोभे ओघं । मदि०-सुद० णेरइयभंगो याव मिच्छत्तं । उवरि ओघं । एवं विभंग०-असंज०-किण्ण-णील-काउ०-अभवसि०-मिच्छा०-असएणा ति । आभिणि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-वेदो०-ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० ओघभंगो । णवरि सम्मत्तपाओग्गाओ संजम-पाओग्गाओ च पगदीओ णादव्वाओ । परिहार० आहार० भंगो । णवरि आहारसरीर० सच्चुवरि अणंत० । सुहुमसंप० अवगद० भंगो । संजदासंज० णेरइगभंगो याव आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंत० । पच्चक्खाणमाणो अणंत० । उवरि ओघं । चक्खु०-अचक्खु०-सुक्ख०-भवसि०-सएणा०-आहारए ति ओघं ।

४५०. तेउ देवभंगो याव आभिणि०-परिभो० दो वि तु० अणंत० । पच-

अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मायासंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । आगे ओघके समान है । मानकषायमें मानसंज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे मायासंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । मायाकषायमें मायासंज्वलन सबसे मन्द अनुभागवाला है । इससे लोभसंज्वलनका अनुभाग विशेष अधिक है । इससे मानसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे क्रोधसंज्वलनका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । इससे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । आगे ओघके समान है । लोभकषायमें ओघके समान है । मत्त्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें मिथ्यात्वके स्थानके प्राप्त होने तक नारकियोंके समान भङ्ग है । आगे ओघके समान है । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी, असंयत, कृष्ण-लेख्या, नीललेख्या, कापोतलेख्या, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामाधिकसंयत, ज्ञेदो-पस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, सन्यदृष्टि, त्वायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वप्रायोग्य और संयमप्रायोग्य प्रवृत्तियों जाननी चाहिए । परिहारविद्युद्धिसंयत जीवोंमें आहारकषाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें आहारकषारीके अनुभागको सबके ऊपर अनन्तगुणा अधिक कहना चाहिए । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । संयतासंयत जीवोंमें आभिनि-वोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे अधिक हैं । इस स्थानके प्राप्त होने तक नारकियोंके समान भङ्ग है । इनसे प्रत्याखानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है । आगे ओघके समान भङ्ग है । चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेख्या-वाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

४५०. पीतलेखामें आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभाग दोनों ही

क्त्वाणमाणो अणंत० । क्रोधो विसै० । माया० विसै० । लोभो विसै० । विरियंत०  
अणंत० । केवलणा०-केवलदं० दो वि तु० अणंत० । अपचक्त्वाणमाणो अणंत० ।  
क्रोधो विसै० । माया विसै० । लोभो विसै० । पचला अणंत० । णिहा अणंत० । उवरि  
ओघं । एवं पम्माए । वेदग० तेड०भंगो । एवं सम्मामि० । सासणे णेतइगभंगो ।  
असण्णीसु तिरिक्खोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

एवं चहुवीसमणियोगहारं समत्तं ।

## भुजगारबंधो

४५१. एतो भुजगारबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—जाणि एण्हि अणुभागफद्धगाणि  
बंधदि अणंतरोसक्काविद्विद्वकंते समए अप्पदरादो बहुदरं बंधदि त्ति एसो भुजगारबंधो  
णाम० । अप्पदरबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—जाणि एण्हि अणुभागफद्धगाणि बंधदि  
अणंतरजस्सक्काविद्विद्वकंते समए बहुदरादो अप्पदरं बंधदि त्ति एस अप्पदरबंधो

तुल्य होकर अनन्तगुणो अधिक है। इस स्थानके प्राप्त होने तक देवोंके समान भङ्ग है। इनसे प्रत्या-  
ख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका अनुभाग विशेष  
अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे प्रत्याख्यानावरण  
लोभका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे वीर्यन्तरायका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे  
केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके अनुभाग दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणो अधिक है।  
इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण  
क्रोधका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका अनुभाग विशेष अधिक  
है। इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका अनुभाग विशेष अधिक है। इससे प्रचलाका अनुभाग  
अनन्तगुणा अधिक है। इससे निद्राका अनुभाग अनन्तगुणा अधिक है। आगे श्रौचके समान  
भङ्ग है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। वेदकसम्यक्त्वमें पीतलेश्याके समान भङ्ग  
है। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वमें जानना चाहिए। सासादनसम्यक्त्वमें नारकियोंके समान भङ्ग है।  
असंश्रियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। अनाहारकोंमें कामणकाययोगी जीवोंके समान  
भङ्ग है।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार चौबीस अनुयोगहार समाप्त हुए ।

## भुजगारबन्ध

४५१. इससे आगे भुजगारबन्धका प्रकरण है। उसमें यह अर्थपद है—जो इनके  
अनुभागस्पर्धकोंको बांधता है, वह जब अनन्तर व्यतिक्रान्त समयमें बँधनेवाले अल्पतरसे इस  
समयमें बहुतरको बाँधता है, तब वह भुजगारबन्ध कहलाता है। अल्पतरबन्धके विषयमें यह  
अर्थपद है—इनके जो अनुभागस्पर्धक बाँधता है, वह जब अनन्तर पिछले समयमें बँधनेवाले बहुतरसे

१ ता० प्रतौ अणंत० । केवलदं० इति पाठः ।

णाम० । अवद्विदबन्धे चि तत्त्व इमं अद्वपदं—जाणि एण्हि अणुभागफद्धणाणि बंधदि  
अणंतरओसकाविद--उस्सकाविदविदिवकंते समए तत्तियाणि चैव बंधदि चि एसो  
अवद्विदबन्धो णाम० । अवत्तव्वबन्धे चि तत्त्व इमं अद्वपदं—अबन्धादो बंधदि चि एसो  
अवत्तव्वबन्धो णाम० । एदेण अद्वपदेण तत्त्व इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि  
भवन्ति । तं जहा—समुत्क्रित्तणा याव अप्पावहुणे चि ।

### समुत्क्रित्तणाणुगमो

४५२. समुत्क्रित्तणाए दुविधो णिद्दो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण  
सव्वपगदीणं अत्थि भुजगारबन्धो अप्पद० अवद्विद० अवत्तव्वबन्धो य । एवं ओघभंगो  
मणुस०३-पंचि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरा०-आभिणि०-सुद०-  
ओधि०-मणपज्ज०-संजद०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मा०-  
खड्ग०-उवसम०-सणिएण-आहारए चि ।

४५३. णेरेइएसु धुविगाणं अत्थि भुज० अप्पद० अवद्वि० । सेसाणं ओघ-  
भंगो । ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारएसु धुवियाणं देवगदि०४-तित्थ० अवत्तव्व०  
णत्थि । वेत्तव्वि०-वेत्तव्वियमि० तित्थर्यं० अवत्तव्वया णत्थि धुवियाणं च । इत्थि०-  
पुरिस०-णत्तुंस० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० अवत्तव्वगा वज्ज० तिणिपदा,

इस समयमें अल्पतरको बाँधता है, तब अल्पतरबन्ध कहलाता है । अवस्थितबन्धके विषयमें  
यह अर्थपद है—इनके जो अनुभाग स्पर्धक बाँधता है, वह जब अनन्तर पिछले और अगले समयमें  
उतने ही बाँधता है, तब वह अवस्थितबन्ध कहलाता है । अवक्तव्यबन्धके विषयमें यह अर्थपद है—  
जो अबन्धते बन्ध करता है, वह अवक्तव्यबन्ध कहलाता है । इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये तरह  
अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक ।

### समुत्कीर्तनानुगम

४५२. समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
सब प्रकृतियोंका भुजगारबन्ध है, अल्पतरबन्ध है, अवस्थितबन्ध है और अवक्तव्यबन्ध  
है । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चन्द्रियद्विक, त्रिसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों  
वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनयोधिकज्ञानी, अतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन-  
पर्ययज्ञानी, संयत, चन्द्रदर्शनी, अचन्द्रदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेख्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि,  
क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सौही और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

४५३. नारकियोंमें ध्रुव प्रकृतियोंका भुजगारबन्ध, अल्पतरबन्ध और अवस्थितबन्ध है ।  
तथा ओघ प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और  
अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतियोंका अवक्तव्यबन्ध नहीं  
है । वैकियिककाययोगी और वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यबन्धक  
जीव नहीं हैं । तथा ध्रुवप्रकृतियोंके भी अवक्तव्यबन्धक जीव नहीं हैं । स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और

१. ता० प्रती वेत्तव्वियमि० वेत्तव्वियमि० ( ? ) तित्थय० इति पाठः ।

सेसाणं चत्वारिपदा । अवगद० सव्वाणं अत्थि भुज०-अप्पद०-अवत्तव्वबंधगा य ।  
कोषे इत्थि० भंगो । माणे पंचणा०-चदुदंस०-तिण्णिंसज०-पंचंत० अत्थि तिण्णि पदा ।  
एवं मायाए । णवरि दोसंज० । सेसं ओधं । लोभे पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० अत्थि  
तिण्णिपदा । सेसं ओधं । सामाइ०-द्धेदो० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-  
पंचंत० अत्थि तिण्णिपदा । सेसं ओधं । सुहुमसं० सव्वाणं अत्थि भुज०-अप्पद० ।  
सेसाणं गिरयभंगो । किंचि विसेसो णाद्व्वो ।

एवं समुक्त्तिणा समत्ता ।

## सामिचाणुगमो

४५४. सामिचाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-द्धंस०-चदु-  
संज०-भयदु०-तेजा०-क०-पसत्यापसत्य०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-  
अप्पद०-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । अवत्तव्वबंधो कस्स ? अण्ण० उवसामणादो पडि-  
पदमाणस्स मणुस्सस्स वा मणुत्तिणीए वा पढमसमयदेवस्स वा । धीणागिद्धि० ३-मिच्छ०-  
अणंताणु०४-तिण्णिपदा णाणांवरणभंगो । अवत्तव्व० कस्स ? अण्ण० असंजमसम्म-

नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संस्वलन और पाँच अन्तरायके  
अवक्तव्यवन्धको छोड़कर तीन पद हैं तथा शेष प्रकृतियोंके चार पद हैं । अपरातवेदी जीवोंमें सब  
प्रकृतियोंके भुजगारवन्धक, अल्पतरवन्धक और अवक्तव्यवन्धक जीव हैं । क्रोधकयायमे स्त्रीवेदी  
जीवके समान भङ्ग है । मानकयायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, तीन संस्वलन और पाँच  
अन्तरायके तीन पद हैं । इसी प्रकार मायाकयायमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ  
दो संस्वलन कद्दने चाहिए । शेष भङ्ग ओषके समान है । लोभकयायमे पाँच ज्ञानावरण, चार  
दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके तीन पद हैं । शेष भङ्ग ओषके समान है । सामायिकसंयत  
और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संस्वलन, लज्जोग्र और  
पाँच अन्तरायके तीन पद हैं । शेष भङ्ग ओषके समान है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब  
प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपद हैं । शेष मार्गणाओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । किञ्चित्  
विशेषता है, वह जान लेनी चाहिए ।

इस प्रकार समुक्तीर्तना समाप्त हुई ।

## स्वामित्वाणुगम

४५४. स्वामित्वाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे  
पाँच ज्ञानावरण, द्वाद दर्शनावरण, चार संस्वलन, भय, जुगप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर,  
प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुत्तु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके  
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्य  
वन्धका स्वामी कौन है ? उपशमत्रेण्णसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी या प्रथम समयवर्ती  
देव स्वामी है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धो चारके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञाना-  
वरणके समान है । इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव असंयतसम्पत्त्वसे,

१. ता० अथै एवं उदुक्त्तिणा समत्ता इति पाठो नास्ति ।



सादो संजमादो संजमासंजमादो सम्मामिच्छत्तादो वा परिवदमाणयस्स पढमसमयमिच्छा-  
दिद्विस्स वा सासणसम्मा० वा । णवरि मिच्छा० असंजमादो' संजमासंजमादो संज-  
मादो वा सासण० सम्मामि० वा परिवदमा० पढमसमयमिच्छादि० । सादासाद०-  
सत्तणोक०--चहुगदि--पंचजादि--दोसरीर--द्वस्संठा०--दोअंगो०--द्वस्संघ०--चहुआणु०-  
दोविहा०-तसथावरादिदसयुग०-दोगो० तिण्णिपदा णाणावरणभंगो । अवत्तव्व० कस्स० ?  
अण्ण० परियत्तमाणयस्स पढमसमयबंधमाणयस्स । अपच्चक्खाण०४ तिण्णिपदा णाणा०-  
भंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजामासंज० परिवद० पढमसम०  
मिच्छादि० सासण० सम्मामि० असंजदसम्मा० । पच्चक्खाण०४ तिण्णिपदा णाणा०-  
भंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो परिवद० पढमस० मिच्छा० सासण०  
सम्मामि० असंजद० संजदासंजदस्स वा । चहुआउ०-आहारदुग-पर०-उस्सा०-उज्जो०-  
तित्थय० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० पढमसमयबंधगस्स ।  
एवं ओधभंगो मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायनोशि-ओरासि०-  
लोभक०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारए त्ति । णवरि मणुस०-मण०-वचि०-

संयमसे, संयमासंयमसे और सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि सासादन-  
सम्यग्दृष्टि जीव है, वह एक प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि  
मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? असंयमसे, सयमासंयमसे, संयमसे, सासादनसे  
और सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि है, वह मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका  
स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, चार गति, पाँच जाति, दो शरीर,  
छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, दो विद्यायोगति, त्रस-स्थायर आदि  
दस युगल और दो गोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी  
कौन है ? जो परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला प्रथम समयमें इनका बन्ध करता है, वह इनके  
अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।  
इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयम या संयमासंयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्या-  
दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि अन्यतर जीव इनके अवक्तव्य-  
बन्धका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इनके  
अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादन-  
सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत अन्यतर जीव इनके अवक्तव्य-  
बन्धका स्वामी है । चार आयु, आहारकद्विक, परघात, उच्छ्वास, उद्योत और तीर्थद्वार प्रकृतिके  
तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयमें  
बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । इसीप्रकार ओधके समान  
मनुष्यत्रिक, पञ्चैन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचो मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक-  
काययोगी, लोभकषायी, चक्षुदरानी, अचक्षुदरानी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना  
चहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्य, मनोयोगी, वचनयोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें

१. ता० आ० प्रत्योः सम्मा० वा मिच्छा० णवरि असंजमादो इति पाठः । २. ता० प्रतो अरंभ-  
मादो संजमादो इति पाठः ।

ओरालि० पढमदंड० अत्रत्त० कस्स० ? अएण० उवसमणादो परिवद० पढमस० मणुसस्स वा मणुसणीए वा ।

४५५. णेरइएसु धुविगाणं भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० कस्स० ? अण्ण० । थीण-गिद्धि०-मिच्छ०-अणंताणु०४ तिण्णिपदा ओघं । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० सम्मत्त० सम्मामि० परिवद० पढमसम० मिच्छा० सासण० । णवरि मिच्छा० अवत्त० कस्स० ? अण्ण० सम्म० सासण० सम्मामि० वा परिवद० पढमस० मिच्छा० । सेसा० ओघं । एवं सव्वणेरइगाणं । णवरि सत्तमाए तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०--णीचा० थीणगि०-भंगो । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० पढम० असंज० सम्मामि० ।

४५६. तिरिक्खेसु धुविगाणं णेरइगभंगो । सेसं ओघं । णवरि संजमो णत्थि । सेसाणं सव्वणं अणाहारए ति ओघं । कायाणं साधेद्वं । णवरि तेउल्लेस्साए इत्थि०-पुरिस० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त० कस्स० ? अण्णद० तिगदियस्स० । णवुंस० तिण्णिपदा अवत्त० कस्स० ? अण्ण० देवस्स । तिरिक्खगदि-मणुसगदि० तासि आणु० तिण्णिपदा देवस्स० । अवत्त० क० ? अण्ण० देवस्स परियत्तमाणयस्स । ओरालि०

प्रथम दण्डके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती अन्यतर मनुष्य और मनुष्यिनी प्रथम दण्डके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है ।

४५५. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर नारकी स्वामी है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंका भंग ओघके समान है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्व, सासादनसम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि नारकी मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकियोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें तिर्यञ्च-गति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग स्थानगृद्धिके समान है । मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकी इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है ।

४५६. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके संयम नहीं हैं । अनाहारक मागीणा तक शेष सबका भङ्ग ओघके समान है । पाँच स्थावरकायवालोका साथ लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पीत-लेदयामे खीवेद और पुरुषवेदके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है । अन्यतर तीन गतिका जीव स्वामी है । नपुंसकवेदके तीन पदोंका और अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव स्वामी है । तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति और उनकी आनुपूर्वियोंके तीन पदोंका स्वामी देव है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला

तिरिणपदा अण्णदर० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० पढमस० देवस्स । एवं पम्माए वि ।  
सुकलेस्साए तिरिणवेदाणं अवत्त० कस्स० ? अण्ण० देवस्स ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

### कालाणुगमो

४५७. कालाणु० दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं भुज०-अण्ण०-  
बन्धगा केवचिरं कालादो होदि ? जह एगसम०, उ० अंतो । अवट्ठि० केव० ? ज०  
ए०, उ० सत्तह सम० । णवरि चटुआउ० अवट्ठि० ज० ए०, उ० सत्त सम० ।  
अवत्त० सव्वपगदीणं एग०, एवं अणाहारए ति णेदव्वं । एवं णिरयादिसु अवट्ठिद-  
कालो अहसमया भवन्ति । कम्मइ०-अणाहारएसु तिरिण समया भवन्ति ।

एवं कालं समत्तं ।

अन्यतर देव अवत्तव्यबन्धका स्वामी है । औदारिकशरीरके तीन पदोंका अन्यतर देव स्वामी है । अवत्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती देव स्वामी है । इसी प्रकार पद्मलेख्यामें भी जानना चाहिए । सुकलेख्यामें तीन वेदोंके अवत्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव स्वामी है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

### कालानुगम

४५७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अवस्थित पदके बन्धक जीवको कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात व आठ समय है । इतनी विशेषता है कि चार आयुके अवस्थित पदके बन्धक जीवका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । सब प्रकृतियोंके अवत्तव्यपदके बन्धक जीवका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इसी प्रकार नरकादिमें अवस्थितबन्धका काल आठ समय होता है । मात्र कर्मण्काययोगी और अनाहारक जीवोंमें तीन समय होता है ।

विशेषार्थ—अनुभागबन्धमें वृद्धि और हानिके छह-छह स्थान हैं । उनमेंसे यद्यपि पाँच वृद्धियों और पाँच हानियोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आधालिके असख्यातवें भागप्रमाण है । पर अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । इसीसे यहाँ सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है । अवस्थित अनुभागबन्धके कारणभूत परिणाम कम से कम एक समय तक और अधिकसे अधिक सात-आठ समय तक होते हैं, इसलिए अवस्थित अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात-आठ समय कहा है । पर आयु-कर्मके अवस्थित अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सात समय ही है, क्योंकि आयु-कर्मके अवस्थित अनुभागबन्धके योग्य परिणाम इतने कालसे अधिक समय तक नहीं होते । सब

१. ता० प्रतौ एवं कालं समत्तं इति पाठो नास्ति ।

## अंतराणुगमो

४५८. अंतराणु० दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-द्वदंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्णा०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्य० वंधंतरं केव० होदि ? ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० असंख्जेळा लोगा । अवत्त० ज० अंतो०, उ० अद्धपो० । धीणगि०-मिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अप्य० ज० ए०, उ० वेद्धावट्टि० देसू० । अवट्टि०-अवत्त० णाणा०भंगो । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-धिराधिर-मुभामुभ-जस०-अजस० तिण्णपदा णाणा०भंगो । अवत्त० ज० उ० अंतो० । अट्टक० भुज०-अप्य० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० । अवट्टि०-अवत्त० णाणा०भंगो । इत्थि० अवत्त० ज० अंतो०, उ० वेद्धावट्टि० दे० । सेसाणं पदाणं धीण-गिद्धिभंगो । णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्यसत्यवि०-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्य० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तिण्णं पि वेद्धावट्टिसाग० सादि० तिण्ण पळि० देसू० । अवट्टि० णाणा०भंगो । पुरिस० भुज०-अप्य० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० वेद्धावट्टि० सादि० । तिण्णआउं-

प्रकृतियोंके अवक्तव्य अनुभागवन्वका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यह स्पष्ट ही है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

### अन्तरानुगम

४५९. अन्तरानुगम दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संव्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरवन्वका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितवन्वका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अवक्तव्यवन्वका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्थपुट्टगल परिवर्तनप्रमाण है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, और अनन्तानुवन्धी चारके भुजगार और अल्पतरवन्वका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो द्विमासठ सागरप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्यवन्वका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इनके अवक्तव्यवन्वका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कथायोंके भुजगार और अल्पतरवन्वका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्यवन्वका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अविदेके अवक्तव्यवन्वका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो द्विमासठ सागरप्रमाण है । शेष पदोंका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्यायोगति, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरवन्वका जघन्य अन्तर एक समय है । अवक्तव्यवन्वका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनों ही का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो द्विमासठ सागरप्रमाण है । अवस्थितवन्वका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पुरुषवेदके भुजगार और अल्पतरवन्वका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितवन्वका भङ्ग ज्ञानावरण

१. ता० आ० प्रत्योः सादि० तिण्णआठ० इति षाठः ।

वेडञ्जियल्ल० भुज०-अप्प० अवट्टि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० चट्टुएणं पि  
 अर्णतकालं । तिरिक्खाउ० भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० सागरो-  
 वमसदपुध० । अवट्टि० णाणा०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० भुज०-अप्प० ज०  
 ए०, उ० तेवट्टि०सा०सदं० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० असं-  
 खेंज्जा लोगा । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० भुज०-अप्प०-अवट्टि० ज० ए०, अवत्त०  
 ज० अंतो०, उ० सन्वाणं असंखेंज्जा लोगा । चट्टुजा०-आदाव०-थावरादि०४ भुज०-  
 अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं । अवट्टि० णाणा०-  
 भंगो । पंचि०-पर०-उत्सा०-त्स०४ भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि०  
 णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरा० भुज०-  
 अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० सादि० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज०  
 अंतो०, उ० अर्णतका० । आहार०२ भुज०-अप्प०-अवट्टि० ज० ए०, अवत्त० ज०  
 अंतो०, उ० अद्धपोंगल० । समचट्टु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णि पदा

के समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उच्छ्र अन्तर साधिक दो  
 छिद्रासठ सागरप्रमाण है । तीन आयु और वैकिकिक ऋके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-  
 वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और चारों  
 ही पदोंका उच्छ्र अन्तर अनन्त काल है । तिर्यञ्जायुके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य  
 अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनों ही पदोंका उच्छ्र  
 अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है । अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तिर्यञ्जगति  
 और तिर्यञ्जगत्यानुपूर्विके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्र  
 अन्तर एकसौ त्रैसठ सागरप्रमाण है । अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य-  
 बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उच्छ्र अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । मनुष्यगति,  
 मनुष्यगत्यानुपूर्विके, और उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक  
 समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सब पदोंका उच्छ्र अन्तर असंख्यात  
 लोकप्रमाण है । चार जाति, आतप और स्यावर आदि चारके भुजगार और अल्पतरबन्धका  
 जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सब पदोंका उच्छ्र  
 अन्तर एकसौ पचासी सागर है । अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति,  
 परघात, उच्छ्रवास और असचतुष्कके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है  
 और उच्छ्र अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका  
 जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उच्छ्र अन्तर एकसौ पचासी सागर है । औदारिकारीके  
 भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्र अन्तर साधिक तीन पत्य  
 है । अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है  
 और उच्छ्र अन्तर अनन्त काल है । आहारकदिकके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका  
 जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सब पदोंका  
 उच्छ्र अन्तर कुछ कम अधपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । समचतुरलसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति,  
 सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियजातिके समान है । अवक्तव्यबन्धका

पंचिदियजादिभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० वेष्वावद्विसा० सादि० तिणिएण पलि० देह्ण० । ओरालि०अंगो०-वज्जरि० भुज०-अप्प०-अवद्वि० ओरालि०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं सा० सादि० । उज्जो० तिणिएण पदा तिरिक्खगदिभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेवद्वि०सदं । तित्थ० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवद्वि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं सा० सादि० दो पुब्बकोडीओ दोहि वासपुधत्तेहि ऊणियाओ सादिरियं । णीचा० भुज०-अप्प०-अवद्वि० णवुंसग-भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० असंखेज्जा लोगा ।

जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छियासठ सागर-प्रमाण है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-बन्धका भङ्ग औदारिकशरीरके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । उद्योतके तीन पदोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है । तीर्थेद्वर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर दोनों पदोंका दो वर्षपृथक्त्व कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है । नीच-गोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

विशेषार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कह आये है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंके इन पदोंका यह अन्तर कहा है, वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । यतः भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य काल और जघन्य अन्तर एक समय कहा है। अतः अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय बन जाता है तथा अनुभागबन्धके योग्य कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण है। अतः अवस्थितबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है, क्योंकि सब परिणामोंके होनेके बाद अवस्थितबन्धके योग्य परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं, ऐसा नियम है । आगे जिन प्रकृतियोंके इस पदका यह अन्तर कहा है, वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । जो दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़कर दो बार इन प्रकृतियोंका अबन्धक होकर पुनः बन्ध करता है, उसके इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका अन्तर प्राप्त होता है । किन्तु उपशमश्रेणि पर आरोहण अन्तमुहूर्तके अन्तरसे भी सम्भव है और कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनके अन्तरसे भी सम्भव है। अतः इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । स्थानगृद्धि तीन आदिका प्रकृतिबन्धसम्बन्धी उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दोछियासठ सागरप्रमाण है। इसलिए इन प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि इतने काल तक इन प्रकृतियोंका बन्ध न होनेसे भुजगार आदि पद कैसे सम्भव हो सकते हैं ? तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है सो यहाँ अवक्तव्यबन्धका अन्तर अन्तमुहूर्त और कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनके अन्तरसे दो बार सम्यक्त्वपूर्वक मिथ्यात्वमें ले जाकर लाना चाहिए । सातावेदनीय आदि सब परावर्तमान प्रकृतियों हैं और इनके प्रकृतिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। फिर भी यहाँ इनके अवक्तव्यबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर

अन्तमुर्हृत कहनेका कारण यह प्रतीत होता है कि इनमेंसे किसी एक प्रकृतिका दो बार अवन्ध-पूर्वक बन्ध अन्तमुर्हृतके अन्तरसे ही होता है। आठ कषायोंके प्रकृतिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है, इसलिए यहाँ इनके भुजगार और अल्पतरवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है। इनके अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है सो अवक्तव्यबन्धका अन्तर लाते समय वह अन्तमुर्हृत और अर्धपुद्गल परावर्तन कालके अन्तरसे दो बार संयमासंयम और संयमपूर्वके असंयममे ले जाकर लाना चाहिए। स्त्रीवेदके अवक्तव्यबन्धके जघन्य अन्तरका खुलासा सातावेदनीयके समान कर लेना चाहिए तथा किसी जीवने स्त्रीवेदका अवक्तव्यबन्ध करके कुछ कम दो छियासठ सागर काल तक उसका बन्ध नहीं किया। पुनः मिथ्यात्वमे आकर उसका अवक्तव्यबन्ध किया यह सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छियासठ सागर प्रमाण कहा है। नर्पुलकवेद आदिका बन्ध कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छियासठ सागर काल तक नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। पुरुषवेदका यदि निरन्तर बन्ध हो तो साधिक दो छियासठ सागर काल तक होता है। इसके बाद ऐसे जीवके मिथ्यादृष्टि होने पर अन्य वेदोंका भी बन्ध सम्भव है, अतः इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें अवक्तव्यबन्ध कराकर यह अन्तर लाना चाहिए। जो निरन्तर एकेन्द्रिय पर्यायमें रहता है, उसके अनन्तकाल तक तीन आयु और वैक्रियिकषट्कका बन्ध नहीं होता, अतः इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल प्रमाण कहा है। तिर्यञ्चायुका बन्ध अधिकसे अधिक सौ सागर पृथक्त्व काल तक नहीं होता, अतः इसके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व काल तक कहा है। तिर्यञ्चगतिद्विकका बन्ध १६३ सागर तक नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरवन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर प्रमाण कहा है। तथा अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके निरन्तर इन दो प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है और इनकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है, अतः इनके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके नहीं होता, अतः इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। चार जाति आदिका बन्ध अधिकसे अधिक एक सौ पचासी सागर तक नहीं होता, अतः इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर प्रमाण कहा है। पञ्चन्द्रियजाति आदिका निरन्तर बन्ध एक सौ पचासी सागर तक होता रहता है, अतः इनके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर प्रमाण कहा है। औदारिकशरीरका साधिक तीन पत्यतक बन्ध नहीं होता, अतः इसके भुजगार और अल्पतरवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है और एकेन्द्रियोंमें अनन्त काल तक निरन्तर इसीका बन्ध होता है, अतः इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। आहारकद्विकका अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, अतः इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदिका निरन्तरबन्ध कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छियासठ सागर काल तक होता रहता है, अतः इनके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। औदारिकआज्ञोपाङ्ग आदिका निरन्तर बन्ध साधिक तेतीस सागर काल तक होता रहता है, अतः इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। उद्योतका बन्ध एक सौ त्रेसठ सागर काल तक नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। एक पर्यायमे अन्तमुर्हृतके अन्तरसे दो बार उपशमश्रेणीपर आरोहण करनेवालेके तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुर्हृत प्राप्त होनेसे उक्तप्रमाण कहा है और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे दो बार उपशमश्रेणीपर आरोहण करने वालेके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे उक्तप्रमाण कहा है। इसके

४५६. गिरएसु घुविगाणं भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० दे० । धीणगि०३-मिच्छ०--अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-दोगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पस०-दूभग-दुस्सर-अणादें०--दोगो० भुज०-अप्प०-अवहि० ज० ए०, अवत्तं० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० दे० । दोवेदणी०-चहु-णोक्क०-धिरादितिणियु० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० दे० । अवत्त० जहण्णु० अंतो० । पुरिस०-समच०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदें० भुज०-अप्प०-अवहि० साद०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० दे० । दोआयु० तिणियापदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० इम्मसं दे० । तित्थि० भुज०-अप्पद० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, उ० तिणि-साग० सादि० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं सत्तमाए । इमु उवरिमासु मणुस०-मणु-साणु०-उच्चा० पुरिस०भंगो ।

अवस्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी यहाँ है, क्योंकि तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धकाल इससे अधिक नहीं है । शेष कथन सुगम है । आगे आदेशसे भी जिस मार्गणामें अन्तरका विचार करना हो, उस मार्गणके काल आदिकी जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । ग्रन्थविस्तार और पुनरुक्त होनेके भयसे हम उस पर अलग-अलग विचार नहीं करेंगे ।

४५६. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, शीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच सस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और दो गोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवकन्धवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अवकन्ध-वन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रपभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-वन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवकन्धवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवकन्धवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । तीर्थङ्करके भुजगार और अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है । अवकन्धवन्धका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । प्रारम्भ-की छह पृथिवियोंमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग पुरुषवेदके समान है ।

विशेषार्थ—जो तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर नारकियोंमें उत्पन्न होता है, उसके इसका अवकन्धवन्ध तो होता है, पर दूसरी बार अवकन्धवन्ध सम्भव -

१. आ० प्रवै अवहि० ज० ए० उ० अवत्त० इति पाठः ।



४६०. तिरिक्त्वेषु ध्रुविगाणं भुज०-अप्प०-अवट्टि० ओषं । धीणगिद्धि०३-  
मिच्छ०--अणंताणु०४ भुज०--अप्प० ज० ए०, उ० तिरिप्पापलि० दे० । अवट्टि०-  
अवत्त० ओषं । साददंडओ ओषं । अप्पञ्चक्त्वाण०४-वेड०द्ध०--मणुस०--मणुसाणु०-  
उब्बा० ओषं । इत्थि० अवत्त० ज० अंतो०, उ० तिरिप्पापलिदो० दे० । सेसपदा  
मिच्छत्तभंगो । णवुंस०-चदुजा०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-द्धस्संघ०-आदाउ०-अप्प-  
सत्थ०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्पद० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी  
देसू० । अवट्टि० ओषं । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी दे० । पुरिस० तिरिप्पा-  
पदा सादभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तिरिप्पाप० दे० । तिरिप्पाआउ० तिरिप्पाप०  
ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडितिभागा देसू० । तिरिक्त्वाउ० भुज०-  
अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी सादि० । अवट्टि० तिरिक्त्व-  
गदितिगं णवुंसगभंगो । अवत्तं ओषं । पंचि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-

न होनेसे इसके अन्तरका निषेध किया है। तथा प्रथमादि छह पृथिवियोंमें मनुष्यगतित्रिक का बन्धाबन्ध पुरुषवेदके समान है, अंतः यहाँ इनके सब पदोंका अन्तर पुरुषवेदके समान कहा है। अवस्थित बन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी यही है, क्योंकि तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धकाल इसके अधिक नहीं है। शेष कथन सुगम है। आगे आदेशसे भी जिस मार्गणामें अन्तरका विचार करना हो, उस मार्गणके काल आदिको जान कर वह घटित कर लेना चाहिए। ग्रन्थ विस्तार और पुनरुक्त होनेके भयसे हम उस पर अलग-अलग विचार नहीं करेंगे।

४६०. तिर्यञ्चोमें ध्रुवधन्वाती प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्धका भङ्ग ओषके समान है। स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्ताणुबन्धी चारके भुजगार और अल्पतर-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्यप्रमाण है। अवस्थित और अवक्तव्यबन्धका अन्तर ओषके समान है। सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग ओषके समान है। अप्रत्याख्यानावरण चार, वैकिकिच्छ, मनुष्यगति, मनुष्यगत्याणुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग ओषके समान है। स्त्रीवेदके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। शेष पदोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। नपुंसकवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवस्थितबन्धका अन्तर ओषके समान है। तथा अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। तथा अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्यप्रमाण है। तीन आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है। अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्चयुके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि प्रमाण है। तथा इसके अवस्थितबन्धका और तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। तथा तिर्यञ्चगतित्रिकके अवक्तव्यबन्धका भङ्ग ओषके समान है। पञ्चोन्द्रियजाति, समचतुरस्रस्थान, परघात, उच्छ्वास,

१. अवत्त० अवत्त० ( ? ) ओषं इति पाठः ।

सुभग-सुस्तर-आदे० तिण्णपदा० सादभंगो० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी दे० । ओरालि० तिण्णप० णवुंसगभंगो । अवत्त० ओघं ।

४६१. पंचि०तिरिक्ख०३ धुविगाणं भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तिण्णपलि० पुव्वकोडिपु० । धीणगिद्धिदंडओ तिरिक्खोघं । अवट्ठि० णाणा०-भंगो । एवं अवत्त० । [ णवरि ज० अंतो० ] । सादासादे०-चट्ठुणोक०-थिरादि-तिण्णपु० सञ्चपदा ओघं । अवट्ठि० णाणा०-भंगो । अपच्चक्खाण०४ दोपदा ओघं । अवट्ठि० सादभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडिपुधत्तं० । इत्थि० मिच्छ०-भंगो । णवरि अवत्त० तिरिक्खोघं । [ पुरिस० अवत्त० तिरिक्खोघं । ] सैसपदा सादभंगो । णवुंस० तिण्णग०-चट्ठुजा०-ओरा०-पंचसंडा०-ओरा०-अंगो०-छस्संघ०-तिण्णआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-धावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडी० दे० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० पुव्वकोडिपुध० । चचारि आऊणि तिरिक्खोघं । णवरि तिरिक्खाउ० अवट्ठि० ज० ए०,

प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि-प्रमाण है । औदारिकशरीरके तीन पदोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है ।

४६१. पञ्चोन्नित्यतिर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिप्रयत्न अधिक तीन पत्यप्रमाण है । स्त्यानगृद्धिदण्डकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतना विशेष है कि अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार अवक्तव्यबन्धका अन्तर काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके सव पदोंका भङ्ग ओघके समान है । मात्र अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चारके दो पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रयत्नप्रमाण है । स्त्रीवेदका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यबन्धका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । पुरुषवेदके अवक्तव्यबन्धका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है, शेष पदोंका भंग सातावेदनीयके समान है । नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दधावर आदि चार, दुर्भंग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । तथा अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रयत्न प्रमाण है । चारों आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर

१. ता० आ० प्रत्योः तिण्णपदा सादासादभंगो० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः अवत्त० इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्योः एवं अवट्ठि० सादासाद० इति पाठः ।

उ० पुव्वकोटिपु० । देवग०-पंचिदि०-वेउव्वि०-समचतु०-वेउव्वि०-अंगो०-देवाणु०-पर०-उत्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० साद०-भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोटी दे० ।

४६२. पंचि०तिरिक्ख०अप० सव्वाणं तिण्णपदा ज० ए०, उ० अंतो० । णवरि परियत्तमाणिगाणं अवत्त० ज० अंतो०, उ० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्ताणां सव्वसुहुमपज्जत्तापज्जत्ताणं च ।

४६३. मणुस०३ पंचिदि०तिरिक्खभंगो । णवरि आहारदुगं तिण्णपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोटिपु० । तित्थ० दोपदा ओघं । अवट्ठि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोटी दे० । णवरि धुविगाणं अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोटिपु० ।

४६४. देवेसु धुविगाणं भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज०

पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके भुजगार, अस्पतर और अवस्थितबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ स्थानगृद्धि आदिके अवस्थित बन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है, अतः स्थानगृद्धि आदिके अवस्थितबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जानना चाहिए—यह इस कथनका तात्पर्य है । और इनके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अवस्थितके उत्कृष्ट अन्तरके समान होता है। अतः इसको यहाँ अवस्थितके समान कहकर जघन्य की अपेक्षा विशेषता खोल दी है । इसी प्रकार यहाँ सातावेदनीय आदिके सब पद ओघके समान कहके अवस्थित पदको ज्ञानावरणके समान कहा है सो इसका यह तात्पर्य है कि सातावेदनीय आदिके शेष पदोंका जो अन्तर ओघमें कहा है, वह यहाँ जानना चाहिए । मात्र इनके अवस्थित-पदका अन्तर जैसा यहाँ ज्ञानावरणके अवस्थित पदका कहा है, उस प्रकार जानना चाहिए । इसी प्रकार अन्य अन्तर घटित कर लेना चाहिए ।

४६२. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तिकोंमें सब प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि परिवर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त तथा सब सूक्ष्म और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

४६३. मनुष्यत्रिकोंमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारक द्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सषका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका अन्तर ओघके समान है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है ।

४६४. देवोंमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अस्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और

ए०, उ० तैत्तीसं० दे० । थीणगि०३-मिच्छ०-अर्णताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-पंच-  
संठा०-पंचसंध०-अप्पसत्य०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० तिण्णप० ज० ए०,  
अवत्त० ज० अंतो०, उ० एकत्तीसं० दे० । साददंडओ णिरयभंगो । पुरिस०-सम-  
चट्ट०-वज्जरि०-पसत्य०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिण्णपदा सादभंगो । अवत्त०  
ज० अंतो०, उ० एकत्तीसं० देसू० । दोआउ० णिरयभंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-  
उज्जी० तिण्णप० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० अट्टारस साग० सादि० ।  
मणुस०-मणुसाणु० तिण्णप० सादभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० अट्टारह० सादि० ।  
एईदि०-आदाव-थावर० तिण्णप० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० वेसाग०  
सादि० । पंचि०-ओरा०अंगो०-तस० तिण्णप० सादभंगो । अवत्त० ज० अंतो०,  
उ० वेसाग० सादि० । तित्थ० तिण्णप० णाणा०भंगो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो-  
अंतरं णेदव्वं ।

४६५. एईदिएसु सव्वाणं पगदीणं भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० ।  
अवट्ठि० ओयं । बादरे अंगुलस्स असं०, वादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वाससहस्साणि,  
सुहुमाणं असंखेज्जा लोगा । सव्वाणं अवत्त० ज० उ० अंतो० । तिरिक्खाउ० अवट्ठि०  
णाणा०भंगो । सैसपदा पगदिअंतरं । मणुसाउ० तिण्णप० ज० ए०, अवत्त० ज०

उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम तेतीस सागर है । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच सत्यान, पाँच सहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्मंग, दुःश्वर, अनादेय और नीच-  
गोत्रके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और  
सक्का उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम इकतीस सागर है । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग नारकियोंके समान है ।  
पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रभनाराचसंहनन, सुभग, प्रशस्त विहायोगति, सुस्वर, आदेय और  
वज्रगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त  
है और उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम इकतीस सागर है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।  
तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-  
वन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सक्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मनुष्य-  
गति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंका अन्तर सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यवन्धका  
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । एकेन्द्रियजाति,  
आतप और स्थावरके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर  
अन्तमुहूर्त है और सक्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक आङ्गो-  
पाङ्ग और त्रसके तीन पदोंका अन्तर सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर  
अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका अन्तर  
ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार सब देवोंके अपना-अपना अन्तर जानना चाहिए ।

४६५. एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय  
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका अन्तर ओषके समान है । अवस्थितपदका  
उत्कृष्ट अन्तर वादरोंमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, वादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष  
है और सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोकप्रमाण है । तथा सब ( परिवर्तमान ) प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका  
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तिर्यञ्चायुके अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान

१. आ० प्रलौ मणुसाणु० इति पाठः ।

अंतो०, उ० सत्तवाससह० सादि० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० ओघं । बादरे कम्मद्विदी०, पज्जत्ते संखेज्जाणि वास-सहस्साणि, सुहुमाणं असंखेज्जा लोगा । मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिपदा-ओघभंगो । एवं सुहुमाणं पि । णवरि बादरे कम्मद्विदी० । णवरि अवट्ठि० ज० ए०, उ० अंगुल० असं० । बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि वाससह० ।

४६६. वेई०-तेई०-चदुरिं० सन्वपगदीणं भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० संखेज्जाणि वास० । णवरि तिरिक्खाउ० भुज० अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० भवद्विदी० सादि० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । मणुसाउ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त० द्विदिभुजगारभंगो । पंचणं कायाणं सन्वपगदीणं द्विदि-भुजगारभंगो कादन्वो ।

४६७. पंचिदि०-त्स०२ पंचणा०-द्धदंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० सगद्विदी० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि०-अवत्त० ज० ए० अंतो०, उ० णाणा०भंगो । साददंडओ ओघ । अवट्ठि०

है । शेष पदोका अन्तर प्रकृतित्वन्धके अन्तरके समान है । मनुष्यायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यवन्धका अन्तर ओघके समान है । बादरोंमें कर्मस्थिति प्रमाण है, पर्याप्तकोंमें सख्यात हजार वर्ष है और सूक्ष्मोंमें असंख्यात लोक-प्रमाण है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके चारों पदोका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सूक्ष्म जीवोंमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि बादरोंमें कर्मस्थितिप्रमाण है । इतनी और विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा बादर पर्याप्त जीवोंमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है ।

४६६. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वर्ष है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक भवस्थितिप्रमाण है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । मनुष्यायुके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदका अन्तर स्थितिवन्धके भुजगारके समान है । पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग स्थितिवन्धके भुजगारके समान करना चाहिए ।

४६७. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संवत्सन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेशशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तमुहूर्त है तथा दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है ।

णाणा०भंगो । अट्टक० भुज०-अप्प० ओषं । सेसाणं णाणा०भंगो । इत्थि० भुज०-  
अप्प० अवत्त० ओषं । अवट्ठि० णाणा०भंगो । पुरिस० भुज०-अप्प०-अवत्त०  
ओषं । अवट्ठि० णाणा०भंगो । णट्ठुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-  
दुस्सर-अणादें०-णीचा०, भुज०-अप्प०-अवत्ता० ओषं । अवट्ठि० णाणा०भंगो । तिण्णि-  
आड० भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० सागरो०सदपुष० ।  
अवट्ठि० कायट्ठिदी० । मणुसाड० सन्वपदाणं सगट्ठिदी० । गिरयगदि-चदुजा०-  
गिरयाणु०-आदाव०-धावरादि०४ भुज०-अप्प०-अवत्त० जं० ए० अंतो०, उक्क०  
पंचासीदिसाग०सद० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०  
भुज०-अप्प०-अवत्त० ज० ए० अंतो०, उ० तेवट्ठिसा०सद० । अवट्ठि० णाणा०भंगो ।  
मणुसस०-देवग०-वेडव्वि०-वेडव्वि०अंगो०-दोआणु० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ०  
तेंचीसं० सादि० दोहि मुहुचेहि सादिरेयं । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेंचीसंसागरो०  
सादिरे० पुव्वकोटि समरुणसादिरेयं । अवट्ठि० णाणा०भंगो । पंचि०-पर०-उत्सा०-  
त्स०४ भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पंचासीदि-  
साग०सदं० । ओरा०-ओरा०अंगो०-वज्ज० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णि-

सातावेदनायदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । तथा अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान  
है । आठ कथायुक्ति मुजगार और अल्पतरपदका अन्तर ओषके समान है । शेष पदोंका अन्तर  
ज्ञानावरणके समान है । क्षीवेदके मुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका अन्तर ओषके समान  
है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । पुत्यवेदके मुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य  
पदका अन्तर ओषके समान है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । नपुंयकवेद,  
पंच संस्थान, पंच संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके  
मुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका अन्तर ओषके समान है । अवस्थित पदका अन्तर  
ज्ञानावरणके समान है । तीन आयुओंके मुजगार और अल्पतर पदका जवन्य अन्तर एक समय  
है, अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर  
पृथक्त्वप्रमाण है । तथा अवस्थित पदका अन्तर कावस्थितिप्रमाण है । मनुष्यायुके सब पदोंका  
अन्तर अपनी कावस्थितिप्रमाण है । नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और  
स्यावर आदि चारके मुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर एक समय और  
अन्तमुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके  
समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके मुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका  
जवन्य अन्तर एक समय और अन्तमुहूर्त है । तथा उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रैसठ सागर है ।  
अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । मनुष्यगति, देवगति, वैकिकिकशरीर, वैकिकिक-  
वाङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीके मुजगार और अल्पतरपदका जवन्य अन्तर एक समय है और  
उत्कृष्ट दो मुहूर्त अधिक तैतीस सागर है । अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और  
उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि अधिक तैतीस सागर है । अवस्थित पदका अन्तर  
ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेंद्रियजाति, परवान, उच्छ्वास, और त्रसचतुष्के मुजगार, अल्पतर  
और अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तमुहूर्त  
है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और

पलि० सादि० । अवहि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० सादि० पुव्वकोदी' सादि० । आहारदुगं तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० चटुण्णं पि कायड्ढिदी० । समचटु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे'०-उच्चा० भुज०-अप्प०-अवहि० पंचिदियजादिभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० वेच्चावहि० सादि० दोपुव्वकोटिवास-पुधत्ताणि याओ सादिरेयं तिण्णिपत्तिदो० देसू० अंतोमुहुत्तूणाणि । तित्थ० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० दोण्हं पि तैत्तीसं० सादि० दोपुव्वकोटीओ दोहि वासपुधत्तेहि ऊणियाओ सादि० ।

४६८. पंचमण०-पंचवचि० सव्वपगदीणं भुज०-अप्प०-अवहि० ज० ए०, उ० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । कायजोगीसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अणु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अवत्त० णत्थि अंतरं । सादासाद०-सत्तणोक्क०-पंचजा०-द्धस्संठा०-ओरा०अंगो०-द्धस्संघ०-पर०-उस्सा०-आदा-उज्जो०-दोविहा०-तसथावरादिदसयु० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि०

वर्षभनाराचसंहननके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रित अन्तर साधिक तीन पल्य है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उच्छ्रित अन्तर पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है । आहारकृत्तिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है तथा चारों पदोंका उच्छ्रित अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । समचतुरस्रस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग पञ्चन्द्रिय-जातिके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उच्छ्रित अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक, दो वर्षपृथक्त्व कम दो पूर्वकोटि अधिक तथा अन्तमुहूर्त कम दो ख्रियासठ सागरप्रमाण है । तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रित अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है तथा दोनों ही पदोंका उच्छ्रित अन्तर दो वर्षपृथक्त्व न्यून दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है ।

४६९. पाँचों मनोयोगी और पाँचों बचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रित अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवक्तव्य-पदका अन्तर काल नहीं है । काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, चपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रित अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रित अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकआह्नोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्रवास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति और व्रत-स्थावर आदि दस युगलके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रित अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरण

णाणा०भंगो । अवत्त० ज० उ० अंतो० । दोआउ०-वेउच्चियद्ध०-आहारदुग-तित्थ० मणजोगिभंगो । तिरिक्खाउ० भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० वावीसं वाससह० सादि० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । मणुसाउ०-मणुसगदि--मणुसाणु०--उच्चा० सव्वपदानं ओघं । तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०--णीचा० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं ।

४६६. ओरालि० णाणावरणादिदंडओ कायजोगिभंगो । णवरि अवट्ठि० ज० ए०, उ० वावीसं वाससह० देखूं । सादासाद०-सत्तणोक०-दोगदि-पंचजादि-द्धस्संद्वाण-ओरालि०अंगो--द्धस्संघ०--दोआणु०-पर०-उस्सा०--आदाउ०-दोविहा०--तसथावरादि दसयुग०-दोगो० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० उ० अंतो० । दोआउ०-वेउच्चियद्ध०-आहारदुग-तित्थ० मणजोगिभंगो । दोआउ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० सव्वपदानं सत्तवाससह० सादि० ।

४७०. ओरालियमि० धुवियाणं देवगदिपंचगस्स च तिण्णिप० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाखं तिण्णिप० ज० ए०, उ० अंतो० । अवत्त० ज० उ० अंतो० ।

के समान हैं । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । दो आयु, वैक्यिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान हैं । तिर्यञ्जयुके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक द्वाँस हजार वर्ष हैं । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके सब पदोंका भङ्ग ओघके समान हैं । तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान हैं ।

४६६. औदारिककाययोगी जीवोंमें ज्ञानावरणादिदण्डकका भङ्ग काययोगी जीवोंके समान हैं । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम द्वाँस हजार वर्ष हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आंगोपांग, छह संहनन, दो आयुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल और दो गोत्रके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान हैं । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । दो आयु, वैक्यिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान हैं । दो आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हैं, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष हैं ।

४७०. औदारिकमिभ्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों और देवगतिपञ्चकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । जेष्ठ प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । तथा अवक्तव्यपदका

१. ता० आ० प्रत्योः देसु० इति स्थाने सादि० इति पाठः ।



णवरि मिच्छ० अवत्त० गत्थि अंतरं । एवं वेउच्चियमि०-आहारमि० ।

४७१. वेउच्चि०-आहार० धुवियाणं तिण्णिप० ज० ए०, उ० अंतो० ।  
सेसाणं मणजोगिभंगो । कम्मइ० सव्वपगदीयां सव्वप० गत्थि अंतरं । णवरि अवट्ठि०  
ज० उ० ए० ।

४७२. इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०,  
उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० पलि०सदपु० । थीण०३-मिच्छ०-अणंताणु०४  
भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पणवण्णं पलि० दे० । अवट्ठि०-अवत्त० णाणा०भंगो ।  
णवरि० अवत्त० ज० अंतो० । णिहा-पयला-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अणु०-उप०-  
णिमि० तिण्णिप० णाणा०भंगो । अवत्त० गत्थि अंतरं । सादादिदंडओ अट्ठकसा०-  
दंडओ सव्वपदा ओघं । णवरि कायट्ठिदी भाणिदव्वा । इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्ख०-  
एइदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर०-दूभग-  
दुस्सर-अणादो०-णीचा० भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं  
पलि० दे० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । पुरिस०-पंचि०-समचदु०-पसत्थ०-तस०-सुभग-

जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार वैकिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए ।

४७१. वैकिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । कामणकाययोगी जीवोमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

४७२. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संव्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्यप्रथक्त्व प्रमाण है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरण ( अवस्थितपद ) के समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय आदि दण्डक और आठ कषायदण्डकके सब पदोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि कायस्थिति कहनी चाहिए । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भेग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, वस, सुभग,

१. ता० प्रत्ये अवत्त० ब्यायाव० अवट्ठि० ( ! ) भंगो णवरि इति पाठः ।

मुस्सर-आदे०-उच्चा० भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं पलि० देसु० । गिरयाउ० सव्वपदा मणुसभंगो । दोआउ० तिण्णिप० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० कायट्टिदी० । देवाउ० भुज० अप्प०-[अवट्टि] ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० अट्टावण्णं पलि० पुव्वकोट्टिपुथत्ते० । अवट्टि० कायट्टिदी० । वेउच्चियत्त०-तिण्णिजा०-सुहुम०-अपज्ज०-साधार० भुज०-अप्प०-[अवट्टि०] ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं पलि० सादि० । अवट्टि० कायट्टिदी० । मणुस०-ओरा०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०--मणुसाणु० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० दे० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं पलि० दे० । णवरि ओरालि० अवत्त० [उ०]पणवण्णं पलि० सादि० । आहारदुगं सव्वपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० कायट्टि० । पर०-उस्सा०-वाद्दर-पज्जत्त-पत्ते० तिण्णिपदा० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पणवण्णं पलि० सादि० । तित्थ० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० पुव्वकोट्टि दे० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

४७३. पुरिसेसु पढमदंडओ पंचणाणावरणादी विदियदंडओ धीणगिद्धिआदी

सुस्वर, आदेय और उच्चगात्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है। नरकायुके सब पदोका भङ्ग मनुष्योंके समान है। दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। देवायुके भुजगार अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उक्त तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्टावन पत्य है। तथा अवस्थितपदका अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। वैक्रियिक छद्म, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके भुजगार अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है तथा अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकआंगोपांग, वस्त्रभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछकम तीन पत्य है। अवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचपन पत्य है। इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है। आहारकद्विकके सब पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। परघात, उच्छ्वास, वाद्दर, पर्याप्त और प्रत्येकके तीन पदोंका भंग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका अन्तर काल नहीं है।

४७३. पुरुषवेदी जीर्षोमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक, स्त्यानगृद्धि आदि द्वितीय

१. ता० आ० प्रत्योः तिण्णिपलि० ष्यात्वा० इति पाठः ।

तदियदंडओ णिदादी चउत्यदंडओ सादादी पंचमदंडओ अडकसा० एदे इत्थिवेदभंगो ।  
 णवरि सव्वाणं पुरिसवेदद्विदी णादव्वा । तदि ए दंडए णिदादीणं अवत्त० ज० अंतो,  
 उ० सागरो०सदपुध० । थीणगिद्धिदंडए भुज०-अप्य० ओघं । इत्थि० भुज०-अप्य०  
 ज० ए०, उ० वेळावदि० दे० । अवदि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो, उ०  
 द्विदिभुजगरभंगो । णवुस०-पंचसंठा०-पंचसंध०--अप्यसत्थ०--दूभग-दुस्सर-अणादे०-  
 णीचा० भुज०-अप्य० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो, उ० वेळावदि० सादि० तिण्णि-  
 पलि० देसु० अंतोमुहुत्तणाणि । पुरिस० तिण्णिप० णाणा०भंगो । अवत्त० ज०  
 अंतो, उ० वेळावदि० दे० अंतोमुहुत्तु० । तिण्णिआउ० इत्थि०भंगो । देवाउ० भुज०-  
 अप्य० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो, उ० तेंतीसं सादि० पुव्वकोडिनिभागेण पुव्व-  
 कोडीए सादिरयाणि । अवदि० णाणा०भंगो । णिरयगदिदंडओ तिरिक्खगदिदंडओ  
 दोपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो, उ० तेंवदिसा०सदं । अवदि० णाणाभंगो ।  
 मणुसगदिपंचाग० भुज०--अप्य० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि० पुव्वकोडिनिभा-  
 गेण० । अवदि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो, उ० तेंतीसंसादि० पुव्वकोडि-  
 समऊणं सादि० । देवगदि०४ भुज०-अप्य० ज० ए०, उ० तेंतीसं सादि० अंतो ।

दण्डक, निद्रादि तृतीय दण्डक, सातावेदनीय आदि चतुर्थे दण्डक और आठ कथाश्रुत पाँचवे दण्डकका भंग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सबके पुरुषवेदकी स्थिति जाननी चाहिए। निद्रादिकका जो तीसरा दण्डक है, उसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्रथक्त्व है। स्त्यानगुद्धिदण्डकके भुजगार और अल्पतरपदका भंग श्रौचके समान है। स्त्रीवेदके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दोड्रियासठ सागरप्रमाण है। अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर स्थितिवन्धके भुजगारके समान है। नर्पुसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है कम तीन पत्य अधिक दो ड्रियासठ सागर है। पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कम दोड्रियासठ सागर है। तीन आयुओंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। देवायुके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका त्रिभाग और पूर्वकोटि अधिक तेलीस सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। नरकाति-दण्डक और तिर्यञ्जगतिदण्डकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। अवस्थितपदका अन्तर ज्ञाना-वरणके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पत्य है। अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरण के समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि अधिक तेलीस सागर है। देवगतिचतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर

१. ता० आ० प्रत्योः तदि ए दंडओ णिदाणं इति पाठः । २. आ० प्रतौ ज० ए० उ० इति पाठः । ३. आ० प्रतौ णिरयगदिदंडओ दोपदा इति पाठः ।

अवट्टि० गाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० सादि० पुव्वकोडिसमऊणं सादिगं भवदि । पंचिदियदंडओ द्विदिभुजगारभंगो । आहारदुगं पंचिदियभंगो । समचदु०-पसत्थ०--सुभग-सुस्सर--आदे०--उच्चा० तिण्णपदा गाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० वेद्धाव० सादि० तिण्णपलि० देसू० । [ तित्थ० ] भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० सादि० दोहि पुव्वकोडीहि दोहि वासपुभत्तेहि ऊणिगाहि सादिरे० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडि० दे० वासपुभत्तेणूपाणि ।

४७४. णवुंसगो पंचणाणावरणादिपढमदंडओ विदियदंडओ थीणगिद्धिआदी तदियदंडओ णिहादी चउत्थदंडओ सादादी इत्थि०भंगो । णवरि सव्वाणं दंडगाणं अवट्टि०-अवत्त०ओघं । थीणगिद्धिदंडए भुज०-[अप्प०] ज० ए०, उ० तैत्तीसं० दे० । अट्टक०-तिण्णआउ०-वेउच्चियल्ल०-मणुसगदितिगं आहारदुगं ओघं । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-आणादे० भुज०--अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० देसू० । अवट्टि० ओघं । पुरिस०-समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णपदा सादभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० दे० । देवाउ०

एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । अवस्थितबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग स्थितिवन्धके भुजगार के समान है । आहारकद्विकका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायांगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और लज्जोग्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दोड्डियासठ सागर प्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अत्यन्तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो वर्षप्रयत्न कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रयत्न कम एक पूर्वकोटि है ।

४७४. नपुंसकवेदी जीवोमे पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक, स्थानगृद्धि आदि द्वितीय दण्डक, निद्रादि तृतीय दण्डक और सातावेदनीय आदि चतुर्थ दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि इन सब दण्डकोके अवस्थित और अवक्तव्यपदका अन्तर ओघके समान है । स्थानगृद्धिदण्डकके भुजगार और अत्यन्तरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । आठ कषाय, तीन आयु, वैकृतिक लह, मनुष्यगतित्रिक और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, लघोत्, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अत्यन्तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका अन्तर ओघके समान है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम

मणुसि०भंगो । ओरा० दोपदा० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं ।  
 ओरालि०अंगो०-वज्जरि० भुज०-अप्पद० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० । अवट्टि०  
 ओघं० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेंतीसं० सादि० अंतोमुहुत्तेण सादि० । णवरि०  
 वज्जरि० अवत्त० तेंतीसं० दे० । तित्थि० दोपदा० ओघं । अवट्टि० ज० एग०, उ०  
 तिण्णिणा० सादि० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडित्तिभागं देसू० ।

४७५. अवगद० सव्वाणं भुज०-अप्पद०-अवत्त० णत्थि अंतरं । कोधादि०४  
 धुविगाणं तिण्णिपदा० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं पगदीणं तिण्णिपदा० ज०  
 ए०, उ० अंतो० । अवत्त० णत्थि० अंतरं । णवरि सादादीणं मणजोगिभंगो अवत्त०-  
 बंधगस्स ।

४७६. मदि०-सुद० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०

तेतीस सागर है । देवायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंक समान है । औदारिकशरीरके दो पदोंका जघन्य  
 अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अवस्थित और अवक्तव्य-  
 पदका भङ्ग ओषके समान है । औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संदहनके सुजगार और  
 अत्यतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।  
 अवस्थित पदका भङ्ग ओषके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और  
 उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि वज्रर्षभनाराचसंदहनके  
 अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका भङ्ग ओषके  
 समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर  
 है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम  
 त्रिभागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य वन्धका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कदा  
 है, वह इस प्रकार घटित करना चाहिए । नरकायुके वन्धक एक नपुंसकवेदी मनुष्यने अन्तमुहूर्त  
 आयु शेष रहने पर तीर्थङ्कर प्रकृतिके वन्धका प्रारम्भ किया और लघु अन्तमुहूर्त काल तक वन्ध  
 करके मिथ्यादृष्टि हुआ और मर कर नारकी हो गया । पुनः पर्याप्त होकर सम्प्रदर्शन पूर्वक उसका  
 वन्ध करने लगा । इस प्रकार तो तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त  
 प्राप्त हो जाता है । और एक पूर्वकोटिके नपुंसकवेदी मनुष्यने त्रिभागमे आयु वन्ध किया । पुनः  
 सम्प्रदृष्टि होकर तीर्थङ्कर प्रकृतिका वन्ध करने लगा । और अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर नरकमे गया  
 और अन्तमुहूर्त वाद पुनः उसका वन्ध करने लगा । इस प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यवन्धका  
 उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण प्राप्त होता है ।

४७५. अपगतवेदी जीवोंमे सब प्रकृतियोंके सुजगार, अत्यतर और अवक्तव्यपदका अन्तर  
 काल नहीं है । क्रोधादि चार कषायोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक  
 समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक  
 समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता  
 है कि सातावेदीय आदिके अवक्तव्यपदका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

४७६. मत्यहानी और भुताहानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, निध्यात्व,

वृष्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि०  
ज० ए०, उ० असंखेंजा लोगा । सादासाद०-इत्थि०-पुरिस०-इस्स-रदि-अरदि-सोग-  
धिराधिर-मुभासुभ-जस०-अजस० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त०  
ज० उ० अंतो० । णवुंस० पंचसंठा०-ओरालि०अंगो--इस्ससंघ०-अप्पसत्थ०-  
दूभग-दुस्सर-अणाद० भुज०-अप्पद० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तिण्णि-  
पलि० दे० । अवट्टि० ओघ । [णवरि ओरालि०अंगो अवत्त० उ० तेंत्तीसं सादि०।]  
चदुआउ०-वेणव्वियल्ल०-मणुसगादितिगं ओघं । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु० भुज० अप्प०  
ज० ए०, उ० ऐक्कचीसं सादि० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । चदुजादि आदावथावर०४  
भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेंत्तीसं सादि० । अवट्टि० ओघं ।  
पंचि०-पर०-उस्सा०-त्स०४ तिण्णिप० णाणाभंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेंत्तीसं०  
सादि० । ओरालि० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे० । अवट्टि०-  
अवत्त० ओघं । समचदु०-पसत्थ०-मुभग-मुस्सर-आद० तिण्णिप० सादभंगो ।  
अवत्त० ज० अंतो०, उ० तिण्णिपलि० दे० । उज्जो० भुज०-अप्प० ज० ए०,

सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, चर्याचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण  
और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कृष्ट अन्तर  
अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक-  
प्रमाण है । सातावेदनीय, असतावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर,  
अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका  
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उल्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । नपुंसकवेद,  
पाँच सस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अग्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर और  
अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर  
अन्तमुहूर्त है और इनका उल्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अवस्थितपदका अन्तर काल  
ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपदका उल्कृष्ट अन्तर  
साधिक तेतीस सागर है । चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग ओघके समान  
है । तिर्यञ्जगति और तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय  
है और उल्कृष्ट अन्तर साधिक इक्कीस सागर है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल  
ओघके समान है । चार जाति, आतप और स्यावर आदि चारके भुजगार और अल्पतरपदका  
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है । तथा इनका उल्कृष्ट  
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितबन्धका अन्तर ओघके समान है । पञ्चन्द्रियजाति,  
परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका  
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उल्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिकशरीरके  
भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य  
है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल ओघके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त  
विहायोगति, शुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीय समान है । अवक्तव्यपद  
का जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उल्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । उद्योतके भुजगार

अवत्त० ज० अंतो०, उ० ऐकतीसं० सादि० । अवट्टि० ओघं । णीचा० तिण्णि-  
पदा० णडुंसगभंगो । अवत्त० ओघं ।

४७७. विभंगे पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-  
वण्ण०-अणु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि०  
ज० ए०, उ० तैत्तीसं० दे० । सादासाद०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-पंचि०-द्वस्संठा०-  
ओरा०अंगो०-द्वस्संध०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-दोवि०-तसै०-थिरादिद्वयु०-णीचा०  
तिण्णिप० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० उ० अंतो० । [ ओरा० ] परं०-उस्सास-वादर-  
पज्ज०-पत्ते० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । दोआउ०-वेउव्वि०-द्व-  
तिण्णिजादि-सुहुम०-अप०-साथा० मण०भंगो । दोआउ० णिरयभंगो । मणुस०-मणु-  
साणु०-उच्चा० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० ऐकतीसं०  
दे० । अवत्त० सादभंगो । एइदि०-आदाव-थावर० भुज०-अप्प०-अवत्त० सादभंगो ।  
अवट्टि० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० ।

और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । अवस्थित पदका अन्तर ओघके समान है । नीचगोत्रके तीन पदोंका अन्तर नपुंसकवेदके समान है । अवक्तव्य पदका अन्तर ओघके समान है ।

४७७. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामरूशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, व्रणघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके मुज्जगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-  
मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वेतीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चोन्द्रियजाति, ब्रह्म संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, व्रस, स्थिर आदि छह युगल और नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य-  
पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । औदारिकशरीर, परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । दो आयु, वैकिकिच छह, तीन जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । दो आयुओंका भङ्ग नापकियोंके समान है । मनुष्यगति, मनुजगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके मुज्जगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तर सातावेदनीयके समान है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्यावर-  
के मुज्जगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका अन्तर सातावेदनीयके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है ।

१. ता० आ० प्रत्योः अंतो० अवट्टि० ज० ए० अंतो० अवट्टि० ज० ए० उ० तेषीचं इति पाठः ।  
२. आ० प्रतौ दो वि पदा तव० इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्योः अंतो० मिच्छं पर० इति पाठः ।  
४. आ० प्रतौ अवत्त० ज० ए० इति पाठः ।

४७८. आभिणि०--सुद०--ओधि० पंचणा०-छदंस०--चदुसंज०--पुरिस०-भय-  
दु०-पंचि०-तेजा०--क०--समचदु०--वण००४--अगु०४--पसत्थवि०--तस०४--सुभग-  
मुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० भुज०-अप्पद० ज० ए०, उ० अंतो० ! अवट्टि०  
ज० ए०, उ० छावट्टि० सादि० ! अवत्त० ज० अंतो०, उ० छावट्टि० सादि० !  
सादासाद०-चदुणो०-थिरादित्तिणियुग० तिण्णिणपदा णाणा०भंगो । अवत्त० ज०  
उ० अंतो० । अट्टक० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्टि० ज० ए०, उ० छावट्टि० सादि० ।  
अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेंचीसं० सादि० । दोआउ० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तेंचीसं०  
सादि० । अवट्टि० ज० ए०, उ० छावट्टि० सादि० । अवत्त० ज० अंतो०, उ०  
तेंचीसं० सादि० । णवरि देवाउ० अवट्टि० ज० ए०, उ० छावट्टि० दे० । मणुसगदि-  
पंचग० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पुव्वकोटी० सादि० अंतोमुहुत्तेण०भहि० । अवत्त०  
ज० पत्तिदो० सादि० वासपुथत्तेण सादि०, उ० तेंचीसं० सादि० । अवट्टि०  
णाणा०भंगो । देवगदि०४-आहार०२ भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०,  
उ० तेंचीसं० सादि० । अवट्टि० णाणा०भंगो । तित्थ० ओघं । एवं ओधिदं०-सम्मा० ।

४७८. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्ञलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, समचतुरासस्थान, वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक क्रियासठ सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक क्रियासठ सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कषायोंके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक क्रियासठ सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक क्रियासठ सागर है । दो आयुओंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक क्रियासठ सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम क्रियासठ सागर है । मनुष्यगतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त अधिक एक पूर्वकोटि है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्व अधिक साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

१. ता० आ० प्रत्योः आहार० भुज० इति पाठः ।



४७६. मणपज्ज० पंचणा०-उदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-देवग०-पंचि०-  
वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउच्चि०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अणु०४-पसत्थवि०-  
तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थि०-उच्चा०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०,  
उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० दोण्हं पि पुक्ककोडी दे० ।  
सादासाद०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियु० भुज०-अप्प०-अवहि० पाणाभंगो । अवत्त०  
ज० उ० अंतो० । एवं आहारदुगं । देवाउ० मणुसभंगो । एवं संजदा० ।

४८०. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंसणा०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० भुज०-  
अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवहि० ज० ए०, उ० पुक्ककोडी दे० । णिदा-पचत्ता०-  
तिण्णिसंज०-पुरिस०-भय०-दु०-देवग०-पंचि०-वेउच्चि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउ०-  
अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अणु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-  
तित्थि० भुज०-अप्प०-अवहि० पाणा०भंगो । अवत्त० णत्थि अंतरं । सादादिदंडओ  
देवाउ० मणपज्जवभंगो ।

४८१. परिहार० धुवियाणं भुज०-अप्प०-अवहि० साददंडओ देवाउ०-तित्थि०

४७६. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद,  
भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्र-  
संस्थान, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, चरुचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,  
त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगार  
और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्रष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित-  
पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और दोनों  
पदोंका उच्छ्रष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय  
और स्थिर आवि तीन युगलके भुजगार अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान  
है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य और उच्छ्रष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार आहारकद्विकका  
जानना चाहिए । देवायुका भङ्ग मनुष्योंके समान है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए ।

४८०. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना-  
वरण, लोभसंज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर  
एक समय है और उच्छ्रष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है  
और उच्छ्रष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । निद्रा, प्रचला, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, भय,  
जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान,  
वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, चरुचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-  
चतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित  
पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय आवि  
दण्डक और देवायुका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है ।

४८१. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और  
अवस्थितपदका भङ्ग, सातावेदनीय दण्डक, देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी

१. आ० प्रती भुज० अवाहि० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः वण्ण० देवाणु० इति पाठः ।

मणपज्जव०भंगो । आहारदुगं भुज०-अप्पद० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० पुव्वकोडी देसू० । अवत्त० ज० उ० अंतो० । णवरि तित्थ० णत्थि अंतरं । सुहुमसंप० सव्वपगदीणं भुज०--अप्प० णत्थि अंतरं । संजदासंजद० सव्वपगदीणं परिहार०भंगो ।

४८२. असंजदे धुवियाणं भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । थीणगिद्धिदंडओ सादादिदंडओ णवुंसगभंगो । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग--दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्पद० ज० ए०, अवत्तं [ज०] अंतो०, उ० तेंतीसं दे० । अवट्टि० ओघं । पुरिस०-सम-चदु०-वज्जरी०-पसत्थ०-सुभग--सुस्सर-आदे० तिरिण्णप० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेंतीसं देसू० । चदुआउ०-वेउ०छ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ओघं । चदुजादिदंडओ पंचिदियदंडओ णवुंसगभंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० णवुंसगभंगो । ओरालि० भुज०-अप्प०-अवट्टि०-अवत्त० ओघं । ओरालि०अंगो-वज्जरी० तिरिण्णपदा० ओघं । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तेंतीसं सादि० अंतोसुहुत्तेण । णवरि

जीवोंके समान है । आहारकदिकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदका अन्तर नहीं है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका अन्तरकाल नहीं है । संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भंग परिहारविद्युद्धिसंयत जीवोंके समान है ।

४८२. असंयतोमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । स्त्यानगृद्धिदण्डक और सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विद्यायोगति, दुर्मग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । पुरुषवेद, समचतुरस्र संस्थान, वअर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुंदर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग हानावरणके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । चार आयु, वैक्रियिक छद्म, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्च-गोत्रका भङ्ग ओघके समान है । चार जातिदण्डक और पञ्चन्द्रियजाति दण्डकका भङ्ग नपुंसकोंके समान है । तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकोंके समान है । औदारिक शरीरके भुजगार, अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । औदारिक आज्ञोपाङ्ग और वअर्षभनाराचसंहननके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । इतनी

१. आ० प्रतौ ए० उ० अवच० इति पाठः । २. ता० प्रतौ वेठ० मणुसग० इति पाठः ।

वज्जरि० अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० दे० । तित्य० तिखिणप० ओघं । अवत्त० ज० अंतो०, उ० पुव्वकोडितिभागं दे० । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० ओघं ।

४८३. किरणए पंचणा०-छदंस०-चारसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण०-४-अणु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-[ अप्प० ] ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० सादि० । थीणगि०३-मिच्छ०--अणंताणु०४-णत्तुंस०-हुंह०-अप्पस०-दूभग-दुस्सर-अणादें०-णीचा० दोपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० दे० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० सादि० दो० अंतोमुहुत्तं सादि० पवेस-णिक्खमणे । साद०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० भुज०-अप्प० णाणा०भंगो । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० सादि० मुहुत्तं सादि० णीत्तस्स० । अवत्त० ज० उ० अंतो० । असाद-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० सादभंगो । णवरि अवट्ठि० तैत्तीसं सादि० दोहि मुहुत्तेहिं सादिरयं पवेस-णिक्खमणे । इत्थि०-दोग०-चदुसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-उच्चा० भुज०-अप्प०-अवत्त० णत्तुंसगभंगो । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० सादि० मुहुत्तेण णीत्तस्स । पुरिस०-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदें० भुज०-

विशेषता है कि वज्रवर्षमनाराचसंहननके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुल्ल कम त्रिभाग प्रमाण है । चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रस पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

४८३. कृष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्षाचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अगस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । स्त्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, दृण्डसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुल्ल कम तेतीस सागर है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रवेश और निष्क्रमणके दो अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । सातावेदनीय, हास्य, रति, स्थिर, श्रुभ और यशःकीर्तिके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग हानावरणके समान है । अघस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर निर्गमकी अपेक्षा एक अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अश्रुभ और अयशःकीर्तिका भङ्ग सातावेदनीयके समान है, किन्तु अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर प्रवेश और निष्क्रमणकी अपेक्षा दो अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस सागर है । स्त्रीवेद, दो गति, चार सस्थान, पाँच सहनन, दो आनुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका भङ्ग नपुंसकोंके समान है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर निर्गमनका एक अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस

१ ता० आ० मत्तोः ज० क० अंतो० इति पाठः । २. आ० प्रतो षाणाभंगो । अट्ठि० ज० ए०, उ० तेनीसं सादि० दोहिं मुहुत्तेहि इति पाठः ।

अप्य० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० तेंचीसं० सादि० ँकमुहुत्तेण  
 पीतस्स । अवत्त० णवुंसगभंगो । दोआउ०-दोगदि-चदुजादि-दोआणु०-आदाव०-  
 थावरादि ४ तिण्णिपदा ज० ए०, उ० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । दोआउ०  
 तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० सन्वेसिं छम्मासं दे० । पंचि०-पर०-  
 उस्सा०-त्तस०४ दोपदा णाणा०भंगो । अवट्टि० ज० ए०, उ० तेंचीसं० सादि० दोहि  
 मुहुत्तेहि णित्त्वमण-पवेसणेहि । अवत्त० णत्थि अंतरं । ओरा०-ओरा०अंगो०  
 भुज०-अप्य० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० तेंचीसं० सादि० ँक्केण  
 मुहुत्तेण पीतस्स । अवत्त० णत्थि अंतरं । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो० तिण्णिप० ज०  
 ए०, उ० वावीसं० सादि० अंतोमुहुत्तेण पवेसंतस्स । अवत्त० ज० सत्तारस साग०  
 सादि०, उ० वावीसं सा० सादि० । एवं णील-काऊणं । णवरि मणुसगदित्तं पुरिस-  
 भंगो । अप्पणो द्विदीओ भाणिदच्चाओ । णीलाए वेउ०-वेउ०अंगो० अवत्त० ज०  
 सत्तसा० सादि०, उक्क० सत्तारस साग० सादि० । काऊए अवत्त० ज० दसवस्स-  
 सहस्साणि सादि०, उ० सत्तसाग० सादि० । किण्ण-णीलाणं तित्थं भुज०-अप्य०-  
 अवट्टि० ज० ए०, उ० अंतो० । काउए तित्थं भुज०-अप्य० ज० ए०, उ० अंतो० ।

सागर हैं । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवभनाराचसहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर,  
 और आदेयके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-  
 मुहूर्त हैं । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर निकलनेके एक  
 अन्तमुहूर्त सहित तेतीस सागर है । अवक्तव्य पदका भङ्ग नपुंसकोंके समान है । दो आयु, दो  
 गति, चार जाति, दो आतुपूर्वा, आतप और स्यावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक  
 समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त हैं । अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है । दो आयुओंके  
 तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हैं और सबका  
 उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । पंचेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और व्रसचतुष्कके दो पदोंका  
 भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर निष्क-  
 मण और प्रवेशके दो अन्तमुहूर्त सहित तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।  
 औदारिकशरीर और औदारिकआज्ञोपाङ्गके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक  
 समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त हैं । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और  
 उत्कृष्ट अन्तर निकलनेके एक अन्तमुहूर्त सहित तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं  
 है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआज्ञोपाङ्गके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और  
 उत्कृष्ट अन्तर प्रवेशके एक अन्तमुहूर्त सहित वार्हस सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर  
 साधिक सत्रह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक वार्हस सागर है । इसी प्रकार नील और कापोत  
 लेश्यामें जानना चाहिए । इतनी विवेचता है कि इनमें मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग पुरुषवेदके समान  
 है । तथा अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । नील लेश्यामें वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक  
 आज्ञोपाङ्गके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक सात सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक  
 सत्रह सागर है । कापोत लेश्यामें अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और  
 उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात सागर है । कृष्ण और नील लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार, अल्पतर  
 और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । कापोत

अवट्टि० ज० ए०, उ० तिण्णिसाग० सादि० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।

४८४. तेऊए पंचणा०-वदंसणा०--चदुसंज०--भय-दु०--तेजा०-क०--वण्ण०४-  
अणु०४-वादर-पज्ज०-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० ।  
अवट्टि० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-  
णवुंस०-तिरिक्ख०-एईदि०-पंचसंठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-  
थावर-दूभग-दुस्सर-अणादें०-णीचा० तिण्णिप० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ०  
वेसाग० सादि० । सादासाद०--चदुणोको०--थिरादिदिण्णिणु० दोपदा णाणा०भंगो ।  
अवट्टि० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० । अवत्त० ज० उ० अंतो० । अट्ठक०-ओरालि०-  
तित्थ० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० ।  
अवत्त० णत्थि अंतरं । पुरिस०-मणुस०--पंचि०--समचदु०--ओरा०अंगो०-वज्जरि०-  
मणुस०-पसत्थ०-त्तस०-सुभग-सुस्सर-आदें०-उच्चा० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० ।  
अवट्टि० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० । अवत्त० ज० अंतो०, उ० वेसाग० सादि० ।  
दोआउ० सोधम्मभंगो । देवाउ०--आहारदुगं तिण्णिणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।

लेख्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

४८५. पीतलेख्यामे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्षाचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच सस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भंग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके दो पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कषाय, औदारिकशरीर और तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकआङ्गोपाङ्ग, वज्रवभनाराचसहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । दो आयुओंका भङ्ग सौधर्मकल्पके समान है । देवायु और आहारकक्षिकके तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त

१. ता० आ० प्रत्योः अंतो० । अवत्त० ज० ए० इति पाठः ।

अवत्त० गत्थि अंतरं । देवग०४ तिण्णिप० ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० । अवत्त० गत्थि अंतरं । एवं पम्माए । णवरि सहस्सारभंगो । अट्ठक०-ओरा०-ओरा०अंगो- तित्थि० दोपदा ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० अट्ठारससाग० सादि० । अवत्त० गत्थि अंतरं । देवग०४ तिण्णिप० ज० ए०, उ० अट्ठारससा० सादि० । अवत्त० गत्थि अंतरं । एइदि०-आदाव-थावरं वज्ज । पंचिदि०-तस० ध्रुवभंगो ।

४८५. सुक्काए पंचणा०-उदंस०-चटुक०-भय-दु०-पंचि०-तेजा०-क०- वण्ण०४-अणु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० सादि० । अवत्त० गत्थि अंतरं । धीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थि०-दूभग-दुस्सर-अणादे०- णीचा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० एकत्तीसं० दे० । णवरि धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ अवट्ठि० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सा० सादि० अंतोमुहुत्तेण । सादासाद०-चटुणोक०-थिरादितिण्णियु० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० सादि० । अवत्त० ज० उ० अंतो० । अट्ठकसाईसु तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० गत्थि अंतरं । पुरिस०-समचटु०-

है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार पञ्चलेश्यामें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इसमें सहस्रारकल्पके समान भङ्ग है । आठ कषाय, औदारिकशरीर, औदारिकआङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । देवगति- चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरको छोड़कर अन्तरकाल कहना चाहिये । तथा पञ्चेन्द्रियजाति और त्रस प्रकृतियोंका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है ।

४८५. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार कषाय, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय- जाति, तैजसशरीर, कामंशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैत्तीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । स्व्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भाग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य-अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि स्व्यानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त अधिक इकतीस सागर है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैत्तीस सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कषायोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तर

पसत्य०-[सुभग-]सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिण्णिप० सादर्भंगो। अवत्त० ज० अंतो०, उ०  
 ऐकत्तीसं० दे०। मणुसाउ० देवर्भंगो। देवाउ० मणजोगिभंगो। मणुसग०-ओरा०-  
 ओरा०अंगो०-मणुसाणु० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो०। अवट्टि० ज० ए०,  
 उ० तैत्तीसं० दे०। अवत्त० णत्थि अंतरं। देवगदि०४ तिण्णिप० ज० ए०, उ०  
 तैत्तीसं० सादि०। अवत्त० ज० अट्टारस० सादि०, उ० तैत्तीसं० सादि०। आहार-  
 दुगं भुज०-अप्प०-[ अवट्टि० ] ज० ए०, उ० अंतो०। अवत्त० ज० उ० अंतो०।  
 वज्जि० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो०। अवट्टि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० दे०।  
 अवत्त० ज० अंतो०, उ० ऐकत्तीसं० दे०। तित्य० तिण्णिप० णाणा०भंगो। अवत्त०  
 णत्थि अंतरं। [ भवसि० ओघं। ] अबभवसि० मदि०भंगो।

४८६. खड्ग० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-पंचि०-तेजा०-क०-  
 समचदु०-वण्ण०४-अरु०४-पसत्य०-तस४-सुभग०-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्य०-  
 उच्चा०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो०। अवट्टि० ज० ए०, अवत्त० ज०

काल नहीं है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और  
 उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। अवक्तव्य पदका जयन्य अन्तर अन्त-  
 मुहूर्त है और उच्छ्र अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है।  
 देवायुका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकआज्ञापात्र  
 और मनुष्यगत्यानुपूर्वाके मुजगार और अल्पतरपदका जयन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्र  
 अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थितपदका जयन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्र अन्तर कुछ कम  
 वेतीस सागर है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका जयन्य  
 अन्तर एक समय है और उच्छ्र अन्तर साधिक वेतीस सागर है। अवक्तव्य पदका जयन्य अन्तर  
 साधिक अठारह सागर है और उच्छ्र अन्तर साधिक वेतीस सागर है। आहारकद्विकके मुजगार,  
 अल्पतर और अवस्थितपदका जयन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्र अन्तर अन्तमुहूर्त  
 है। अवक्तव्य पदका जयन्य और उच्छ्र अन्तर अन्तमुहूर्त है। वज्रर्मनाराचसंहनलके मुजगार  
 और अल्पतरपदका जयन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्र अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थित  
 पदका जयन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्र अन्तर कुछ कम वेतीस सागर है। अवक्तव्यपदका  
 जयन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उच्छ्र अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके  
 तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। भज्योंमें  
 ओघके समान भङ्ग है। अभज्योंमें मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

४८६. क्षायिकसन्धक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय,  
 जुगुप्सा, पञ्चन्द्रियनाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, बर्षचतुष्क, अगुरुलु-  
 चतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र  
 और पाँच अन्तरायके मुजगार और अल्पतरपदका जयन्य अन्तर एक समय है और उच्छ्र  
 अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थितपदका जयन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जयन्य

१. आ० प्रती ज० ए० उ० अंतो० इति पाठः। २. आ० प्रती पसत्य० सुभग इति पाठः।

३. आ० प्रती ए० उ० अवत्त० इति पाठः।

अंतो०, उ० तैत्तीसं० सादि० । एवं साददंडओ च । णवरि अवत्त० ज० उ० अंतो० । अट्टक० दोपदा० ओघं । अवट्ठि०-अवत्त० णाण०भंगो । मणुसाउ० देवभंगो । देवाउ० मणुसि०भंगो । मणुसगदिपंच० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० दे० । अवत्त० णत्थि० अंतरं । देवगदि०४-आहारदुगं तिण्णिप० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० सादि० ।

४८७. वेदगस० पंचणा०-द्वंदंस०-चदुसंज०-पूरिस०भय-दु०-पंचि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-त्तस०४-सुभग-सुत्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० छावट्ठि० देसू० । साददंडओ णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० ज० उ० अंतो० । अट्टक० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पुव्वकोढी दे० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० सादि० । दोआउ० भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० सादि० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । मणुसगदिपंच० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० पुव्वकोढी सादि० अंतोमुहुत्तं । अवट्ठि० ज० ए०, उ० छावट्ठि० देसू० । अवत्त० ज० पल्लिदो० सादि०,

अन्तर अन्तमुहूर्त है और दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कथायोंके दो पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है । देवायुका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । देवगति-चतुष्क और आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सत्रका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

४८७ वेदकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैमसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छियासठ सागर है । साता-दण्डकका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । आठ कथायोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । दो आयुओंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त अधिक एक पूर्वकोटि है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर

१ ता० आ० प्रत्योः णवरि अट्टक० ज० उ० अंतो०, इति पाठः । २. आ० प्रतो ए० उ० अवत्त० इति पाठः ।



उ० तैत्तीसं० सादि० । देवगति०४ भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० तैत्तीसं० सादि० ।  
 अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० पत्तिदो० सादि०, उ० तैत्तीसं० सादि० ।  
 आहारदुग्गं भुज०-अप्प० ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ० तैत्तीसं० सादि० ।  
 अवट्टि० णाणा०भंगो । तित्थ० ओघं । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं ।

४८८. उवसमं० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-हु०-मणुस०-  
 देवग०-पंचिं०-चदुसरीर०-समचदु०-दोअंगो०-वज्जारि०-वण्ण०४-दोआणु०-अणु०४-  
 पसत्थ०-त्स-४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० भुज०-अप्प०-  
 अवट्टि० ज० ए०, उ० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । सादासाद०-अहक०-चदुणोक्क०-  
 आहारदुग्ग-थिरादितिण्णियु० तिण्णिपदा धुवियाणं भंगो । अवत्त० ज० उ० अंतो० ।

४८९. सासणे धुवियाणं तिण्णिपदा ज० ए०, उ० अंतो० । सेसाणं पि एसेव  
 भंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । सम्माभि० धुविगाणं तिण्णिपदा० ज० ए०, उ०  
 अंतो० । एवं सादादीणं पि । णवरि अवत्त० ज० उ० अंतो० । मिच्छादि० मदि०भंगो ।

४९०. सण्णी० पंचिंदियपज्जसभंगो । असण्णीसु धुवियाणं भुज०-अप्प० ज०

एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छियासठ सागर है । अवक्कव्यपदका जघन्य अन्तर  
 साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके भुजगार और  
 अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अव-  
 स्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्कव्य पदका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और  
 उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य  
 अन्तर एक समय है, अवक्कव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर  
 साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग  
 ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्कव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

४८८. उपशमसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शानावरण, चार संव्वलन, पुरुषवेद, भय,  
 जुगुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग,  
 वज्रभ्रमनाराचसंहनन, षण्चतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,  
 सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर  
 और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवक्कव्य-  
 पदका अन्तरकाल नहीं है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, आठ कषाय; चार नोकषाय, आहारक-  
 द्विक और स्थिर आदि तीन युगलके तीन पदोंका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है ।  
 अवक्कव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

४८९. सासादनसम्यक्त्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय  
 है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका भी यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि  
 अवक्कव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । सन्यग्मिध्यादृष्टिमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका  
 जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इसी प्रकार सातावेदनीय आदि  
 प्रकृतियोंका भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्कव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर  
 अन्तमुहूर्त है । मिथ्यादृष्टियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ।

४९०. संह्री जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिके समान भङ्ग है । असंह्री जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली

१. ता० प्रती वादि० उ० उ० (१) तेत्तीस इति पाठः । २. णत्थि अंतः । देवसम० इति पाठः ।

ए०, उ० अंतो० । अवट्टि० ओघं० । दोवेदणी०--सत्तणोक०--पंचजा०--छस्संठो०--  
ओरात्ति० अंगो०--छस्संघ०--पर०--उस्सा०--आदाउज्जो०--दोविहा०--तसादिदसयु०  
तिण्णिप० णाणा० भंगो । अवत्त० ज० उ० अंतो० । चदुआउ०-वेउच्चियद्ध०-मणुस० ३  
तिरिक्खोघं । तिरिक्ख० ३ तिण्णिप० णाणा० भंगो । अवत्त० ओघं । ओरात्ति०  
तिण्णिप० सादभंगो । अवत्त० ओघं ।

४६१. आहारगोसु पंचणाणावरणादिदंडओ ओघं । णवरि अवट्टि० ज० ए०,  
अवत्त० ज० अंतो०, दोहं पि [उ०] अंगुल० असंखें० । थीणागिद्धिदंडओ अवट्टि०-  
अवत्त० णाणा० भंगो । सेसं ओघं । सादादिदंडओ ओघं । णवरि अवट्टि० णाणा०-  
भंगो । इत्थि० मिच्छ० भंगो० । णवरि तिण्णिपदा ओघं । पुरिस० ओघं । अवट्टि०  
णाणा० भंगो । णवुंसगदंडओ ओघं । अवट्टि० णाणा० भंगो । तिण्णिआउ०-वेउ-  
च्चियद्ध०-मणुसगदितिग-आहारदुगं तिण्णिपदा ज० ए०, अवत्त० ज० अंतो०, उ०  
अंगुल० असंखें० । तिरिक्खवाउ० ओघं । अवट्टि० णाणा० भंगो । तिरिक्खगदितिगं  
अवट्टि०-अवत्त० णाणा० भंगो । दोपदा ओघं । एईदियादिदंडओ ओघं । अवट्टि०  
णाणा० भंगो । पंचिदियदंडओ अवट्टि० णाणा० भंगो । सेसाणं ओघं । ओरात्ति०

प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-  
मुहूर्त है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । दो वेदनीय, सात नोकवाय, पाँच जाति, छह  
सस्थान, औदारिकआज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति  
और त्रसादि दस युगलके तीन पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और  
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चों  
के समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका भङ्ग  
ओघके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । अवक्तव्यपदका  
भङ्ग ओघके समान है ।

४६१. आहारकोमे पाँच ज्ञानावरणादि दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता  
है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है  
और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । स्थानगृह्णितदण्डकके अवस्थित  
और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । शेष भङ्ग ओघके समान है । सातावेदनीय  
आदि दण्डकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके  
समान है । स्त्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि तीन पद ओघके समान  
हैं । पुरुषवेदका भङ्ग ओघके समान है । मात्र अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।  
नपुसकवेददण्डकका भङ्ग ओघके समान है । मात्र अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।  
तीन आयु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगतित्रिक और आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक  
समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके  
असंख्यातवें भागप्रमाण है । तिर्यञ्चआयुका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित-  
पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकके अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञाना-  
वरणके समान है । तथा दो पदोका भंग ओघके समान है । एकेन्द्रियजाति आदि दण्डकका भंग  
ओघके समान है । मात्र अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकके

१. आ० प्रतौ पंचभा० छस्संठा० इति पाठः ।

अवट्टि०-अवत्त० णाणा०भंगो । सेसं ओषं । समचदु०दंडओ ओषं । अवट्टि० णाणा० भंगो । सेसं ओषं । अवट्टि० णाणा०भंगो । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं अंतरं समत्तं ।

## एाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो

४६२. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दुवि०—ओधे० आदे०। ओघेण पंचणा०-णवदंस०-भिच्छ०—सोलसक०--भय-दु०-ओरालि०--तेजा०-क०-वण्ण०४-अणु०-उप०-णिभि०-पंचंत० भुज०--अप्पद०--अवट्टिदबंधगा णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तगे य । सिया एदे य अवत्तगा य । सादासाद०-सत्तणोक०--तिरिक्खाउ-दुगादि-पंचजादि-द्धस्संठा०-ओरालि०अंगो०-द्धस्संघ०--दोआणु०--पर०-उस्सा०--आदाउज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयु०--दोगोद० भुज० अप्प० अवट्टि० अवत्तवबंधगा य णियमा अत्थि । तिण्णिआउ० सन्वपदा भयणिज्जा । वेउन्वियद्ध०--आहारदुग०-तित्थि० भुज०--अप्प० णियमा अत्थि । अवट्टि०-अवत्त० भयणिज्जा । एवं ओधभंगो कायजोगि०--ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग चि ।

४६३. णिरएसु धुविगाणं भुज०-अप्प० णिय० अत्थि । सिया एदे य अवट्टिदगे

अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । शेष पदोंका भङ्ग ओघके समान है । औदारिकशरीरके अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । शेष पदोंका भङ्ग ओघके समान है । समचतुरस्रसंस्थानदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । मात्र अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । मात्र अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । मात्र अवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान है । अनाहारक जीवोंमें कार्मण्यकाययोगी जीवोंके समान भंग है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

## नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगम

४६२. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, मोलह कषाय, भय, लुगप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण्यशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके वन्धक जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये अनेक जीव हैं और एक अवक्तव्यपदका वन्धक जीव है । कदाचित् ये अनेक जीव हैं और अनेक अवक्तव्यपदके वन्धक जीव हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आगोपांग, छह सहनन, दो आनुपूर्वी, परधात, उच्छ्वासा, आतप, उचात, दो विहायो-गति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीव नियमसे हैं । तीन आयुओंके सब पद भजनीय हैं । वैकियिक छद्द, आहारजदिक और तीर्थद्व प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदके वन्धक जीव नियमसे हैं । अवस्थित और अवक्तव्यपद भजनीय हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अचलदरानी, भय और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

४६३. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदके वन्धक जीव

ब । सिया एदे य अवह्दिगदा य । सेसाणं सव्वपगदीणं धुविगभंगो । णवरि  
भवह्दि०-अवत्त० भयणिज्जा । दोएहं आऊणं सव्वपदा भयणिज्जा । एवं सव्वणिरय-  
सव्वपंचिंदियतिरि०-देव-विगल्लिदि०--पंचि०-तस०-अपज्ज०--वादरपुढ०-आउ०--तेउ०-  
वाउ०--वादरवण०-पत्ते०-पज्जत्त-वेउं०-इत्थि०--पुरिस०-विभंग०--सामाइ०-छेदो०-परि-  
हार०-संजदासंज०-तेउ०-पम्म०-वेदगसम्मादिहि ति ।

४६४. तिरिक्खेसु धुविगाणं भुज०-अप्प०-अवह्दि० णिय० अत्थि । सेसाणं  
ओयं । एवं ओरोलियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०-४-मदि०-सुद०-असंज०-  
तिरिणाले०-अभव०-मिच्छा०-असणिया-अणाहारगति । णवरि ओरोलियमि०-कम्मइ०-  
अणाहार० देवगदिपंचग० सव्वपदा भयणिज्जा ।

४६५. मणुसेसु सव्वपगदीणं भुज०-अप्प०-णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा ।  
चदुआउ० सव्वपदा भयणिज्जा । एवं सव्वमणुसाणं पंचि०-तस०-२-पंचमण-पंचवचि०-  
आभिणि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संज०-चक्खु०-ओधिदं०-सुक्खले०-सम्मा०-खइग०-  
सरिण ति ।

४६६. मणुसअपज्ज० सव्वपगदीणं सव्वपदा भयणिज्जा । एवं वेउच्चिवमि०-  
आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसं०-उवसस०-सासण०-सम्मामि० ।

नियमसे हैं । कदाचिन् ये अनेक जीव हैं और एक अवस्थितपदका वन्धक जीव हैं । कदाचित् ये  
अनेक जीव हैं और अनेक अवस्थितपदके वन्धक जीव हैं । शेष सब प्रकृतियोंका भंग ध्रुवबन्धवाली  
प्रकृतियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित और अवक्कन्यपद् भजनीय हैं । दोनों  
आयुओंके सब पद् भजनीय हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च, देव, विकलेन्द्रिय,  
पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसअंपर्याप्त, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्नि-  
कायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, वैक्रियिककाय-  
योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत,  
सयत्तासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और वेदकसन्धगृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

४६४. तिर्यञ्चोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके वन्धक  
जीव नियमसे हैं । शेष प्रकृतियोंका भंग ओषके समान है । इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी,  
कार्मणकाययोगी, नपुसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन  
लेश्यावाले, अमन्य, मिथ्याहृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता  
है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमे देवगतिपञ्चकके सब  
पद् भजनीय हैं ।

४६५. मनुष्योंमे सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदके वन्धक जीव नियमसे हैं ।  
शेष पद् भजनीय हैं । चारों आयुओंके सब पद् भजनीय हैं । इसी प्रकार सब मनुष्य, पञ्चेन्द्रिय,  
पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, त्रसद्विक, पंचों मनोयोगी, पंचों वचनयोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी,  
अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अबधिदर्शनी, शुक्कललेश्यावाले, सन्धगृष्टि,  
क्षायिकसन्धगृष्टि और सज्ञी जीवोंके जानना चाहिए ।

४६६. मनुष्य अपर्याप्तकोंमे सब प्रकृतियोंके सब पद् भजनीय हैं । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्र-  
काययोगी, आहारककाययोगी, आहारवमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, उपक्षम-

४६७. सव्वएइंदि० पुढ०--वादर०--वादर०अप० मणुसाड० ओयं । सेसाणं सव्वपदा णिय० अत्थि । एवं आड०--तेउ०--वाड०--वादर०--वादर०अप० तेसिं चव सव्वसुहुम०-सव्ववण०-णिगोद०-वादरपत्ते०अपज्ज० ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं ।

## भागाभागाणुगमो

४६८. भागाभागाणु० दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०-ओरालि०--तेजा०-क०--वएण०४-अणु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुजगारवंधगा सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? दुभागो सादिरेगो । अप्प० दुभागो देसु० । अवट्ठि० सव्वजीवाणं असंखेंज्जदिभागो । अवत्त० सव्वजी० अणंतभा० । सादासाद०--सत्तणोक्क०--चदुआड०--चदुगदि-पंचजादि-ओरा०--वेउच्चि०--इस्संठा०-ओरा०-वेउ०अंगो०-इस्संघ०-चदुआणु०-पर०-उस्सा०--आदाउज्जो०-दोविहा०-त्सादि-दसयु०-तित्थ०-दोगो० भुज० सव्वजी० दुभा० सादि० । अप्प० दुभा० देसु० । अवट्ठि०-अवत्त० असंखेंभा० । एवं आहारदुगं । णवरि अवट्ठि०-अवत्त० संखेंज्जदि-भा० । एवं ओघभंगो तिरिक्कोघं कायजोगि०-ओरा०-ओरा०मि०-कम्मइ०-णवुंस०-

सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यगिमथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

४६९. सब एकेन्द्रिय और पृथिवीकायिक तथा इनके वादर और वादर अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव नियमसे हैं । इसी प्रकार जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके वादर और वादर अपर्याप्त तथा सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, निगोद और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय समस्त हुआ ।

## भागाभागाणुगम

४६८. भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कामशाशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायके सुजगारपदके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं । अल्पतरपदके वन्धक जीव कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं । अवस्थितपदके वन्धक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवक्तव्यपदके वन्धक जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोरुषाय, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, औदारिक आंगोपांग, वैक्रियिक आंगोपांग, छह संहनन, चार आतुपूर्वी, परधात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल, तीर्थङ्कर और दो गोत्रके सुजगार पदके वन्धक जीव सब जीवोंके साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं । अल्पतरपदके वन्धक जीव कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं । अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार आहारकशरीरद्विकका भंग है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक-

२. ता० प्रती कायजोगि० ओरालि० मि० इति पाठः ।

क्रोधादि०४—मदि०—सुद०—असंज०—अचक्खु०—तिरिणले०—भवसि०—अभभवसि०—  
मिच्छादि०—असरिण०—आहार०—अणाहारगत्ति । एदेसिं किंचि० विसेसो णादब्बो ।  
ओरालि० तित्थ० ओरालि०मि०—कम्मइ०—अणाहारएसु देवगदिपंच० आहारस०भंगो ।  
अवत्त० णत्थि । सेसाभंणेरइगादीणं याव सरिणत्ति याओ असंखेज्ज—अणंतजीविगाओ  
पगदीओ ताओ ओघं सादभंगो । याव संखेज्जजीविगाओ पगदीओ ताओ ओघं आहार-  
सरीरभंगो ।

एवं भागाभागं समत्तं ।

### परिमाणानुगमो

४६६. परिमाणानुगमो दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०—द्वदंस०—अद्वक०—  
भय-दु०—नेजा०—क०—वएण०४—अगु०—उप०—णिमि०—पंचंत० भुज०—अप्प०—अवट्ठि०—बंधगा  
कैचिया ? अणंता । अवत्त० के० ? संखेज्जा । थीणमि०३—मिच्छ०—अद्वक०—ओरालि०  
भुज०—अप्प०—अवट्ठि० के० ? अणंता । अवत्त० के० ? असंखे० । दोवेदणी०—सत्तणोक०—  
तिरिक्खाउ०—दोगदि—पंचजा०—द्वस्संठा०—ओरालि०अंगो०—द्वस्संघ०—दोआणु०—पर०—  
उस्सा०—आदाउज्जो०—दोविहा०—तसादिदसयुग०—दोगो० भुज०—अप्प०—अवट्ठि०—अवत्त०  
के० ? अणंता । तिरिणाआउ०—वेउ०—द्व० भुज०—अप्प०—अवट्ठि०—अवत्त० केत्ति० ? असं-

काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामण्णकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले,  
मत्तझानी, श्रुताहानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असद्धी  
आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इन मार्गणाओंमें जो कुछ विशेषता है वह  
जान लेनी चाहिए । औदारिककाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका, औदारिकमिश्रकाययोगी,  
कामण्णकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका भंग आहारकशरीरके समान है । तथा  
अवक्तव्यपद नहीं है । शेष नरक आदिसे लेकर संबन्धी तक जो असंख्यात और अनन्त जीवोंके  
बंधनेवाली प्रकृतियों हैं, उनका भङ्ग ओघसे सातावेदनीयके समान है । तथा जो संख्यात जीवोंके  
बंधनेवाली प्रकृतियों हैं, उनका भंग ओघसे आहारकशरीरके समान है ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

### परिमाणानुगम

४६६. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामण्णशरीर, वयं-  
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-  
पदके वन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदके वन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।  
स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरके भुजगार, अल्पतर और अव-  
स्थितपदके वन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदके वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात  
हैं । दो वेदनीय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकआज्ञो-  
पात्र, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस  
युगल और दो गोत्रके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीव अनन्त हैं ।  
तीन आयु और वैकिकिक छहके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके वन्धक जीव

खैँजा । आहारदुर्गं भुज०-[अप्य०]-अवट्टि०-अवत्त० केँ ? संखैँजा । तित्थ० भुज०-  
अप्य०-अवट्टि० केँ ? असंखैँजा । अवत्त० केँ ? संखैँजा । एवं ओघर्भंगो काय-  
जोगि-ओरालि०-[ णवुंस०-कोधादि०४- ] अचवत्सु०-अवसि०-आहारए ति । णवरि  
ओरालि० तित्थ० संखैँजा ।

५००. णिरएसु मणुसाड०सन्वपदा० तित्थय० अवत्त० केँ ? संखैँजा । सेसाणं  
सन्वपदा केँ ? असंखैँ । एवं सन्वणिरय--सन्वदेवा याव अपराजिदा चि वेड०-  
वेड०मि०--इत्थि०--पुरिस०--विभंग०-सासणसम्मादिट्ठि चि । णवरि इत्थि० तित्थ०  
संखैँ ।

५०१. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिपदा केँ ? अणंता । सेसाणं ओघं । एवं  
तिरिक्खोघर्भंगो मदि०-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अभवसि०-मिच्छा०-असरणीसु ।  
पंचिदियतिरिक्ख०३ धुविगाणं तिण्णिपदा के० ? असंखैँ । सेसाणं परियचमाणि-  
याणं चत्तारिपदा केँ ? असंखैँ । एवं सन्वअपज्ज०-सन्वविगलिदि०-पुढ०-आड०-  
तेड०-वाड०-बादरपत्तेग ति ।

५०२. मणुसेसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-  
तेजा०-क०-वण्णा०४-अशु०-उप०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिप० असंखैँ । अवत्त०

कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विकके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके  
बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके  
बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी  
प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चारों कषायवाले, अचक्षु-  
दर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी  
जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

५००. नारकियोंमें मनुष्यायुके सब पदोंके और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक  
जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात  
हैं । इसी प्रकार सब नारकी, देव, अपराजित विमान तकके सब देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिक-  
मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।  
इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

५०१. तिर्यञ्चोंके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ।  
ओप प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान मत्स्यज्ञानी, श्रुता-  
ज्ञानी, असंयत, तीन लेख्यावाले, अमन्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें ज्ञानता चाहिए ।  
पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात  
हैं । शेष परिवर्तमान प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार  
सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और  
धातु प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिए ।

५०२ मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण. मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा,  
औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामंशरीर, वर्षीचतुष्क, अशुक्लपु, उपघात, निर्माण और पंच  
अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । दो

संखेजा । दोआड०-वेवञ्चि०-आहार०२-तित्य० चत्तारिपदा के० ? संखेजा ।  
सेसाणं चत्तारिपदा के० ? असंखे० । मणुसपज्जच-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं सव्वपदा  
के०चिया ? संखे० । मणुसिभंगो सव्वद०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-मणपज्ज०-  
संजद०-सामाइ०-खेदो०-परिहार०-सुहुम० ।

५०३. एइदिपसु सव्वपगदीणं सव्वपदा के० ? अणंता । णवरि मणुसाड० ओधं ।  
एवं वणप्फदि-णियोद० ।

५०४. पंचिदिपसु पंचणा०-द्धदंस०-अदक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वणण०४-  
अगु०-उप०-णिमि०-तित्यय०-पंचंत० तिण्णिणप० के० ? असंखे० । अवच० के० ?  
संखे० । आहारदुगं सव्वप० के० ? संखे० । सेसाणं चत्तारिपदा के० ? असंखे० । एवं  
पंचिदिपज्ज०-तस-तसपज्ज०-पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु०-सण्णि ति । ओरा०मि०  
कम्मइ०-अणाहार०] तिरिक्खोयं । णवरि देवगादिपंचग० सव्वपदा संखेजा ।

५०५. आभिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-द्धदंस०-अदक०-पुरिस०-भय-दु०-  
देवग०-पंचि०-वेड०-तेजा०-क०-समचदु०-वेड०-अंगो०-वणण०४-देवाणु०-अगु०-पस-  
त्यवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि-तित्य०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णिणप० के० ?

आयु, वैक्रियिक छह, आहारकदिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके चारों पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ?  
संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके चारों पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त  
और मनुष्यनियंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सर्वार्थ-  
सिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत,  
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें  
मनुष्यनियंके समान भंग है ।

५०६. एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त है । इतनी  
विशेषता है कि मनुष्यायुका भंग ओचके समान है । इसी प्रकार वनस्पतिकायिक और निगोद  
जीवोंमें जानना चाहिए ।

५०७. पञ्चेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कणाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-  
शरीर, कर्माणशरीर, बर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके  
तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात  
हैं । आहारकदिकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके चारों पदोंके  
बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रसपर्याप्त, पाँचों  
मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, चतुर्दर्शनी और सँझी जीवोंके जानना चाहिए । औदारिकमिश्रकाय-  
योगी, कर्माणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सामान्य तीर्थङ्कोंके समान भंग है । इतनी  
विशेषता है कि देवगतिपञ्चकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

५०८. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-  
वरण, आठ कणाय, पुत्रवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर,  
कर्माणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकआगोपांग, बर्णचतुष्क, देवगत्याप्तपूर्वी, अगुरुलघु,  
प्रशस्त दिहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच  
अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव



असंखे० । अवत्त० कॅति० ? संखे० । सादासाद०--अपचक्रवाण०४--चतुणोक्त०--  
देवाउ०--मणुसगदिपंच०--थिरादितिरिणयु० चचारिप० कॅ० ? असंखे० । मणुसाउ०-  
आहारदुगं सव्वप० कॅ० ? संखे० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग०-सम्माभिच्छादिदि  
त्ति । णवरि वेदग०-सम्माभि० धुविगाणं अवत्त० णत्थि ।

५०६. संजदासंज० धुविगाणं तिण्णिपदा परियत्तमाणिपायणं चचारिपदा कॅ० ?  
असंखे० । तित्थ० सव्वप० कॅ० ? संखे० ।

५०७. किएणा--णीलाणं तित्थ० तिण्णाप० कॅ० ? संखे० । तंउ--पम्मासु धुवि-  
गाणं तिण्णापदा कॅ० ? असंखे० । पचक्रवा०४--देवगदि०४--तित्थ० अवत्त०  
संखे०जा । सेसपदा० असंखे० । सेसाणं सव्वप० असंखे० । मणुसाउ०-आहार०२  
सव्वप० कॅ० ? संखे० । सुक्काए पंचणा०-द्धदंस०-अट्टक०-भय-दु०-दोगदि-पंचजादि-  
चदुसरीर-दोअंगो०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थवि०--तस०४--णिमि०-तित्थ०-  
पंचंत० तिण्णाप० कॅ० ? असं० । अवत्त० कॅ० ? संखे० । दोआउ०-आहार०२ सव्व-  
पदा कॅ० ? संखे० । सेसाणं सव्वप० कॅ० ? असंखे० ।

५०८. खइग० पंचणा०-द्धदंस०--वारसक०--पुरिस०-भय-दु०-दोगदि-पंचि०-

कितने हैं ? संख्यात हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चार, चार नोकपाय, देवायु, मनुष्यगतिपञ्चक और स्थिर आदि तीन युगलके चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है ।

५०६. संयतासंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके और परिवर्तमान प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

५०७. कृष्ण और नील लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । पीत और पद्मलेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । प्रत्याख्यानावरण चार, देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव संख्यात हैं तथा शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, दां गति, पाँच जाति, चार शरीर, दो आज्ञोपाङ्ग, वर्षाचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

५०८. क्षायिकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय,

१. आ० प्रती धुविगाणं कॅ० इति पाठः ।

चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-दोआणु०-अणु०४-पसत्थ०-तस०४-  
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० तिणिएप० के० ? असंखे० । अवत्त  
के० ? संखे० । दोवेदणी०-चदुणोको०-थिरादितिणियु० सव्वपदा के० ? असंखे०  
दोआड०-आहारदुगं सव्वप० के० ? संखे० ।

५०६. उवसम० पंचणा०-द्धंस०-अट्ठक०-पुरिस०-भय-दु०--दुगदि-पंचि०-चदु-  
सरीर-समचदु०-दोअंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-दोआणु०-अणु०४-पसत्थ०-तस०४-  
सुभग सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० तिणिएप० के० ? असंखे० । अवत्त० के० ?  
संखे० । आहारदुगं तित्थ० सव्वप० के० ? संखे०जा । सेसाणं सव्वपदा के० ।  
असंखे०जा ।

एवं परिमाणं समचं ।

### खेत्ताणुगमो

५१०. खेत्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०--णवदंस०-  
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०--ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अणु०-उप०-णिमि०-  
पंचंत० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-बंधगा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । अवत्त० के० ? लोगस्स  
असंखे०ज्जदिभागे । सादासाद०-सत्तणोको०-तिरिक्खाड०--दोगदि०-पंचजा०-द्धस्संठा०-

जुगुप्सा, दो गति, पञ्चन्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आंगोपांग, वज्रवभनारात्  
संहनन, वर्णचतुष्क, दो आलुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर,  
आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ।  
असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । दो वेदनीय, चार नोकयाय  
और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । दो आयु और  
आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

५०६ उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पुरुषवेद  
भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चन्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आंगोपांग, वज्रवभ-  
नारात् संहनन, वर्णचतुष्क, दो आलुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग  
सुस्वर, आदेय निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं,  
असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्करके  
सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव  
कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

### क्षेत्रानुगम

५१०. क्षेत्रानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच  
ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस  
शरीर, कामाणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपवात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार,  
अत्यन्तर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अवक्तव्य  
पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सातावेदनीय,

ओरा० अंगो०--द्वस्संघ०--दोआणु०--पर०--उत्सा०--आदाउज्जो०--दोविहा०--तसादि-  
दसयु०--दोगो० चत्तारिप० कें० ? सव्वलोगे । तिण्णिआउ०--वेउव्वियद्ध०--आहार०२--  
तित्थ० सव्वप० कें० ? लो० असंखें० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०--ओरा०  
मि०--कम्म०--णवुंस०--कोधादि०४--मदि०--सुद०--असंज०--अचक्खु०--तिण्णिणत्ते०--  
भवसि०--अभवसि०--मिच्छा०--असण्णिण-आहार०--अणाहारए चि ।

५११. एइंदि०--सव्वसुहुमएइंदि० धुक्किणाणं तिण्णिणपदा सव्वलो० । मणुसाउ०  
ओघं । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वपदा कें० ? सव्वलो० । एवं पुढ०--आउ०--तेउ०-  
वाउ०--वणप्फदि०--णिगोद० तेसिं सव्वसुहुमाणं च । वादरएइंदि०पज्ज०--अपज्ज०  
धुवियाणं तिण्णिणप० कें० ? सव्वलो० । सादासाद०--चट्टणोक०--थिरादिदोण्णियु०  
सव्वप० कें० ? सव्वलो० । इत्थि०--पुरि०--तिरिक्खाउ०--चट्टुजा०--पंचसंठा०--ओरालि०  
अंगो०--द्वस्संघ०--आदा०--उज्जो०--दोविहा०--तस०--वादर०--सुभग०--दोसर०--आदें-  
जस० चत्तारिप० कें० ? लो० संखें० । णवुंस०--एइंदि०--हुंड०--पर०--उत्सा०--थावर०-  
सुहुम-पज्जत्तापज्ज०--पत्ते०--साधं०--दूभग-अणादें०--अजस० तिण्णिणप० कें० ? सव्वलो० ।  
अवत्त० कें० ? लो० संखेज्ज० । मणुसाउ०--मणुसग०३ चत्तारिप० कें० ? लो०

असातावेदनीय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गो-  
पाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस  
युगल और दो गोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । तीन आयु,  
वैकियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके  
असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान काययांगी, औदारिककाययोगी,  
औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्थज्ञानी, श्रुता-  
ज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेख्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असङ्गी, आहारक और  
अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

५११. एकेन्द्रिय और सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके  
बन्धक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष सब प्रकृतियोंके सब  
पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार पृथिवीकायिक, जलकायिक,  
अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद और इन सबके सब सूक्ष्म जीवोंमें जानना  
चाहिए । वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके  
बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय और  
स्थिर आदि दो युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद,  
तिर्यञ्चायु, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्योत, दो विहायो-  
गति, त्रस, वादर, सुभग, दोस्वर, आदेय और यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंका कितना  
क्षेत्र है ? लोकके संख्यातर्वे भाग प्रमाण क्षेत्र है । नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, पर-  
घात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, और अयशः-  
कीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अवकन्वय पदके बन्धक  
जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्र है । मनुष्यायु और मनुष्यगत-

असंखे० । तिरिक्ख० ३ तिण्णप० केवहि० ? सव्वलो० । अवत्त० लो० असं० ।

५१२. वादरपुह० तस्सेव अपज्ज० पंचणा०-णवडंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दुग्गुं०-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० तिण्णप के० ? सव्वलो० । सादासाद०-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ० चत्तारिप० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-दोआड०-मणुसग०-चहुजा०-पंचसंठा०-ओरा०अंगो०-द्धसंघ०-मणुसाणु०-आदाइ०-दोविहा०-नस-वादर-सुभग-दोसर-आदे०-[जस०]-उच्चागो० चत्तारिप० लो० असं० । णहुंस०-तिरिक्ख०-एईदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उत्सा०-थावर०-सुहुम-पज्जत्तापज्ज०-पत्ते०-साधार०-दूभग०-अणा०-अजस०-णीचा० तिण्णप० सव्वलो० । अवत्त० लो० असंखे० । एवं वादरआड०-तेउ०-वाड० तेसि चव अपज्ज० वादर०-पत्ते० तस्सेव अपज्ज० । णवरि वादरवाड० जम्हि लोग० असंखे० तम्हि लो० संखे० । सेसाणं एरइगादीणं याव सण्णि चि संखेज्ज-असंखेज्जजीविगाण सव्वपदा के० ? लो० असंखेज्जदिभागे ।

एवं खेत्तं समत्तं ।

त्रिकके चार पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । तिर्यञ्चगतत्रिकके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है ।

५१२. वादर पृथिवीवायिक और उसके अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह क्पाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुस्लघु, उपवास, निर्माण और पाँच अन्नराशिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । सातावेदनीय, असानावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके चार पदोंके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । खीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक आंगोपांग, छह संइनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, दो विहायो-गति, त्रस, वादर, सुभग दो स्वर, आदिच, वशाःकीर्ति और उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, निर्वञ्चगत्यानुपूर्वी, परवाद, उच्छ्वास, स्याजर, मूल्म, पर्याप्त, अनर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुभग, अनादेय, अवशाःकीर्ति और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार वादर जल-वायिक, वादर अग्निवायिक, वादर वायुकायिक और उनके अपर्याप्त तथा वादर प्रत्येकशरीर और उनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विगेयता है कि जहाँ पर लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है, वहाँ पर वादर वायुकायिक जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहना चाहिए । येर नारकीआदिसे लेकर संनी तकके संख्यात और असंख्यात संख्याक जीवोंमें सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

## फोसणाणुगमो

५१३. फोसणाणु० दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-अहक०-भय-दु०-तेजा०-क०-त्रएण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप०-अवद्वि०-बंधगेहि केवदियं खेंचं फोसिदं ? सव्वलो० । अवच० लो० असंखें० । धीणगिद्धि०३-अणताणु०४ तिणिएणप० सव्वलो० । अवच० अहचो० । सादासाद०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ०-दो-गदि-पंचजादि-द्धस्संठा०-ओरा०अंगो०-द्धस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयु०-दोगो० भुज०-अप०-अवद्वि०-अवच० कें ? सव्वलो० । मिच्च० तिणिएणप० सव्वलो० । अवच० अह-वारह० । अपच्चक्खाण०४ तिणिएणप० सव्वलो० । अवच० छचो० । णिरय-देवाउ०-आहार०२ चत्तारिप० कें ? लो० असं० मणुसाउ० चत्तारिप० अहचो० सव्वलो० । णिरय-देवग०-दोआणु० तिणिएणप० छचो० । अवच० खेंचं० । ओरालि० तिणिएणप० सव्वलो० । अवच० वारहचो० । वेउन्वि०-वेउन्वि०-अंगो० तिणिएणप० वारह० । अवच० खेंचं० । तित्थयरं तिणिएणप० अह० । अवच० खेंचं० ।

### स्पर्शानुगम

५१३. स्पर्शानुगम दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्षाचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकत्रय, शिष्यत्राय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आगोपांग, छह संहचन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम वारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अस्त्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकायु, देवायु और आहारकट्टिकके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोकका स्पर्शन किया है । नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम वारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैकृतिकशरीर और वैकृतिक आगोपांगके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम वारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य-

५१४. गिरएसु ध्रुविगाणं तिरिणप० छत्रौ० थीणगि०३-अर्गताणु०४-तिण्णि-

पक्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अबक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके होते हैं, इसलिए इनका सर्व लोकाप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा उनका अबक्तव्य पद उपशान्त्रिणसे गिरनेवाले मनुष्य और मनुष्यनीके तथा ऐसे जीवके मरकर देव होने पर प्रथम समय में होता है, इसलिए इसका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धी चारके भुजगार आदि तीन पदोंका स्वमित्व पाँच ज्ञानावरणके समान है, इसलिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन सर्व लोक कहा है। तथा इनका अबक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमें होता है। ऐसे जीवोंका स्पर्शन देवोंकी मुख्यतासे कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदि कुछ परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं और कुछ अध्रुवबन्धनी हैं। इनके भुजगार आदि पदोंका बन्ध एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव है, अतः इनके सब पदोंके बन्धकोंका स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है। मिथ्यात्वके सब पदोंका स्पर्शन स्त्यानगृद्धिचक्रके समान घटित कर लेना चाहिए। मात्र नीचे कुछ कम पाँच राजू और ऊपर कुछ कम सात राजूप्रमाण क्षेत्रमें मारणास्तिक समुद्घातके समय भी इसका अबक्तव्यबन्ध सम्भव है, इसलिये इम पदकी अपेक्षा इसका स्पर्शन कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण भी कहा है। अत्रत्याख्यानावरण चारके तीन पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा सर्वलोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अबक्तव्य पद ऊपर कुछ कम छह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके भी होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। नरकायु और देवायुका बन्ध असंज्ञी आदि मारणास्तिक समुद्घात और उपपाद पदके विना करते हैं और आहारकालिकका संयत जीव करते हैं, अतः इनके चारों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है। मनुष्यायुके चारों पद देवोंके विहारादिके समय और एकेन्द्रियोंके सम्भव हैं, अतः इसके चारों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोक प्रमाण कहा है। जो तिर्यञ्च और मनुष्य नारकियों और देवोंमें मारणास्तिक समुद्घात करते हैं, उनके क्रमसे नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकके भुजगार आदि तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। परन्तु मारणास्तिक समुद्घातके समय इनका अबक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अबक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। औदारिकशरीरके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा नारकी और देव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें औदारिक शरीरका अबक्तव्यबन्ध करते हैं, इसलिए इस पदकी अपेक्षा कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्यञ्चों और मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणास्तिक समुद्घात करते समय वैत्रियिक शरीरद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण स्पर्शन कहा है, पर ऐसे मनुष्यों और तिर्यञ्चोंके इनका अबक्तव्यपद नहीं होता; इसलिए इसकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। विहारादिके समय देवोंके तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका अबक्तव्यपद एक तो मनुष्योंके होता है और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं, उनके होता है। इन सबके स्पर्शनका यदि विचार करते हैं, तो यह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, इसलिए यह क्षेत्रके समान कहा है।

५१४. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे

वेद-तिरिक्त्व०-इस्संठा०-इस्संघ०-तिरिक्त्वाणु०-दोविहा०-तिरिएणामभिभ्रयुग०-णीचा०  
तिरिएणप० इच्चो०। अत्रच० खेत्त०। सादासाद०-चद्रुणोक०-उज्जो०-थिरादितिण्यु०  
सन्वप० इच्चो०। दोआउ०-मणुसगदितिय-तित्य० सन्वपदा खेत्तं। मिच्छ० तिणिण-  
पदा इच्चो०। अवत्त० पंचचो०। एवं सन्वणेरइगाणं अप्पण्णो फोसणो णेदन्वो।

५१५. तिरिक्त्वेसु पंचणा०-इदंस०-अद्वक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण००४-  
अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० तिणिणप० सन्वलो०। यीणगिद्धि०३-अद्वक०-ओरा०  
तिणिणप० सन्वलो०। अत्रच० खेत्त०। साददंडओ ओघो। दोआउ०-वेउन्वियइ०

चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्थानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, तीन वेद, तिर्यञ्चगति, इह संस्थान, इह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके तीन युगल और नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अत्रचत्तुष्पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, उद्योत, और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगतित्रिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अत्रचत्तुष्पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें अपना-अपना स्पर्शन जानना चाहिए।

विशेषार्थ—नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद ही होते हैं। अन्यत्र भी जहाँ जो ध्रुव प्रकृतियों हैं, उनके यथासम्भव तीन पद ही होते हैं। और नारकियोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राज्ञप्रमाण है, इसलिए ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंकी अपेक्षा यह उक्तप्रमाण कहा है। स्थानगृद्धि आदि दूसरे दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंके तीन पदोंकी अपेक्षा और सातावेदनीय आदिक तीसरे दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा भी यही स्पर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके यथायोग्य पद नारकियोंके मारणान्तिक समुद्घातके समय और उपपाद पदके समय भी सम्भव हैं। मात्र दूसरे दण्डकमे कही गई प्रकृतियोंके अत्रचत्तुष्पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है, क्योंकि मारणान्तिक समुद्घातके समय या उपपादपदके समय इनमे से जो जहाँ बँधती हैं, उनका वहाँ अत्रचत्तुष्पद नहीं होता। मनुष्यगतित्रिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका मारणान्तिक समुद्घातके समय भी बन्ध होकर मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय ही होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातबँध भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। मिथ्यात्वका अत्रचत्तुष्पद छठे नरक तकके नारकियोंके मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, अतः इस अपेक्षासे कुछ कम पाँच बटे चौदह राज्ञप्रमाण स्पर्शन कहा है। सब नारकियोंमें अपने-अपने स्पर्शनका विचारकर इसी प्रकार स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

५१६. तिर्यञ्चो मे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस-शरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है। स्थानगृद्धिक, आठ कपाय, और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है। अत्रचत्तुष्पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय दण्डकका भ्रू ओघके समान है। द

ओषं । मिच्छ० तिण्णिप० ओषं । अवत्त० सत्तचोँ । मणुसाउ० चत्तारिप० लो० असंखेँ० सच्चलो० ।

५१६. पंचिदियतिरिक्ख ३ धुवियाणं तिण्णिपदा लो० असंखेँ० सच्चलो० । शीणगिद्धि० ३ अड्ढक०-णउंस०-तिरिक्ख०-एइदि०-ओरा०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर०-सुहुम-पज्जापज्ज०-पचे०-साधार०-दूम०-अणादें०-णीचा० तिण्णिप० लो० असंखेँ० सच्चलो० । अवत्त० खेंत्त० । सादासाद०-चटुणोक०-थिराथिर-सुभासुम० चत्तारिप० लो० असं० सच्चलो० । मिच्छ०-अजसं० तिण्णिप० लो० असं० सच्चलो० । अवत्त० सत्तचोँ । इत्थि० तिण्णिप० दिवड्ढचोँ । अवत्त० खेंत्त० । पुरिस०-दोगदि-सम-

आयु और वैक्रियिक छहका भङ्ग ओषके समान है । मिथ्यात्व के तीन पदोंका भङ्ग ओषके समान है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चों में पाँच ज्ञानाचरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । स्थानगृद्धि आदिके तीन पद एकेन्द्रियादि सबके सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा भी सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । मात्र इनका अवक्तव्य पद जो गुणस्थानप्रतिपन्न तिर्यञ्च इनके अवन्धक होकर पुनः नीचे आकर इनका बन्ध करते हैं, उनके होता है । ऐसे तिर्यञ्चोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे वह क्षेत्र के समान कहा है । यहाँ सातावेदनीय दण्डक, दो आयु और वैक्रियिक छहका भङ्ग ओषके समान है, यह स्पष्ट ही है । मिथ्यात्वके तीन पद एकेन्द्रियादि तिर्यञ्चोके सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन भी ओषके समान कहा है । मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद सब तिर्यञ्चोके सम्भव नहीं है, किन्तु जो गुणस्थानप्रतिपन्न तिर्यञ्च मिथ्यात्व में आते हैं, उनके ही सम्भव है और सासादन से मारणान्तिक समुद्रघात करते समय मिथ्यादृष्टि होकर ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें समुद्रघात करते समय होता है । ऐसे जीवोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजु प्रमाण उपलब्ध होता है, इसलिए इस अपेक्षा से यह उक्त प्रमाण कहा है । मनुष्यके चारों पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके सम्भव है, इसलिए इसके चारों पदोंकी अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है ।

५१६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, आठ कषाय, नमुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादिय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्व और अयशकीतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । औषके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया

१. आ०प्रती हुंड० पर० इति पाठः ।



चदु०-दोआणु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदें०-उच्चा०-तिष्णिप० छचों० । अवत्त० खेंत्त० ।  
 चत्तारिआउ०-मणुसगादि-तिष्णिजा०-चदुसंठा०-ओरा०अंगो०-छसंध०-मणुसाणु०-  
 आदाव० चत्तारिप० खेंत्त० । पंचि०-वेउ०-वेउ०अंगो०-तस० तिष्णिप०' बारहचों० ।  
 अवत्त० खेंत्त० । उजो०-जस० सन्धप० सत्तचों० । वादर० तिष्णिप० तेरह० । अवत्त०  
 खेंत्त० ।

हे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्र के समान है । पुरुषवेद, दो गति, समचतुरस्र-  
 संस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंके  
 बन्धक जीवांके कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके  
 बन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान,  
 औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके चार पदोंके बन्धक जीवांका  
 स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके  
 तीन पदोंके बन्धक जीवांके कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
 अवक्तव्यपदके बन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यज्ञऋत्तिके सब पदोंके  
 बन्धक जीवांके कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादरके तीन  
 पदोंके बन्धक जीवांके कुछ कम तेरह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य  
 पदके बन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और  
 अतीन स्पर्शन सब लोकप्रमाण होनेसे इनमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन  
 उक्त प्रमाण कहा है । यहाँ भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके ये हैं—पंच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण  
 अन्तकी आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपधात,  
 निर्माण और पाँच अन्तराय । स्थानगृद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन उक्त प्रकारसे ही  
 घटित कर लेना चाहिए । तथा यहाँ स्थानगृद्धि आदि प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद मारणान्तिक  
 समुद्घातके समय और उपपाद पदके समय सम्भव न होनेसे इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके  
 समान कहा है । सातावेदनीय आदिके चारों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग-  
 प्रमाण और सब लोकप्रमाण है, यह स्पष्ट ही है । इसी प्रकार मिथ्यात्व आदि दो प्रकृतियोंके तीन  
 पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । तथा इन दो प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद जित्त  
 प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके मिथ्यात्व पदकी अपेक्षा बतला आये है, उस अवस्थामें ही सम्भव है;  
 इसलिए इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है ।  
 देवियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी स्त्रीवेदका बन्ध होता है, इसलिए इसके तीन पदोंकी  
 अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है, पर ऐसी अवस्थामें इसका अवक्तव्य-  
 पद नहीं होता, इसलिए इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । देवोंमें और नारकियोंमें  
 मारणान्तिक समुद्घातके समय भी पुरुषवेद आदिका यथायोग्य बन्ध होता है, अतः इनके तीन  
 पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है, पर ऐसी अवस्थामें इनका  
 अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । चार आयु  
 आदिके सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एक तो चार  
 आयुओंके सब पद और शेष प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होते ।  
 और शेष प्रकृतियोंके तीन पद मारणान्तिक समुद्घातके समय होकर भी स्पर्शन लोकके असंख्या-

५१७. पंचि०तिरिक्ख०अपज्ज० पंचणा०णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-  
ओरा०-नेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिप०लो०असं० सव्वलो० ।  
सादासाद०-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ० चचारिप० लो० असंखें० सव्वलो० । इत्थि०-  
पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-चदुजा०-पंचसंठा०-ओरा०अंगो०-छसंध०-मणुसाणु०-  
आदाव०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर०-आदें०-उच्चा० सव्वप० लो० असं० । णवुंस०-  
तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर०-सुहुम०-पज्जत्तापज्ज०-पत्ते०-  
साधा०-दूभ०-अणा०-णीचा० तिण्णिप० लो० असं० सव्वलो० । अवत्त० खेंत्त० ।  
उज्जो०-जस० चचारिप० सत्तचोँ० । वादर० तिण्णिप० सत्तचोँ० । अवत्त० खेंत्त० ।  
अज्ज० तिण्णिप० लो० असं० सव्वलो० । अवत्त० सत्तचोँ० । एवं० सव्वअपज्ज०-सव्व-

तवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । देवोंमें और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इन पदोंकी अपेक्षा इनका स्पर्शन कुछ कम वादर बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । पर ऐसे समयमें इनका अवक्तव्य पद नहीं होता, इसलिए इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिके सब पद सम्भव हैं, इसलिए इनके सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । ऊपर सात और नीचे छह इस प्रकार कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूका स्पर्शन करते समय वादर प्रकृतिके तीन पद सम्भव होनेसे इसका तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । पर ऐसी अवस्थामें इसका अवक्तव्य पद सम्भव नहीं है, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।

५१७. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तकोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके चार पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच स्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह सहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायो-गति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है । वादरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, वादर प्रथिवीकाधिक

१. ता० प्रवौ सव्वलो० । एव इति पाठः ।

विगलिदि०-वाद्रपुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-पञ्जता०-वाद्रपत्ते०-पञ्जतगणं च । णवरि तेउ-  
वाऊणं मणुसगदिचदुकं वज्ज । वाऊणं जम्हि लोग० असखेज्ज० तम्हि लोग०  
सखेज्ज० ।

५१८. मणुस०३ पंचणा०-णवदंस०-सोलसक<sup>१</sup>-णवुंस०-भय-दु०-तिरिक्ख०-एइं-  
दि०-ओरा०-तेजा०-ऊ०-हुंड०-वण्ण०-४-तिरिक्खाणु०-अणु०-४-थावर०-सुहुम०-पञ्ज०-  
अपञ्ज०-पत्ते०-साधार०-दूम०-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० तिण्णिप० लो० असं०

पर्याप्त, वाद्र जलकायिक पर्याप्त, वाद्र अग्निकायिक पर्याप्त, वाद्र वायुकायिक पर्याप्त और वाद्र  
प्रत्येकगरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विगेषता है कि अग्निकायिक और वायु-  
कायिक जीवोंमें मनुष्यगतचतुष्कको छोड़कर यह स्पर्शन कहना चाहिए। तथा जहाँ पर लोकके  
असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है, वहाँ वायुकायिक जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण  
स्पर्शन कहना चाहिए।

**विशेषार्थ—**पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और  
सर्वलोकप्रमाण बतलाया है। इस सब स्पर्शनके समय इनके ज्ञानावरणादिके तीन पद और साता-  
वेदनीय आदिके चार पद सम्भव होनेसे यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च-  
अपर्याप्त पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें और मनुष्योंमें जब मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, तब भी स्त्रीवेद  
आदिका यथाव्योय वन्ध होता है, पर ऐसे जीवोंका स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण  
होनेसे इनके स्त्रीवेद आदिके सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है।  
यहाँ सब एकेन्द्रियोंमें यथाव्योय मारणान्तिक समुद्घात करते समय ननुसकवेद आदिके तीन पद  
सम्भव हैं, इसलिए यहाँ इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और  
सब लोकप्रमाण कहा है। पर ऐसे समयमें इनके इन प्रकृतियोंका अवच्छेद्यपद नहीं होता, इस-  
लिए इसकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। ऊपर वाद्र एकेन्द्रियोंमें  
भ्रूणान्तिक समुद्घात करते समय इनके उद्योत और यज्ञःकीतिके चार पद सम्भव हैं, इसलिए  
इन दो प्रकृतियोंके चार पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण घटित कर  
लेना चाहिए। पर इसका अवच्छेद्य पद मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, अतः इसकी  
अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। जो पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त सब एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक  
समुद्घात करते हैं, उनके भी अयज्ञःकीतिके तीन पद सम्भव हैं, अतः इस प्रकृतिके तीन पदोंकी  
अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा है। यहाँ सब अपर्याप्त  
आदि अन्य जितनी मार्गोपादे<sup>१</sup> कही हैं, उनमें यह स्पर्शन वन जाता है। इसलिए उनमें यह स्पर्शन  
पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र अग्निकायिक और वायु-  
कायिक जीवोंके मनुष्यगति आदि चारका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें इनका स्पर्शन नहीं  
कहना चाहिए। तथा वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण होनेसे  
इनमें लोकके असंख्यातवें भागके स्थानमें उक्त स्पर्शन कहना चाहिए।

५१८. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय, ननुसकवेद, भय,  
जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, आंदारिकगरीर, तैजसगरीर, कामगशरीर, हुण्डसस्थान,

१. ता०प्रती पंचणा० णवदंस० मिच्छ० सोलसक०, आ०प्रती पंचणा० छदंस० मिच्छ०  
सोलसक० इति पाठः ।

सव्वलो० । अवत्त० खेंत्त० । सादादिदंडओ मिच्छत्तदंडओ पंथि०तिरि०भंगो । इत्थि०-  
पुरि०-चटुआउ०-तिगादि-चटुजा०-वेउ०-आहार०-पंचसंठा०-तिण्णिअंगो०-उत्संसंघ०-ति-  
ण्णिआणु०-आदाव०-दोविहा०-त्तस-सुभग-दोसर०-आदें०-तित्थि० उच्चा० चत्तारिप०  
खेंत्तभंगो । उज्जो०-जस० चत्तारिप० वादर० तिण्णिप० सत्तचोँ । अवत्त० खेंत्त-  
भंगो ।

५१९. देवेसु धुविगाणं तिण्णिप० अट्ट-णव० । धीणिगिदि०३-अणंताणु०४-  
णत्तुस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खणु०-थावर०-दूभग०-अणादें०-णीचा० तिण्णि-  
प० अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचोँ । सादासाद०-मिच्छ०-चटुणोकसाय-उज्जो०-यिरादि-  
तिण्णिणु० सव्वप० अट्ट-णव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुसग०-पंचि०-पंचसंठा०-

वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय आदि दण्डक और मिथ्यात्वदण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है। छीवेद, पुरुषवेद, चार आयु, तीन गति, चार जाति, वैश्रि-  
यिकशरीर, आहारकशरीर, पाँच संस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, द्रो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीतिके चार पदोंके तथा वादरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण स्पर्शन है। इनके पाँच ज्ञानावरणादिके तीन पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन वन जानेसे यह उक्तप्रमाण कहा है। पर यहाँ इनका अवक्तव्य पद सब लोकप्रमाण स्पर्शनके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। कारणका विचार कर कथन कर लेना चाहिए। सातावेदनीयदण्डक और मिथ्यात्वदण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ सातादण्डकसे सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका तथा मिथ्यात्वदण्डकसे मिथ्यात्व और अयशःकीतिका ग्रहण होता है। इनमें छीवेद आदिके चारों पद यथायोग्य लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शनके समय ही होते हैं, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनके उद्योत और यशःकीतिके चार पद और वादरके तीन पद सम्भव हैं, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। पर ऐसी अवस्थामें वादर प्रकृतिका अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है।

५१९. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसस्थान, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असाता-

ओरा०अंगो०छस्संघ०मणुसाणु०आदा०दोविहा०तस०सुभग-दोसर०आदें०उच्चा०  
सव्वप० अट्टचोँ । तित्थय० तिण्णिप० अट्टचोँ । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो  
फोसणं णेदव्वं ।

५२०. एहंदि०पुढ०आउ०<sup>१</sup>तेउ०-याउ० तेसिं चैव वादर-वादरपत्ते० तेसिं चैव  
अपज्ज० सव्ववणण्णदि-णियोद० सव्वसुहुमाणं च खेंत्तभंगो । णवरि मणुसाउ० सव्व्वाणं  
तिरिक्खोघं । उज्जो०जस० सव्वप० सत्तचोँ० । एवं वादर० । णवरि अवत्त० खेंत्त० ।  
अजस० तिण्णिपदा सव्वलो० । अवत्त० सत्तचोँ० ।

वेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकपाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक  
आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय  
और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिये।

**विशेषार्थ**—देवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू व कुछ कम नौ बटे चौदह  
राजूप्रमाण है। ध्रुवबन्धवाली और स्थानगृद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा तथा सातावेदनीय  
आदि के चार पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन बन जाता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र  
स्थानगृद्धि आदिका अवक्तव्य पद एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्धानके समय सम्भव न होनेसे  
इसकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। यहाँ ध्रुवबन्धनी प्रकृतियों  
ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकगरीर, तैजस-  
शरीर, कामर्णशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच  
अन्तराय। स्त्रीवेद आदि के चारों पदोंकी अपेक्षा और तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंकी अपेक्षा  
स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यहाँ जो अन्य  
विशेषता है, वह अलगसे जान लेनी चाहिए। सब देवोंका जो अलग-अलग स्पर्शन है, उसे समझ  
कर तदनुसार उनमें भी यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

५२०. एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके  
वादर, वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक और इन सबके अपर्याप्त, सब वनस्पतिकायिक, निर्गोद  
और सब सूक्ष्म जीवोंके क्षेत्रके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इन सबके मनुष्यायुका  
भङ्ग सामान्य तीर्थङ्गके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार वादर प्रकृतिका जानना  
चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।  
अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा  
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

**विशेषार्थ**—यहाँ एकेन्द्रिय और पृथिवीकाय आदिके जितने प्रकार बतलाये हैं, उनमें सब  
प्रकृतियोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन और क्षेत्रमे अन्तर नहीं होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा  
है। मात्र मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव थोड़े होते हैं। इसलिए यहाँ इसके सब पदोंकी  
अपेक्षा स्पर्शन सामान्य तीर्थङ्गके समान कहा है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पद तथा वादर

५२१. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-छदंस०-अडुक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-  
अगु०४-पज्ज०-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० तिण्णिप० अट्ट० सव्वलो० । अवत्त०  
खैंत्त० । शीणागि०३-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-  
धावर०-दूमग०-अणादे०-शीचा० तिण्णिप० लो० असं० अट्ट० सव्वलो० । अवत्त०  
अट्ट० । सादासाद०-चटुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ० चत्तारिप० अट्ट० सव्वलो० ।  
[ मिच्छत्त० तिण्णिपदा० अट्टचो० सव्वलो० । ] अवत्त० अट्ट-वारह० । अपच्च-  
क्खणाण०४ तिण्णिप० अट्ट० सव्वलो० । अवत्त० छच्चो० । इत्थि०-पुरिस०-पंचि-पंच-  
संठा<sup>१</sup>-ओरा०-अंगो०-चटुस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर०-आदे० तिण्णिप० अट्ट-  
वारह० । अवत्त० अट्टचो० । गिरय-देवाउ<sup>२</sup>-तिण्णिजा०-आहार०२ सव्वपदा खैंत्तं ।

के तीन पद ऊपर वावर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय सम्भव होनेसे यह स्पर्शन कुछ कम सात वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । किन्तु वादरका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें सम्भव नहीं है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । अयशःकीतिके तीन पद उक्त जीवोंके सब अवस्थानोंमें सम्भव हैं, इसलिए इसके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । पर इसके अवक्तव्यपदका वर्तमान स्पर्शन लोकके असख्यातवें भागप्रमाण ही है । हों, ये जीव जब ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते हैं, तब भी इसका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका भी स्पर्शन कुछ कम सात वटे चौदह राजूप्रमाण कहा है ।

५२१. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसगरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुल्लघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । स्थानगृद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चार, नपुसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातवें भागप्रमाण, कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू-प्रमाण क्षेत्रका और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गो-पाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकाउ, देवायु, तीन जाति और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके

१. आ० प्रतौ पुत्सि० पंच० पंचसंठा० इति पाठः । २. आ० प्रतौ अवत्त० गिरयदेवाउ इति पाठः ।

दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव०-उच्चा० सव्वपदा० अट्टचो० । गिरय-देवगदि-  
दोआणु० तिण्णिप० छचो० । अवत्त० खेंत्त० । ओरालि० तिण्णिप० अट्ट० सव्वलो० ।  
अवत्त० चारह० । वेउळ्वि०-वेउळ्वि०अंगो० तिण्णिप० चारहचो० । अवत्त० खेंत्त० ।  
उज्जो०-जस सव्वप० अट्ट-तेरह० । वादर० तिण्णिप० अट्ट-तेरह० । अवत्त० खेंत्त० ।  
सुहुम०-अपज्ज०-साधा० तिण्णिप० लो० असं० सव्वलो० । अवत्त० खेंत्त० । अजसु०  
तिण्णिप० अट्टचो० सव्वलो० । अवत्त० अट्ट-तेरह० । तित्थ०-तिण्णिप० अट्टचो० ।  
अवत्त० खेंत्त० । एवं पंचिदियभंगो पंचवचि०-चक्खु०-सण्णि ति । कायलोगि-कोघादि०-ध-  
अचक्खु०-भवसि०-आहारए ति ओवभंगो ।

समान है । दो आणु; ननुष्यगति; ननुष्यगत्याणुपूर्वी; आतप और उच्चोत्रके सब पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरन्धाति-देवगति और दो आणुपूर्वकी तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चोदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवत्तक्यपदके वन्धक जीवोंका दर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिक शरीरके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजू और सब लोक्षप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवत्तक्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम चारह वटे चोदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैकियिकशरीर और वैकियिक आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम चारह वटे चोदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवत्तक्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यशःकीतिके सब पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चोदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वादरके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजू और कुछ कम तेरह वटे चोदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवत्तक्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । धुन्न; अपवांन और साधारणके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने लोचके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक्षप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवत्तक्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीतिके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजू और सब लोक्षप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवत्तक्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजू और सब लोक्षप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवत्तक्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजू और सब लोक्षप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंके वन्धक जीवों ने कुछ कम आठ वटे चोदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवत्तक्यपदके वन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियोंके समान पाँचो मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, चक्षुदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । जाययोगी, क्रोधादि चार उपायवाले, अचक्षु दर्शनी, भय और आहारक जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंका विहारादिकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चोदह राजू और नारगान्तिकपदकी अपेक्षा स्पर्शन सब लोक्षप्रमाण है । इनलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । मात्र इन प्रकृतियोंका अवत्तक्यपद इन नार्गणाओंमें ओषके समान होनेसे अवत्तक्यपदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । इन नार्गणाओंमें स्थानगृद्धि तीन आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोचके असंख्यातवें भागप्रमाण, विहारादिकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चोदह राजूप्रमाण और नारगान्तिक सदुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन सर्वलोक्षप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है ।

१. अ० प्रती आठव उज्जो० सव्वदा इति पाठः । २. अ० प्रती अट्टतेरह० अवत्त० अट्टतेरह० रूपत्र० इति पाठः ।

यहाँ इनका अवकल्प्यपद विद्यारणिके समय भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवकल्प्य-पदकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। सातावेदनीय आदिके चारों पद विद्यारणिके समय और नारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव होनेसे इनके चारों पदोंके अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्र और सब लोकप्रमाण कहा है। अप्रत्याप्या-नवरण चतुष्के तीन पदोंकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्रमाग और सब लोकप्रमाण स्वर्गन पाँच ज्ञानावरणआदिके समान घटित कर लेना चाहिये। तथा जो संयतासंयत आदि मर कर देवोंमें स्वरूप होते हैं, उनके प्रथम समयमें इनका अवकल्प्यपद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवकल्प्यपदका स्वर्गन कुछ कम छह बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। देवोंमें विद्यारणिके समय और देवों व नारकियोंके मनुष्यों व विषयोंमें नारणान्तिक समुद्घातके समय अपेक्षा आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्रमाग और कुछ कम बारह बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। किन्तु नारणान्तिक समुद्घातके समय इनका अवकल्प्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवकल्प्यपदकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। नरकायु आदिके सब पदोंकी अपेक्षा स्वर्गन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। शेष दो आयु और मनुष्यगति आदिके सब पदोंका स्वयं देवोंमें विद्यारणिके समय भी सम्भव होनेसे यह कुछ आठ बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। विषयों और मनुष्योंके नारकियोंमें नारणान्तिक समुद्घातके समय नरकगतिद्विकके और देवोंमें नारणान्तिक समुद्घात करते समय देवगतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम छह बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। मात्र ऐसे समयमें इन प्रकृतियोंका अवकल्प्यपद नहीं होता, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्वर्गन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंमें विद्यारणिके समय और सब एकेन्द्रियोंमें औदारिकशरीरके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इसके तीन पदोंकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्रमाग और सर्वलोकप्रमाण कहा है। मात्र मुख्यतः जो विषय और मनुष्य मर कर नारकियों और देवोंमें स्वरूप होते हैं, उनके प्रथम समयमें इसका अवकल्प्यपद होता है। इसलिए इसके अवकल्प्यपदकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम बारह बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। मनुष्यों और विषयोंके नारकियों और देवोंमें नारणान्तिक समुद्घातके समय भी वैकल्पिकद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम बारह बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। पर ऐसे समय में इनका अवकल्प्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्वर्गन क्षेत्रके समान कहा है। उद्योग और यथाक्रीतिके सब पदोंका स्वयं विद्यारणिके समय और नीचे कुछ कम छह राजसूत्र व ऊपर कुछ कम सात राजसूत्रमाग स्वर्गनके समय भी सम्भव होनेसे इनके सब पदोंकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्र और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। इसी प्रकार वादर प्रकृतिके तीन पदोंकी अपेक्षा स्वर्गन घटित कर लेना चाहिये। मात्र ऐसे समयमें इसका अवकल्प्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इसके अवकल्प्यपदकी अपेक्षा स्वर्गन क्षेत्रके समान कहा है। मूलादिके तीन पदोंकी अपेक्षा वर्तमान स्वर्गन लोकके असंख्यातवर्ष नारणान्तिक और अज्ञात स्वर्गन सर्व लोकप्रमाण होनेसे यह लोकप्रमाण कहा है। तथा इनके अवकल्प्यपदके अपेक्षा स्वर्गन क्षेत्रके समान है, यह स्पष्ट ही है। विद्यारणिके समय और सब एकेन्द्रियोंमें नारकियोंके तीन पद सम्भव होनेसे इसके तीन पदोंकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्रमाग और सर्वलोकप्रमाण कहा है। तथा इसके अवकल्प्यपदकी अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्र और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजसूत्र यथाक्रीतिके समान ज्ञान लेना चाहिये। तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पद विद्यारणिके समय सम्भव होनेसे इसके तीन पदोंके अपेक्षा स्वर्गन कुछ कम आठ बटे चौदह राजसूत्रमाग कहा है। तथा ऐसे समयमें इसका अवकल्प्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इस अपेक्षासे स्वर्गन क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ



५२२. औरालि० पंचणा०-गवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-तेजा०-  
क०-व्रण०४-अगु०-उप०-गिमि०-पंचंत० तिण्णिप० सञ्जलो० । अवत्त० खैंत्त० ।  
णवरि मिच्छत्तस्स अवत्त० सत्तचोई० । सादादिदंडओ ओधं । सेसं तिरिक्खोषं । ओरा-  
लियमि० धुविगाणं तिण्णिप० सञ्जलो० । सादादिदंडओ ओधं । मणुसाउ० तिरिक्खोषं ।  
देवगादिपंचगस्स सञ्जपदा खैंत्तभंगो । मिच्छ० तिण्णिप० गाणा०भंगो । अवत्त० खैंत्त० ।

५२३. वेउज्वियका० धुविगाणं तिण्णिप० अट्-तेरह० । थीणगि०३-अणंताणु०  
४-णवुंस०-तिरिक्ख०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-दुभ०-अणादें०-गीचा० तिण्णिप० अट्-  
तेरह० । अवत्त० अट्चो० । सादासाद०-चट्टुणोक०-उज्जो०-थिरादिदिण्णियु० सञ्जप०  
अट्-तेरह० । मिच्छ० तिण्णिप० अट्-तेरह० । अवत्त०<sup>१</sup> अट्-वारह० । इत्थि०-पुरिस०-

पॉच मनोयोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ हैं, उनमें यह स्पर्शन अविकल बन जाता है। इस-  
लिए उनमें पंचेन्द्रियोंके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है। तथा काययोगी आदि मार्ग-  
णाओंमें ओषधप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओषधके समान जाननेकी सूचना की  
है। इसी प्रकार आगे भी मार्गणाओंमें अपने-अपने स्वामित्वको जानकर स्पर्शन घटित कर  
लेना चाहिए। जहाँ विशेषता होगी, उसका निर्देश करेंगे।

५२२. औदारिककाययोगी जीवोंमें पॉच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह  
कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुत्व, उप-  
घात, निर्माण और पॉच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि  
मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम सात बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन  
किया है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओषधके समान है। शेष भङ्ग सामान्य तिर्यचोंके  
समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक  
जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओषधके  
समान है। मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यचोंके समान है। देवगतिपंचकके सब पदोंके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ज्ञानावरणके  
समान है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

५२३. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने  
कुछ कम आठ बटे चौदह राज्ञ और कुछ कम तेरह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया  
है। स्थानगुद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यचगत्या-  
नुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह  
राज्ञ और कुछ कम तेरह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असाता-  
वेदनीय, चार नोकषाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ  
कम आठ बटे चौदह राज्ञ और कुछ कम तेरह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।  
मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राज्ञ और कुछ कम तेरह बटे  
चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे  
चौदह राज्ञ और कुछ कम वारह बटे चौदह राज्ञप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद,

पंचि०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णिप०  
अट्ट-वारह० । अवत्त० अट्टचो० । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदा०-उच्चा० सच्चप०  
अट्टचो० । एइंदि०-थावर० तिण्णिप० अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचो० । तिस्थ० ओधं ।  
वेउच्चियमि०-आहार०-आहारमि० खेंत्तभंगो ।

५२४. कम्मइ० धुविगाणं तिण्णिप० सच्चलो० । सेसं ओरालियमि०-भंगो । णवरि  
मिच्छ० अवत्त० एक्कारह० ।

५२५. इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिप० लो० असं०  
अट्टचो० सच्चलो० । धीणागिद्धि०-३-अणंताणु०-४-णखुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-  
तिरिक्खाणु०-थावर-दुभग-अणादे०-णीचा० तिण्णिप० अट्टचो० सच्चलो० । अवत्त०  
अट्टचो० । णिहा-पयला-अट्टक०<sup>१</sup>-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-४-पज्जत्त-पत्ते०-  
णिमि० तिण्णिप० अट्टचो० सच्चलो० । अवत्त० खेंत्त० । [सादासाद०-चदुपोक०-थिरा-

पुरुषवेद, पंचेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम बारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप और लक्षगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और कुछ कम नौ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाय-योगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

५२४. कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—तीचे पाँच राजू और ऊपर छह राजू इस प्रकार मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा कुछ कम ग्यारह वटे चौदह राजू स्पर्शन जानना चाहिए ।

५२५. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असख्यातवे भागप्रमाण, कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यचगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भंग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर,

१. ता० प्रतो णिहा पयल य० ( १ ) अट्टक०, आ०प्रतो णिहा पयल य० अट्टक० इति पाठः ।

थिर-सुभासुभं चत्तारिपदां अद्वचों सव्वलो० ।] मिच्छ० तिण्णिप० अद्वचों  
 तव्वलो० । अवत्त० अद्व-णव० । दोआउ०-इत्थि०-पुरिस०-मणुस०-पंचसंठा०-ओरालि०-  
 अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु-आदाव-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० सव्वपदा अद्व-  
 चों । दोआउ०-तिण्णिजा०-आहार०२-तित्थ० सव्वप० खेंत्त० । दोगदि-दोआणु०  
 तिण्णिप० छचों । अवत्त० खेंत्त० । पंचि०-अप्पसत्थ०-तस-दूसर० तिण्णिप० अद्व-  
 वारह० । अवत्त० अद्वचोंद० । ओरालि० तिण्णिप० अद्व० सव्वलो० । अवत्त० दिवड्ड-  
 चों । [विउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० तिण्णिप० वारहचों० । अवत्त० खेंत्त० ।] उजो०-  
 जस० सव्वप० अद्व-णव० । बादर० तिण्णिप० अद्व-तेरह० । अवत्त० खेंत्त० । सुहुम-  
 अपज्ज०-साधार० तिण्णिप० लो० असंखें० सव्वलो० । अवत्त० खेंत्त० । [अजस०  
 तिण्णिप० अद्वचों० सव्वलो० । अवत्त० अद्व-णवचों० ] पुरिसेसु इत्थिभंगो । णवरि  
 अपच्चन्नाण०४-ओरालि० अवत्त० लो० असं० छचों० । तित्थ० ओघं ।

शुभ और अशुभके चारों पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो गति और दो आनुपूर्वीके तीन-पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पंचेन्द्रियजाति, अप्रशस्त विहायगति, त्रस और दुःस्वरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाणक्षेत्रका स्पर्शन किया है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधा किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदी जीवोंने स्त्रीवेदी जीवोंके समान भन्न बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदी जीवोंने स्त्रीवेदी जीवोंके समान भन्न बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन

५२६, णडुंस० पंचणा०—चदुदंस०—चदुसंज०<sup>१</sup>—पंचंत० तिण्णिप० सन्वल० ।  
 पंचदंस०—वारसक०—भय-डु०—तेजा०—क-वण्ण०४—अगु०—उप०—णिमि० तिण्णिप०  
 सन्वल० । अवत्त०<sup>२</sup> खेंत्त० । सादादिदंडओ ओधं । मिच्छ० तिण्णिप० सन्वल० ।  
 अवत्त० वारह० । दोआउ०—आहार०२—तित्थ० खेंत्तभंगो मणुसाउ०—वेउव्वियळ०  
 तिरिक्खोधं । ओरालि० तिण्णिप० सन्वल० । अवत्त० छच्चो० । अवगद० सन्वपग०  
 झुज०—अप्य०—अवत्त० खेंत्तभंगो ।

क्रिया है । तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग ओषके समान है ।

५२६. ननुसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच दर्शनावरण, वारह कथाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओषके समान है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम वारह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायु और वैक्रियिक छहके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—नीचे छठे नरक तक के नारकी मनुष्य व तिर्यञ्चोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय तथा तिर्यञ्च और मनुष्य ऊपर वादर एकोन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय यदि मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध करे, तो सब मिलाकर कुछ कम वारह बटे चौदह राजुप्रमाण इस पदका अपेक्षा स्पर्शन प्राप्त होता है, यह देखकर यहाँ मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । पहले औदारिककाययोगमें और वैक्रियिककाययोगमें कुछ कम सात बटे चौदह राजुप्रमाण यह स्पर्शन कह आये हैं सो वहाँ भी ऊपर वादर एकोन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करा कर ले आना चाहिए । पहले कामणकाययोगमें यह स्पर्शन कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजुप्रमाण कह आये हैं । ऊपर सात राजु तो स्पष्ट हैं । नीचे जो पाँच राजु कहे हैं सो उसका अभिप्राय है कि जो सातवें नरकका नारकी सन्यक्त्व या सासादनसे मिथ्यात्वमें आता है, वह मरकर उची समय कामणकाययोगी नहीं हो सकता । यह पात्रता छठे नरक तक ही सम्भव है । आशय यह है कि कामणकाययोगके प्राप्त होनेके पूर्व समयमें सन्यग्दृष्टि या सासादनसन्यग्दृष्टि हो और कामणकाययोगमें मिथ्यादृष्टि हो, यह पात्रता छठे नरक तक से मरनेवाले नारकीके ही हो सकती है । यही कारण है कि नीचे यह स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है । यह तो स्पष्ट है कि सासादनसन्यग्दृष्टि जीव मर कर नरकके सिवा तीन गतिमें उत्पन्न होता है और इन गतियोंमें उत्पन्न होने पर क्रमसे दो में औदारिकमिश्रकाययोग और देवों में वैक्रियिकमिश्रकाययोग होता है । तथा इन योगोंके रहते हुए ही मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त होने पर प्रथम समयमें मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध भी होता है । यही कारण है कि इन दोनों योगोंमें

१. ता० प्रती चहुन ( दंस० ) चहुत्तज० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः तिण्णिप० अठतेरह० क्वत्त० इति पाठः ।

५२७. मदि०-सुद० ध्रुविगाणं भुज०-अप्प०-अवद्वि० सव्वलो० । सेसं ओघं । णवरि  
देवगदि-देवाणु० तिण्णिप० पंचचो० । अवत्त० खेंत्त० । ओरालि० तिण्णिप०  
सव्वलो० । अवत्त० एँकारह० । वेउ०-वेउ०अंगो० तिण्णिप० एँकारह० । अवत्त०  
खेंत्त० । विभंगे ध्रुविगाणं तिण्णिप० अट्ट० सव्वलो० । सेसं पंचिदियभंगो । णवरि  
वेउ०छ० मदि०भंगो । ओरालि० अवत्त० खेंत्त० ।

५२८. आभिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-पुरिस०-मय-  
दु०-मणुस०-पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरा०अंगो०-वज्जरी०-

मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । आवश्यक समझकर  
यहाँ यह प्रासंगिक स्पष्टीकरण किया है ।

५२७. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर  
और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष भङ्ग ओघके  
समान है । इतनी विशेषता है कि देवगति और देवगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने  
कुछ कम पाँच बटे चौदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजप्रमाण क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गीपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ  
कम ग्यारह बटे चौदह राजप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका  
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक  
जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष  
भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिक छहका भङ्ग मत्स्यज्ञानी जीवोंके  
समान है । तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—जो तिर्यञ्च और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके  
देवगतिद्विकका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्ध सन्भव है । किन्तु यह सहस्रारफल्प  
तक मारणान्तिक समुद्घात करनेवालेके ही होता है, आगेके देवोंमें यह समुद्घात करनेवालेके  
नहीं; क्योंकि आगेके देवोंमें ऐसे मनुष्य और तिर्यञ्च ही मारणान्तिक समुद्घात करते हैं जो  
विशुद्ध परिणामवाले होते हैं। अतः इनके इन पदोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदह राज-  
प्रमाण कहा है । तथा देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय देवगतिद्विकका नियमसे बन्ध  
होता है, अतः इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । सभी  
एकेन्द्रिय जीव औदारिकशरीरका नियमसे बन्ध करते हैं। अतः इसके तीन पदोंके बन्धक  
जीवोंका स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है । जो तिर्यञ्च और मनुष्य सासादनमें आकर मरते हैं  
और विग्रहगतिमें औदारिकशरीरका अवक्तव्यबन्ध करते हैं, उनके अवक्तव्य बन्धका स्पर्शन कुछ  
कम ग्यारह बटे चौदह राजप्रमाण उपलब्ध होनेसे वह उत्कप्रमाण कहा है । देवगतिद्विकके  
समान वैक्रियिकशरीरद्विकका सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । मात्र  
इसमें नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवालोंका तीन पदोंकी अपेक्षा कुछ कम छह  
राजू स्पर्शन और मिला लेना चाहिए । इसी कारणसे यहाँ इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन  
कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५२८. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण,  
छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक-  
शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गीपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच

वृष्ण०४-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्य०-तस० ४-सुभग-सुत्सर-आदें०-गिभि०-  
तित्य०-उच्च।०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवट्टि० अट्टचों० । अवत्त० खेंत्त० । णवरि  
मणुसगदिपंचग० अवत्त० छच्चों० । सादासाद०-चट्टुणोक्क०-मणुसाउ०-थिरादि-  
तिण्णियु० चत्तारिपदा० अट्टचों०<sup>१</sup> । अपच्चक्खणाण०४ तिण्णियु० अट्टचों० । अवत्त०  
छच्चों० । देवाउ०-आहार०२ ओषं । देवगदि०४ तिण्णियु० छच्चों० । अवत्त०  
खेंत्त० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग० । मणपज्ज०-संजद० याव सुहुमसं० खेंत्त-  
भंगो ।

५२९. संजदासंज० धुविगाणं सच्चप० छच्चों० । देवाउ०-तित्य० सच्चप०

संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलधुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुत्तर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वट्टे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति-पञ्चकके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वट्टे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, मनुष्यायु और स्थिर आदि तीन युगलके चारों पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वट्टे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वट्टे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वट्टे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग ओषके समान है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वट्टे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी और सयत जीवोंसे लेकर सूक्ष्म-साम्परायसंयत तकके जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—सयत मनुष्योंके तथा सयतासयत और असयतसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्योंके मर कर देवोंमें उत्पन्न होने पर मनुष्यगतिपञ्चकका अवक्तव्यवन्ध होता है । यतः इनका स्पर्शन कुछ कम छह वट्टे चौदह राजूप्रमाण उपलब्ध होता है । अत यहाँ मनुष्यगति-पञ्चकके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । असयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य मर कर प्रथम नरकमें भी जाते हैं और ऐसे जीवोंके भी प्रथम समयमें उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्य वन्ध होता है, पर इससे उक्त स्पर्शनमें कोई अन्तर नहीं आता, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिये । सयत और सयतासयत जीवोंके मर कर देव होने पर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अवक्तव्यवन्ध होता है और इनका स्पर्शन भी कुछ कम छह वट्टे चौदह राजूप्रमाण है । अत इनके अवक्तव्यवन्धका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । यद्यपि सयत मनुष्योंके और सयता-सयत तिर्यञ्च व मनुष्योंके असयत सम्यग्दृष्टि होने पर भी अप्रत्याख्यानावरण चारका अवक्तव्य वन्ध होता है, पर यह स्पर्शन पूर्वोक्त स्पर्शनमें सम्मिलित है, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिये । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५२९. सयतासयत जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वट्टे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और तीर्थङ्करके सब

१. ता० प्रती चत्तारिस् ( पदा )० अट्टचो०, आ० प्रती चत्तारिस् अट्टचो० इति पाठः ।

खैत्तभंगो । सेसाणं चत्तारिप० छच्चो० । असंजदेसु धुवियाणं तिण्णिप० सव्वलो० । सेसं ओषं ।

५३०. किण्ण-णील-काऊणं धुवियाणं तिण्णिप० सव्वलो० । [मिच्छत्त० तिण्णि-पदा० सव्वलो० ] अवत्त० पं०-चत्तारि-वेच्चो० । दोआउ०-देवगदिदुगं सव्वपदा खैत्त० । मणुसाउ० तिरिक्खोषं । थीणमि०३-अणंताणु०४ तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त० खैत्त० । सादादिदंडओ ओषं । गिरय०-वेउच्चि०-<sup>१</sup>वेउच्चि०अंगो-गिरयाणु० तिण्णिप० छच्चत्तारि-वेच्चो० । अवत्त० खैत्त० । ओरालि०<sup>२</sup> तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त० छच्चत्तारि-वेच्चो० । तित्थ० तिण्णिप० खैत्त० । काऊए तित्थ० गिरयभंगो ।

पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंयतोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष भङ्ग ओषके समान है ।

५३०. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यामे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजू, कुछ कम चार बटे चौदह राजू और कुछ कम दो बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और देवगतिद्विकके सब पदोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । स्थानगृद्धि तीन और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग ओषके समान है । नरकगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजू, कुछ कम चार बटे चौदह राजू और कुछ कम दो बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजू, कुछ कम चार बटे चौदह राजू और कुछ कम दो बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । कापोतलेश्यामे तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—सातवें नरकका नारकी नियमसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मरण करता है । वहाँसे मरकर अन्य गतिमें उत्पन्न होते समय मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं बन सकता । यही कारण है कि यहाँ कृष्णलेश्यामें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । नील और कापोत लेश्यामे मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्पर्शन कुछ कम चार बटे चौदह राजू और कुछ कम दो बटे चौदह राजू क्रमसे पाँचवें और तीसरे नरकसे मर कर और तिर्यञ्चो व मनुष्योंमें उत्पन्न होने पर मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध करनेवालोंकी अपेक्षा कहा है । इन लेश्याओंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका इससे अधिक स्पर्शन अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । इसी प्रकार औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका स्पर्शन उक्त लेश्याओंमें छे आना चाहिये । मात्र यह स्पर्शन तिर्यञ्चो और मनुष्योंके नरकमें उत्पन्न करा कर प्रथम समयमें प्राप्त

१. आ० प्रती ओष । वेउच्चि० इति पाठः । २. आ० प्रती अवत्त० खेत्त० ओरालि० तिण्णिप० सव्वलो० । अवत्त० छच्चत्तारि-वेच्चोद० । अवत्त० खेत्त० । ओरालि० इति पाठः ।

५३१. तेउ० धुवियाणं तिण्णप० अट्ट-णव० । धीणमि०३-अर्णताणु०४-  
णनुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-णीचा०  
तिण्णप० अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचो० । सादासाद०-मिच्छ०-चट्ठणोक०-उज्जो०-  
धिरादितिण्णयु० चत्तारिप० अट्ट-णव० । अपच्चक्खाण०४-ओरालि० तिण्णप०  
अट्ट-णव० । अवत्त० दिवड्डुचो० । इत्थि०-पुरिसि०-दोआउ०-मणुस०-पंचि०-पंच-  
संठा०-ओरा०अंगो०-ल्लसंसघ०-मणुसाणु०-आदा०-दोविहा०-तस०-सुभग-दोसर-  
आदे०-उच्चा० चत्तारिप० अट्टचो० । देवाउ०-आहार०२-तित्थि० ओघं । देवगदि०  
४ तिण्णप० दिवड्डुचो० । अवत्त० खेत्त० । एवं पम्माए वि । णवरि अपच्चक्खाण०  
४-ओरा०-ओरा०अंगो० अवत्त० पंचचो० । देवगदि०४ तिण्णप० पंचचो० ।

करना चाहिये । तथा जो तिर्यञ्च या मनुष्य मर कर सातवे नरकमें गमन करता है उसके भी यह स्पर्शन सम्भव है, अतः कृष्ण लेश्यामे यह कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । यद्यपि सामान्य नारकियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है फिर भी यहाँ कृष्ण और नील लेश्यामें क्षेत्रके समान और कापोत लेश्यामें नारकियोंके समान कहने का कारण यह है कि कृष्ण और नीललेश्यामें नारकियोंके तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । इन लेश्याओंमें केवल मनुष्योंके ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध होता है, इसलिए इन लेश्याओंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोका जो क्षेत्र कहा है उसी प्रकार यहाँ स्पर्शन कहा है । तथा कापोत लेश्यामें नारकियोंके भी तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध होता है, इसलिए यह नारकियोंके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५३१. पीतलेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानयुद्धि तीन, अनन्तानुबन्धी चार, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकषाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलके चार पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिकशरीरके तीन पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम नौ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके चार पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोंने डेढ़ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चार, औदारिकशरीर और औदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह



अवच० खेच० । सेसाणं सव्वप० अट्टचो० ।

५३२. सुकाए पंचणा०—छदंस०—अट्टक०—भय—दु०—देवग०—पंचि०—तिणि—  
शरीर—वेउ० अंगो०—वण्ण०४—देवाणु०—अणु०४—तस० ४—णिमि०—तित्थ०—पंचंत०

राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

**विशेषार्थ**—जो पीतलेइयावाले जीव ऊपर देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके उस समय स्थानगृद्धि तीन आदिका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, इसलिए इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। मात्र सातावेदनीय, असातावेदनीय और मिथ्यात्व आदिका अवक्तव्यबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। यहाँ एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय अनन्तानुबन्धीका अवक्तव्यबन्ध नहीं कराया है और मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध कराया है। इससे स्पष्ट है कि सासादन गुणस्थानवाला जीव सासादनको प्राप्त करते समय प्रारम्भिक कालमें एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं करता और इसलिए वह भर भर एकेन्द्रियोंमें जन्म भी नहीं लेता। किन्तु ऐसा जीव मिथ्यादृष्टि होकर प्रथम समयमें ही एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर सकता है—यह मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धके स्पर्शनसे ही स्पष्ट है। पीतलेइयाके साथ तिर्यञ्च और मनुष्य यदि देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करें तो कुछ स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण होता है। इसीसे अपत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्यपदका स्पर्शन कुछ कम डेढ़ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। यहाँ संयत मनुष्योंको और संयतासंयत तिर्यञ्चों और मनुष्योंको मारणान्तिक समुद्घात करनेके प्रथम समयमें असंयत कराके यह स्पर्शन लाना चाहिए। किन्तु ऐसे तिर्यञ्चों और मनुष्योंके मारणान्तिक समुद्घातके समय देवगतिचतुष्कका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यबन्धका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है, क्योंकि जो देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, उनके पहलेसे ही इन प्रकृतियोंका बन्ध होता रहता है। पद्मलेइयामें कुछ कम नौ बटे चौदह राजुप्रमाण स्पर्शन नहीं होता, क्योंकि इस लेइयावाले जीव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते, इसलिए कुछ प्रकृतियोंको छोड़कर इस लेइयामें शेष सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण कहा है। जिन प्रकृतियोंके सम्बन्धमें विशेषता है, उसका लुलासा इस प्रकार है—अपत्याख्यानावरणका बन्ध नहीं करनेवाले तिर्यञ्च और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेके प्रथम समयमें असंयत होकर इनका बन्ध करें, यह सम्भव है और ऐसे जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदह राजुप्रमाण है, अतः यहाँ इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। तिर्यञ्च और मनुष्य देवोंमें जन्म लेनेके प्रथम समयमें औदारिकद्विकका नियमसे अवक्तव्यबन्ध करते हैं और पद्मलेइयामें ऐसे जीवोंका भी स्पर्शन कुछ कम पाँच राजुप्रमाण होता है, अतः यह भी उक्त प्रमाण कहा है। देवगतिचतुष्कके अवक्तव्यबन्धके लिए जो युक्ति पीत लेइयामे दी है वही यहाँ भी जान लेनी चाहिए। तदनुसार इनके अवक्तव्यबन्धका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

५३२. शुद्धलेइयामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अणुबहुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ

तिष्णिप० छत्रो० । अवत्त० खैत्तभंगो । देवाउ०-आहार०२ सव्वपदा ओधं । सेसाणं सव्वपदा छत्रो० ।

५३३. अभवसि० मदि०भंगो । णवरि मिच्छन्तं अवत्तव्वं णत्थि ।

५३४. खड्ग०-उवसम० ओधि०भंगो । णवरि अपच्चक्खाण०४ अवत्त० खैत्त-भंगो । देवगदि०४-आहार०२ सव्वप० खैत्त० । मणुसगदिर्पचगस्स य अवत्त० खैत्त-भंगो । उवसमे तित्थकरं सव्वपदा खैत्तं ।

कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । देवायु और आहारकदिकके सब पदोंके वन्धक जीवोंका स्पर्शन ओधके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

**विशेषार्थ**—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमें से चार प्रत्याख्यानावरणको व देवगतिचतुष्कको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें प्राप्त होता है, प्रत्याख्यानावरण चारका अवक्तव्यपद संयत मनुष्यके सयतासंयत होने पर प्राप्त होता है और देवगतिचतुष्कका अवक्तव्यपद संज्ञी तिर्यञ्च और मनुष्य जीवोंके प्राप्त होता है, अतः इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । यद्यपि संज्ञी जीवोंका स्पर्शन अधिक है, परन्तु इनके देवगतिचतुष्कका अवक्तव्यपद स्वस्थानमें ही वनता है और इस अपेक्षासे इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही है। अतः यह भी क्षेत्रके समान कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५३३. अभव्यांमे मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं है ।

**विशेषार्थ**—मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद उन जीवोंके होता है जो ऊपरके गुणस्थानोंसे उतरकर मिथ्यात्वमें आते हैं । किन्तु अभव्य सदा मिथ्यादृष्टि ही होते हैं, अतः इनके मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका निषेध किया है ।

५३४. क्षायिकसम्यक्त्व और उपशमसम्यक्त्वमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अप्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगतिचतुष्क और आहारकदिकके सब पदोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यगतिपञ्चकके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्र समान है । तथा उपशमसम्यक्त्वमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

**विशेषार्थ**—उक्त दोनों सम्यक्त्वोंमें अप्रत्याख्यानावरण चारका अवक्तव्यपद उन्हीं जीवोंके होता है जो ऊपरके गुणस्थानवाले मनुष्य अविरतसम्यग्दृष्टि होते हैं। अतः इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है । क्षायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्यों या तिर्यञ्चोंके देव होने पर प्रथम समयमें मनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्यपद होता है और उपशमश्रेणिसे मरकर देव होने पर उपशमसम्यग्दृष्टि देवोंके प्रथम समयमें मनुष्यगतिपञ्चकका अवक्तव्यपद होता है । यतः इन जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। अतः इन दोनों सम्यक्त्वोंमें मनुष्यगति पञ्चकके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका वन्ध करनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि जीव संख्यातसे अधिक नहीं होते। अतः इसके सब पदोंका भङ्ग भी क्षेत्रके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५३५. सासणे ध्रुविगाणं तिण्णिप० अह-वारह० । दोआउ०-मणुसग०-मणुसाणु० उक्खा० सव्वप० अहचोँ० । देवाउ० ओधं । देवगदि०४ तिण्णिप० पंचचोँ० । अवत्त० खेंत्त० । सेसं सव्वपदा अह-वारह० । णवरि इत्थि०-पुरिस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-दोविहा०-सुभग-दूभ० दोसर-आदेँ०-अणादे०-णीचा० अवत्त० अहचोँ० । ओरा०-ओरालि०अंगो० अवत्त० पंचचोँ० ।

५३६. सम्मामि० ध्रुविगाणं तिण्णिप० अह० । देवगदि०४ तिण्णिप० खेंत्त० । सेसाणं सव्वपदा अह० ।

५३५. सासादनसम्यक्त्वमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायुका भङ्ग ओधके समान है । देवगति-चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहायोगति, सुभग, दुर्भग, दो स्वर, आदेय, अनादेय और नीचगोत्रके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा औदारिकशरीर और औदारिक आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम पाँच बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—आयुका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता । तथा सासादन-सम्यग्दृष्टि जीव मर कर नरकमें नहीं जाता और सासादन सम्यग्दृष्टियोंके एकेन्द्रियोंमें मारणा-न्तिक समुद्घात करते समय मनुष्यगतिद्विक व उच्चगोत्रका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । मनुष्यों और तिर्यञ्चोंके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय देवगतिचतुष्कके तीन पदोंका ही बन्ध होता है । उसमें भी सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च सहस्रार कल्प तक ही मर कर उत्पन्न होते हैं । अतः यहाँ देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच बटे चौदह राजूप्रमाण ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । यद्यपि सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्य सहस्रार कल्पसे आगे भी उत्पन्न होते हैं पर इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही है, अतः तीन पदोंकी अपेक्षा कहे गये उक्त स्पर्शनमें इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । तथा स्त्रीवेद आदिका यहाँ मारणान्तिक समुद्घातके समय या उपपाद के समय अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, अतः इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५३६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंने ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव न तो मरते ही हैं और न ही इनमें मारणान्तिक

५३७. मिच्छा० मदि०भंगो । णवरि मिच्छत्तं अवत्तव्वं णत्थि । असण्णीसु धुवि-  
गाणं तिण्णप० सव्वलो० । सादादिदंडओ ओर्थं । दोआउ०-वेउ०छ०-ओरा०अंगो  
सैत्तं । मणुसाउ० तिरिक्खोर्धं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं फोसणं समत्तं

## कालाणुगमो ।

५३८. कालाणुगमेण दुवि०-ओवे० आदे० । ओषेण पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-  
मय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्य०-  
अवट्ठि०बंधा का केवचिरं कालादो होदि ? सव्वद्द । अवत्त० केव० ? ज० ए०, उ० सँखैज्ज  
सम० । धीणागि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरा० तिण्णप० सव्वद्द । अवत्त० ज० ए०,  
उ० आवलि० असँखै० । दोवेदणीय-सत्तणोक्क०-तिरिक्खाउ०-दोगदि-पंचजा०-

समुद्घात होता है, इसलिए इनमें देवगतिचतुष्कको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके अपने-अपने पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है । देवगतिचतुष्कका बन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं और यहाँ इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अतः देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।

५३९. मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यजानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं है । असंज्ञियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग शोधके समान है । दो आयु, वैक्रियिकपदक और औदारिक आङ्गोपाङ्गका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । अनाहारकोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—असंज्ञियोंमें पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी जीव ही नरकायु, देवायु और वैक्रियिकपदक-का बन्ध करते हैं और नारकियोंमें व देवानोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसलिए तो इन आठ प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है और औदारिक आङ्गोपाङ्गका सब पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र ही सब लोक है, इसलिए स्पर्शन तो उचना होगा ही । यह देखकर इसके सब पदोंका भङ्ग भी क्षेत्रके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

## कालाणुगम ।

५३८. कालाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आवेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसगरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरल्लु, उपधात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा काल है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जयन्त्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सर्वदा काल है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जयन्त्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । दो वेदनीय, सत नोकषाय, तिर्यञ्चाय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गो-

छस्संडा०—ओरा०अंगो०—छस्संध०—दोआणु०—पर०—उस्सा०—आदाउजो०—दोविहा०—  
 तसादिदसयु०—दोगो० चत्तारिपदा सव्वद्धा । तिण्णिआउ० भुज०—अप्प० ज० ए०,  
 उ० पलिदो० असंखें । अवट्ठि०—अवत्त० ज० ए०, उ० आवलि० असंखें । वेउ०—  
 छ० भुज०—अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि०—अवत्त० ज० ए०, उ० आवलि० असं । एवं  
 तित्थ० । णवरि अवत्त० ज० ए०, उ० संखेंजस० । आहार०२ भुज०—अप्प० सव्वद्धा ।  
 अवट्ठि०—अवत्त० ज० ए०, उ० संखेंजस० । एवं ओघभंगो कायजोगि—ओरा०—णवुंस०—  
 कोधादि०४—अचक्खु०—भवसि०—आहारए त्ति ।

पात्र, छह संहनन, दो आणुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसाधि-  
 दस युगल और दो गोत्रके चार पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तीन आयुओंके भुजगार  
 और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके  
 असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक  
 समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । वैक्रियिक छहके भुजगार और  
 अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका  
 जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इसी  
 प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्य-  
 पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । आहारक-  
 द्विकके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके  
 बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसी प्रकार  
 ओषधके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायबाले, अचक्षु-  
 दर्शनी, मन्व्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके प्रारम्भके तीन पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि  
 सब जीव करते हैं, इसलिए इनका सब काल कहा है । मात्र इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे  
 उतरते समय होता है या उपशमश्रेणिसे मरण कर देव होने पर प्रथम समयमें होता है, इसलिए  
 इनके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । यदि  
 एक समयमें नाना जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण करके एक साथ अवक्तव्यपदके पात्र होते  
 हैं तो एक समय होता है और क्रमसे सख्यात समय तक उपशमश्रेणि पर आरोहण कर उसी  
 क्रमसे अवक्तव्यबन्धके पात्र होते हैं तो संख्यात समय होता है । मात्र इन प्रकृतियोंमें प्रत्या-  
 ख्यानान्तरण चार भी हैं सो इनके अवक्तव्यबन्धका काल विरत जीवोंको नीचे लाकर प्राप्त करना  
 चाहिए । आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका सर्वदा काल कहा है, उसका कहीं तो पूर्वोक्त कारण  
 है और कहीं उनका किसी न किसीके निरन्तर बन्ध होना कारण है । इसलिए यह उस प्रकृति-  
 के बन्ध स्वामीका विचार कर ले आना चाहिए । जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल न्यूनाधिक  
 है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—पहले स्थानगुच्छि आदिके अवक्तव्यपदका काल एक जीव-  
 की अपेक्षा एक समय बतला आये हैं । यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद करें तो  
 क्रमसे कम एक समय तक करते हैं, क्योंकि सासादनसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक प्रत्येक  
 गुणस्थानकी राशि पत्यके असंख्यावे भागप्रमाण है । उससेसे कुछ जीव यदि मिथ्यात्व आदि  
 गुणस्थानोंमें आते हैं तो एक समयमें आकर अन्तर भी पड़ सकता है, इसलिए तो इन प्रकृतियों-  
 के अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय कहा है और यदि निरन्तर मिथ्यात्व आदि गुण-  
 स्थानको प्राप्त होते रहें तो आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक ही होंगे । इसलिए इन  
 प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । प्रत्येक

५३९. तिरिक्खेसु धुविगारणं तिण्णिप० सच्चद्धा । सेसं ओषं । एवं ओरालि० मि०-  
कम्मइ०-मदि०-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि-अणाहारए  
त्ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारएसु देवगदिपंचग० भुज०-अप्प० ज० ए०,  
उ० अंतो । अवट्ठि० ज० ए०, उ० संखेज्जस० ।

५४०. अवगद०-सुहुमसंप० सच्चपग० भुज०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो ।

आयुका बन्ध काल अन्तर्मुहूर्त है और इसमें भुजगार आदि तीन पदोंका जघन्य काल एक समय है । साथ ही नारकी, मनुष्य और देवोंका प्रमाण असंख्यात है । यह सब देखकर नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके दो पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा इनके अवस्थित और अवस्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आबलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अन्य तीन पदोंका काल तो इसी प्रकार है, पर अवस्तव्यपदके उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है । वात यह है कि जो तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य नरकमें उत्पन्न होते हैं या उपशमश्रेणि पर चढ़ते हैं उन्हींके तीर्थ-ङ्कर प्रकृतिका अवस्तव्य बन्ध होता है । किन्तु ये कुछ संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, अतः तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवस्तव्यबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । यही युक्ति आहारक-द्विकके अवस्थित और अवस्तव्यपदके कालके विषयमें जाननी चाहिए । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको ओषके समान कहा है ।

५३९. तिर्यञ्चामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । शेष भद्र ओषके समान है । इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्स्यज्ञानी, श्रुताह्वानी, असंयत, तीन लेइयावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित और अवस्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सख्यात समय है ।

विशेषार्थ—इन मार्गणाओंमें उपशमश्रेणि नहीं होती, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है । जो सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक होते हैं उन्हींके देवगति-पञ्चकका इन मार्गणाओंमें बन्ध होता है, इसलिये इनमें भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । एक साथ नाना जीव इन मार्गणाओंको प्राप्त हुए और उन्होंने एक समय तक भुजगार और अल्पतरपदका बन्ध किया तो जघन्य काल एक समय बनता है तथा निरन्तर क्रमसे यदि नाना जीव इन मार्गणाओंको प्राप्त होते रहते हैं तो इन पदोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बनता है । परन्तु ऐसे जीव क्रमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही मार्गणाओंको प्राप्त होते हैं। अतः इन मार्गणाओंमें उक्त प्रकृतियोंके अवस्थित और अवस्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि कार्मणकाय-योगमें और अनाहारक मार्गणामें दो-दो समयके फरकसे जीवोंको प्राप्त करा कर भुजगार और अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल लाना चाहिये, अन्यथा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होना सम्भव नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

५४०. अपगतवेदी और सूक्ष्मसान्धरायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और

अवगद० अवत्त०<sup>१</sup> ज० ए०, उ० संखेज्जास० ।

५४१. सव्वएइंदि०-पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं च सव्वसुहुमार्णं वादरपुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चैव अपज्ज० सव्ववणप्फदि०-णियोद०-वादरपत्ते० तस्सेव अपज्ज० मणुसाउ० तिरिक्खोर्धं । सेसाणं सव्वपदा सव्वद्धा । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि त्ति जासिं णाणाजीवेहि भंगविचए भयणिज्जा तासिं अप्पप्पणो ढ्ढिदिच्चजगार-भंगो । अवड्ढि०-अवत्त० भयणिज्जा सेसपदा[ण] भयणिज्जा याओ ताओ ओर्धं णिरय-भंगो । एसिं अवत्त० संखेज्जा तासिं ओर्धं तित्थयरभंगो । यासिं सव्वपदा संखेज्जा आहारसरीरभंगो ।

❀ एवं कालं समत्तं ❀  
अंतराणुगमो ।

५४२. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवड्ढि०-बंधगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? पत्थि अंतरं । अवत्त० ज० ए०, उ० वासपुघत्तं । शीण-

अल्पतरपदके बन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अपगतवेदी जीवोंमें अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है ।

विशेषार्थ—इन मार्गणाओं को कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक जीव प्राप्त होते हैं, इसलिये इनमें सब प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

५४१. सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अम्रिकायिक, वायुकायिक और इन पृथिवी आदि चारोंके सब सूक्ष्म, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अम्रिकायिक, वादर वायुकायिक तथा इन चारोंके अपर्याप्त, सब वनस्पतिकायिक, निगोद, वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक और वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्त जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । नरकगतिसे लेकर संज्ञी तक शेष मार्गणाओंसे जिनका नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय भजनीय है, उनका अपने-अपने स्थितिवन्धके भुजगारके समान काल है । जिनके अवस्थित और अवक्तव्यपद भजनीय है तथा शेष पद भजनीय नहीं हैं, उनका ओघसे नरकगतिके समान भङ्ग है । तथा जिनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं, उनका ओघसे तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान भङ्ग है और जिनके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं, उनका ओघसे आहारक-शरीरके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तराणुगम

५४२. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्ञलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्ण-चतुष्क, अगुहलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार अल्पतर और अवस्थित-पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ? अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदके बन्धक

१. आ० प्रती अ०तो० । अवड्ढि० अवत्त० इति पाठः ।

गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ तिष्णिप० गत्थि अंतरं । अवत्त० ज० ए०, उ० सप्त रादिदियाणि । सादासाद०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ०-दोगदि-पंचजा०-छसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउओ०-दोविहा०-तसादिदसपु०-दोगो० चत्तारिप० गत्थि अंतरं । अपच्चक्खाण०४ तिष्णिप० गत्थि अंतरं । अवत्त० ज० ए०, उ० चोँहस रादिदियाणि । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि अवत्त० ज० ए०, उ० पण्णारस रादिदि० । तिष्णिआउ० भुज०-अप्प०-अवत्त० ज० ए०, उ० चदुवीसं मुहुचं । अवट्ठि० ज० ए०, उ० असखेंजा लोगा । वेउ०छ० भुज०-अप्प० गत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० ए०, उ० असखेंजा लोगा । अवत्त० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं आहार०२ । तिथ्ठ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० देवगदिमंगो । अवत्त० ज० ए०, उ० वासपुधत्तं । ओरालि० अवत्त० ज० ए०, उ० अंतो० । सेसपदाणं गत्थि अंतरं । एवं ओधमंगो कायजोगि-ओरा०-णवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहा-ए ति ।

जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल वर्षप्रत्यक्त्वप्रमाण है । स्त्यान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, द्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रके चारो पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अपत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन रात है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन रात है । तीन आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । वैक्रियिकपदके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार आहारकद्विकके विषयमें जानना चाहिये । तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग देवगतिके समान है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्वप्रमाण है । औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायबाले, अचक्षुदर्शनी, भ्रम्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें और दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके तीन पदोंका निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके पाया जाता है, इसलिये इन पदोंके अन्तर कालका निषेध किया है । मात्र उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्व-



५४३. गिरएसु तित्थ० ओषं । अथवा अवत्त० ज० ए०, उ० पलिदो० असंखे० । सेसार्णं भुज०-अप्य० गत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० ए०, उ० असंखेजा लोमा ।

प्रमाण है, इसलिये इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष-पृथक्त्वप्रमाण कहा है। उपशमसम्यक्त्वमार्गणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। तदनुसार सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंका भी इतना ही अन्तर है। अतः स्यान्नगृद्धि तीन आदिके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है। सातावेदनीय आदिके चारों पदोंका एकेन्द्रिय आदि जीव बन्ध करते हैं, अतः इनके चारों पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है। अप्रत्याख्यानावरण चार और प्रत्याख्यानावरण चारके तीन पदोंके अन्तरका निषेध ज्ञानावरणके समान जानना चाहिये। तथा प्रथमोपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयत गुण-स्थानका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है। तदनुसार पाँचवें आदि उपरके गुणस्थानोंसे च्युत होकर जीव इतने ही काल तक अविरत अवस्थाको नहीं प्राप्त होता। अतः अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिनरातप्रमाण कहा है। इसी प्रकार उपशमसम्यक्त्वके साथ विरत जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिनरात है। इसका अभिप्राय इतना है कि विरत जीव इतने ही काल तक विरताविरत गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, इसलिए प्रत्याख्यानावरणके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है। नरक, मनुष्य और देवगतिमें यदि कोई भी जीव उत्पन्न हो तो कमसे कम एक समय तक और अधिक से अधिक चौबीस मुहूर्त तक नहीं उत्पन्न होता। इसके अनुसार इन आयुओंके बन्धमें भी इतना अन्तर पड़ सकता है, इसलिए इन तीन आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त कहा है। मात्र इनके अवस्थितपदका परिणामोंके अनुसार अन्तर होता है, इसलिए वह जघन्यरूपसे एक समय और उत्कृष्टरूपसे असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। वैकिकिकषट्कके भुजगार और अल्पतरपदका बन्ध नाना जीव करते ही रहते हैं, इसलिए इनके एक दो पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है। इसी प्रकार तीर्थङ्कर और औदारिकशरीरके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके अन्तरकालका निषेध घटित कर लेना चाहिए। तथा वैकिकिकषट्कके अवस्थितपदके अन्तरकालको तीन आयुओंके समान घटित कर लेना चाहिए। वैकिकिकषट्क और औदारिकशरीर परिवर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणियों व दूसरे-तीसरे नरकमें होता है। उसमें भी उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है। यहाँ गिनार्ह गई काययोगी आदि मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा अधिकल घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको ओषके समान कहा है।

५४३. नारकियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है। अथवा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है।

अवत्त० ज० ए०, उ० अंतो० । थीणगिद्धिदंडओ ओघभंगो । सत्तमाए दोगदिदो-  
आणु०-दोगो० थीणगिद्धिभंगो ।

५४४. तिरिक्खेसु धुविगाणं भुज०-अप्य०-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । सेसं ओघं  
ओरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०-असंज०-तिणिले०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-  
अणाहारए चि । णवरि ओरालि०मि०-कम्मइ०-अणाहारएसु देवगदिपंचग० भुज०-  
अप्य० ज० ए०, उ० मासपुघ० । अवट्ठि० ज० ए०, उ० असंखें० लो० । णवरि  
तित्थि० भुज०-अप्य० ज० ए०, उ० वासपुघ० ।

अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।  
स्थानगृद्धिदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । मात्र सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी और  
दो गोत्रका भङ्ग स्थानगृद्धिके समान है ।

विशेषार्थ—हम पहले ही वतला आये हैं कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद नरकमें भी  
सम्भव है, इसलिए यहाँ ओघ प्ररूपणा बन जाती है । किन्तु एक उपदेश ऐसा भी है कि  
तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जीव दूसरे और तीसरे नरकमें अधिकसे अधिक पत्यके  
असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इस उपदेशके अनुसार तीर्थङ्कर  
प्रकृतिके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग-  
प्रमाण कहा है । शेष प्रकृतियोंका बन्ध यहाँ निरन्तर होता है, इसलिए उनके भुजगार और अल्पतर  
पदके अन्तरका निषेध किया है और अवस्थितपदका अन्तर परिणामोंके अनुसार कहा है ।  
तथा परावर्तमान या अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और  
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । सातवें नरकमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका  
बन्ध मिथ्यादृष्टिके तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका बन्ध सम्यग्दृष्टिके होता है,  
इसलिए स्थानगृद्धिके समान भङ्ग बन जाता है ।

५४४. तिर्यञ्चोमि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक  
जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाय-  
योगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेइयावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि,  
असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाय-  
योगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतर पदके  
बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्वप्रमाण है ।  
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।  
इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य  
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टि नारकी, मनुष्य और देव मर कर औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण-  
काययोगी और अनाहारकोंमें यदि अन्तरसे उत्पन्न हो तो कमसे कम एक समयके अन्तरसे और  
अधिकसे अधिक मासपृथक्त्वके अन्तरसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन मार्गणाओंमें देवगति-  
चतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट  
अन्तर मासपृथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले नारकी और देव  
उक्त तीन मार्गणाओंमें यदि अन्तरसे उत्पन्न होते हैं तो कमसे कम एक समयके अन्तरसे और  
अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्वके अन्तरसे उत्पन्न होते हैं, अतः इन मार्गणाओंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके  
भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर

५४५. अवगद०-सुहुमसं० अप्पसत्थाणं भुज०-अवत्त० ज० ए०, उ० वासपुध० । अप्प० ज० ए०, उ० छम्मासं० । पसत्थाणं भुज० ज० ए०, उ० छम्मासं० । अय्य०-अवत्त० ज० ए०, उ० वासपुध० । सुहुमसं० अवत्त० णत्थि अंतरं ।

५४६. आभिणि०-सुद०-ओधि० मणुसगदिर्पचग०-देवगदि०४ भुज०-अप्य० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० ए०, उ० असंखेँजा लोगा । अवत्त० ज० ए०, उ० मासपुध० । णवरि ओधिणा० ज० ए०, उ० वासपुध० । एवं ओधिदं०-सुकले०-सम्मा० खद्दग०-वेदग० । उवसम० एदाओ पगदीओ ज० ए०, उ० वासपुध० । सेसाणं

वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है। इसका यह अभिप्राय है कि वर्षपृथक्त्वके अन्तरसे कोई न कोई जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला देव और नरक पर्यायसे आकर इस भूमण्डलको सुशोभित करता है। विदेहोंमें निरन्तर तीर्थङ्कर होते हैं, इसलिए यह असम्भव भी नहीं है। फिर भी यहाँ यह पृथक्त्व शब्द ७ और ८ का वाची न होकर बहुत्व अर्थको व्यक्त करनेवाला है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। शेष कथन सुगम है।

५४५. अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोमें अप्रशस्त प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व-प्रमाण है। अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। प्रशस्त प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। अल्पतर और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। मात्र सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँ पर अप्रशस्त प्रकृतियोंका भुजगार और अवक्तव्यबन्ध उपशमश्रेणियोंमें उत्तरते समय होता है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा क्षपकश्रेणियोंमें इनका अल्पतरबन्ध होता है इसलिए इस पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है। यद्यपि उपशमश्रेणिपर चढ़ते समय इन प्रकृतियोंका अल्पतर बन्ध होता है पर उपशमश्रेणियोंसे क्षपकश्रेणिका अन्तरकाल कम है, इसलिए यह अन्तर क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा लिया है। प्रशस्त प्रकृतियोंका अन्तर इससे भिन्न प्रकारसे जाना चाहिए। अर्थात् क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा प्रशस्त प्रकृतियोंके भुजगारबन्धका और उपशमश्रेणिकी अपेक्षा इनके अल्पतर और अवक्तव्यपदका अन्तर जाना चाहिए। कारण स्पष्ट है। मात्र सूक्ष्मसाम्परायमें किसी भी प्रकृतिका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता।

५४६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यगतिपञ्चक और देवगतिचतुष्कके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक-प्रमाण है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्वप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानी जीवोंमें जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, शुक्ललेखावाले, सम्मगदृष्टि, क्षायिकसम्मगदृष्टि और वेदकसम्मगदृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। उपशमसम्मगदृष्टि जीवोंमें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है।

णिरयादि याव सणिं त्ति अवत्त० अप्पप्पणो द्विदिशुजगारअवत्तव्वभंगो कादव्वो ।  
सेसपदा कालेण साधेदव्वं । तेऊए देवगदि०४ अवत्त० ज० ए०, उ० मासपुघ० ।  
ओरालि० अवत्त० ज० ए०, उ० अडदालीसं मुहुत्तं । एवं पम्माए वि । णवरि  
ओरालि०—ओरा०अंगो०' अवत्त० ज० ए०, उ० पक्खं० ।

एवमंतरं समत्तं ।

## भावाणुगमो

५४७. भावाणुगमेण दुवि०—ओषे० आदे० । ओषे० सव्वपगदीणं भुज०-अप्प०-

नर्कगतिसे लेक्ख संही तक् शेष मार्गणाज्जोमिं अवक्कञ्च्यपदका भङ्ग अपने-अपने स्थितिवंधके  
भुजगारके अवक्कञ्च्य भङ्गके समान कहना चाहिए । शेष पदोंको कालके अनुसार साध लेना  
चाहिए । पीतलेइयामें देवगतिचतुष्कके अवक्कञ्च्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक  
समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्वप्रमाण है । औदारिकशरीरके अवक्कञ्च्यपदके बन्धक  
जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अडतालीस मुहूर्त है । इसी प्रकार  
पद्मलेइयामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीर और औदारिक आङ्गो-  
पाङ्गके अवक्कञ्च्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक  
पक्षप्रमाण है ।

विशेषार्थ—आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यगति-  
पञ्चकके अवक्कञ्च्यपदकी प्राप्ति दो प्रकारसे होती है । प्रथम तो उपशमत्रेणिसे मरकर देव होने  
पर और दूसरे चतुर्य गुणस्थानसे मरकर नारकी होने पर या चतुर्यादि किसी भी गुणस्थानसे  
मरकर देव होने पर । इसका अभिप्राय यह है कि चतुर्यगुणस्थानमें वैक्रियिकमिश्रकायप्रयोगका  
जो अन्तर है वही यहाँ मनुष्यगतिपञ्चकके अवक्कञ्च्यपदका अन्तर है । जीवस्थान अन्तर  
प्ररूपणामें यह जघन्य रूपसे एक समय और उत्कृष्ट रूपसे मासपृथक्त्वप्रमाण बतलाया है ।  
इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्कञ्च्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण लिया गया  
है । पहले औदारिकमिश्रकाययोगमें देवगतिचतुष्कके अवक्कञ्च्यपदका अन्तर बतला ही आये  
हैं । वही यहाँ घटित कर लेना चाहिए । मात्र अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यगतिपञ्चक और देव-  
गतिचतुष्कका यह उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि कोई अवधिज्ञानी  
अधिकसे अधिक इतने काल तक वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और औदारिकमिश्रकाययोगी न हो  
यह संभव है । अवधिज्ञानीके समान ही उपशमसम्यग्दृष्टिमें यह अन्तर जानना चाहिए । पीत-  
लेइयामें देवगतिचतुष्कके अवक्कञ्च्य पदका अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगीके समान ही घटित  
कर लेना चाहिए । परन्तु पीतलेइयामें वैक्रियिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर अडतालीस  
मुहूर्त है, इसलिए यहाँ औदारिकशरीरके अवक्कञ्च्य पदका उत्कृष्ट अन्तर अडतालीस मुहूर्त कहा  
है और पद्मलेइयामें वैक्रियिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर एक पक्षप्रमाण है, इसलिए पद्म-  
लेइयामें औदारिकद्विकके अवक्कञ्च्य पदका उत्कृष्ट अन्तर एक पक्षप्रमाण कहा है । शेष कथन  
सुगम है ।

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ ।

## भावानुगम

५४८. भावानुगमका अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे सब

२. ता० यत्तौ णवरि अंत्यालि० अङ्गो० इति पाठः ।

अवट्टि०-अवत्त०बंधगा त्ति को भावो ? ओदङ्गो भावो । एवं याव अणाहारए त्ति ।  
एवं भावं समत्तं ।

### अप्पाबहुआणुगमो

५४८. अप्पाबहुगं दुवि०—ओवे० आदे० । ओवे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-  
सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० सव्व-  
त्थोवा अवत्त० । अवट्टि० अपांतगु० । अप्प० असंखेंजगु० । भुज० विसे० । सादा-  
साद०-सत्तणोक्क०-तिणिक्खलाउ०-दोगदि-पंचजा०-छस्संठा०-ओरा०अंगो०-छस्संघ०-दो-  
आणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-त्तसादिदसयु०-दोगो० सव्वत्थोवा अवट्टि० ।  
अवत्त० असंखेंजगुणा । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । एवं तिणिआउ०-वेउ-  
व्वियछ० । आहार०२ सव्वत्थोवा अवट्टि० । अवत्त० संखेंज०गु० । अप्प० संखें०गु० ।  
भुज० विसे० । तित्थ० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्टि० असंखेंजगु० । अप्प० असं०  
गु० । भुज० विसे० । एवं ओधभंगो कायजोगि-ओरालि०, णवरि ओरालिए तित्थकरं  
आहारसरीरभंगो, अचक्खु०-भवसि०-आहारए त्ति ।

प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ?  
औदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुवा ।

### अल्पबहुत्वानुगम

५४८. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, नौ  
दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,  
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे  
थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव  
असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय, असाता-  
वेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग,  
छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस  
युगल और दो गोत्रके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे  
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव  
असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार  
तीन आयु और वैकृतिकषट्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । आहारकद्विकके अवस्थितपदके बन्धक  
जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके  
बन्धक जीव संख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । तीर्थङ्कर  
प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव  
असंख्यातरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके  
बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार ओषके समान काययोगी और औदारिककाययोगी  
जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिककाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिका  
भङ्ग आहारकशरीरके समान है । तथा ओषके समान ही अचछुदर्शनी, भव्य और आहारक  
जीवोंमें जानना चाहिए ।

५४९. गिरएसु धुवियाणं सव्वत्थोवा अवट्ठिं । अप्पं असंखेंगुं । भुजं विसे । धीणगिद्धिदंडओ ओधं । णवरि अवट्ठिं असंखेंजगुं । मणुसाउं आहारसरीरभंगो । सेसाणं पगदीणं ओधं सादभंगो । एवं सचसु पुदवीसु । णवरि सत्तमाए दोगदिदोआणुं-दोगो धीणगिद्धिभंगो ।

५५०. तिरिक्खेसु धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठिं । अप्पं असंगुं । भुजं विसे । सेसं ओधं । पंचिदियतिरिक्खं धुविगाणं तिरिक्खोवंचं । सेसाणं पि एवमेव । णवरि अवट्ठिं जम्हि अणंतगुणं तम्हि असंगुणं कादव्वं । पंचिंतिरिपज्जत्त-जोगिणीसु ओरालिं सादभंगो । पंचिंतिरिअपज्जं धुविगाणं णेरइगभंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा अवट्ठिं । अवत्तं असंगुं । [ अप्पं असंगुं । ] भुजं विसे । एवं सव्वअपज्जं-एइदिं-विगलिं-यंच कायाणं च ।

५५१. मणुसेसु पंचणां-णवदंसं-मिच्छं-सोलसकं-भय-दु-ओरा-तैजा-क-वण्णं-४-अगु-उप-णिमि-पंचंतं सव्वत्थोवा अवत्तं । अवट्ठिं असंगुं । अप्पं असंगुं । भुजं विसे । दोआउं-वेउच्चियछं-आहारं-२-तित्थं आहार-

५४६. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । स्थानगृद्धिदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । मनुष्यायुका भङ्ग आहारकशरीरके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो आतुपूर्वी और दो गोत्रका भङ्ग स्थानगृद्धिके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ स्थानगृद्धिदण्डकसे स्थानगृद्धिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, ये आठ प्रकृतियों ली गई हैं ।

५४०. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भी इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि जहाँ अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे कहे हैं, वहाँ असंख्यातरगुणे कहना चाहिए । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें औदारिकशरीरका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए ।

५५१. मनुष्योंमें पाँच हानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरल्लघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तःप्रायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातरगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके

स०भंगो । साददंडओ ओषं । एवं मणुसपञ्ज०-मणुसिणीसु । णवरि संखेँजं कादन्वं । एवं सन्वह० । णवरि धुवियाणं अवत्त० णत्थि । सेसाणं' देवाणं णेरइगभंगो ।

५५२. पंचिदि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सन्वत्थोवा अवत्त० । अवहि० असंखेँजगु० । अप्प० असंखेँजगु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओषं । पंचिदियपञ्जत्तएसु वि एसेव । णवरि ओरालि० सादभंगो । एवं तस०-तसपञ्ज० ।

५५३. पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-देव०-ओरा०-वेउ०-तेजा०-क०-वेउ०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-वादर-पञ्ज०-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सन्वत्थोवा अवत्त० । अवहि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओषं । दोवचि० तसपञ्जत्तभंगो । ओरालि०मि० पंचि०तिरि०-अपञ्ज०भंगो । 'णवरि मिच्छ० अवत्त० ओषं० । देवगदि-पंचिदि० सन्वत्थो० अवहि० । अप्प० संखेँजगु० । भुज० विसे० । एवं कम्मइ०-अणाहार० । वेउव्वि०का० देवभंगो । णवरि तित्थ० णिरयभंगो । एवं वेउ०-मि० । आहार०-

बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकहिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषसे आहारकशरीरके समान है । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात करना चाहिए । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है । शेष देवोंका भङ्ग नारक्रियोंके समान है ।

५५२. पञ्चेन्द्रियोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । पञ्चेन्द्रिय-पर्याप्त जीवोंमें भी यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीरका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार त्रस और त्रसपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए ।

५५३. पाँचो मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । दो वचनयोगी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । औदारिक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका भङ्ग ओषके समान है । तथा देवगति और पञ्चेन्द्रियजाति के अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । वैक्रियिककाययोगी

आहारमि० सञ्चद्वभंगो । णवरि देवाउ०-तित्य० मणुसि०भंगो ।

५५४- इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० सञ्चत्थो० अवट्टि० । अप्प०<sup>१</sup> असं०गु० । भुज० विसे० । पंचदंस०-मिच्छ०-वारसक०-भय०-दु०-तेजा०-क०-वण्णा-४-अगु०४-वादर-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि० सञ्चत्थो० अवत्त० । अवट्टि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं सञ्चत्थो० अवट्टि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । आहारदुर्गं तित्य० मणुसि०भंगो । एवं पुरिस० । णवरि तित्य० ओयं ।

५५५. णवुंसगे पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० इत्थिभंगो । पंचदंस०-मिच्छ०-वारसक०-भय०-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्णा४-अगु०-उप०-णिमि० सञ्चत्थो० अवत्त० । अवट्टि० अणंतगु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओयं । अवगद० अप्पसत्थाणं सञ्चत्थो० अवत्त० । भुज० संखेज्जगु० । अप्प० संखेज्जगु० ।

जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है। इतनी विज्ञेयता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है। इतनी विज्ञेयता है कि देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है।

५५४. ऋग्वेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार सञ्चलन और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। पाँच दर्शनावरण, निव्यात्व, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। श्रेय प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें जानना चाहिए। इतना विज्ञेयता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषधके समान है।

५५५. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार सञ्चलन और पाँच अन्तरायका भङ्ग ऋग्वेदी जीवोंके समान है। पाँच दर्शनावरण, निव्यात्व, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, आँदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। श्रेय प्रकृतियोंका भङ्ग ओषधके समान है। अपगानवेदी जीवोंमें अग्रस्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगार

१. दा० प्रवौ सञ्चत्थो० [ अवत्त० ]। अवट्टि० अय० इति पाठः ।



पसत्थाणं सच्चत्थो० अवत्त० । अप्प० संखेँज्जु० । भुज० संखेँ०गु० । एवं सुहुमसं० ।  
णवरि अवत्त० णत्थि ।

५५६. कोधे णवुंसगभंगो । माणे पंचणा०-चदुदंस०-तिण्णिसंज०-पंचंत० सच्चत्थो०  
अवट्ठि० । अप्पद० असं०गु० । भुज० विसे० । पंचदंस०-मिच्छ०-तेरसक०-भय०-दु०-  
ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० सच्चत्थो० अवत्त० । अवट्ठि०  
अणंतगु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसं ओधं । एवं मायाए वि । णवरि  
पढमदंडओ पंचणा०-चदुदंस०-दोसंज०-पंचंत० । विदियदंडओ पंचदंस०<sup>२</sup>-मिच्छ०-  
चोदसक०-भयदु०-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० । लोभे एवं चेव ।  
णवरि पढमदंडओ पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० सच्चत्थो० अवट्ठि० । अप्प०<sup>३</sup> असं०गु० ।  
भुज० विसे० । विदियदंडओ पंचदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु० । उवरि ओधं ।

५५७. मदि-सुदेसु धुवियाणं सच्चत्थो० अवट्ठि० । अप्प०<sup>४</sup> असं०गु० । भुज०

पदके बन्धक जीव संख्यातरुणे हैं । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोके जानना चाहिए ।  
इतनी विशेषता है कि यहाँ अवक्तव्यपद नहीं है ।

५५६. क्रोधकषायमे नपुंसकवेदी जीवोके समान भङ्ग है । मानकषायमे पाँच ज्ञानावरण,  
चार दर्शनावरण, तीन संव्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे  
थोड़े हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असख्यातरुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव  
विशेष अधिक हैं । पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, तेरह कषाय, भय, जुगुप्सा औदारिक शरीर,  
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक  
जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तरुणे हैं । इनसे अल्पतरपदके  
बन्धक जीव असंख्यातरुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष भङ्ग  
ओधके समान है । इसी प्रकार मायाकषायमे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
प्रथम दण्डक पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संव्वलन और पाँच अन्तराय रूप है ।  
दूसरा दण्डक पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, चौदह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर,  
तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणरूप है । लोभकषायमें  
भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डक पाँच ज्ञानावरण, चार  
दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतर-  
पदके बन्धक जीव असंख्यातरुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं ।  
दूसरा दण्डक पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्सा रूप होकर आगे  
यह ओधके समान है ।

५५७. मत्यजानी और श्रुताज्ञानी जीवोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोके अवस्थित पदके  
बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असख्यातरुणे हैं । इनसे

१. ता. प्रती सच्चत्थो० [अवत्त०] । अवट्ठि० अप्प० इति पाठः । २. ता प्रती विदियदंडओ । ओध  
पंचदस०, आ. प्रती विदियदंडओ ओध । पंचदस० इति पाठः । ३. ता प्रती सच्चत्थो० [अवत्त०] । अवट्ठि० ।  
अप्य० इति पाठः । ४. ता० प्रती सच्चत्थो० [अवत्त०] । अवट्ठि० अप्प० इति पाठः ।

विसे० । मिच्छ० ओरालि० सेसाणं च ओधं । विभगे धुविगाणं यदि०भंगो । मिच्छ०-  
देव०-ओरालि०-वेउ०-वेउ०-अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-वादर-पञ्ज०-पत्ते० सच्चत्थो०  
अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसं ओधं ।

५५८. आभिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०छदंस०-नारसक०-पुरि०-भय-दु०-दोगादि-  
पंचिं०-चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-नजरि०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४- पसत्थ०-  
तस०४-सुभग-सुस्सर-आदैं०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० सच्चत्थो० अवत्त० ।  
अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सादासाद० चदुणोक०-  
देवाउ०-थिरादितिण्णियु० ओधं । मणुसाउ०-आहार०२ मणुसि०भंगो । एवं ओधिदं०-  
सम्मा०-खइग०-वेदग०-उवसम० । णवरि खइगसं० दोआउ० आहारसरीरभंगो । उव-  
सम० आहार०२-तित्थ० मणुसि०भंगो । मणपञ्जव० ओधिभंगो । णवरि संखेंजं  
कादव्वं । एवं संजद० ।

५५९. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस०-लोअसंज०-उच्चा०-पंचंत० सच्चत्थो०  
अवट्ठि० । अप्प० संखेंजगु० । भुज० विसे० । सेसं दोदंस०-तिण्णिसंज०-पुरिसं०-  
भय-दु० सच्चत्थो० अवत्त० । उवरि मणपञ्जवभंगो । एवं परिहार० । णवरि धुविगाणं

मुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । मिथ्यात्व और औदारिकशरीर तथा शेष  
प्रकृतियोंका भङ्ग ओषधके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें भुवन्नन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग  
मत्त्वज्ञानी जीवोंके समान है । मिथ्यात्व, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक  
आज्ञोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परधान, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त अंर प्रत्येकके अवकन्वयपदके बन्धक  
जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे अल्पतरपदके  
बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष भङ्ग  
ओषधके समान है ।

५५८. आभिनिबोधिक ज्ञानी. श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण,  
छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्ता, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर,  
समचतुरस्रसंस्थान, दो आगोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच सहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुत्तु-  
चतुष्क प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदिय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगात्र  
और पाँच अन्तरायके अवकन्वयपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक  
जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुण हैं । इनसे मुजगारपदके  
बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, देवायु और  
स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग ओषधके समान है । मनुष्यायु और आहारकद्विकका भङ्ग  
मनुष्यिनियोंके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदक-  
सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतना विशेषता है कि क्षायिक-  
सम्यग्दृष्टि जीवोंमें दो आयुका भङ्ग आहारकशरीरके समान है तथा उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें  
आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । मन पर्ययज्ञानियोंमें  
अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणोंके स्थानमें संख्यात-  
गुणा करना चाहिए । इसी प्रकार सयत जीवोंके जानना चाहिए ।

५५९ सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शना-  
वरण, लोभसंज्वलन, उच्चगात्र और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े  
हैं । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुण हैं । इनसे मुजगारपदके बन्धक जीव विशेष  
अधिक हैं । शेष दो दर्शनावरण, तीन सच्चलन, पुरुषवेद, भय और जुगुप्ताके अवकन्वयपदके  
बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । आगे मन.पर्ययज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार परिहार-

अवत्त० णत्थि । संजदासंज०<sup>१</sup> अणुदिसभंगो । देवाउ० ओधं । तित्थ० मणुसि०भंगो । असंजदे धुविगार्णं तिरिक्खोघं । सेसाणं ओघं । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।

५६०. किण्ण-णील-काऊणं असंजदभंगो । किण्ण०-णील० तित्थ० वेउच्चि०सि० भंगो । काउ० णिरयभंगो तित्थग० । तेउ० देवभंगो । णवरि धीणमि०३-मिच्छ०-वार-सक०-देवग०-ओरालि०-वेउ०-वेउ०अंगो-देवाणु०-तित्थ० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । दोआउ० ओघं । मणुसाउ० देवभंगो । आहारदुगं ओघं । एवं पम्माए वि । णवरि ओरा०अंगो देवगदिभंगो ।

५६१. सुकाए पंचणा०णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-दोपादि-पंचि०-चुदु-सरीर-दोअंगो०-वण्ण-धोआणु०-अगु०-ध-तस०-ध-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सव्वत्थो० अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । दोआउ०-

विशुद्धिसंयत जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है । संयतासंयत जीवोमें अनुदिशके समान भङ्ग है । मात्र देवायुका भङ्ग ओषके समान है । तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । असंयतोमें ध्रुवबन्ध वाली प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । चक्षुदर्शनवाले जीवोमें त्रसपर्याप्त जीवोके समान भङ्ग है ।

**विशेषार्थ—**यहाँ सामायिकसंयत और छेदोपरथापनासंयतमें शेष दो दर्शनावरण आदि दण्डकमें जुगुप्सा तक प्रकृतियों गिनाई हैं, शेष नहीं गिनाई हैं । वे ये हैं—देवगति, पञ्चेन्द्रिय-जाति, तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु-लघुचतुष्क, प्रवस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थङ्कर । इस प्रकार दो दर्शनावरणसे लेकर तीर्थङ्कर तक इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । तथा इन प्रकृतियोंके शेष पदोत्रा तथा अन्य सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोके समान है । यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

५६०. कृष्ण, नील और कापोत लेइयामे असंयतोके समान भङ्ग है । मात्र कृष्ण और नीललेइयामे तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान है और कापोत-लेइयामें तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है । पीतलेइयामे देवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्थानगुह्नित्रिक, मिथ्यात्व, वारह कषाय, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्प-तरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । दो आयुओंका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग देवोके समान है । आहारकक्षिका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार पद्मलेइयामे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकाङ्गोपागका भङ्ग देवगतिके समान है ।

५६१. शुक्लेइयामे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, दो आङ्गोपाग, वर्णचतुष्क, दो आलुपूर्वी, अगुरु-लघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतर पदके बन्धक

आहार-२ मणुसि० भंगो । सेसाणं आणदभंगो ।

५६२. अब्भवासि० मदि०भंगो । णवरि मिच्छ० अवचत्त० णत्थि । एवं मिच्छा०-असण्णि त्ति । सासण०-सम्माभि० देवभंगो । णवरि अप्पप्पणो धुवपगदीओ परियत्ति-याओ च णादव्वाओ भवंति । सण्णी० मण०भंगो । एवं अप्पावहुगं समत्तं ।

एवं भुजगारवंधो समचो

## पदणिक्खेवो समुक्कित्तणा

५६३. एत्तो पदणिक्खेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि । तं जहा-समुक्कित्तणा सामित्तं अप्पावहुणे त्ति । समुक्कित्तणा दुविधा-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओधे० आदे० । ओधे० सव्वपगदीणं अत्थि उक्कत्तिसया वड्डी उक्क० हाणी उक्कत्तमगमवट्टाणं । एवं याव अणाहारए त्ति णोदव्वं । णवरि अवगद०-सुहुमसंप० अत्थि उक्क० वड्डी उक्क० हाणी । एवं जहण्णगं पि ।

एवं समुक्कित्तणा समत्ता

## सामित्तं

५६४. सामित्तं दुवि०-जह०-उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओधे० आदे० । ओधे० पंचणा०-णवदंस०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दु०-

जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । दो आयु और आहारकद्विकका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग आनतकल्पके समान है ।

५६२. अभव्योमे मत्त्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिए । सासादन-सम्यग्दृष्टि और सन्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी ध्रुवप्रकृतियों और परिवर्तमान प्रकृतियों जाननी चाहिए । संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ ।

## पदनिक्षेप समुत्कीर्तना

५६३. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं । यथा—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व । समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्टहानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्पराधिक संयत जीवोंमें उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि है । इसी प्रकार जघन्य समुत्कीर्तना जानना चाहिए ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

## स्वामित्व

५६४. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता-

तिरिक्खा०-एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्थव० ४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावर०-अथिरादिपंच-  
णीचा०-यंचंत० उकस्सिया वड्डी कस्स ? अण्णदरस्स यो चट्टुट्टाणिययवमज्झस्स उवरि  
अंतोकोडाकोडिद्विदिवंधमाणो अंतोमुहुत्तं अणंतगुणाए सेटीए वड्ढिदूण उकस्ससंक्किले-  
सेण उकस्सदाहं गदो तदो उकस्सयं अणुभागबंधो तस्स । उकस्सिया हाणी कस्स ?  
यो उकस्सयं अणुभागं बंधमाणो भदो एइंदियो जादो तदो तप्पाओंग्गजहण्णए पडिदो  
तस्स उकस्सिया हाणी । उकस्सयमवहाणं कस्स ? यो उकस्सयं अणुभागं बंधमाणो  
सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओंग्गजहण्णए पडिदो तस्स उकस्समवहाणं । एवं  
हस्स-रदीणं । णवरि तप्पाओंग्गसंक्किलिट्ठो त्ति भाणिदव्वा । साद०-जम०-उचा० उक०  
वड्डी० कस्स० ? अण्ण० खवगस्स सुहुप्रसं० चरिमे उकस्सो अणुभागबंधे वट्टमाण-  
गस्स तस्स उक० वड्डी । उक० हाणी कस्स ? यो उवसामयो से काले अकसाई होहिदि  
त्ति भदो देवो जादो तप्पाओंग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक० हाणी । उक० अवहाणं  
कस्स ? अण्ण० अप्पमत्तसंजदस्स अक्खवग-अणुवसमगस्स सव्वविसुद्धस्स अणंतदुगु-  
णेण वड्ढिदूण अवट्ठिदस्स उकस्समवहाणं । इत्थि०-पुरिस०-तिण्णिजादि-चट्टुसंठा०-वट्ट-  
संघ०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक० वड्डी क० ? अण्ण० यो चट्टुट्टा०यव० उवरि  
अंतोकोडाकोडिद्विदिं बंधमाणो अंतोमुहुत्तं अणंतगुणाए सेटीए वड्ढिदूण तदो तप्पाओंग्ग-  
वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति,  
एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अग्रस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपचात, स्थावर, अस्थिर  
आदि पाँच, नीच गात्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? चतु स्थानिक  
यवमध्येके ऊपर अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिका बन्ध करनेवाला जो जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक  
अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा उत्कृष्ट दाहको प्राप्त हुआ है  
और तब उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है, ऐसा अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका  
स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव मरकर  
एकेन्द्रिय हो गया और वहाँ तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्धको प्राप्त हुआ वह उक्त प्रकृतियोंकी  
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला  
जो अन्यतर जीव साकार उपयोगसे निवृत्त होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करने लगा है  
वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार हास्य और रतिका स्वामित्व कहना चाहिए । इतनी  
विशेषता है कि यहाँ तत्प्रायोग्य संक्लेश ऐसा कहना चाहिए । सातावेदनीय, यशःकीर्ति और  
उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके  
अन्तमे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट  
हानिका स्वामी कौन है ? जो उपशामक अनन्तर समयमे अकपायी होगा कि इसी वीच मर  
कर देव हो गया और तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी  
है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? अक्षपक और अनुपशामक अन्यतर जो अग्रमत्त-  
संयत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तगुणी वृद्धिके साथ अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अव-  
स्थानका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तीन जाति, चार संस्थान, चार सहनन, सूक्ष्म, अपयौग्य  
और साधारणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो चतु स्थानिक यवमध्येके ऊपर  
अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे

संकिलेसेण तप्पाओग्गउक्कस्सं गदो तप्पाओग्गउक्कस्सगं अणुभागं पवंधो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्स ? यो तप्पाओग्गउक्कस्सगं अणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पदिदो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवह्माणं । गिरयाउगं उक्कं वड्डी कस्स ? यो तप्पाओग्गजहण्णगादो संकिलेसादो तप्पाओग्गउक्कस्ससंकिलेसं गदो तदो उक्कं अणुभागं पवंधो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कं ? यो उक्कं अणुभां बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पदिदो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवह्माणं । तिण्णिआउ०-आदा० उक्कं वड्डी कं ? यो तप्पाओग्गजहण्णगादो विसोधीदो उक्कस्सविसोधिं गदो तदो तप्पाओग्गउक्कं अणुभागं पवंधो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हां कं ? यो तप्पाओग्गउक्कस्सगं अणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पदिदो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवह्माणं । गिरयागं-असंपं-गिरयाणुं-अप्पसं-दुस्सं उक्कं वड्डी कं ? यो च्चुड्डा०यवमज्झं उवरिं अंतोकोडां बंधमाणो उक्कस्स-संकिलेसेण उक्कस्सयं दाहं गदो तदो उक्कस्सअणुभागवंधो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्स ? यो उक्कं अणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पदिदो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवह्माणं । मणुसगदि-

वृद्धिको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामोके द्वारा तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संज्ञेशरूप परिणामोको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है, वह उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगके क्षय होनेसे निवृत्त होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । नरकायुकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य संज्ञेशसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संज्ञेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह नरकायुकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । तीन आयु और आतपकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । नरकगति, असम्प्राप्तास्त्रपाटिकासंहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो चतुःस्थानिक यवमज्जके ऊपर अन्त-कोडाकोहीप्रमाण स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट संज्ञेशके द्वारा उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । मनुष्यगतिपञ्चककी उत्कृष्ट

१. ता० प्रतौ आदाउज्जो० उक्कं वड्डी, आ० प्रतौ आदाउज्जो० वड्डी इति पाठः ।

पंचग० उक्त० वड्डी कस्स ? यो जहण्णगादो विसोधीदो उक्तस्सगं विसोधिं गदो तदो उक्त० अणु० पयंधो तस्स उक्त० वड्डी । उक्त० हाणी कस्स ? यो उक्तस्सं अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओंगजह० पडिदो तस्स उक्त० हाणी । तस्सेव से काले उक्त० अवट्ठाणं । देवग०—वेउ०—आहार०—वेउ०—आहार० अंगो—देवाणु० उक्त० वड्डी क० ? अण्ण० खवग० अपुव्वकरणपरभवियणामाणं बंधचरिमे वट्टमाणगस्स तस्स उक्त० वड्डी । उक्त० हाणी कस्स ? उवसामयस्स परिवदमाण-यस्स परभवियणामाणं दुसमय०बंधगस्स उक्त० हाणी । उ० अवट्ठा० क० ? अण्ण० अप्पमत्त० अखवग० अणुवसामयस्स सागार-जागार० सव्वविसुद्धस्स अंतोमुहुत्तं अणंतगुणाए सेठीए वड्ढिदूथ अवट्ठिदस्स तस्स उक्त० अवट्ठाणं । पंचिं—तेजा०—क०—समच०—पसत्थ०—अणु० ३—पसत्थ०—तस०—थिरादिपंच०—णिमि०—तित्थ० उक्त० वड्डी कस्स ? अण्ण० खवग० अपुव्वकर० परभवियणामाणं बंधचरिमे वट्टमाणग्गम तस्स उक्त० वड्डी । उक्त० हाणी कस्स ? यो उवसामाणं से काले परभवियणा,ण अबंधगो होहिदि त्ति तदो तप्पाओंगजहण्णए पडिदो तस्स उक्त० हाणी । उक्त० अवट्ठाणं सादभंगो । उजो० उक्त० वड्डी क० ? अण्ण० सत्तमाए पुटवीए पेरइगस्स मिच्छादिट्ठिस्स सव्वाहि पज्जतीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जा० सव्वविसु० अणियट्ठि-करणे वट्टमाणगस्स से काले सम्मत्तं पडिचज्जिहिदि त्ति तस्स उक्त० वड्डी । उक्त०

वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा उसीके तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है । देवगति, वैक्रियिकरारीर, आहारकशरीर, वैक्रियिक आज्ञोपाङ्ग, आहारक-आज्ञोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्वीको उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो क्षपक अपूर्व-करणमें परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमे अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? गिरनेवाला जो उपशामक परभव-सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके द्वितीय समयमे स्थित है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? अक्षपक और अनुपशामक तथा साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर जो अप्रभत्तसंघत जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर अवस्थित है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, अ-चतुष्क, स्थिर आदि पाँच, निर्माण और तीर्थङ्करकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्य-तर क्षपक जीव अपूर्वकरणमे नामकर्मकी परभवसम्बन्धी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उपशामक अनन्तर समयमे नामकर्मकी परभवसम्बन्धी प्रकृतियोंका अबन्धक होगा कि इसी बीचमें तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका भंग सातावेदनीयके समान है । उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, सब पर्या-प्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध जो अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जीव अनिष्टुत्तिकरणमे रहते हुए तदनन्तर समयमें सन्यक्वको प्राप्त होनेवाला है वह उत्कृष्ट वृद्धिका

हाणी कस्त ? अणु० सत्तमाए पुढवीए षोरइगस्त मिच्छादिडिस्स सव्वाहि पज्ज० पज्जत्तग० तप्पाओँगउकस्सिगादो विसोधीदो पडिभग्गो तप्पाओँगजहण्णए पदिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सगमवट्ठाणं ।

५६५. आदेसेण षोरइएसु पंचणा०-णवदंस०-असाद०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक्क०-तिरिक्ख०-हुंड०-असंपत्त०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्प-सत्थ०-अथिरादिळ्ळ०-णीचा०-पंचंत० उक्क० वट्ठी क० ? यो चटुट्ठा०यवमज्झस्स उवरिं अंतोकोडाकोडिडिदिं वंधमाणो अंतोमुहुत्तं अणंतगुणाए सेटीए वड्ढिदूण उक्कस्सगं दाहं गदो तदो उक्क० अणुभागं पबंधो तस्स उक्क० वट्ठी । उक्क० हाणी कस्त ? यो उक्क० अणु० वंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पा०जहण्णए पदिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । साद०-मणुस०-पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क०-समच०-ओरा०-अंणो-वज्जरि०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अणु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिळ्ळ०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उक्क० वट्ठी हाणी अवट्ठाणं च ओषं मणुसगदि-भंगो । इत्थि०-णुरिस०-दो आळ०-चटुसंठा०-चटुसंध०-उज्जो० ओषभंगो । हस्सरदि० इत्थिवेदमंगो । [ एवं ] सत्तमाए । उवरिमासु छसु उज्जो० तिरिक्खाउभंगो । सेसमेसेव' ।

स्वामी है । उक्कष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त जो अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जीव तत्प्रायोग्य उक्कष्ट विशुद्धिसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्या विशुद्धिको प्राप्त हुआ है वह उक्कष्ट हानिका स्वामी है और वही तदनन्तर समयमे उक्कष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

५६५. आदेशसे नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, अलम्प्राप्तास्तृपाटिकासंहनन, अप्रशस्त-वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उक्कष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? चतु स्थानिक यवमध्यके ऊपर अन्त-कोडाकोड़ी प्रमाण स्थितिका बन्ध करनेवाला जो जीव अन्तर्मुहूर्त तक अनन्तगुणित श्रेणिक्रमसे श्रद्धिको प्राप्त होता हुआ उक्कष्ट दाहको प्राप्त होकर उक्कष्ट अनुभागका बन्ध करता है वह उक्कष्ट वृद्धिका स्वामी है । उक्कष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उक्कष्ट अनुभागका बन्ध करने-वाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उक्कष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमे उक्कष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, सम-चतुरस्र संस्थान, औदारिक आज्ञोपाङ्ग, वज्रवर्षभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रगस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और वृक्षगोत्रकी उक्कष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामीका भङ्ग ओषसे मनुष्यगतिके समान है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु. चार संस्थान, चार संहनन और उद्योतका भङ्ग ओषके समान है । हास्य और रतिका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । पहलेकी छह पृथिवियोंमें उद्योतका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है । शेष पूर्वोक्त प्रकार ही है ।

१. शा० प्रती सेत्तमेवनेव इति पाठः ।



५६६. तिरिक्खेसु पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-णिरय०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-णिरयाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० तिण्णि वि षेरइयभंगो । सादा०-देवग०-पसत्थसत्तावीसं उच्चा० तिण्णि वि षेरइयसाद-भंगो । इत्थि०-गुरिस०-हस्सरदि-तिरिक्ख०-चदुजादि-चदुसंठा०-पंचसं०-तिरिक्खाणु०-थावरादि०४ ओर्धं इत्थिभंगो । चदुआउ०-आदावं ओर्धं । मणुसगदिपंचग-उज्जो० तिरिक्खाउभंगो । अथवा बादरतेउ०-वाउ० उज्जो० उक्क० वड्ढि-हाणि-अवट्ठणं यदि कीरदि तेसिं सादभंगो तिण्णि वि । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । णवरि' उज्जो० तिरिक्खाउभंगो ।

५६७. पंचिदि०तिरि०अप० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावर०४-अथिरादिपंच-णीचा०-पंचंत० उक्क० वड्ढी क० ? यो तप्पाओंगजह०संकिलेसादो उक्क० संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणुभा० बंधो तस्स उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क० अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठणं । सादा०-मणुस०-पंचि०-ओरा०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरा० अंगो-वज्जिरी०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा०

५६६. तिर्यञ्चोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके तीनों ही पदोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । सातावेदनीय एक, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियों और उच्चगोत्रके तीनों ही पदोंका भङ्ग नारकियोंके सातावेदनीयके समान है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, तिर्यञ्चगति, चार जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारका भङ्ग ओघसे स्त्रीवेदके समान है । चार आयु और आतपका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिपञ्चक और उद्योतका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है । अथवा बादर अभिकायिक और बादर वायुकायिक जीव उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानको यदि करता है, तो इनके तीनों ही पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें उद्योतका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है ।

५६७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर चतुष्क, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य संकेशसे उत्कृष्ट संकेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसरारीर, कामर्षणशरीर, समचतुस्त्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रवर्धनराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क,

१. ता० प्रती यदि किये ( कोर ) दि तेसिं पि सादभंगो । तिण्णि वि एव पंचिदियतिरिक्ख० । ३णवरि इति पाठः ।

उक्क० वड्डी कस्स ? यो जह० विसोधीदो उक्क० विसोधिं गदो तदो उक्क० अणु० पबंयो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी क० ? यो उक्क० अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडि- भग्गो तप्पाओँगजह० पदिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठणं । इत्थि०-पुरिस०-हस्सरदि-तिण्णिजा०-चदुसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० तिण्णि वि णाणावरणभंगो । णवरि तप्पाओँगसंफिलिदो कादच्चो । दोआउ०-आदाव० ओघं । उज्जो० तिरिक्खाउभंगो । एवं सच्चअपज्जचगाणं एहंदि०-विगालिं०-पंचकायाणं च । णवरि एहंदिएसु तेउ-वाउकाहएसु उज्जो० सादभंगो ।

५६८. मणुस०३ खवियाणं वड्ढिअवट्ठणं ओघं देवगदिभंगो । सेसं पंचिदि० तिरि०भंगो ।

५६९. देवेसु पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-[सोलसक०-]पंचणोको०- तिरिक्ख०-एहंदि०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-थावर०- अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० षेरह्गभंगो । सेसाणं पि षेरह्गभंगो । णवरि आदाउज्जो० तिरिक्खाउभंगो । भवण०-वाणवे०-जोदिसि०-सोधम्मी० पंचणा०-णवदंस०-असादा०- मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोको०-तिरि०-एहंदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०- थावर०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० तिण्णि वि देवोघं । सेसाणं पि देवभंगो । णवरि

मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुस्वरके तीनों ही पदोका भंग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य सङ्घिष्टके कहना चाहिए । दो आयु और आतपका भंग ओषके समान है । उद्योतका भंग तिर्यञ्चायुके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, अमिकायिक और वायुकायिक जीवोमे उद्योतका भंग सातावेदनीयके समान है ।

५६८. मनुष्यात्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंकी वृद्धि और अवस्थानका भंग ओषसे देवगतिके समान है । शेष भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है ।

५६९. देवोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका भंग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भंग भी नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि आतप और उद्योतका भंग तिर्यञ्चायुके समान है । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म-येशान कल्पके देवोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय-जाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके तीनों ही पदोका भंग सामान्य देवोके समान है ।

असं०-अप्पसत्थ०-दुस्स० इत्थिभंगो । सणक्कुमार याव सहस्सार ति पढमपुदविभंगो । आणद याव उवरिभगेवज्जा ति पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणो०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थ०४-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो तप्पाओँगजहणगादो संकिलेसादो उक्क० संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणु० पबंधो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी क० ? यो उक्क० अणुभा०बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओँगजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । साददंडओ णिरयभंगो । इत्थिवेददंडओ पंचि०तिरि०अपज्ज०भंगो । [ मणुसाउ० देवोधं । ] अणुदिस याव सव्वट्ठ ति पंचणा०-छदंस०-असादा०-बारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दु०-अप्पसत्थवण०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स ? यो जह० संकि० उक्क० संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणु० पबंधो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हा० क० ? यो उक्क० अणु० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभग्गो तप्पाओँगजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । साददंडओ देवोधं । हस्स-रदि० उक्क० वड्डी क० ? यो तप्पाओँगजह० अणुभागं बंधमाणो तप्पाओ० जह० संकिलेसादो तप्पा० उक्क० संकिलेसं गदो तप्पाओ० उक्क० अणुभागबंधो तस्स उक्क० वड्डी ।

शेष प्रकृतियोंका भंग भी समान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि असम्प्राप्तास्पष्टाटिका संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका भंग स्त्रीवेदके समान है । सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें प्रथम पृथिवीके समान भंग है । आनतकल्पसे लेकर उपरिम त्रैवैक तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तास्पष्टाटिकासंहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य संज्ञेशसे उत्कृष्ट संज्ञेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । सातावेदनीयदण्डकका भंग नारकियोंके समान है । स्त्रीवेददण्डकका भंग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान है । मनुष्यायुका भंग सामान्य देवोंके समान है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशः कीर्ति और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य संज्ञेशसे उत्कृष्ट संज्ञेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय दण्डकका भंग सामान्य देवोंके समान है । हास्य और रतिकी उदृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य संज्ञेशसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संज्ञेशको प्राप्त होकर

उ० हा० क० ? यो तप्पा० उक्क० अणु० बंधमाणो सागारक्खणएण पडिभग्गो तप्पा० जह० पदिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । मणुसाउ० ओघं ।

५७०. पंचिं—तस०२ ओघभंगो । णवरि पंचणा०दंडओ उक्क० वड्डी ओघं० । हाणी अवट्ठाणं सागारक्खणएण पडिभग्गो ति भाणिदव्वं । पंचमण०—पंचवचि० खविगाणं पगदीणं मणुसिभंगो । सेसं पंचिं०भंगो । कायजोगि० ओघं । ओरालि० मणुसभंगो । णवरि उज्जो० तिरिक्ख०भंगो । ओरालियमि० पंचणाणावरणादिसंकिलिट्ठपगदीणं उक्क० वड्डी क० ? यो से काले सरिरपज्जची जाहिदि ति जहण्णगादो संकिलेसादो उक्कस्सगं संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणु० पबंधो तस्स उ० वड्डी । उ० हा० क० ? यो उ० अणु० बंधमाणो दुसमयसरिरपज्जत्तिं जाहिदि ति सागारक्खणएण पडिभग्गो तस्स उ० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । सादादीणं सव्वविसुद्धाणं उक्क० वड्डी क० ? यो जहण्णगादो विसोधीदो उक्क० विसोधिं गदो तदो से काले सरिरपज्जत्तिं जाहिदि ति उक्क० अणु० पबंधो तस्स उक्क० वड्डी । एवं सेसाणं पि तप्पाओग्ग-संकिलिट्ठाणं तप्पाओग्गाविसुद्धाणं च एसेव आलावो कादव्वो । एवं वेउव्वियमि०—आहारमिस्साणं पि । णवरि अप्पप्पणो पगदीओ कादव्वाओ । वेउव्वि० देवोघं ।

तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । मनुष्यायुका भंग ओघके समान है ।

५७०. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरणवृण्डककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ओघके समान है । हानि और अवस्थान जो साकार उपयोगसे प्रतिभन्न हुआ है उसके कहना चाहिए । पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें क्षपक प्रकृतियोंका भंग मनुष्यिनियोंके समान है । शेष भंग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । काययोगी जीवोंमें ओघके समान भंग है । औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि उद्योतका भंग तिर्यञ्चोके समान है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि संक्लिष्ट प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा कि इसके पूर्व समयमें जघन्य संक्षेपसे उत्कृष्ट संक्षेपको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जो जीव दो समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा कि शरीर पर्याप्तिके समयसे दो समय पूर्व साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय आदि सर्वविशुद्ध प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर अगले समयमें शरीरपर्याप्तिको प्राप्त होगा कि शरीरपर्याप्तिके समयसे पूर्व समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भी तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट और तत्प्रायोग्य विशुद्ध जीवोंके यही आलाप करना चाहिए । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रकृतियाँ करनी चाहिए । वैक्रियिक

णवरि उजो० सचमभंगो । आहार० सच्वट्टभंगो ।

५७१. कम्मइ० पंचणा०-णवदं०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०  
तिरिक्ख<sup>३</sup>०-एइंदि०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-  
थावरादि०४-अथिरादिळ०-णीचा०-पंचंत० उक० वड्ढी क० ? यो जहण्णगादो  
संकिलेसादो उक० संकिलेसं गदो तदो उक० अणुभा० पबंधो तस्स  
उक० वड्ढी । उक० हा० क० ? यो उक० अणु०बंधमाणो सागारक्खएण  
पडिभग्गो तस्स उक० हाणी । उक० अवट्टाणं क० ? अण्ण० वादरएइंदियस्स उकस्सिया  
हाणिं कादूण अवट्टिदस्स तस्स उ० अवट्टाणं । सादादीणं पसत्थाणं पगदीणं मणुसगदि-  
पंचग० उकस्सवडिड-हाणी देवोघं । उक० अवट्टाणं णाणावरणभंगो । देवगदिपंचग०  
अवट्टाणं णत्थि । सेसाणं तप्पाओँगसंकिलिट्टाणं तप्पाओँगविसुट्टाणं च एसेव  
आलावो कादव्वो । णवरि तप्पाओँगसंकिलिट्ट-तप्पाओँगविसुट्ट चि भाणिदव्वं ।  
एवं अणाहार० ।

५७२. इत्थिवेदो पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-  
णिरय०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-अप्पस०४-दोआणु०उप०-अप्पसत्थ०-थावर०-  
अथिरादिळ०-णीचा०-पंचंत० उक० वड्ढी हाणी अवट्टाणं ओघं णिरयगदिभंगो ।  
सादा०-जस०-उच्चा० उक० वड्ढी क० ? अण्ण० खवग० अणियट्टिवादरसांपराइगस्स  
काययोगी जीवोमे सामान्य देवोके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि उद्योतका भंग सातवीं  
पृथिवीके समान है । आहारककाययोगी जीवोका भंग सर्वार्थसिद्धिके समान है ।

५७१. कर्मणकाययोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय,  
मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्त-  
स्तपाटिकासंहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति,  
स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी  
कौन है ? जो जघन्य संछेरासे उत्कृष्ट संछेराको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है  
वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने-  
वाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।  
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर वादर एकेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट हानि करके  
अवस्थित है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके और  
मनुष्यगतिपञ्चककी उत्कृष्ट वृद्धि और हानिका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । उत्कृष्ट अव-  
स्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । देवगतिपञ्चकका अवस्थानपद नहीं है । शेष प्रकृतियोंका  
तत्प्रायोग्य सकल और तत्प्रायोग्य विशुद्ध जीवोंके यही आलाप करना चाहिए । इतनी विशेषता  
है कि तत्प्रायोग्य सञ्चित और तत्प्रायोग्य विशुद्ध ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक  
जीवोमे जानना चाहिए ।

५७२. स्त्रीवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौदर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह  
कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क,  
दो आनुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच  
अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग ओघसे नरकगतिके समान है । साता-  
वेदनीय, यश.कीर्ति और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर क्षपक जीव

चरिमे उक्कस्सए अणुभागवंधे वड्डमाणगस्स तस्स उक्कं वड्ढीं । उक्कं हाणी कं ? अण्णं उवसांमं परिवदं अणियड्डिवादरं दुसमयं बंधं उं हां । अवड्डाणं ओघं । सेसाणं पि खविगाणं मणुसिंभंगो । सेसाणं पगदीणं पंचिंतिरिंभंगो । उज्जो आदावभंगो ।

५७३. पुरिसेसु सादं-जसं-उच्चां उक्कं वड्ढीं अवड्डां इत्थिंभंगो । उं हां कं ? यो उवसमं अणियड्डीं से काले अवंधगो होहिदि त्ति मदो देवो जादो तस्स उं हाणी । सेसं पंचिंदियपज्जभंगो । णवरि तिरिक्खाउभंगो ।

५७४. णवुंसगे पंचणां-णवदंसं-असादां-मिच्छं-सोलसकं-पंचणोकं-णिरयगं-तिरिक्खं-हुंडं-असंपं-अप्पसत्थं-दोआणुं-उपं-अप्पसत्थं-अथि-रादिळं-णीचां-पंचंतं तिण्णिपदा ओघं णिरयगदिभंगो । खविगाणं इत्थिंभंगो । इत्थिवेददंडओ चदुजादीए वेप्पदि । उज्जो ओघं । सेसं इत्थिंभंगो ।

५७५. अवगदं अप्पसत्थाणं उक्कं वड्ढीं कं ? अण्णं उवसां परिवदं अणियं दुचरिमे' बंधादो चरिमे अणुभागवंधे वड्डमाणस्स से काले सवेदो होहिदि चि तस्स उं वड्ढीं । उक्कं हां कं ? अण्णं खवगं अणियं पढमादो अणु-भागबंधादो विदिए अणुभां वड्डमां तस्स उं हाणी । सादं-जसं-उच्चां उक्कं

अनिवृत्ति बादरसाम्परायके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशामक जीव अनिवृत्तिकरण बादर साम्परायके द्वितीय समयमें बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका भङ्ग ओषके समान है । शेष क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग भी मनुष्यिनियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है । उद्योतका भङ्ग आतपके समान है ।

५७३. पुरुषवेदी जीवोंमें सातावेदनीय, यश कीर्ति और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उपशामक अनिवृत्तिकरण जीव अनन्तर समयमें अवन्धक होगा कि अवन्धक होनेके पूर्व समयमें मरकर देव हो गया वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । शेष भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके समान भङ्ग है ।

५७४. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, नरकगति, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तपाटिका सहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका भङ्ग ओषसे नरकगतिके समान है । क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । स्त्रीवेददण्डको चार जातियोंके साथ ग्रहण करना चाहिए । उद्योतका भङ्ग ओषके समान है । शेष भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है ।

५७५. अपगतवेदी जीवोंमें अप्रशस्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशामक अनिवृत्तिकरण जीव द्विचरम समयमें होनेवाले बन्धसे अन्तिम समयमें होनेवाले अनुभागबन्धमें अवस्थित है और जो अगले समयमें सवेदी होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अनिवृत्तिकरण क्षपक प्रथम अनुभागबन्धसे द्वितीय अनुभागबन्धमें विद्यमान है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । साता-

१. आ. प्रतौ परिवदं दुचरिमे इति षाटः ।

बड्डी ओषं । उ० हा० क० ? अण्ण० उवसाम० परिवद० सुहुमसं० दुसमयबंध-  
गस्स तस्स उ० हा० । एवं सुहुमसंपराह० ।

५७६. क्रोधादि०४ ओषं । णवरि सादा०-जस०-उच्चा० उक्क० बड्डी अवट्ठाणंओषं ।  
उ० हा० क० ? अण्ण० यो उवसाम० कोधसंजलणाए से' काले अबंधगो होहिदि  
त्ति मदो देवो जादो तप्पाओंग्गजह० पदिदो तस्स उक्क० हाणी । एवं माणे मायाए ।  
लोमे ओषं ।

५७७. मदि-सुदे पहमदंडओ हस्स-रदिदंडओ ओषं । सादा० देवगदिपसत्थ-  
सत्तावीसं उच्चा० उक्क० बड्डी क० ? अण्ण० मणुसस्स सागार-जागार० सच्चविमुद्ध०  
संजमाभिमुहस्स चरिमे समए उक्कस्सगे अणुभागबंधे वड्ढमाणस्स तस्स उ० बड्डी ।  
उ० हाणी क० ? अण्णदरस्स संजमादो परिवदमाणगस्स दुसमयबंधगस्स तस्स उक्क०  
हाणी । उक्क० अवट्ठाणं क० ? यो तप्पाओंग्गउक्क० विसोधीदो सागारक्खएण पडि-  
भग्गो तप्पाओ० जह० पदिदो तस्स उक्क० अवट्ठाणं । एवं संजमाभिमुहाणं । मणुसगदि-  
पंच० उक्क० बड्डी क० ? सम्मत्ताभिमुहस्स उक्क० बड्डी । उक्क० हाणी क० ?  
सम्मत्तादो परिवद० दुसमयबंध० तस्स उ० हाणी । अवट्ठाणं सादमंगो । सेसं

वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ओषके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? गिरनेवाले जिस अन्यतर उपशामकने सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें दूसरे समयमें बन्ध किया है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयतके जानना चाहिए ।

५७६. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओषके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर उपशामक क्रोधसञ्चलनके बन्धसे अनन्तर समयमें अबन्धक होगा कि मरा और देव होकर तत्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार मान और मायाकषायवाले जीवोमें जानना चाहिए । लोभ-कषायवाले जीवोमें ओषके समान भङ्ग है ।

५७७. मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोमें प्रथम दण्डक और हास्य-रतिदण्डक ओषके समान है । सातावेदनीय, देवगति आदि प्रशस्त सत्ताईस प्रकृतियों और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध संयमके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? संयमसे गिरनेवाले जिस अन्यतर जीवने दो समय तक बन्ध किया है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो तत्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इस प्रकार संयतके अभिमुख होकर उत्कृष्ट वृद्धिकी प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंका स्वामित्व जानना चाहिए । मनुष्यगतिपञ्चकेकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ जीव उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वसे च्युत होकर जिसने दो समय तक बन्ध किया है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । अवस्थानका भङ्ग सातावेदनीयके

ओर्धं । विभंगे पसत्थाणं मदि०भंगो । सेसाणं पंचिदियभंगो ।

५७८. आभिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदंस०-असाद०-वारसक०-पुरिस० - अरदि-सोग-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० वड्ढी क० ? अण्ण० असंज० सागार-जा० णियमा उक्क०संकिलिइस्स मिच्छत्ताभिमुह० चरिमे उक्क० अणुभा० वड्ढमा० तस्स उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी क० ? यो तप्पा ओंगउक्कस्सगादो संकिलेसादो पडिभग्गो तप्पाओरिंगजह० पदिदो तस्स उ० हा० । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । हस्स-रदीणं सत्थाणे तिण्णि वि कादच्चाणि । सेसाणं ओर्धं । मणपज्जवे पढमदंडओ ओधिणाणिभंगो । णवरि असंजमाभिमुह० । एवं हस्स-रदीणं पि । सेसं ओर्धं । एवं संजद-सामाह०-छेदो० । णवरि सामा०-छेदो० साद०-जस०-उच्चा० उक्क० वड्ढी अवट्ठाणं ओर्धं । उक्क० हाणी क० ? अण्ण० उचसाम० परिवद० विदियसमयअणियट्ठि०संजदाणं । स्व्वाणं हाणी मणुसिभंगो । परिहार० पढमदंडओ मणपज्जवभंगो । णवरि वड्ढी सामाह्य-च्छेदोवट्ठावणाभिमुहस्स । सेसाणं सत्थाणं कादव्वं । संजदासंजदे पढमदंड० वड्ढी ओधि०भंगो । हाणी अवट्ठाणं सत्थाणे । साददंडओ वड्ढी संजमाभिमुह० । हाणी अवट्ठाणं सत्थाणे । असंजदे

समान है । शेष ओषके समान है । विभङ्गज्ञानी, जीवोमे प्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग मल्यज्ञानी जीवोके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है ।

५५८. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय. वारह कथाय, पुरुषवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयश कीर्ति और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर असयतसम्यग्दृष्टि साकार-जागृत है, नियमसे उत्कृष्ट सङ्गेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमे अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट सङ्गेशसे प्रतिभ्रष्ट होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । हास्य और रतिके तीनों ही पद स्वस्थानमें करने चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । मन पर्ययज्ञानी जीवोमें प्रथम दण्डकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि असयमके अभिमुख जीवके उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व कहना चाहिए । इसी प्रकार हास्य और रतिका भी कहना चाहिए । शेष भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार सयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोमें सातावेदनीय, यश कीर्ति और उच्चोन्नती उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट अवस्थानका भङ्ग ओषके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जिस गिरनेवाले उपग्रामकने अनिवृत्तिकरणमें दो समय तक बन्ध किया है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । यहाँ सब प्रकृतियोंकी हानिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । परिहार-विशुद्धिसंयत जीवोमें प्रथम दण्डकका भङ्ग मन पर्ययज्ञानी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि वृद्धि सामायिक और छेदोपस्थापनासंयतके अभिमुख हुए जीवके होती है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए । संयतासयत जीवोमें प्रथम दण्डककी वृद्धिका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है । इसकी हानि और अवस्थान स्वस्थानमें होते हैं । सातावेद-

१. ता. था. प्रत्यो ओषिविभंगो इति पाठ ।



पदमदंडओ ओघं<sup>१</sup> । साददंडओ मदि०भंगो । णवरि असंजदसम्मादिद्विस्स कादव्वा । सेसं ओघं ।

५७९. चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० ओघं । ओधिदं०-सम्मा०-खइग० ओधि०भंगो<sup>२</sup> । णवरि खइगे पदमदंडए वड्ढी सत्थाणे कादव्वा ।

५८०. किण्णाए पदमदंडओ णजुंसगभंगो । साददंडओ णिरयभंगो । इत्थि<sup>३</sup>०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-थावरादि०४ णजुंसगभंगो । देवगदिपंच० उक्क० वड्ढी<sup>४</sup> क० ? यो तप्पा०जह०विसोधि गदो उक्क० अणु० पवंधो तस्स उक्क०वड्ढी । उक्क० हा० क० ? यो तप्पा०उक्क०अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभगो तप्पाओ० ज० पडिदो तस्स उक्क० हा० । तस्सेव से काले उक्क० अवहाणं । सेसं ओघादो<sup>५</sup> साधेद्वं ।

५८१. णील-काऊणं पदमदंडओ साददंडओ इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा० चदुसंघ० णिरयभंगो । णिरय०-चदुजादि-णिरयाणु०-थावरादि०४ उक्क० वड्ढी कस्स ? यो तप्पाओगजह०संकिलेसादो उक्क०संकिलेसं गदो तदो उ० अणुभा० पवंधो तस्स उक्क० वड्ढी । उ० हा० क० ? यो उक्क० अणुभा० बंधमाणो सागारक्खएण पडिभगो तप्पा०

नीयदण्डककी वृद्धिका स्वामी संयमके अभिमुख हुआ जीव है। हानि और अवस्थान स्वस्थानमे होते हैं। असंयत जीवोमे प्रथम दण्डक ओघके समान है। सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है। इतनी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दृष्टिके कहना चाहिए। शेष भङ्ग ओघके समान है।

५७९. चक्षुदर्शनवाले जीवोमे त्रसपर्याप्त जीवोके समान भङ्ग है। अचक्षुदर्शनवाले जीवोमें ओघके समान भङ्ग है। अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोमे अधधिज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोमे प्रथम दण्डकमे वृद्धि स्वस्थानमे कहनी चाहिए।

५८०. कृष्णलेश्यामे प्रथम दण्डकका भङ्ग नपुंसकोके समान है। सातावेदनीयदण्डकका भंग नारकियोके समान है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन और स्थावर आदि चारका भङ्ग नपुंसकोके समान है। देवगतिपञ्चककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जिसने तत्प्रायोग्य विशुद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। शेष सब ओघके अनुसार साध लेना चाहिए।

५८१. नील और कापोत लेश्यामे प्रथम दण्डक, साता दण्डक तथा स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान और चार संहननका भङ्ग नारकियोके समान है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी और स्थावर आदि चारकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जिसने तत्प्रायोग्य जघन्य संक्षेपसे उत्कृष्ट संक्षेपको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जो

१. आ. प्रती सज्जटासज्जे पदमदंडओ ओघ इति पाठः । २. ता आ. प्रत्योः खइग० वेदग० ओधि० भगो इति पाठः । ३. ता. प्रती णिरयभगो । देवगदिपंच० उक्क० इत्थि० इति पाठः । ४. ता. प्रती णजुसक-भगो । वड्ढी क० इति पाठः । ५. आ. प्रती ओघेण इति पाठः ।

जहं पदितो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवट्ठापं । देवगदि०५  
 लिपिभंगो । पवरि काडए नित्ययरं गिरयभंगो । सेसं आउगादीणं  
 ओवादो सावेइवं ।

५८२. तेउए पदमदंडजो मोदम्मभंगो । साद० उक्कं वड्डी कस्स ? यो तप्पा०-  
 महम्मगादो विसोवदो उक्कस्तगं विमोविं गदो तदो उक्कं अशु० पवंधो तस्स उक्कं  
 वड्डी । उ० हाणी क० ? यो उक्कं अरुमा० मदी देवो जादो तदो तप्पाओमाजह०  
 पदितो तम्म उक्कं हाणी । अवट्ठापं ओवं । पंवि०नेजा०क०-समचदु०-पसन्धव०४-  
 अ०३-मम०-मम०४-धिगादिह०-पिणि०-नित्य०-उच्चा० सादभंगो । देवगदि०-  
 उक्कं परिहारभंगो । मेमं सोवन्नभंगो । एवं पन्नाए वि । पवरि पदमदंडजो  
 सहम्मभंगो । उजो निरिक्खाउभंगो । सुक्काए खविगाणं ओवं । पदमदंडगादि०  
 जारदभंगो ।

५८३. न्वमि० ओवं । अम्मवसि० पदमदंडजो ओवं । साददंडजो गिरयभंगो ।  
 पदप्यां कादवं । पवरि वडुगादि० सळविसुटो चि । उजो० सादभंगो ।  
 सेसं ओवं ।

जीव चक्र इत्यादि कथ्य होनेसे प्रतिमत्र होकर तत्रायोग्य जवन्त्यको श्रम हुआ है वह  
 उच्छ्रित हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर सम्यक् उच्छ्रित अवस्थानका स्वामी है । देव-  
 गतिच्छेदक मङ्गल-लेखके समान है । इनकी विशेषता है कि कायेनलेख्यमें तीर्थङ्कर  
 श्रद्धालु मङ्गलकारियोंके समान है । देव आद्य आदिका मङ्गल ओंके अनुसार साव-  
 द्यन चाहिए ।

५८४. नीलेख्यमें प्रथम दुष्टक सौवर्णकल्पके समान है । सातावेदनीयकी उच्छ्रित  
 हानिका स्वामी कौन है ? अत्रित तत्रायोग्य जवन्त्य विशुद्धिसे उच्छ्रित विशुद्धिको प्राप्त होकर  
 उच्छ्रित अनुनागवन्ध किया है वह उच्छ्रित हानिका स्वामी है । उच्छ्रित हानिका स्वामी कौन है ?  
 उच्छ्रित अनुनागक वन्ध करकेगला जो जीव नर कर देव हुआ और तत्रायोग्य जवन्त्यको  
 प्राप्त हुआ वह उच्छ्रित हानिका स्वामी है । जवन्त्यनका मङ्गल ओंके समान है । पञ्चोन्मिय-  
 वने, वैश्वदेवी, कामदेवी, सप्तचतुरस्रस्थान, प्रथम वनेचतुष्क, अगुरल्लुपिक, प्रसन्न  
 सिद्धेश्वरके, सप्तचतुष्क, स्थिर आदि श्रद्धा, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका मङ्गल सातावेदनीयके  
 समान है । देवगतिके उच्छ्रित हानिका मङ्गल परिहारविशुद्धिसंयन जीवोंके समान है । मेव मङ्गल  
 सौवर्णकल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेख्यमें नी जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि  
 प्रथम दुष्टक सहस्ररत्नके समान है । तथा उद्योगका मङ्गल निर्यञ्जायुके समान है । शुद्ध-  
 लेखमें मङ्गल श्रद्धालुका मङ्गल ओंके समान है । प्रथम दुष्टक आदिका मङ्गल आततकल्पके  
 समान है ।

५८५. नव्यां ओंके समान मङ्गल है । अनव्यांमें प्रथम दुष्टक ओंके समान है ।  
 सातावेदनीयदुष्टक, मङ्गल कारियोंके समान है । इसी प्रकार सब प्रथम श्रद्धालुका स्वामी  
 चाहिए । इनमें विशेषता है कि चारुगणिके सर्वविशुद्ध जीवके कृता चाहिए । उद्योगका मंग-  
 ल सातावेदनीयके समान है । मेव मंगल ओंके समान है ।

१. क. उ. देवगदि०५, पवरि इति पठः । २. क. प्रवो निरुभंगो । लिपिभंगो । मेवं  
 इति पठः ।

५८४. वेदग० साददंडओतेउ०भंगो । सेसं ओधि०भंगो । उवसम०ओधि०भंगो । णवरि सादा०जस०उच्चा० उक्क० वड्डी क० ? अण्ण० सुहुमसंप० उवसाम० चरिमे उक्क० अणु० वट्ट० तस्स उक्क० वड्डी । एवं सच्चाणं उवसामगारणं सादादीणं पसत्थाणं । सासणे पढमदंडओ सन्वसंकिलिद्धस्स । साददंडओ सन्वविसुद्धस्स । पुरिसदंडओ तप्पाओ०संकि० । तिण्णि आऊणि ओघं । सम्मामि० पढमदंडओ उक्क० वड्डी क० ? मिच्छत्ताभिमुह० तस्स उक्क० वड्डी । उ० हा० क० ? सम्मत्ताभिमुह० चरिसमय-बंधगस्स तस्स उक्क० हा० । अवट्टाणं सट्टाणे । साददंडओ उक्क० वड्डी क० ? सम्मत्ताभिमुह० तस्स उक्क० वड्डी । उक्कस्सिया हाणी अवट्टाणं सत्थाणे । मिच्छादिट्ठी० मदि०भंगो ।

५८५. असण्णीसु अब्भव०भंगो । णवरि पढमदंडए उक्क० वड्डी क० ? यो तप्पाओगजह० संकि० उक्क०संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणु० पबंधो तस्स उक्क० वड्डी । उ० हाणी अवट्टाणं सागारक्खएण पडिभंगो । आहार० ओघं ।

एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं

५८६. जहण्णए पगदं । एत्तो जहण्णपदणिकखेवसामित्तस्स साधण्डं अट्टपद-भूदसमासलक्खणं वचइस्सामो । तं जहा—मिच्छादिट्ठिस्स या अणंतभागफइग-

५८४. वेदक सम्यक्त्वमें सातावेदनीय दण्डकका भंग पीतलेइयाके समान है । शेष भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । उपशमसम्यक्त्वमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्प्रदायिक उपशामक जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें विद्यमान है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार सब उपशामकोके सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका कहना चाहिए । सासादन सम्यक्त्वमे प्रथम दण्डक सर्वसंछिष्टके, सातावेदनीयदण्डक सर्व-विशुद्धके और पुरुषवेददण्डक तत्प्रायोग्य सच्छिष्टके कहना चाहिए । तीन आयुका भंग ओषके समान है । सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रथम दण्डककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो मिथ्यात्वके अभिमुख है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो सम्यक्त्वके अभिमुख होकर अन्तिम समयमे बन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थान स्वस्थानमे होता है । सातावेदनीयदण्डककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानि और अवस्थान स्वस्थानमे होते हैं । मिथ्यादृष्टि जीवोंमे मत्यज्ञानी जीवोंके समान भंग है ।

५८५. असंज्ञियोमे अबन्धोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जिसने तत्प्रायोग्य जघन्य संक्लेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका स्वामी साकार उपयोगके क्षय होनेसे प्रतिभन्न हुआ जीव होता है । आहारकोमें ओषके समान भंग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

५८६. जघन्यका प्रकरण है । यहाँ जघन्यपदनिष्पेके स्वामित्वका साधन करनेके लिए अर्थपदको संक्षेपमें बतलाते हैं । यथा—मिथ्यादृष्टिकी जो अनन्तभागस्पर्द्धकवृद्धि है, संयतकी

परिवट्ठी संजदस्स या अणंतभागफद्गपरिवट्ठी मिच्छादिट्ठिस्स या अणंतभागपरिवट्ठी सा अणंतगुणा । एदेण अट्टपदभूदसमासलक्खणेण दुवि० । ओधे० पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० जहण्णिगा वट्ठी कस्स ? अण्णदरस्स उवसा० परिवद० दुसमयसुहुमसं० तस्स जह० वट्ठी । जह० हा० क० ? अण्ण० सुहुमसंप० खवगचरिमे जह० अणु० वट्टु० तस्स जह० हाणी । जह० अवट्टा० क० ? अण्ण० अप्पमत्तसं० अक्खवग० अणुवसमग० सागार-जा० सच्चविसुट्टस्स उक्खस्सविसोधीदो पडिभग्गस्स अणंतभागेण वट्ठिदूण अवट्ठिदस्स जह० अवट्टाणं । णिहाणिहा-पचलापचला-थीणागि०-मिच्छ०-अणंताणु० जह० वट्टी क० ? अण्ण संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिवदमाणगस्स दुसमयमिच्छादिट्ठिस्स तस्स जह० वट्टी । ज० हा० क० ? अण्ण० मणुसस्स वा मणुसीए वा मिच्छादिट्ठि० सच्चाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जा० सच्चविसु० से काले संजमं पडिवज्जिहिदि चि तस्स ज० हा० । ज० अवट्टा० क० ? अण्ण० पंचिदियस्स मिच्छाट्ठिस्स सच्चाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जा० तप्पाअंगलक्खसागादो विसोधीदो पडिभग्गस्स अणंतभागेण वट्ठिदूण अवट्ठिदस्स तस्स जह० अवट्टा० । णिहा-पयलाणं जह० वट्टी अवट्टाणं णाणावरण-भंगो । जह० हा० क० ? अण्ण० खवग० अपुव्वकरणस्स णिहा-पयलाणं बंधचरिमे वट्टमा० तस्स जह० हाणी । सादासाद०-थिरायिर-सुभासुभ-जस०-अजस० जह० वट्टी कस्स ? अण्ण० सम्मादिट्ठिस्स वा मिच्छादिट्ठिस्स वा परियत्तमाणमज्झिम-

जो अनन्तभाग स्वर्षकवृद्धि है तथा मिथ्यादृष्टिकी जो अनन्तभागवृद्धि है वह अनन्तरुणी है । संश्लेषमें कहे गये इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जिह गिरनेवाले अन्यतर उपशामकने सूक्ष्म साम्परायमें दो समय तक बन्ध किया है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक जीव अन्तिन अनुभागबन्धमे अर्वास्थित है वह जघन्य हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अक्षपक और अनुपशामक अप्रमत्तसयत जीव साकार-जागृत है, सर्वविशुद्ध है, उत्कृष्ट विशुद्धसे प्रतिभन्न हुआ है और अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तगुणवर्धनचतुष्कर्त्री जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव संयमसे, संयमासंयमसे और सत्यत्वसे गिर कर दो समयवर्ती मिथ्यादृष्टि है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार जागृत और सर्वविशुद्ध जो अन्यतर मनुष्य या ननुष्यिनी जीव अनन्तर समयमे संयमको प्राप्त करेगा वह जघन्य हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त और साकार-जागृत जो अन्यतर पञ्चैन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव तत्प्राप्तोन्म्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभन्न होकर अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । निद्रा और प्रचलाकी जघन्य वृद्धि और अवस्थानका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अपूर्वकरण क्षपक जीव निद्रा और प्रचलाके बन्धके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह जघन्य हानिका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, पशुकीर्ति और अशराकीर्तिकी जघन्य वृद्धि [ हानि और अवस्थान ] का स्वामी कौन है ?

परिणामस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एक्कदरत्थमवट्ठाणं । अपच्चक्खणं०४ ज० वड्ढी क० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा परिवद-  
माणस्स<sup>१</sup> दुसमयअसंजदसम्मादिट्ठिस्स तस्स जह० वड्ढी । ज० हा० क० ? अण्ण०  
असंज० सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जा० सव्वविसु० से काले संजमं  
पडिचज्झिहिदि ति तस्स [ ज० ] हाणी । ज० अवट्ठा० क० ? अण्ण० असंज०  
सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्ज० सागा० सव्वविसु० उक्क० विसोधीदो पडिभग्गस्स अणंत-  
भागेण वड्ढिदूण अवट्ठिदस्स तस्स ज० अवट्ठाणं । पच्चक्खणं०४ ज० वड्ढी क० ?  
अण्ण० संजमादो परिवदमाणस्स दुसमयसंजदासंजदस्स ज० वड्ढी । ज० हा० क० ?  
अण्ण० संजदासंजदस्स सागार-जा० सव्वविसु० से काले संजमं पडिचज्झिहिदि तस्स  
ज० हा० । ज० अवट्ठा० क० ? अण्ण० सागार-जा० तप्पाओंगउक्क० विसोधीदो  
पडिभग्गस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण अवट्ठिदस्स<sup>२</sup> तस्स ज० अवट्ठाणं । च्चदुसंज०-पुरिस०-  
हस्स-रदि-भय-दु०-अप्पसत्थं०४-उप० ज० वड्ढी अवट्ठाणं णाणावरणभंगो । ज० हा०  
क० ? अण्ण० खवग० अपुव्वक० अणियट्ठिस्स । णवरि अप्पप्पणो पाओंगं णाद्व्वं ।  
इत्थि०-णउंसं० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० च्चदुगदियस्स पंचिं० सण्णि० मिच्छा०  
सव्वाहि० सागार-जा० तप्पाओ<sup>३</sup>० विसु० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी

जो परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सन्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीव है वह अनन्तभाग वृद्धिरूपसे वृद्धि अनन्तभागहानिरूपसे हानि और इनमेंसे किसी एक जगह अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? संयमसे और संयमासंयमसे गिरनेवाला जो अन्यतर दो समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि जीव है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तर समयमें संयमको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभन्न होकर अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? संयमसे गिरनेवाला जो दो समयवर्ती संयतासंयत जीव है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध जो अन्यतर संयतासंयत जीव अनन्तर समयमें संयमको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत जो अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभन्न होकर अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातकी जघन्य वृद्धि और अवस्थानका स्वामी ज्ञानावरणके समान है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपक जीव जघन्य हानिका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि अपने-अपने प्रायोग्य जानना चाहिए । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका पञ्चैन्द्रिय सञ्ज्ञी और मिथ्यादृष्टि जीव है वह अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा हानि

१. आ० प्रती सजमादो परिवदमाणस्स इति पाठः । २. ता० प्रती वड्ढिदूण उ) अ) वट्ठिदस्स, आ० प्रती वड्ढिदूण उवट्ठिदस्स इति पाठः । ३. ता० आ०ः प्रत्योः सागारजा० कसावो० इति पाठः ।

एकदरत्थमवट्टाणं । अरदि-सोगं ज० वड्ढी क० ? अण्ण० पमत्त० संज० सागा० तप्पा०  
 विसु० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकदरत्थमवट्टाणं । णिरय-देवाउ० ज०  
 वड्ढी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० जहण्णिगाए पज्जगत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणगस्स  
 मज्झिमपरिणामस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवट्टाणं ।  
 तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० वड्ढी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० जहण्णियाए अपज्जत्तग-  
 णिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणगस्स मज्झिम० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी  
 एक० अवट्टा० । णिरयग०-देवग० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० परि-  
 यत्तमाणमज्झिम० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवट्टा० । एवं  
 तिण्णिजादि-दोआणु०-सुहुम०-अपज्ज०-साधार० । मणुस०-छस्संठा०-छस्संघ०-मणु-  
 सायु०-दोविहा०-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे०-अणादे०-उच्चा० ज० वड्ढी क० ?  
 अण्ण० चटुगदि० मिच्छादि० परिय० मज्झिम० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण  
 हाणी एक० अवट्टा० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० वड्ढी क० ? अण्ण०  
 सत्तमाए पुढवीए णेरइगस्स मिच्छादि० सव्वाहि पज्ज० सागार-जा० तप्पा० उक्क०-  
 विसोधीदो पडिभग्गो अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी । तस्सेव से काले ज० अवट्टा० ।  
 ज० हा० क० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए मिच्छादि० सव्वाहि पज्ज० सागा० सव्व-  
 और इनमेसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी है । अरति और शोककी जघन्य वृद्धिका  
 स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध जो अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव है वह अनन्त  
 भागवृद्धि के द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा हानि और इनमेसे किसी एक स्थानपर अवस्थानका  
 स्वामी है । नरकायु और देवायुकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्ति-  
 मान और मध्यम परिणामवाला ऐसा अन्यतर जो तिर्यञ्च और मनुष्य है वह अनन्तभागवृद्धिके  
 द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा हानि और इनमेसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी  
 है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे  
 निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला जो अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य है वह अनन्तभागवृद्धिके  
 द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा हानि और इनमेसे किसी एक स्थानपर अवस्थानका  
 स्वामी है । नरकगति और देवगतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम  
 परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके  
 द्वारा हानि और इनमेसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार तीन जाति,  
 दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारणकी अपेक्षा स्वामित्व जानना चाहिए । मनुष्यगति,  
 छह सत्थान, छह सहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विद्यायोगति, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दु स्वर,  
 आदेय, अनादेय और उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका परि-  
 वर्तमान मध्यम परिणामवाला मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके  
 द्वारा हानि और इनमेसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च-  
 गत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त और  
 साकार-जागृत ऐसा अन्यतर सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे  
 प्रतिभन्न होकर अनन्तभागवृद्धि करता हुआ जघन्य वृद्धिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमे  
 जघन्य अवस्थानका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त,  
 साकारजागृत और सर्वविशुद्ध जो अन्यतर सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी अनिवृत्तिकरणके

१. ता० प्रती साठ० मणुस० इति पाठः ।

चिसु० अणियद्विकरणे चरिमे ज० अणु० वट्ट० तस्स ज० हा० । एइदि०-थावर० ज० वट्टी क० ? अण्ण० तिगदि० परिय० मल्लिं० अणंतभागेण वट्टिदूण वट्टी हाइदूण हाणी एक० अवट्ठाणं । पंचिं०-तेजा०-क०-पसत्थ४-अणु०३-तस०४-णिमि० ज० वट्टी क० ? अण्ण० चट्टुगदि० पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि प० सागा० णियमा उक्कस्ससंकिलिड्डस्स अणंतभागेण वट्टिदूण वट्टी हाइदूण हाणी एकद० अवट्ठाणं । ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-उज्जो० ज० वट्टी क० ? अण्ण० णेरइ० वा देवस्स वा मिच्छादिद्विस्स सव्वाहि प० सागा० णिय० उक्क० संकि० अणंतभागेण वट्टिदूण वट्टी हाइदूण हाणी एक० अवट्ठाणं । वेउ०-वेउ०-अंगो० ज० वट्टी क० ? अण्ण० मणुस० पंचिं० तिरिक्ख०-जोणिणीयस्स वा सण्णि० मिच्छादि० सव्वाहि पज्ज० सागा० णियमा उक्क० संकि० अणंतभागेण वट्टिदूण वट्टी हाइदूण हाणी एक० अवट्ठाणं । आहार०२ ज० वट्टी क० ? अण्ण० अप्पमत्तसं० पमत्ताभिमुह० सागार० सव्वसंकि० अणंतभागेण वट्टिदूण वट्टी हाइदूण हाणी एक० अवट्ठाणं । आदा० ज० वट्टी क० ? अण्ण० ईसाणंतकप्प० देवस्स मिच्छा० सव्वाहि पज्जचीहि पज्ज० सागार-जा० णिय० उक्क०-संकिलि० अणंतभागेण वट्टिदूण वट्टी हाइदूण हाणी एक० अवट्ठाणं । तित्थ० ज० वट्टी क० ? अण्ण० मणुसस्स वा मणुसीए वा असंजदसम्मादिद्विस्स सव्वाहि पज्ज०

अन्तिम समयमे जघन्य अनुभागबन्ध करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरकी जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो अन्यतर तीन गतिका परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव है वह अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानिके द्वारा हानि और इनमेसे किसी एक स्थानमे अवस्थानका स्वामी होता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस-शरीर, कर्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संकलेशयुक्त अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्त-भागहानिके द्वारा हानि और इनमेसे किसी एक स्थान पर अवस्थानका स्वामी है। औदारिकशरीर, औदारिक आंगोपांग और उद्योतकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संकलेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धि, अनन्तभागहानि द्वारा हानि और इनमेंसे किसी एक स्थानपर अवस्थानका स्वामी है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआंगोपांगकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संकलेश-युक्त अन्यतर मनुष्य और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनि संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिद्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिद्वारा जघन्य हानिका और इनमेसे किसी एक स्थानपर जघन्य अवस्थानका स्वामी है। आहारकद्विकको जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और सर्व संकलेशयुक्त प्रभक्तसंयतके अभिमुख अन्यतर अप्रभक्तसंयत जीव अनन्तभागवृद्धिद्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थान पर जघन्य अवस्थानका स्वामी है। आतपकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संकलेशयुक्त अन्यतर ऐशानकल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेसे किसी एक स्थान पर जघन्य अवस्थानका स्वामी है। तीर्थङ्करप्रकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत और उत्कृष्ट संकलेशसे प्रतिभ्रम हुआ

सागा०-जा० उक्त्ससंकिलेसादो पडिभग्गस्स अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी । तस्सेव से काले ज० अवट्ठा० । ज० हा० क० ? अण्ण० असंजदसम्मदिट्ठिस्स सव्वाहि पज्ज० सागा० तप्पा०संकिलि० मिच्छत्ताभिमु० चरिमसमयअसंज०<sup>१</sup> तस्स ज० हाणी ।

५८७. आदेसेण पोरइएसु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ० [ ४-उप०-पंचंत० ] ज० वड्ढी<sup>२</sup> क० ? अण्ण० असंजद० सव्वाहि पज्ज० सागार० सव्वविसु० अणंत०भागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवट्ठाणं । थीणगि०-३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ ज० वड्ढी क० ? अण्ण० सम्मत्तादो परिवदमा० दुसमय-मिच्छा० तस्स ज० वड्ढी । ज० हा० क० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि प० सागा० सव्ववि० से काले सम्मत्तं पडिचज्झिहिदि त्ति तस्स ज० हा० । ज० अवट्ठा० क० ? अण्ण० मिच्छा० सागा० तप्पा०उक्त्सिसगादो विसोधिं गदो अणंतभागेण वड्ढिदूण अवड्ढिदस्स तस्स ज० अवट्ठा० । सादासाद०-थिरादितिण्णियु० ओघं । इत्थि०-णउंस० ज० तिण्णि वि क० ? अण्ण० मिच्छादि० ओघभंगो । अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० सम्मादिट्ठिस्स तिण्णि वि० । तिरिक्ख०-मणुसाऊणं ज० वड्ढी क० ? अण्ण० मिच्छा० जहण्णिगाए पज्जत्तण्व्व० णिक्खत्तमा० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी

अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य और मनुष्यिनी अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका स्वामी है तथा वही अनन्तर समयमे जघन्य अवस्थानका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, तत्त्वायोग्य संक्लेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अन्तिम समयमे जघन्य हानिका स्वामी है ।

५८७. आदेशसे नारकियोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिद्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिद्वारा जघन्य हानिका और इनमेसे किसी एक स्थानपर जघन्य अवस्थानका स्वामी है । स्थानगुट्टित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कको जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? सम्यक्त्वसे गिरकर जिसे मिथ्यात्वमे दो समय हुए हैं, ऐसा अन्यतर जीव जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तर समयमे सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा वह जघन्य हानिका स्वामी है । जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव तत्त्वायोग्य उच्छुद्ध विशुद्धिको प्राप्त होकर अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भग ओघके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य तीनों ही पदोका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके ओघके समान भंग है । भरति और शोकके तीनों पदोका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि तीनों ही पदोका स्वामी है । तिर्यच्चायु और मनुष्यायुकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्ति निवृत्तिसे निवृत्तमान अन्यतर मिथ्यादृष्टि अनन्त-भागवृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेसे किसी

१. ता० प्रती चरिमे समय असंज० इति पाठः । २. ता० आ० प्रत्योः अप्सत्थ० ज० वड्ढी० इति पाठः ।



एक० अवद्वाणं । तिरिक्ख०३ ओघं । मणुसगदिदंडओ ओघं । पंचि०-ओरा० तेजा०-क०-ओरा०अंगो०-पसत्थ०४-अणु०३-तस०४-णिमि० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० सागा०-जा० सव्वसंकि० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवद्वाणं । एवं उज्जो० । तित्थ० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० असंज० सागा० सव्वसंकि० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवद्वाणं । एवं छसु पुढवीसु । णवरि तिरिक्ख०३ मणुसगादिभंगो । सचमाए मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० असंजद० सागार-जा० तप्पाअंगलक्कस्ससंकिंलेसादो पडिभग्गो अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी । तस्सेव से काले ज० अवद्वाणं । ज० हा० क० ? अण्ण० असंज० मिच्छाचामिमु० तस्स ज० हाणी ।

५८८. तिरिक्खेसु पंचणा०-उदंसणा०-अट्टक०-पंचणो०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० संजदासंज० सागार-जा० सव्वविसु० अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एक० अवद्वाणं । थीणगिद्विदंडओ ओघं । साददंडओ ओघं । इत्थि०-णत्तुस० ओघं । अरदि-सोग० ज० वड्ढी हाणी अवद्वाणं क० ? अण्ण०

एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्य-गतिदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, आदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामण-शरीर, आदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रगस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत और सर्व संकलेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार उद्योतका स्वामित्व जानना चाहिए । तीर्थङ्करप्रकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वसंकलेशयुक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार छोहो पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । सातवी पृथिवीमें मनुष्यगत, मनुष्यगत्यानु-पूर्वी और लघुगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्राधान्य उक्त संकलेशसे प्रतिभन्न हुआ अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका स्वामी है तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव जघन्य हानिका स्वामी है ।

५८८. तिर्यञ्चोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, पाँच नोकपाय, अप्ररास्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर संयतासयत सम्यग्दृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिके द्वारा जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिके द्वारा जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । स्थानगृद्धिदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । सात्वावेदनीयदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग ओषके समान है । अरति और शोककी

संजदासंज० । अपचक्खणाण०४ तिण्णि वि ओघं । णवरि हाणी संजमासंजमं पडिबज्जं-  
तस्स । च्चदुआउ०-तिण्णिगदि-च्चदुजा०-छस्संठा०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-दोविहा०-  
थावरादि४-मज्झिह्युगलाणि तिण्णि उच्चा० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० मिच्छादि०  
परिय०मज्झिम० अणंतभागेण तिण्णि वि० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०<sup>१</sup>-णीचा० ज० वड्ढी  
क० ? अण्ण० वादरेउ०-वाउ०जीवस्स सव्वाहि प० अणंतभागेण तिण्णि वि । पंचिं०-  
वेउच्चि०-तेजा०-क०-वेउच्चि०अंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४-णिमि० ज० वड्ढी  
क० ? अण्ण० पंचिं० सण्णि० मिच्छा० सागा० सव्वसंकि० अणंतभागेण वड्ढिदूण  
वड्ढी हाइदूण हाणी एकदर० अवट्ठणं । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-आदाउजो० ज०  
वड्ढी क० ? अण्ण० पंचिं०<sup>२</sup> सण्णि० मिच्छा० सागा० तप्पा०संकि० अणंतभागेण  
वड्ढिदूण वड्ढी हाइदूण हाणी एकद० अवट्ठणं । एवं पंचिं०तिरिक्ख०३ । णवरि  
तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० णिरयभंगो ।

५८९. पंचिं०तिरि०अपज्ज० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-  
अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० सण्णिस्स सव्वविसु० अणंत-

जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयतासंयत  
जीव उक्त तीनों पदोंका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीनों ही पदोंका भङ्ग ओघके  
समान है । इतनी विशेषता है कि संयमासयमको प्राप्त होनेवाला जीव जघन्य हानिका स्वामी  
है । चार आयु, तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आयुपूर्वी, दो विहायो  
गति, स्थावर आदि चार, मध्यके तीन युगल और उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन  
है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभागवृद्धि, अनन्त-  
भागहानि और अवस्थानके द्वारा तीनों ही पदोंका स्वामी है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी  
और नीचगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ अन्यतर  
वाद्दर अभिकायिक और वाद्दर वायुकायिक जीव अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और  
अवस्थानके द्वारा तीनों ही पदोंका स्वामी है । पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर,  
कामेशरीर, वैक्रियिकआज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी  
जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संकलेशयुक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी  
मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका  
और इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । औदारिकशरीर, औदारिक-  
आज्ञोपाङ्ग, आतप और उद्योतकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रा-  
योग्य संकलेशयुक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्य वृद्धिका,  
अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका और इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका  
स्वामी है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

५८९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व,  
सोढह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायकी जघन्य  
वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्य वृद्धिका,

१. ता० प्रतौ तिण्णिवि० । तिरिक्खाणु० इति पाठः । २. ता० प्रतौ वड्ढी क० ? पंचिं०  
इति पाठः ।

भागेण वद्धिदूण वद्धी हाइदूण हाणी एकद० अवट्टा० । सादासाद०-दोगदि-पंचजा०-  
छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगो० ज० वद्धी क० ?  
अण्ण० परिय०मञ्जिम० अणंतभागेण वद्धिदूण वद्धी हाइदूण हाणी एक० अवट्टाणं ।  
इत्थि०-णुंस०-अरदि-सोग० ज० वद्धी क० ? अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०विस्सु०  
अणंतभागेण वद्धिदूण वद्धी हाइदूण हाणी एक० अवट्टाणं । दोआउ० ओघं । ओरो-  
तेजा०-क०-[ओरोलि०अंगो०-]पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० वद्धी क० ? अण्ण०  
पंचि० सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकि० अणंतभागेण वद्धिदूण वद्धी हाइदूण हाणी  
एक० अवट्टा० । पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० ज० वद्धी क० ? अण्ण० सण्णि० सागा०  
तप्पा०संकि० अणंतभागेण तिण्णि वि । एवं सव्वअपज्ज०-[सव्वएइंदि०-] सव्व-  
विगलिं०-पंचकायाणं च । णवरि एइंदिएसु तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिरि-  
क्खोघं । तेउ-वाऊणं पि तिरिक्खगदितिगं णाणा०भंगो ।

५९०. मणुस०३ खविगाणं ओघं । सेसं पंचि०तिरि०भंगो । तित्थ० ओघं ।

५९१. देवेसु पढमदंडओ धीणगिद्धिदंडओ साददंडओ इत्थि०-णुंस०-अरदि-  
सोग०-[दो]आउ० णिरयभंगो । दोगदि-एइंदि०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-

अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका और इनमेसे किसी एक स्थानमे जघन्य अवस्थानका स्वामी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, छह सहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्य वृद्धिका; अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका और इनमेसे किसी एक स्थानमे जघन्य अवस्थानका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी, साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्यवृद्धिका, अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका और इनमेसे किसी एक अवस्थित स्थानमे जघन्य अवस्थानका स्वामी है । दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकआज्ञोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय, साकार-जागृत और नियमसे उच्छ्लेष सक्लेशयुक्त जीव अनन्त-भागवृद्धिरूपसे जघन्य वृद्धिका, अनन्तभागहानिरूपसे जघन्य हानिका और इनमेसे किसी एक अवस्थित स्थानमे जघन्य अवस्थानका स्वामी है । परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संज्ञी, साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट जीव क्रमसे अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवस्थितरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोमे तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीच-गोत्रका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमे भी तिर्यञ्च-गतित्रिकका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।

५९०. मनुष्यत्रिकमें क्षपक प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान है । शेष भंग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भंग ओघके समान है ।

५९१. देवोंमे प्रथम दण्डक, स्थानगृद्धिदण्डक, सातावेदनीयदण्डक, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक और दो आयुओंका भंग नारकियोके समान है । दो गति, एकेन्द्रियजाति, छह

धावर०-तिण्णियुग०-दोभो० ज० वड्डी क० ? अण्ण० परियत्तमाणमच्छिम्म० अणंत-  
भाणेण तिण्णि वि० । पंचिं०-ओरा०अंगो०-त्तस० ज० वड्डी क० ? अण्ण० सणक्कुमार  
याव उवरिभदेवस्स मिच्छा० सागा० सच्चसंकि०अणंतभाणेण तिण्णि वि० । ओरा०-  
तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वाद्दर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० ज० वड्डी क० ? अण्ण०  
मिच्छा० सागा० णिय० उक्क०संकि० अणंतभाणेण तिण्णि वि० । आदा० ज०  
वड्डी क० ? अण्ण० मिच्छादि० ईसाणंतदेव० सागा० सच्चसंकि० अणंतभाणेण  
तिण्णि वि० । उज्जो० ज० वड्डी क० ? अण्ण० मिच्छादि० सागा० सच्चसंकि० अणंत-  
भाणेण तिण्णि वि० । तित्थ० णिरयभंगो० भवण०-वाण०-जोदिसि० सोधम्मीसा०  
देवोषं । णवरि पंचिं०-त्तस० परि०मच्छि० अणंतभाणेण तिण्णि वि० । औरालि-  
सरीरअंगोवंग० तप्पाअँगसंकिलिद्धस्स तिण्णि वि० ।

५९२. सणक्कुमार याव सहस्सर चि पढमपुढविभंगो । आणद याव णवगेवज्जा  
चि पढमदंडओ धीणगिद्धिदंडओ साददंडओ इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग०-मणुसाउ०  
देवोषं । मणुस०-पंचिं०-ओरा०-तेजा०-क०-ओरालि०अंगो०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-  
अगु०३-त्तस०४-णिमि० ज० वड्डी क० ? अण्ण० मिच्छादि० सागा० सच्चसं०

संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर, तीन युगल और दो गोत्रकी  
जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव क्रमसे  
अनन्तभागरूप वृद्धि, हानि और अवस्थान रूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी है । पञ्चेन्द्रियजाति,  
औदारिकआङ्गोपाङ्ग और त्रसकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व  
संछिष्ट अन्यतर सनत्कुमारसे लेकर उपरिम त्रैवेयकतकका मिथ्यादृष्टि देव क्रमसे अनन्तभाग-  
वृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी है । औदारिकशरीर, तैजसशरीर,  
कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुदलघुत्रिक, वाद्दर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणकी जघन्य  
वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत और नियमसे उदृष्ट सङ्शेयुक्त जीव  
क्रमसे अनन्तभाग वृद्धि, हानि और अवस्थानद्वारा तीनों ही पदोंका स्वामी है । आतपकी  
जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वसङ्शेयुक्त अन्यतर पेशान कल्प  
तकका मिथ्यादृष्टि देव क्रमसे अनन्तभागवृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका  
स्वामी है । उद्योतकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत  
और सर्वसङ्शेयुक्त देव क्रमसे अनन्तभाग वृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका  
स्वामी है । तीर्थङ्करप्रवृत्तिका भङ्ग नारकियोंके समान है । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म  
पेशानकल्पके देवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियजाति  
और त्रसके तीनों ही पदोंका स्वामी परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला देव क्रमसे अनन्तभागवृद्धि,  
हानि और अवस्थानरूपसे होता है । औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गके तीनों ही पदोंका स्वामी  
तस्यायोन्य संछिष्ट देव होता है ।

५९२. सनत्कुमारसे लेकर सहस्सर कल्पतक प्रथम पृथिवीके समान भङ्ग है । आनत-  
कल्पसे लेकर नौव त्रैवेयकतकके देवोंमें प्रथम दण्डक, स्थानगृद्धिदण्डक, सातावेदनीयदण्डक,  
बीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक और मनुष्यायुका भंग सामान्य देवोंके समान है । मनुष्य-  
गति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त  
वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुदलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणकी जघन्य वृद्धिका

अणंतभागेण तिण्णि वि० । छस्संठा०-छस्संघ०-दोविहा० मज्झिमाणि तिण्णियुगलाणि  
दोगोदस्स च ज० वड्ढी कस्स ? अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्झिम० अणंतभागेण  
तिण्णि वि० । [ तित्थ० देवोधं । ]

५९३. अणुदिस याव सव्वह० चि पढमदंडओ साददंडओ अरदि-सोग-  
मणुसाउ० देवोधं । मणुस०-पंचिं०-ओरा०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरा०अंगो०-  
वज्जरी०-पसत्थ०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्तर-आदें०-णिमि०-  
तित्थ०-उच्चा० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० सागा० सव्वसंकि० अणंतभागेण तिण्णि वि० ।

५९४. पंचिं०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि० ओघं । ओरालि० ओघं ।  
णवरि तिरिक्खगदित्तिगं तिरिक्खोघं । ओरालि०मि० पढमदंडओ सम्मादिट्ठिस्स । थीण-  
गिद्धिदंडओ पंचिं० सण्णि० सव्वविसु० । तिरिक्खगदित्तिगं तिरिक्खोघं । एवं सेसा०  
ओघभंगो । णवरि से काले सरोरपज्जत्ति<sup>१</sup> जाहिदि चि भाणिदच्चं । वेउव्वि० देवोधं ।  
णवरि तिरिक्खगदित्तिगं ओघं । वेउव्वियमि० पढमदंडओ सम्मादिट्ठिस्स । थीण-  
गिद्धिदंडओ मिच्छादि० सागा० सव्वविसु० से काले सरोरपज्जत्ति जाहिदि चि अणंत-

स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत और सर्व संकेशयुक्त अन्यतर देव क्रमसे अनन्तभाग वृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी है। छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति, मध्यमे तीन युगल और दो गोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि परिचर्तमान मव्यम परिणामवाला देव क्रमसे अनन्तभाग वृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी है। तीर्थङ्करप्रकृतिका भग सामान्य देवोंके समान है।

५९३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमे प्रथम दण्डक, सातावेदनीय दण्डक, अरति, शोक और मनुष्यायुका भग सामान्य देवोंके समान है। मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकआगोपाग, वज्रपंभ-नाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर साकार-जागृत और सर्व संकेशयुक्त देव क्रमसे अनन्तभागवृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी है।

५९४. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी और काययोगी जीवोंमे ओघके समान भंग है। औदारिककाययोगी जीवोंमे ओघके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे प्रथम दण्डकका स्वामी सम्यग्दृष्टि जीव है। स्थानगृद्धिदण्डकका स्वामी पञ्चेन्द्रिय सत्री और सर्व-विशुद्ध जीव है। तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग तिर्यञ्चोंके समान है। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि जो अनन्तर समयमे शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह स्वामी है ऐसा कहना चाहिए। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमे सामान्य देवोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग ओघके समान है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे प्रथम दण्डकका स्वामी सम्यग्दृष्टि जीव है। जो मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत और सर्वविशुद्धि जीव अनन्तर

१. ता० प्रती सेसा० । ओधि० ओघ णवरि सेस ( ने ) काल ( ले ) सरोरपज्जत्ति, आ० प्रती सेसा० ओधिभंगो । णवरि से काले सरोरपज्जत्ति इति पाठः ।

भाणेष तिण्णि वि० । सेसं देवोधभंगो । आहार०-आहारमि० सव्वद्वभंगो । कम्मइ० पढमदंडओ ज० वड्डी क० ? अण्ण० चदुगदि० सम्मादि० । सेसाणं देवभंगो । एवं अणाहारए त्ति ।

५९५. इत्थिवेदे पढमदंडओ अणियद्विखवग० । थीणगिद्विदंडओ ओघं । साद-दंडओ तिगदियस्स । अड्ढक० ओघं । इत्थि०-णजुंस० तिगदि० । अरदि-सोगं ओघं । चदुआउ-दोभादि-तिण्णिजा०-दोआणु०-थावरादि०४-आहार२-तित्थ० ओघं० । दोभादि-एइंदि०-छस्संठाण-[छस्संघ०-दोआणु०-] दोविहा०-मज्झिम्म तिण्णियु०-दोगो० तिगदि० । पंचि०-वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-तस० ज० वड्डी क० ? अण्ण० दुगदिय० सव्वसंकि० । ओरा०-[ओरालि०अंगो०-] आदाउजो० ज० वड्डी क० ? अण्ण० देवीए संकिलिड्ड० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० ज० वड्डी क० ? अण्ण० तिगदिय० तप्पा०संकिलि० । [सेसं ओघं ] पुरि-सेसु पढमदंडओ इत्थिवेदभंगो । सेसं पंचिदियभंगो । णवरि तिरिक्खगदितिगं मणुसिभंगो ।

५९६. णजुंसगे पढमदंडओ इत्थिभंगो । दोभादि-चदुजादि-दोआणु०-थावरादि४-

समयमे शरीरपर्याप्तिको प्राप्त होगा वह अनन्तभाग वृद्धि, हानि और अनन्तर अवस्थानरूपसे स्थानगृह्णितकके तीनों ही पदोंका स्वामी है । शेष भंग सामान्य देवोंके समान है । आहारक-काययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमे सर्वार्थसिद्धिके समान भग है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें प्रथम दण्डककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भग देवोंके समान है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

५९५ स्त्रीवेदी जीवोंमे प्रथम दण्डकका स्वामी अनिट्टित्तिरण क्षपक जीव है । स्थान-गृह्णितदण्डकका भङ्ग ओषके समान है । सातावेदनीयदण्डकका स्वामी तीन गतिका जीव है । आठ कपायोंका भङ्ग ओषके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका स्वामी तीन गतिका जीव है । अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । चार आयु, दो गति, तीन जाति, दो आनु-पूर्वी, स्थावर आदि चार, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है । दो गति, एकेंद्रियजाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके तीन युगल और दो गोत्रके तीनों पदोंका स्वामी तीनों गतिका जीव है । पञ्चेन्द्रियजाति वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग और त्रसकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? सर्वसंछिष्ट अन्यतर-दो गतिका जीव तीनों पदोंका स्वामी है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप और उद्योतकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? सर्वसंछिष्ट अन्यतर देवी तीनों पदोंकी स्वामी है । तैजसशरीर, कर्मणशरीर, प्रदास्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? तत्रायोग्य संखिलष्ट अन्यतर तीन गतिका जीव तीनों पदोंका स्वामी है । शेष भङ्ग ओषके समान है । पुरुषवेदी जीवोंमे प्रथम दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । शेष भंग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेपता है कि तिर्यञ्च-गतित्रिकका भग मनुष्यिनियोंके समान है ।

५९६. नपुंसकवेदी जीवोंमे प्रथमदण्डकका भंग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी और स्थावर आदि चारके तीनों पदोंके स्वामी परिवर्तमान मध्यम

दुगदिय० तिरिक्ख० मणुस० परिय०मज्झिम०<sup>१</sup>। मणुसगदिदंडओ तिगदिय०।  
तिरिक्ख०३ ओषं। पंचिं०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-तस४-णिमि० तिगदियस्स  
सन्वसंकि०। ओरालि०-ओरा०अंगो० उज्जो० णेरइग० सन्वसंकि०। वेउ०-वेउ०  
अंगो० ओषं। आदावं दुगदिय०। सेसं ओषं।

५९७. अवगदवेदे पढमदंडओ ओषं। साद०-जस०<sup>३</sup>-उच्चा० ज० वड्डी क० ?  
अण्ण० त्रिदियसमयअवगदवेदे०। ज० हा० क० ? अप्प० उपसाम० परिवद०  
दुससय०<sup>३</sup>सुहुमसंप०। एवं सुहुमसंप०। कोघादि०४ पढमदंडओ इत्थिभंगो।  
सेसं ओषं।

५९८. मदि०-सुद० पढमदंडओ ज० वड्डी क० ? अण्ण० मणुसस्स संजमादो  
परिवदमाणस्स दुसमयबंधस्स तस्स ज० वड्डी। ज० हा० क० ? अण्ण० मणुसस्स  
सागा० सन्वविसु० संजमामिसु० चरिसे अणु० वट्ट० तस्स ज० हाणी। ज० अवहा०  
कस्स० ? अण्ण० पंचिं० सण्णि० सच्चाहि प० तप्पा०उक०विसोधीदो परिभगस्स  
अणंतमाणेण वड्ढिदूण अवड्ढिदस्स तस्स ज० अवहा०। सादादिदंडओ ओषं चदुगदि-  
यस्स। सेसार्णं पि ओषं। एवं विभंग०।

परिणामवाले दो गतिके तिर्यञ्च और मनुष्य हैं। मनुष्यगतिदण्डके तीनों पदोका स्वामी तीन गतिका जीव है। तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग ओषके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके तीनों पदोका स्वामी सर्वसंक्लिष्ट तीनों गतिका जीव है। औदारिकशरीर, औदारिक आंगोपांग और उद्योतके तीनों पदोका स्वामी सर्वसंक्लिष्ट नारकी है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआंगोपांगका भंग ओषके समान है। आतपके तीनों पदोका स्वामी दो गतिका जीव है। शेष भङ्ग ओषके समान है।

५९७. अपगतवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डक ओषके समान है। सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर द्वितीय समयवर्ती अपगतवेदी जीव जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला द्वितीय समयवर्ती सूक्ष्मसाम्पराय उपशमक जीव जघन्य हानिका स्वामी है। इसी प्रकार सूक्ष्मसांपरायसयत जीवोंके जानना चाहिए। क्रोध आदि चार कपायवाले जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग खीवेदी जीवोंके समान है। शेष भङ्ग ओषके समान है।

५९८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें प्रथम दण्डककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? संयमसे गिर कर द्वितीय समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर मनुष्य जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? साकार-जाग्रत सर्वविशुद्ध और सयमके अभिसुख होकर अन्तिम समयमें अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मनुष्य जघन्य हानिका स्वामी है। जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ? सय पर्याप्तियोसे पर्याप्त और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभन्न हुआ जो अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव अनन्तभागवृद्धिके साथ अवस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग चार गतिके जीवके ओषके समान है। शेष प्रकृतियोका भङ्ग भी ओषके समान है। इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिए।

१. ता० आ० प्रत्योः मणुस० ३ परिय०मज्झिम० इति पाठः। २. ता० आ०-प्रत्योः ओष। सुद०  
जस० इति पाठः। ३ आ०प्रतौ अण्ण० उवसमपदम० दुसमप० इति पाठः।

५९९. आभिणि०—सुद०—ओधि० पढमदंडओ ओधं । सादासाद०—थिरादि-  
तिण्णियु० चदुगदि० । सेसाणं पि संजमाभिमुहाणं ओधं । मणुसगदिपंचग० ज०  
वड्डी क० ? अण्ण० देव० पोरइ० सागा० तप्पा० उक्कस्ससंकिसेसादो पडिभग्गस्स  
अणंतभागेण वड्ढिदूण अवड्ढिदस्स । तस्सेव से काले ज० अवहाणं । ज० हा० क० ?  
अण्ण० सागा० उक्क०संकि० मिच्छत्ताभिमु० चरिमे अणु० वट्टु० तस्सेव ज० हाणी ।  
मणुसाउ० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० देव-पोरइ० जहणियाए पज्जत्तणिन्वत्तीए ज०  
परिय० मज्झिम० [ अणंतभागेण वड्ढिदूण वड्ढी ] हाइदूण हाणी एकद० अवट्टाणं ।  
देवाउ० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० ज० पज्जत्तणिन्व० ज०  
परिय० मज्झिम० । देवगदि० ४ ज० वड्ढी क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुसस्स मणुस  
गदिभंगो । पंचि०—तेजा० क०—समवदु०—पसत्थ० ४—अगु० ३—पसत्थ०—त्तस० ४—सुभग-  
सुस्सर-आदो०—णिमि०—उच्चा० ज० वड्ढी क० ? अण्ण० चदुगदि० तिण्णि वि  
मणुसगदिभंगो । एवं ओधिदंसणि-सम्मादि०—खइग०—वेदग०—उवसम०—सम्माभिच्छादिट्ठि  
त्ति । णवरि खइगे पसत्था० सत्थाणे ज० वड्ढी क० ? अण्ण० सच्चसंकि० अणंतभागेण  
तिण्णि वि० । मणपज्जव० खविगाणं ओधं । सेसाणं ओधिभंगो । एवं संजद-सामाइ०—

५९९ आभिनिबोधिकजानी, श्रुतजानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग  
ओषके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलके तीनों पदोंका  
स्वामी चारों गतिका जीव है । शेष संयमके अभिमुख प्रकृतियोंका भी भङ्ग ओषके समान है ।  
मनुष्यगतिपञ्चककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट  
सङ्गसे प्रतिभङ्ग हुआ अन्यतर देव और नारकी जीव अनन्तभागवृद्धिरूपसे जघन्य वृद्धिका  
स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । जघन्य हानिका  
स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, उच्छ्रेष्ठ सङ्गेशयुक्त और मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ जो अन्यतर  
जीव अन्तिम अनुभागवन्धमें अवस्थित है वह जघन्य हानिका स्वामी है । मनुष्यायुकी जघन्य  
वृद्धिका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान तथा परिवर्तमान मध्यम परिणाम-  
वाला अन्यतर देव और नारकी अनन्तभागवृद्धिके साथ जघन्य वृद्धिका स्वामी है, अनन्तभाग-  
हानिके साथ जघन्य हानिका स्वामी है तथा इनसेसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका  
स्वामी है । देवगतिचतुष्ककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान  
और जघन्य परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य यथायोग्य तीनों  
पदोंका स्वामी है । देवगतिचतुष्ककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर तिर्यञ्च और  
मनुष्यके मनुष्यगतिके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्र-  
सत्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर,  
आग्नेय, निर्माण और उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर चारो गतिका  
जीव तीनों ही पदोंका स्वामी है जो मनुष्यगतिके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अवधि-  
दर्शनी, सन्यगृष्टि, क्षायिकसम्यगृष्टि, वेदकसम्यगृष्टि, उपशामसम्यगृष्टि और सम्यग्मिथ्या-  
गृष्टि जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यक्त्वमें प्रशस्त प्रकृतियोंकी  
स्वस्थानमें जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सर्वसङ्घि जीव अनन्तभाग वृद्धि,  
हानि और तदनन्तर अवस्थानरूपसे तीनों ही पदोंका स्वामी है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें  
क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान  
४५



छेदो-परिहार०-संजदासंज० । णवरि किंचि विसेसो णाद्व्वो ।

६००. असंजदेसु पढमदंडओ मणुसस्स असंजदसम्मादिट्टिस्स । सेसं मदि०भंगो ओघो व । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० ओघं ।

६०१. किण्णाए पढमदंडओ णिरयोघं । एवं विदियदंडओ । सादादिदंडओ तिगदिय० । इत्थि०-णवुंस० तिगदिय० । अरदि-सोग० णेरइगस्स सम्मादि० । च्चदु०-आउ० ओघं । दोगदि-चदुजा०-दोआणु०-थावरादि०४दंडओ णवुंसगभंगो । तिरिक्खगदितियं ओघं । मणुसगदिदंडओ तिगदियस्स । पंचि०दंडओ तिगदियस्स संकिलेसं० । ओरा०-ओरा०अंगो०-उज्जो० णेरइ० मिच्छादि० सव्वसंकि० । वेउ०-वेउ०अंगो० दुगदियस्स मिच्छा० उक्क०संकि० । आदावं दुगदिय० तप्पा०संकि० । तित्थ० ओघं । णील-काउणं किण्णभंगो । णवरि तिरिक्खगदितिय० एइदियभंगो । पंचिदियदंडओ णिरयभंगो । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०-आदाव० ज० दुगदिय० तप्पा०संकि० । दोगदि-चदुजादि-दोआणु०-थावर०४-णवुंसग-मणुसगदिदंडओ तिगदियस्स कादव्वं ।

६०२. तेउले० पढमदंडओ परिहारभंगो । विदियदंडगादिसंजमाभिमुह्णह्णं

है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए । किन्तु इनमे जो कुछ विशेषता है वह जान लेनी चाहिए ।

६००. असंयतोंमे प्रथम दण्डकके तीनों पदोका स्वामी असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य है । शेष भद्र मत्स्यज्ञानी जीवों और ओषके समान है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमे त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भद्र है । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमे ओषके समान भद्र है ।

६०१. कृष्ण लेइयामे प्रथम दण्डकका भद्र सामान्य नारकियोंके समान है । इसी प्रकार दूसरे दण्डकका भद्र जानना चाहिए । सातावेदनीय आदि दण्डकके तीनों पदोका स्वामी तीन गतिका जीव है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके तीनों पदोका स्वामी तीनों गतिका जीव है । अरति और शोकके तीनों पदोंका स्वामी सम्यग्दृष्टि नारकी है । चारो आयुओका भद्र ओषके समान है । दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी और स्थावर आदि चार दण्डकका भद्र नपुंसकवेदी जीवोंके समान है । तिर्यञ्चगतित्रिकका भद्र ओषके समान है । मनुष्यगतिदण्डकके तीनों पदोका स्वामी तीन गतिका जीव है । पञ्चोन्द्रियजातिदण्डकके तीनों पदोका स्वामी संक्षिष्ट तीनों गतिका जीव है । औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और उद्योतके तीनों पदोका स्वामी सर्वसंक्षिष्ट मिथ्यादृष्टि नारकी है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकआङ्गोपाङ्गके तीनों पदोका स्वामी उक्क संक्षेपयुक्त मिथ्यादृष्टि दो गतिका जीव है । आतपके तीनों पदोका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्षिष्ट दो गतिका जीव है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भद्र ओषके समान है । नील और कापीव लेइयामे कृष्णलेइयाके समान भद्र है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भद्र एकेन्द्रियोंके समान है । पञ्चोन्द्रियजातिदण्डकका भंग नारकियोंके समान है । वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग और आतपके तीनों पदोका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्षिष्ट दो गतिका जीव है । दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, स्थावर चतुष्क, नपुंसकवेददण्डक और मनुष्यगतिदण्डकके तीनों पदोंका स्वामित्व तीन गतिके जीवोंके कहना चाहिए ।

६०२. पीतलेइयामे प्रथम दण्डकका भद्र परिहारविशुद्धिसंयतोंके समान है । द्वितीय

ओर्षं । साददंडओ तिगदिय० । इत्थि०-णवुंस० देव० तप्पा०विसु० तिणिण वि । अरदि-सोग० ओर्षं । दोगदि-दोजादि-छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-त्तस-थावरादितिणियु० देवस्स । देवगदि०४ ज० वड्ढी क० ? अण्ण० त्तिरिक्ख० मणुस० सव्वसं० । ओरालि० याव णिमि० त्ति सोधम्मभंगो<sup>१</sup> । ओरा०अंगो० देवस्स तप्पा०संक्किलि० । तित्थि० देवस्स । एवं पम्माए वि । णवरि पंचिदियदंडओ सहस्सारभंगो ।

६०२. सुक्काए खविगाणं संजमाभिसुहाणं च ओर्षं । साददंडओ तिगदिय० । सेसाणं पि आणदभंगो । देवगदि०४ पम्मभंगो ।

६०४. भवसि० ओर्षं । अब्भवसि० पढमदंडओ ज० क० ? अण्ण० च्दुग० सव्वविसु० । सेसाणं ओर्षं । सासणे पढमदंडओ च्दुग० सव्वविसु० । सादादिदंडओ च्दुग० । पंचि०-ओरा०दंडओ च्दुग० सव्वसंकि० । त्तिरिक्खगदितियं सत्तमाए सव्वविसु० । मिच्छादि० मदि०भंगो । असणी० पढमदंडओ सव्वविसु० । सेसं ओर्षं । आहार० ओर्षं । एवं जहण्णयं समत्तं ।

एवं सामिचं समत्तं ।

दण्डक आदि संयमके अभिमुख प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । सातावेदनीयदण्डकके तीनों पदोंका स्वामी तीन गतिका जीव है । खीवेद और नपुंसकवेदके तीनों ही पदोंका स्वामी तत्प्रायोग्य विशुद्ध देव है । अरति आंर शोकका भङ्ग ओषके समान है । दो गति, दो जाति, छह संस्थान, छह सहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति और त्रस व स्थावर आदि तीनों युगलके तीनों पदोंका स्वामी देव है । देवगतिचतुष्ककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सर्वसंक्लिष्ट तिर्यञ्च और मनुष्य यथायोग्य तीनों पदोंका स्वामी है । औदारिकशरीरसे लेकर निर्माण तककी प्रकृतियोंका भंग सौधर्म कल्पके समान है । औदारिक आगोपांगके तीनों पदोंका स्वामी यथायोग्य तत्प्रायोग्य सक्लिष्ट देव है । तीर्थङ्करप्रकृतिका स्वामी देव है । इसी प्रकार पद्मलेख्यामें भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकका भंग सहस्रार कल्पके समान है ।

६०२. शुक्ललेख्यामें क्षपक और सयमके अभिमुख प्रकृतियोंका भंग ओषके समान है । सातावेदनीय दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी तीन गतिका जीव है । शेष प्रकृतियोंका भी भंग आनत कल्पके समान है । देवगतिचतुष्कका भंग पद्मलेख्याके समान है ।

६०४. भव्योमि ओषके समान भंग है । अभव्योमि प्रथम दण्डकके तीनों जघन्य पदोंका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भंग ओषके समान है । सासादनसम्यक्वमे प्रथम दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी सर्वविशुद्ध चारों गतिका जीव है । सातावेदनीय आदि दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी चारों गतिका जीव है । पञ्चेन्द्रियजाति और औदारिकशरीरदण्डकके तीनों पदोंका स्वामी सर्व संक्लिष्ट चारों गतिका जीव है । तिर्यञ्चगतिकके तीनों पदोंका स्वामी सातवीं पृथिवीका सर्वविशुद्ध नारकी है । मिथ्यादृष्टि जीवोमि मत्पज्ञानी जीवोके समान भंग है । असंज्ञी जीवोमि प्रथम दण्डकके तीनों पदोंका स्वामी सर्वविशुद्ध जीव है । शेष भंग ओषके समान है । आहारक जीवोमि ओषके समान भंग है । इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

१. आ० प्रतौ तिणिण वि ओव इति पाठः । २. आ. प्रतौ णिमि० इत्थि० सोधम्मभंगो इति पाठः ।

## अप्पावहुअं

६०५. अप्पावहुअं दुवि०-जह० उक० । उक० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-सचणोक०-तिरिक्ख०-एइदि०-हुंड-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-थावर-अथिरादिपंच०-णीचा०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक० वड्डी । उक० अवहा० विसेसाधिया । उक० हाणी विसे० । सादा० देवग०-पंचि०-वेउळ्वि०-आहार०-तेजा०-क०-समचदु०-दोअंगो०-पसत्थ०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० सव्वत्थो० उक० अवहा० । उक० हाणी अणंतगु० । उक० वड्डी अणंतगु० । इत्थि०-पुरिस०-चदु-आउ०-दोगदि-तिण्णिजादि-ओरालियसरीर-चदुसंठा०-ओरालि०-अंगो०-उस्संपं०-दोआणु०-आदा०-अप्पसत्थ०-सुहुम<sup>१</sup>०-अपज्ज०-साधार०-दुस्सर० सव्वत्थोवा उक० वड्डी । उ० हाणी अवहाणं च दो वि तुल्लाणि विसेमा० । उज्जो० उक० हाणी अवहा० दो वि तुल्लाणि थोवाणि । उ० वड्डी अणंतगु० ।

६०६. णेरइएसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उ० वड्डी । उ० हा० अवहाणं च दो वि तुल्लाणि विसे० । उज्जो० ओघं । एवं सत्तमाए । उवरिमासु छसु उज्जोवं इत्थि-भंगो । सेसा एवमेव । सव्वतिरिक्ख-सव्वअपज्ज०-सव्वदेवस एइदि०-विगालिं-पंचका-याणं ओरालियमि०-वेउ०-आहार<sup>२</sup>०-आहारमि०-पंचले०-अवभव०-सासण०-

## अल्पवहुत्त्व

६०५. अल्पवहुत्त्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । सातावेदनीय, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आगोपाग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि अनन्तगुणी है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार आयु, दो गति, तीन जाति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिक आगोपाग, छह सहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि और अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । उद्योतकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर सबसे थोड़े हैं । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है ।

६०६. नारकियाँसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है । इससे उत्कृष्ट हानि और अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं । उद्योतका भग ओघके समान है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमे जानना चाहिए । पहलेकी छह पृथिवियोंमें उद्योतका भग स्त्रीवेदके समान है । शेष प्रकृतियोंका भग भी इसी प्रकार है । सब तिर्यञ्च, सब अपर्याप्त, सब देव, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पाँचो स्थावरकाय, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियककाय-

१. आ० प्रतौ अप्पसत्थ०४ सुहुम० इति पाठः । २. ता० प्रतौ पंचकायाण च । ओरालियमि० वेउ० वेउ०मि० आहार० इति पाठः ।

असण्णि० गेरइगभंगो । णवरि दोण्हं मिस्साणं आउ० ओघं । सेसाणं सच्चत्थो० उ० हाणी अवट्ठाणं च । उक्क० वड्डी अणंतगु० । एवं वेउच्चियमि० । एदेसिं उज्जोवं जाणिदव्वं ।

६०७. मणुस०३-पंचि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-ओरा ०-इत्थि०-पुरिस०-णत्तुंस०-वक्खुदं०-सुक्क०-सण्णि० खविगाणं ओघं । सेसाणं णिरयभंगो । उज्जो० ओघं । णवरि मणुस०-[३] इत्थि०-पुरिस०वज्जेसु । कायजोगि-क्रोधादि०४-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छादि०-आहारए त्ति ओघभंगो । कम्मइ० देवगदिपंचग० सच्चत्थो० वड्डी । हाणी विसे० । सेसाणं पगदीणं सच्चत्थो० अवट्ठा० । वड्डी अणंतगु० । हाणी विसेसाधिया । अवगद० सच्चत्थो० सच्चत्थो० उ० हाणी । उ० वड्डी अणंतगु० । एवं सुहुमसं । आभिणि०-सुद०-ओधि० मिच्छत्ताभिमुहाणं सच्चत्थो० उ० हाणी अवट्ठाणं च । उ० वड्डी अणंतगु० । खविगाणं ओघं । एवं मणपज्व०-संज०-सामा०-छेदो०-परिहार०-संजदासंज०-ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सम्मामि० । णवरि खइगे अप्पसत्थ० ओघं इत्थिवेदभंगो ।

एवं उक्कस्सं समत्तं ।

योगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, पाँच लेख्यावाले, अभव्य, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंजी जीवोमे नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि दो मिश्रयोगीमे आयुक्ता भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें जानना चाहिए । इनके उद्योत भी जानना चाहिए ।

६०७. मनुष्यत्रिक, पञ्चन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचो मनोयोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चक्षुदर्शनी, शुक्ललेख्यावाले और संजी जीवोमे क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । उद्योतका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोको छोड़कर कहना चाहिए । काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यजानी, श्रुताजानी, विभङ्गजानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोमे ओषके समान भङ्ग है । कर्मणकाययोगी जीवोमें द्वैगतिपञ्चककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । इससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । अपगतवेदी जीवोमे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिकसयत जीवोमें जानना चाहिए । आभिनिवोधिकजानी, श्रुतजानी और अवधिजानी जीवोमे मिथ्यात्वके अभिसुख प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान सबसे स्तोक है । इनसे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है । क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार मनःपर्ययजानी, सयत, सामायिकसयत, छेदोपस्थापनासयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सयतासयत, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि उपशमसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोमे अप्रशस्त प्रकृतियोंका भङ्ग ओषके स्त्रीवेदके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

१. आ० प्रती पंचमण० ओरा० इति पाठः । २. ता० प्रती ओष । मणपज्व० इति पाठः ।

६०८. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवर्दस०-मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु०-अप्पसत्थव०४-उप०-पंचंत० सव्वत्थो० ज० हा० । ज० वड्ढी' अणंतगु० । सादासाद०-चदुणोक०-चदुआउ०-तिगादि-पंचजा०-पंचसरीर-छस्संठा०-तिणिणअंगो०-छस्संध०-पसत्थ०४-तिणिणआणु०-अगुरु०३-आदा-उज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयु०-[ णिमि० ] उच्चा'० ज० वड्ढी हाणी अवट्टाणं च तिणिण वि तुल्लाणि । तिरिक्खगदितिगं तित्थ० सव्वत्थो० ज० हाणी । वड्ढी अवट्टाणं च दो वि तु० अणंतगु० । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचि०-तस०२-पंचमण-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरा०-इत्थि०-पुरिस०-णउंस०-कोघादि४-मदि०-सुद०-असंज०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छा०-सणिण-आहारए त्ति । णवरि मणुस०३-ओरा०-इत्थि०-पुरिस० तिरिक्खगदितिग० सादभंगो ।

६०९. णिरएसु थीणागिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-तिरिक्ख०३ ओघं । सेसाणं तिणिण वि तुल्लाणि । एवं सत्तमाए । एवमेव छसु उवरिमासु । तिरिक्ख०३ सादभंगो । तिरिक्खेसु णिरयभंगो । अपच्चक्खण०४ ओघं । सव्वदेव०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-मि० णिरयभंगो । सव्वअपज्ज०-एइदि०-विगलिं०-पंचकायाणं च तिणिण वि तु० । ओरा०

६०८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । इससे जघन्य वृद्धि अनन्तरगुणी है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, चार आयु, तीन गति, पाँच जाति, पाँच शरीर, छह संस्थान, तीन आंगोपांग, छह सहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल, निर्माण और उच्चगोत्रकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान तीनों ही तुल्य हैं । तिर्यञ्चगतित्रिक और तीर्थङ्करकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । जघन्य वृद्धि व अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर उससे अनन्तरगुणे है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचो मनोयोगी, पाँचो वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मिथ्या-दृष्टि, सङ्गी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग सातावेदनीयके समान है ।

६०९. नारकियोमे स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके तीनों ही पद तुल्य हैं । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इसी प्रकार पहलेकी छह पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग सातावेदनीयके समान है । तिर्यञ्चोमे नारकियोंके समान भग है । अप्रत्याख्यानावरण चारका भंग ओघके समान है । सब देव, वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नारकियोंके समान भंग है । सब अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके तीनों ही

मि०-आहार०-आहारमि०तिणि वि० तु० । कम्मह०-अन्भव<sup>१</sup>०-सासण०-असाणि०-  
अणाहारए त्ति णिरयमंगो ।

६१०. आभिणि०-सुद०-ओधि० पढमदंडओ ओषं । मणुस० सव्वत्थो० ज०  
हाणी । वड्डी अवट्ठाणं दो वि तु० अणंतगु० । एवं सव्वसंक्किलिट्ठाणं पगदीणं । एवं  
मणप०-संज०-सामा०-छेदो०-परिहार०-संजदासंज०-ओधिदं०-सम्मा०-सइग०-वेदग०-  
उवसम०-सम्माभि० । अवगदवे०-सुहुमसं० सव्वत्थो० ज० हाणी<sup>२</sup> । [ ज० ] वड्डी  
अणंतगु० । परिहार०-तेउ०-पम्म० अप्पसत्थाणं पगदीणं सव्वत्थो० ज० हाणी ।  
वड्डी अवट्ठाणं अणंतगु० ।

एवं पदणिक्खेवे त्ति समत्तं ।

### बड्डी समुक्तिणा

६११. वड्ढिबंधे त्ति तत्थ इमाणि अणियोगद्दाराणि णादव्वाणि भवंति । तं जहा-समु-  
क्तिणा याव अप्पावहुगे त्ति । समुक्तिणा दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं अत्थि  
छवड्ढि० छहाणि० अवट्ठि० अवत्तव्वबंधगा य । एवं ओघमंगो मणुस०३-पंचिं०-तस०  
२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरा०-आभिणि-सुद-ओधि०-मणपज्ज०-संज०-वचवु०-

पद तुल्य हैं । औदारिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी  
जीवोंमें सब प्रकृतियोंके तीनों ही पद तुल्य हैं । कर्मणकाययोगी, अभव्य, सासादनसम्य-  
गृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंमें नारकियोंके समान भंग है ।

६१०. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें प्रथम दण्डक ओघके  
समान है । मनुष्यगतिकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । इससे वृद्धि और अवस्थान  
दोनों ही तुल्य होकर अनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार संक्षेपसे जघन्य अनुभागवन्धको प्राप्त  
होनेवाली सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए<sup>१</sup> । इसी प्रकार मन पर्ययज्ञानी, संयत,  
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, अवधिदर्शनी, सम्य-  
गृष्टि, क्षायिकसम्यगृष्टि, वेदकसम्यगृष्टि, उपशमसम्यगृष्टि और सम्यग्मिथ्यागृष्टि जीवोंके  
जानना चाहिए । अपगतवेदी और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जघन्य हानि सबसे स्तोक  
है । इससे जघन्य वृद्धि अनन्तगुणी है । परिहारविशुद्धिसंयत, पीतलेइया और पद्मलेइयामें  
अप्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । इससे जघन्य वृद्धि और अवस्थान  
अनन्तगुणे हैं ।

इस प्रकार पदनिक्षेप समाप्त हुआ ।

### वृद्धि समुत्कीर्तना

६११. वृद्धिबन्धका प्रकरण है । उसमें ये अनुयोगद्दार ज्ञातव्य हैं । यथा—समुत्कीर्तनासे  
लेकर अल्पवहुत्व तक । समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी  
छद् वृद्धि, छद् हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार ओघके  
समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों बचनयोगी, काययोगी,  
औदारिककायोगी, आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन.पर्ययज्ञानी, संयत, चक्षु-

१. ता प्रतौ आहारमि० कम्मह० तिणि वि० तु० अन्भव० आ० प्रतौ आहारमि० कम्मह० तिणि  
वि० । अन्भव० इति पाठः । २. ता० प्रतौ सुहुमसं० ज० (स) व्वत्थो० हा०. आ० प्रतौ सुहुमसं० सव्वत्थो०  
हाणी इति पाठः ।

अचक्खु०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मा०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारए त्ति ।

६१२. गिरएसु धुविगाणं अत्थि छवड्ढि० छहाणि० अवट्ठि० । सेसं ओषमंगो । णवरि पढमाए तित्थ० अवत्त० णत्थि । एवं सव्वणेरइयंपंचि०तिरि०अपज्ज०-देवा०, तित्थ० धुवमंगो, सव्वएइदि०-विगालि०-पंचका०-ओरा०मि०-वेउ०-वेउ०मि०-आहार०-आहारमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०-विमंग०-परिहा०-संजदासंज०-असंज०-पंचले०-अभव०-सासण०-सम्मामि०-असण्णि-अणाहारि त्ति । ओरालि०मि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदिपंचग० अवत्त० णत्थि १३ । वेउव्वियमि०-किण्ण०<sup>३</sup>-गील० तित्थय० १३ अवत्त० णत्थि ।

६१३. इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-क्रोधे पंचणा०-चदुदं०-चदुसंज०-पंचंत० अत्थि० छवड्ढि० छहाणि० अवट्ठि० । सेसाणं ओषं । माणे तिण्णिसंज० मायाए दोसंज० लोमे पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० अत्थि छवड्ढि० छहाणि० अवट्ठि० । सेसं ओषं । अवगदवेदे सव्वाणं<sup>४</sup> अत्थि अणंतगुणवड्ढि० हाणि० अवत्तव्वबंधगा य । एवं सुहुमसंप० । णवरि

दर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्लेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि, सही और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

६१२. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवत्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और देवोंमें जानना चाहिये । मात्र देवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । तथा इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पाँचों स्थावरकाय, औदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, काम्पणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, असंयत, पाँच लेश्यावाले, अभव्य, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी, काम्पणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका अवत्तव्यपद नहीं है, तेरह पद हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कृष्णलेश्या और नीललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके तेरह पद हैं, अवत्तव्यपद नहीं है ।

६१३. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी और क्रोध कषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष भङ्ग ओषके समान है । मानकषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायकी, माया कषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायकी तथा लोभकषायमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष भङ्ग ओषके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी अनन्तगुणवृद्धि, अनन्तगुणहानि और अवत्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता

१. ता० प्रती ओरा० वेउव्वियका० वेउव्विय० आहार० इति पाठः । २. आ० प्रती ओरालि० कम्मइ० इति पाठः । ३. आ० प्रती वेउव्विय० किण्ण० इति पाठः । ४. ता० प्रती अवगदवेदेवेद ( ? ) सव्वाण इति पाठः ।

अवत्त० गत्थि । सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस'०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि  
छवड्ढि० छहाणि० अवड्ढि० वंधगा य ।

एवं ससुक्कित्तणा समत्ता

### सामित्तं

६१४. सामित्ताणुगमेण दृवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा-छदंस०-चदुसंज०-  
भय-हु०-तेजा०-क्र०-वण्णा० ४-अगु-उप०-णिमि०-पंचंत० छवड्ढि० छहाणि० अवड्ढि०  
क० ? अण्ण० । अवत्त० क० ? अण्ण० उवसा० परिवद० मणुसस्स वा मणुसीए वा  
पढमसमयदेवस्स वा । एदेण कमेण भुजगारसामित्तभंगो अवसेसाणं सव्वाणं । एवं  
याव अणाहारए ति णादव्वं ।

### कालो

६१५. कालाणुगमेण दृवि० । ओघे० सव्वपगदीणं पंचवड्ढि० पंचहाणिवंधगा  
केवचिरं कालादो होदि ? ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० भागो । अणंतगुणवड्ढि-  
हाणि० ज० ए०, उ० अंतो० । अवड्ढि० ज० ए०, उ० सत्तइ सम० । अवत्त० ज०  
[उ०] ए० । एवं याव अणाहारए ति णेदव्वं ।

है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है। सामायिकसयत और छेदोपस्थापनासयत जीवोमें पाँच  
ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभ संज्वलन, उच्चोत्र और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि  
और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं। गेप भङ्ग ओघके समान है।

इस प्रकार ममुत्कीर्तना समान हुई ।

### स्वामित्व

६१७ स्वामित्वाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे  
पाँच ज्ञानावरण छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय जुगुसा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,  
वर्णचतुष्क अनुस्लघु, उपघात निर्माण और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और अव-  
स्थितपदके बन्धक जीव कौन हैं ? अन्यतर जीव बन्धक है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीव  
कौन हैं ? उपशमश्रेणसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य मनुषियनी और प्रथम समववर्ती देव  
अवक्तव्यपदका बन्धक है। गेप सबका इसी क्रमसे भुजगाराणुगमके स्वामित्वके समान भङ्ग है।  
अनाहारक तक इसी प्रकार जान लेना चाहिए ।

### काल

६१५ कालाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब  
प्रवृत्तियोंकी पाँच वृद्धि और पाँच हानिके बन्धक जीवोका कितना काल है ? जघन्य काल एक  
समय है और उच्छ्रष्ट काल आवलिके अमंख्यातवे शानप्रमाण है। अनन्तगुणवृद्धि और  
अनन्तगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल अनन्तमुद्धत है। अन्वस्थितपदके  
बन्धक जीवोका जघन्य काल एक समय है और उच्छ्रष्ट काल सात-आठ समय है। अवक्तव्य-  
पदके बन्धक जीवोका जघन्य और उच्छ्रष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा  
तक जानना चाहिए ।

१ आ० प्रतो पचणा० पचदस० इति पाठ ।



## अंतरं

६१६. अंतराणुगमेण दुवि० । ओषेण पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण० ४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० पंचवड्ढि०-हाणिवंधंतरं केवचिरं कालादो ? ज० ए०, उ० असंखेजा' लोगा । [ अवट्टि० एसेव भंगो । ] अणंतगुणवड्ढि- हाणिवंधंतरं ज० ए०, उ० अंतो । अवच० ज० अंतो०, उ० अद्दपोग्गल० । तित्थय०<sup>३</sup> पंचवड्ढि-हाणि-अवट्टि० ज० ए०, उ० तैचीसं० सादि० । एवं अवच० । णवरि जह० अंतोम्ल० । अणंतगुणवड्ढि-हाणि० ज० ए०, उ० अंतो० । एदेण कमेण भुजगारभंगो कादव्वो । एवं याव अणाहारए चि षोदव्वं ।

**विशेषार्थ—**यहाँ जितने पद कहे हैं उन सबका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा प्रारम्भकी पाँच वृद्धि और पाँच हानिका उत्कृष्ट काल भावल्लिके असंख्यातवें भागप्रमाण, शेष दो वृद्धि-हानियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त, अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल सात-आठ समय और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काल एक समय होनेसे उक्तप्रमाण कहा है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक यथायोग्य एक जीवकी अपेक्षा काल घटित कर लेना चाहिए ।

## अन्तर

६१६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संस्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्षा-चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी पाँच वृद्धि और पाँच हानिवन्धका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अवस्थितपदका यही भङ्ग है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानि बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवक्तव्य बन्धका भी अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । उसी क्रमसे भुजगाररूपणके समान अन्तर-काल करना चाहिए । इसी प्रकार धनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ—**यह सम्भव है कि पाँच ज्ञानावरणादिकी पाँच वृद्धि और पाँच हानि एक समयके अन्तरसे हों और अनुभागबन्धके परिणामके अनुसार असंख्यात लोकप्रमाण कालके अन्तरसे हों, इसलिए इन वृद्धियों और हानियोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका एक समय अन्तर तो स्पष्ट है पर उत्कृष्ट अन्तर जो अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कहा है, उसका कारण यह है कि ये दोनों यदि नहीं होती हैं तो अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त कालतक ही नहीं होती,

१. ता० प्रती पंचंत० । [ उक्क० हाणि अवच० षधतरं केवचिरं कालादो होटि ? जह० एग० उक्क० ] असंखेजा, आ० प्रती पंचंत० उक्क० हाणी० बंधतरं केवचिरं कालादो ? ज० ए०, उ० असंखेजा इति पाठः ।  
२. ता० आ० प्रत्योः अद्दपोग्गल० । एवं पंचवड्ढि-हाणि अवट्टि० एसेव भंगो तित्थ० इति पाठः ।

## णाणाजीवेहि भंगविचओ

६१७. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि० । ओघेण पंचणा०-णवदंसणा०-  
भिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालिय०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-  
पंचंत०छवड्ढि-छहाणि-अवड्ढि० णियमा अत्थि । सिया एदे य अवत्तगे य । सिया एदे य  
अवच्चवगा य । तिण्णि आउ० सच्चपदा भयणिज्जा । वेउच्चियछ०-आहारदुगं  
त्तित्थय०' अणंतगुणवड्ढि-हाणि० णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सेसाणं सच्च-  
पदादीणं सच्चपदा भयणिज्जा । एवं भुजगारभंगो कादव्वो । एवं अणाहारए त्ति णेदव्वं ।

## भागाभागो

६१८. भागाभागानुगमेण दुवि० । ओघेण पंचणा०-णवदंस०-भिच्छ०-सोलसक०-  
भय-दु०-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० पंचवड्ढि-हाणि-अवड्ढि०

अन्तर्मुहूर्तकालके वाद् ये नियमसे होती हैं । इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे  
उतरते समय या उतरते समय मर कर देव होनेपर होता है । किन्तु यहाँ जघन्य अन्तर प्राप्त  
करना है, इसलिए अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार उपशमश्रेणि पर आरोहण कराके इनका बन्ध  
करानेसे जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त ले आये । तथा उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध-  
पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन-  
प्रमाण कहा है । इनके अवस्थितपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर पाँच वृद्धियों और पाँच-  
हानियोंके ही समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक तेतीस सागर होनेसे  
यहाँ इसको पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण  
कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

## नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय

६१७ नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश ।  
ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक-  
शरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी  
छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये होते हैं और  
एक अवक्तव्यपदका बन्धक जीव होता है । कदाचित् ये होते हैं और अनेक अवक्तव्यपदके  
बन्धक जीव होते हैं । तीन आयुओंके सब पद भजनीय हैं । वैक्यिक छह, आहारकद्विक और  
तीर्थङ्करप्रकृतिकी अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव नियमसे हैं । शेष पद  
भजनीय हैं । शेष सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं । इस प्रकार भुजगारके समान भङ्ग  
करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

## भागाभाग

६१८. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश । ओघसे  
पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस-  
शरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी पाँच  
वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ?

१ ता० प्रतौ भयणिज्जा । आहार० २ तित्थ० इति पाठः ।

सच्चजीवाणं के० ? असंखे० । अणंतगुणवृद्धि० दुभागो सादिरे० । अणंतगुणहा० दुभागो देख० । अवत्त० अणंतभागो । सेसाणं पगदीणं एसेव भंगो । णवरि अवत्तच्च० असंखे०भा० । आहार०२ पंचवृद्धि०-पंचहाणि-अवट्टि०-अवत्त० संखे०ज्जा । अणंतगुणवृद्धि-हाणी० णाणा०भंगो । एवं भुजगारभंगो कादच्चो । एवं याव अणाहारए त्ति षेदच्चं ।

### परिमाणं

६१९. परिमाणं दुवि० । ओघेण पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० छवट्टि-छहाणि-अवट्टि० केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्तिया ? संखे०ज्जा । थीणमि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरालि० एवं चेव । णवरि अवत्त० असंखे० । तिण्णिआउ०-वेउव्वियछ० छवट्टि-छहाणि-अवट्टि०-अवत्त० केत्तिया ? असंखे० । आहार०२ सच्चपदा के० ? संखे०ज्जा । तित्थय० तेरसपदा के० ? असंखे०ज्जा । अवत्त० के० ? संखे० । सेसाणं सादादीणं चोदसपदा<sup>१</sup> केत्ति० ? अणंता । एवं भुजगारभंगो कादच्चो । एवं याव<sup>३</sup> अणाहारए त्ति षेदच्चं ।

असंख्यातवें भाराप्रमाण हैं । अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके साधिक द्वितीय भाग-प्रमाण हैं । अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके अनन्तवे भागप्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंका यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके असख्यातवे भागप्रमाण हैं । आहारकद्विककी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके संख्यातवे भागप्रमाण हैं । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इस प्रकार भुजगारभंगके समान करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

### परिमाण

६१९. परिमाण दो प्रकारका है—ओघ और आदंश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छद्दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुम्तघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायको छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? सख्यात हैं । स्थानगुद्धि तीन, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरके बन्धक जीवोंका यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सख्यात हैं । तीन आयु ओर वैकियिक छहकी छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असख्यात हैं । आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? सख्यात है । तीर्थङ्करप्रकृतिके तेरह पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । गेप मातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके चौदह पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इस प्रकार भुजगारभङ्गके समान करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

१. आ० प्रती आहार० पंचवृद्धि इति पाठ । २. ता० प्रती नेमाण चोदसपदा इति पाठ ।  
३. ता० प्रती भुजगारभंगो नाव इति पाठ ।

## खँत्तं

६२०. खँत्ताणुगमेण दुवि० । ओघे० पंचणा०-गवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-  
दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण० ४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० छवड्ढि-छहाणि-अवट्ठि०  
केवडि खँत्ते ? सव्वलोगे । अवत्त० केव० ? लो० असंखँ० । तिण्णिआउ०-वेउन्विय-  
छ०-आहारदुग-तित्थ० छवड्ढि-छहाणि-अवट्ठि०-अवत्त० केव० ? लो० असंखँ० । सेसाणं  
चौँदसपदा के० ? सव्वलोगे । एवं भुजगारभंगो याव अणाहारणं त्ति षेदव्वं ।

## फोसणं

६२१. फोसणाणुगमेण दुवि० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-भय-दु०-तेजा०-  
क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० छवड्ढि-छहाणि-अवट्ठि० केवडि खँत्तं  
फोसिदं ? सव्वलोगो । अवत्त० के० खँत्तं फोसिदं ? लो० असंखँ० । थीण्णिगिद्धि०-३-  
अणंताणु०-४-तेरसपदा सव्वलो० । अवत्त० अट्टचौं० । मिच्छत्त० तेरसपदा गाणा०-  
भंगो । -अवत्त० अट्ट-वारह० । अपच्चक्खाण० ४ तेरसपदा सव्वलो० अवत्त०  
छवौं० । दोआउ०-आहारदुगं चौँदसपदा लोग० असंखँ० । मणुसाउ० चौँदसपदा

## क्षेत्र

६२०. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देशा त्रौ प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच  
ज्ञानावरण, तौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व. सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस-  
शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि,  
छह हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अवक्तव्य-  
पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असत्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है । तीन अयु,  
वैकिकिय छट्, आहारकट्टिक और तीर्थङ्करकी छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित और अवक्तव्य-  
पदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असत्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । षेष प्रकृतियोंके  
चौदह पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोकप्रमाण क्षेत्र है । इस प्रकार भुजगार-  
भङ्गके समान अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

## स्पर्शन

६२१. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देशा त्रौ प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच  
ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क,  
अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थित  
पदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया  
है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असत्यातवें  
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगुट्टिक और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तेरह पदोंके  
बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम  
आठ वट्टे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तेरह पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके  
समान है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वट्टे चौदह राजु और कुछ कम बारह  
वट्टे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्यास्थानावरण चारके तेरह पदोंके बन्धक  
जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह  
वट्टे चौदह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और आहारकट्टिकके चौदह पदोंके

अद्वर्चो० सन्वलो० । दोगदि-दोआणु० तेरसपदा छर्चो० । अवत्त० खेंत्त० । ओरा०  
तेरसपदा णाणा०भंगो । अवत्त० बारह० । वेउन्वि०-वेउ०अंगो० तेरसपदा बारह० ।  
अवत्त० खेंत्त० । तित्थ० तेरसपदा० अद्वर्चो० । अवत्त० खेंत्त०भंगो । सेसाणं सादादीणं  
चोईसपदा सन्वलो० । एवं भुजगारभंगो याव अणाहारए चि षेदच्चं ।

बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुके चौदह पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो गति और दो आनुपूर्विके तेरह पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। औदारिक-शरीरके तेरह पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गो-पाङ्गके तेरह पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके तेरह पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके चौदह पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक भुजगार भङ्गके समान जानना चाहिए।

**विशेषार्थ—**पाँच ज्ञानावरणादिके तेरह पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि सब जीव करते हैं।

इसलिए उक्त पदोंकी अपेक्षा सब लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इसी प्रकार स्थानगुद्धिदण्डक, मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण चार और औदारिकशरीरकी अपेक्षा उक्त तेरह पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए। पाँच ज्ञानावरणादिका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें गिरते समय होता है, तथा प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद विरतसे विरताविरत या अविरत होते समय होता है, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। चारों गतियोंमें सम्यग्दृष्टि जीवोंके सासादन गुणस्थानके प्राप्त होनेपर स्थानगुद्धि आदिका अवक्तव्यपद होता है। यत यह स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण है, क्योंकि इसमें देवोंके विहारवत्त्वस्थान स्पर्शनकी प्रधानता है। इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। विरत या विरताविरत जीव मर कर उपपादके समय भी अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्य पद करते हैं और इनका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण है, अत उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। सासादन जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और कुछ कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण है और इनका मारणान्तिक समुद्घातके समय मिथ्यात्वको प्राप्त होकर मिथ्यात्वका अवक्तव्यबन्ध सम्भव है, अत मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। नरकायु और देवायुका बन्ध स्वस्थानमें अमङ्गी आदि और आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। मनुष्यायुका बन्ध स्वस्थानमें एकेन्द्रियादि जीव और विहारवत्त्वस्थानमें देव करते हैं, इसलिए इसके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजू और सब लोकप्रमाण कहा है। मात्र अमिकायिक और वायुकायिक जीव मनुष्यायुका बन्ध नहीं करते, इतना विशेष जानना चाहिए। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीव भी बन्ध करते हैं,

## कालो

६२२. कालाशुगमेण दुचि० । ओये० पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-भय-दु०-तेजा०-  
 क०-व्या०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० छवड्ढि-छहाणि-अवड्ढिदवंधगा केवचिरं  
 कालादो होति ? सव्वदा । अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज्ज० । शीणणि०३-मिच्छ०-  
 अट्टक०-ओरा० तेरसपदा सव्वदा । अवत्त० ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० ।  
 सादादिदंडयस्स चोदंसपदा सव्वदा । तिण्णिआउ० पंचवड्ढि-पंचहाणि-अवट्ठि०-अवत्त०  
 ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० । अणंतगुणवड्ढि-हाणि० ज० ए०, उ० पलि०  
 असं० । वेउव्वियल्ल० बारसपदा ज० ए०, उ० आवलि० असं० । अणंतगुणवड्ढि-

अ इ प्रकृतियोंके तेरह पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजूप्रमाण  
 कहा है। मात्र ऐसी अवस्थामें इनका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, अतः इनके अवक्तव्यपदके  
 बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। मनुष्यों और तिर्यञ्चोंके देवों और नारकियोंमें  
 उत्तर होनेपर प्रथम समयमें आदारिकशरीरका अवक्तव्यबन्ध होता है और यह स्पर्शन कुछ  
 कम बारह बटे चौदह राजूप्रमाण होनेसे इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त  
 प्रमाण कहा है। नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके वैक्रियिक-  
 द्विक्रिया नियमसे बन्ध होता है। अतः इनके तेरह पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम बारह  
 बटे चौदह राजूप्रमाण कहा है। मात्र ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यबन्ध नहीं होता, इसलिये  
 इष्ट अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। त्वत्यानविहारके समय देवोंके तीर्थङ्कर प्रकृतिका  
 बन्ध सम्भव है, अतः इसके तेरह पदोंकी मुख्यतासे स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजूप्रमाण  
 कहा है। तथा इसका अवक्तव्यपद जो दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होकर इसका बन्ध  
 करने लाते हैं उनके, या उपशमश्रेणिते गिरते समय या ऐसे मनुष्योंके इसके बन्धके समय  
 नर कर देव होनेपर होता है। यतः ऐसे जीव संख्यात हैं, अतः इसके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा  
 स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके चौदह पदोंका बन्ध एकैन्द्रिय  
 आदि स्रष्ट जीव करते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा  
 है। शेष जन्त भुज्जगार अनुयोगद्वाराको लक्ष्मणें रत्नकर घटित कर लेना चाहिये।

## काल

६२२. कालाशुगनकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच  
 ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ क्पाय, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण-  
 च्छुक्क, अणुल्लवु, उपात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और अव-  
 स्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका  
 जवन्ध काल एक समय है और उल्लुप्ट काल संख्यात समय है। स्थानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व,  
 आठ क्पाय और आदारिकशरीरके तेरह पदोंके बन्धक जीवका सब काल है। अवक्तव्य-  
 पदके बन्धक जीवोंका जवन्ध काल एक समय है और उल्लुप्ट काल आवलिके असंख्यातवें  
 भागप्रमाण है। सातावेदनीय आदि दण्डके चौदह पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा  
 है। तीन आशुओंकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका  
 जवन्ध काल एक समय है और उल्लुप्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्त-  
 गुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका जवन्ध काल एक समय है और उल्लुप्ट  
 काल के असंख्यातवें भागप्रमाण है। वैक्रियिक छहके बारह पदोंके बन्धक जीवोंका जवन्ध

हाणि० सव्वद्धा । एवं तित्थय० । णवरि अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज्ज० । आहार० २  
 पंचवड्ढि-पंचहा० ज० ए०, उ० आवलि० असंखे० । अणंतगुणवड्ढि-हाणि० सव्वद्धा ।  
 अवड्ढि०-अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज्ज० । एवं भुजगारभंगो याव अणाहारए  
 त्ति षेदव्वं ।

काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार तीर्थङ्करकी अपेक्षासे भी काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । आहारकद्विककी पाँच वृद्धि और पाँच हानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसी प्रकार भुजगारके समान अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—पाँच ज्ञानावरणादिका एकेन्द्रियादि सब जीव तेरह पदोंके साथ बन्ध करते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा सर्वदा काल कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल सर्वदा कहा है, वहाँ भी यही समझना चाहिए कि उन प्रकृतियोंके विवक्षित पदोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वदा बन्ध होता रहता है । अतः यहाँ इस कालको छोड़कर शेष कालका खुलासा करते हैं—पाँच ज्ञानावरणादिका अवक्तव्यबन्ध उपशमभोगेसे गिरते समय होता है और प्रत्याख्यानवरण चारका अवक्तव्यबन्ध विरतसे विरताविरत या अविरत होते समय होता है । ऐसे जीव कमसे कम एक समय तक या लगातार सख्यात समय तक ही यह क्रिया करते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । स्थानगृद्धि आदि आठ प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद गुणस्थान प्रतिपन्न जीव नीचे उतरते समय यथायोग्य करते हैं और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद असंखी आदि जीव करते हैं । ये असख्यात होते हैं, इसलिए यह भी सम्भव है कि इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद एक समय तक करे और दूसरे समयमें कोई भी जीव अवक्तव्यपद करनेवाले न हों और यह भी सम्भव है कि असख्यात समय तक क्रमसे नाना जीव इस पदको प्राप्त होते रहें । यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । किन्तु अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है और क्रमसे व्यवधान रहित होकर अन्तर्मुहूर्तके बाद निरन्तर नाना जीव इन पदोंको असंख्यात बार प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल प्रत्येक असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । वैकल्पिक-छहके बारह पदोंका जघन्य काल एक समय तो स्पष्ट ही है, क्योंकि प्रत्येक पद एक समय तक होकर दूसरे समयमें न हो । किन्तु इनका उत्कृष्ट काल जो आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है सो उसका कारण यह है कि अवक्तव्यपदका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल तो एक ही समय है और अवस्थितपदका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल सात-आठ समय है । इसलिए लगातार असंख्यात समय तक भी इन पदोंके होने पर उस सब कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होगा, परन्तु भेद दस पदोंमें से प्रत्येक पदका एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है और यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा भी यह काल उतना ही कहा है सो इसका भाव यही है कि आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण भी असंख्यातसे गुणा करने पर जो उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है वह भी आवलिके अमरानवें

## अंतरं

६२३. अंतराणुगमेण दुवि० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-  
क०-वण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचत० छवड्ढि-छहाणि-अवड्ढिदर्वधंतरं णत्थि अंतरं ।  
अवत्त० ज० ए०, उ० वासपुघत्तं० । धीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ तेरसपदा०  
णत्थि अंतरं । [ अवत्त० ] ज० ए०, उ० सत्तरादिदियाणि । सादादीणं चोद्दसपदा०  
णत्थि अंतरं । अपच्चक्खाण०४ तेरसपदा णत्थि अंतरं । अवत्त० ज० ए०, उ०  
चोद्दसरादिदियाणि । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि अवत्त० ज० ए०, उ० पण्णारसरादि-  
दियाणि । तिण्णि आउ० पंचवड्ढि-पंचहाणि-अवड्ढि० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा ।  
अणंतगुणवड्ढि-हाणि-अवत्त० ज० ए०, उ० चदुवीसं मुहुत्तं० । वेउच्चिय्यच्छ०-  
आहार०२ पंचवड्ढि-पंचहाणि-अवड्ढि० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । अणंतगुण-

भागप्रमाण ही है । इसीसे इन पदोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके  
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका सब पदोका वैक्रियिकपट्टके समान  
होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । मात्र इसका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव संख्यात ही होते  
हैं, अतः इसके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है ।  
आहारकद्विककी पाँच वृद्धि और पाँच हानि लगातार संख्यात बार ही सम्भव हैं, इसलिए इन  
पदोका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि एक आवलिके  
असंख्यातवें भागको संख्यातसे गुणित करने पर भी आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही  
काल उपलब्ध होता है । इनका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है । तथा इनका  
अवक्तव्य और अवस्थित पद अधिकसे अधिक संख्यात बार होगा, इसलिए इन दोनों पदोका  
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । इसी प्रकार भुजगार अनुयोग-  
द्वारको ध्यानमें रखकर मार्गणाओमें भी यह काल समझ लेना चाहिए ।

## अन्तर

६२३. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार सज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,  
वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी छह वृद्धि, छह हानि और  
अवस्थितबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है । स्थानगृद्धि तीन मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धो चारके  
तेरह पदोका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट  
अन्तर सात दिन रात है । सातावेदनीय आदिके चौदह पदोका अन्तरकाल नहीं है । अपत्या-  
ख्यानावरण चारके तेरह पदोका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक  
समय है अर उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन रात है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चारके सब  
पदोका अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर  
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन रात है । तीन आयुओकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि  
और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।  
अनन्तगुणवृद्धि, अनन्तगुणहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट  
अन्तर चौबीस मुहूर्त है । वैक्रियिक छह और आहारिकद्विककी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और  
अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है ।



वृद्धि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवच० ज० ए०, उ० अंतो० । एवं तित्थय० । णवरि  
अवच० ज० ए०, उ० वासपुध० । एवं भुजगारभंगो याव अणाहारए ति षोदच्चं ।

अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोका अन्तरकाल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्वप्रमाण है। इसी प्रकार भुजगारके समान अणाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

**विशेषार्थ—**यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोका अन्तर काल नहीं कहा है। इसका भाव इतना ही है कि उन प्रकृतियोंके उन पदोके बन्धक जीव सर्वदा उपलब्ध होते हैं। तथा जिन प्रकृतियोंके जिन पदोका जघन्य अन्तर एक समय कहा है उसका भाव यह है कि उन प्रकृतियोंके उन पदोका एक समयके अन्तरसे भी बन्ध सम्भव है। मात्र विचार उन प्रकृतियोंके उन पदोके उत्कृष्ट अन्तरका करना है जो अलग-अलग कहा है। उपशम-श्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है। उपशमसम्बन्धकका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है, इसलिए स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी चारके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है। तात्पर्य यह है कि कदाचिन् सात दिन-रात तक कोई भी तीसरे आदि गुणस्थानवाला जीव सासादन और मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, इसलिए यह अन्तर बन जाता है। प्रथमोपशमसम्बन्धकके साथ विरताविरत गुणस्थानको प्राप्त न होनेका अन्तर चौदह दिन-रात और विरत अवस्थाको प्राप्त न होने का उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिनरात है। इसके अनुसार कोई विरताविरत अविरत अवस्थाको चौदह दिनरात तक और कोई विरत विरताविरत अवस्थाको पन्द्रह दिनरात तक नहीं प्राप्त होता, यह सिद्ध होता है; क्योंकि आयुके अनुसार ही व्यय होता है—ऐसा नियम है। अतः अपत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्य-पदका उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिनरात और प्रत्याख्यानावरण चारके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिनरात कहा है। नरकालु, मनुष्यायु और देवायुकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर परिणामोको ध्यानमें रख कर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा इन गतियोंमें यदि कोई उत्पन्न न हो तो अधिकसे अधिक चौबीस मुहूर्तका अन्तर पड़ता है। तदनुसार इन आयुओंका बन्ध भी इतने काल तक नहीं होता, इसलिए इनकी अनन्तगुणवृद्धि, अनन्तगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर चौबीस दिनरात कहा है। वैकिकिण्ड्रिण्ड्र और आहारकिकिकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर भी बन्धपरिणामोके अनुसार असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। परन्तु अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे कोई न कोई जीव इनका अवश्य ही बन्ध प्रारम्भ करता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका कुल विचार एक प्रकृतियोंके ही समान है। मात्र इसके अवक्तव्यबन्ध इतने प्रकारसे प्राप्त होता है—कोई सम्बन्धित मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करे, उपशमश्रेणि पर आरोहण करनेवाला जीव उतरते समय या मर कर देव होकर पुनः बन्ध प्रारम्भ करे और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला अविरत-सम्बन्धित मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर व मर कर दूसरे व तीसरे नरकमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें सम्बन्धित हो, पुनः बन्ध प्रारम्भ करे। इन सबका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण होनेसे इसके अवक्तव्यपद का उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

## भावा

६२४. भावाणुगमेण दुवि० । ओघे० सच्चपगदीणं सच्चपदाणं वंधगा त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं ।

## अप्पावहुअं

६२५. अप्पावहुगं दुवि० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-मय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४—अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० सच्चथो० अवत्त० । अवड्ढि० अणंत० । अणंतभागवड्ढि-हा० दो वि० तु० असं०गु० । असंखेंजभागवड्ढि-हा० दो वि० तु० असं०गु० । संखेंजभागवड्ढि-हाणि० दो वि० तु० असं०गु० । संखेंजगुणवड्ढि-हाणि० दो वि० तु० असं०गु० । असंखेंजगुणवड्ढि-हाणि० दो वि० तु० असंखें०गु० । अणंतगुणहाणि० असं०गु० । अणंतगुणवड्ढी विसे० । एवं तित्थय० । णवरि अवड्ढि० असं०गु० । आहार०२ सच्चथो० अवड्ढि० । अणंतभागवड्ढि-हाणि० दो वि० तु० संखेंजगु० । असंखेंजभागवड्ढि-हाणि० दो वि० तु० संखें०गु० । संखेंजभागवड्ढि-हाणि० दो वि० तु० संखेंजगु० । संखेंजगुणवड्ढि-हाणि० दो वि० तु० संखें०गु० । असंखेंजगुणवड्ढि-हाणि० दो वि० तु० संखेंजगु० ।

## भाव

६२४. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ व आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव है ? ओदधिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गगा तक जानना चाहिए ।

## अल्पवहुत्व

६२५. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, मय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुत्व, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवक्कन्थपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इनसे अनन्तभागवड्ढि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातभागवड्ढि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवड्ढि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवड्ढि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणवड्ढि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदवाले तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणवड्ढिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षासे अल्पवहुत्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर अवक्कन्थपदके बन्धक जीवोंसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अनन्तभागवड्ढि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यात-भागवड्ढि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवड्ढि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवड्ढि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यात-

अवत्त० संखेज्जगु० । अणंतगुणहा० संखेज्जगु० । अणंतगुणवद्धी विसे० ।  
 सेसाणं सादादीणं सव्वत्थो० अवट्ठि० । अणंतभागवद्धिहा० दो वि० तु० असं०गु० ।  
 असंखेज्जभागवद्धिहा० दो वि० तु० असं०गु० । संखेज्जभागवद्धिहाणि० दो वि० तु० असं०-  
 गु० । संखेज्जगुणवद्धिहा० दो वि० तु० असं०गु० । असंखेज्जगुणवद्धिहाणि० दो वि०  
 तु० असं०गु० । अवत्त० असं०गु० । अणंतगुणहा० असं०गु० । अणंत-  
 गुणवद्धी० विसे० । णेरइ० धुविगाणं सव्वत्थो० अवट्ठि० । उवरि मूलोषं । [ धीण-  
 गिद्धिदंडओ ] तित्थो० सव्वत्थो० अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । सेसाणं ओषं ।  
 एवं सत्तसु पुदवीसु । णवरि सत्तमाए दोगदिदोआणु०दोगो० थीणगिद्धिभंगो  
 एदेण कमेण भुजगारभंगो याव अणाहारए त्ति णेदव्वं ।

एवं वद्धिबंधे त्ति समत्तमणियोगहारणि ।

### अज्झवसाणसमुदाहारो

६२६. अज्झवसाणसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगहारणि—पगदि-  
 समुदाहारो द्विदिसमुदाहारो तिच्चमंददा त्ति ।

गुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर  
 संख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणहानिके  
 बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष  
 सातावेदनोय आदिके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अनन्तभागवृद्धि और  
 अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदोंके तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असं-  
 ख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदोंके तुल्य होकर असं-  
 ख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही पदोंके  
 तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव  
 दोनों ही पदोंके तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-  
 हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक  
 जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे  
 अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है । नारकियोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थित-  
 पदके बन्धक जीव सबसे थोड़े हैं । आगे मूलोषके समान भङ्ग है । स्थानवृद्धिदण्डक और  
 तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे अवस्थितपदके बन्धक  
 जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे शेष पदों व शेष प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग ओषके समान  
 है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं  
 पृथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी और दो गोत्रका भङ्ग स्थानवृद्धिके समान है । इसी क्रमसे  
 अनाहारक मार्गणा तक भुजगार भङ्गके समान जानना चाहिए ।

इस प्रकार वृद्धिबन्ध अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

### अध्यवसानसमुदाहार

६२६. अध्यवसानसमुदाहारमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—प्रकृतिसमुदाहार, स्थिति-  
 समुदाहार और तीव्रमन्वता ।

१. आ०प्रती संखेज्जगुणवद्धिहा० दो वि० तु० असं० गु० । अणंतगुणहा० इति पाठः । २. ता०  
 प्रती अवट्ठि० । उवरि मूलोष । ' तित्थो, आ० प्रती अवट्ठि० । मूलोषं । ' ' तित्थो इति पाठः ।

## पयडिसमुदाहारो पमाणाणुगमो

६२७. पयडिसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहारणि णादव्वाणि भवंति—पमाणाणुगमो अप्पावहुणे त्ति । पमाणाणुगमेण पंचणाणावरणीयाणं केवडि-याणि अणुभागबंधञ्जवसाण्डाणाणि? असंखेज्जा लोगा अणुभागबंधञ्जवसाण-डाणाणि । एवं सच्चपगदीणं । एवं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । णवरि अवगद-सुहुभसंपण्णेणं परिणामहाणं ।

एवं पमाणाणुगमो समत्तो

### अप्पावहुअं

६२८. अप्पावहुअं दुवि-सत्याणअप्पावहुअं चैव परत्याणप्पावहुअं चैव । सत्याणप्पा-वहुणे पगदं । दुवि० । ओषे० सच्चवहुणि केवलणाणावरणीयस्स अणुभागबंधञ्जवसाण्डाणाणि । आभिणि० अणुभागबंध० असंखेज्जगुणहीणाणि । सुदणाणा० अणुभागबंध० असं०गुणही० । ओधिणाणा० अणुभा० असं०गु०ही० । मणपज्ज० अणुभागबंध० असं०गुणही० ।

६२९. सच्चवहुणि केवलदंसं अणुभागबंध० । चक्खु० अणुभागबंध० असं०गुणही० । अचक्खु० अणुभा० असं०गुणही० । ओधिदं अणुभागबंध० असं०गुणही० । धीणाणिद्वि० असं०गुणही० । णिहाणिहा० अणुभा० असं०गुणही० । पयलापयला०

### प्रकृतिसमुदाहार प्रमाणानुगम

६२५. प्रकृतिसमुदाहारमें ये दो अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं—प्रमाणानुगम और अल्पबहुत्व । प्रमाणानुगमसे पाँच ज्ञानावरणीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान कितने हैं? असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हैं । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गाण तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपगत-वेदी और सूक्ष्मसाम्यप्रयसंयत जीवोंमें एव एक परिणामस्थान होता है ।

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ ।

### अल्पबहुत्व

६२८. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थान अल्पबहुत्व और परस्थान अल्पबहुत्व । स्वस्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे केवलज्ञानावरणीयके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे बहुत है । इनसे आभिनिवोधिक-ज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे श्रतज्ञानावरणके अनु-भागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे अवधिज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्य-वसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे मनःपर्ययज्ञानावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं ।

६२९. केवलदर्शनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हैं । इनसे चक्षु-दर्शनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे अचक्षुदर्शनावरणके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे अवधिदर्शनावरणके अनुभागबन्धा-ध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे स्थानगृहिके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे चिद्रानिद्रिके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन

१. ता० प्रती इमाणि दव्वाणि भवंति इति पाठः । २. आ० प्रती केवडियाणि अणुभागबंधञ्जवसाण-डाणाणि ! एवं इति पाठः । ३. आ. प्रती सुदणाणा० अणुभागबंध० असं०गुणही० । मणपज्ज० इति पाठः ।

अणु० असं०गुणही० । गिदा० असं०गुणही० । पयला० असं०गु०ही ।

६३०. सन्वबहूणि' सादस्स अणुभागबन्ध० । असादा० अणुभा० असं०गुणही० ।

६३१. सन्वबहूणि मिच्छ० अणुभागबन्ध० । अणंताणुबं०लोभे अणुभा० असं०गुणही० । माया० विसे० । कोधे विसे० । माणे विसे० । संजलणलोभे असं०गुणही० । माया० विसे० । कोधे विसे० । माणे विसे० । पच्चक्खाण०लोभे अणु० असं०गुणही० । माया० विसे० । कोधे विसे० । माणे विसे० । अपच्चक्खाणलोभे अणु० असं०गुणही० । माया० विसे० । कोधे विसे० । माणे विसे० । णवुंसं० असं०गु० । अरदि० असंखे०गु० । सोग० असं०गु० । भय० असं०गु० । दुगुं० असं०गु० । इत्थि० असं०गु० । पुरिसं० असं०गु० । रदि० असं०गु० । हस्सं० असं०गु० ।

हैं। इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन है। इनसे प्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन हैं।

६३०. सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हैं। इनसे असातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन है।

६३१. मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे बहुत हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी लोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी मायामें विशेष हीन हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें विशेष हीन हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी मानमें विशेष हीन हैं। इनसे संज्वलन लोभमें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे संज्वलनमायामें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान विशेष हीन हैं। इनसे संज्वलन क्रोधमें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे संज्वलनमानमें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण लोभमें अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरणमानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे अप्रत्याख्यानावरण लोभके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अप्रत्याख्यानावरण मायाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अरतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे जुगुप्साके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे स्त्रीवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे पुरुषवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं। इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है। इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है।

६३२. सव्ववहूणि देवाउ० अणुभाग० । गिरयाउ० अणुभा० असं०गुणही० । मणुसाउ० असं०गुणही० । तिरिक्खाउ० असं०गुणही० ।

६३३. सव्ववहूणि देवग० अणुभा० । मणुस० असं०गुणही० । गिरय० असं०गुणही० । तिरिक्खग० असं०गुणही० । सव्ववहूणि पंचिदि० अणुभा० । एइदि० असं०गुणही० । वीइदि० असं०गुणही० । तीइदि० असं०गुणही० । चडुरिं० असं०गुणही० । सव्ववहूणि कम्मइ० अणुभा० । तेजा० असं०गुणही० । आहार० असं०गुणही० । वेउच्चि० असं०गुणही० । ओरा० असं०गुणही० । सव्ववहूणि समचडु० अणुभा० । हुंड० असं०गुणही० । णग्गोद० असं०गुणही० । सादि० असं०गुणही० । खुज्ज० असं०गुणही० । वामण० असं०गुणही० । सव्ववहूणि आहार०अंगो० अणुभा० । वेउच्चि०अंगो० असं०गुणही० । [ ओरालिय०अंगो० असं०गु०ही० । ] संघडणार्णं संठाणभंगो । सव्ववहूणि पसत्थवण्ण०४ अणुभा० । अप्पसत्थव०४ असं०-

६३२. देवायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे नरकायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तिर्यञ्चायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है ।

६३३. देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे नरकगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तिर्यञ्चगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । पंचेन्द्रियजातिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे एकेन्द्रियजातिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे द्वीन्द्रिय जातिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे त्रीन्द्रियजातिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे चतुरिन्द्रियजातिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । कामणशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे तैजसशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे आहारकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे वैक्रियिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे औदारिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । समचतुरखसंस्थानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे हुण्डसंस्थानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे स्वातिसंस्थानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे कुञ्जक संस्थानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे वामन संस्थानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । आहारक आङ्गोपाङ्गके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे औदारिक आङ्गोपाङ्गके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । सहननोका भङ्ग सयानोके समान है । प्रशस्त वर्णचतुष्कके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे अप्रशस्त वर्णचतुष्कके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है ।

गुणही० । गदिभंगो आणुपुञ्जी । एत्तो सव्वयुगलाणं सव्ववहूणि पसत्थाणं अणुमा० । तपपडिपक्खाणं अणुमा० असं०गुणही० ।

६३४. सव्ववहूणि विरियंतरा० अणुमा० । हेट्ठा० दाण० असं०गुणही० । एवं ओधभंगो-पंचि०-तस०-२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-इत्थि०-पुरिस०-गणुस०-कोधादि०-४-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-वक्खु०-अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अवभवसि०-मिच्छा०-सण्णि-आहारए त्ति ।

६३५. गिरएसु यत्तियाओ पगदीओ अत्थि तासिं मूलोषं । एवं सत्तु पुट्ठवीसु० । तिरिक्खेसु सव्ववहूणि गिरयाउ० अणुमा० । देवाउ० असं०गुणही० । मणुसाउ० असं०गुणही० । तिरिक्खाउ० असं०गुणही० । सव्ववहूणि देवगदि० अणुमा० । गिरयग० असं०गुणही० । तिरिक्ख० असं०गुणही० । मणुसग० असं०गुणही० । सेसाणं मूलोषं । एवं सव्वतिरिक्खाणं सव्वअपज्ज०-एइंदि०-विगलिं० पंचकायाणं च । मणुस०३ गदीओ तिरिक्खगदिभंगो । सेसं मूलोषं । देवाणं मूलोषं । ओरालि० मणुसभंगो । ओरा०मि० तिरिक्खगदिभंगो । वेउ०-वेउ०मि० देवगदिभंगो । आहार०-आहार०मि० सव्वट्ठभंगो । कम्मइ० ओरालि०मिस्सभंगो । एवं

चार आनुपूर्विका भङ्ग चार गतियोंके समान है । सब युगलोमें सब प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है ।

६३४. वीर्यान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । पीछे दानान्तराय तक प्रतिलोम क्रमसे प्रत्येकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन असंख्यातगुणे हीन है । इस प्रकार ओषके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचो मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संह्री और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

६३५. नारकियोंमे जितनी प्रकृतियों हैं उनका भङ्ग मूलोषके समान है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमे नरकायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । उनसे देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । उनसे मनुष्यायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । उनसे तिर्यञ्चायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । देवगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे नरकगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तिर्यञ्चगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोषके समान है । इसी प्रकार सब तिर्यञ्च, सब अपयोप्त, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकर्मे चार गतियोंका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । तथा शेष भङ्ग मूलोषके समान है । देवोंमें मूलोषके समान भङ्ग है । औदारिककाययोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिके समान भङ्ग है । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाय-

अणाहारए त्ति । अवगद० ओघं । एवं सुहुमसंप० । आभिणि-सुद-ओधि०-मणपज्ज०-संज०-सामा०-छेदो०-ओधिर्द०-सुकु०-सम्मा०-खइग०-उवसम० ओघं । णवरि अप्प-प्पणो पगदीओ णादव्वाओ । परिहार०-संजदासंज०-वेदग० सव्वट्ठभंगो ।

६३६. णील-काऊणं सव्वबहूणि देवग० । मणुसग० असं०गुणही० । गिरयग० असं०गुणहीणाणि । [ तिरिक्खग० । असं०गु० ] । एवं आणु० । तेउले० देवभंगो । एवं पम्माए वि । मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-अब्भवुसि०-मिच्छा०-असण्णि० सव्वपयडि-अणुभागबंधज्जवसाणट्ठाणाणि तिरिक्खगदिभंगो' । सासणे णिरयभंगो । सम्मामि० वेदग०भंगो । एवं सव्वपगदीणं याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । चदुवीसमणियोगहारणि अप्पाबहुणेण साधेदुण कादव्वं । णवरि जम्हि अणंतगुणहीणाणि तम्हि अणुभागबंधज्जवसाणट्ठाणाणि असखेज्जगुणहीणाणि कादव्वाणि । एदेण वीजेण सत्थाणप्पावहुगं । एवं अणाहारए त्ति णेदव्वं ।

एवं सत्थाणप्पावहुगं समत्तं ।

६३७. परत्थाणप्पावहुगं पगदं । दुवि० । ओघेण एत्तो चदुसट्ठिपडिगो दंडगो—

योगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाय-योगी जीवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन.पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदो-पस्थापनासंयत, अवधिदर्शनी, शुक्कलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशम-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रकृतियों जाननी चाहिए । परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सर्वार्थ-सिद्धिके समान भङ्ग है ।

६३६. नील और कापोतलेश्यामें देवगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हैं । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातरुणे हीन है । इनसे नरकगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातरुणे हीन है' । इनसे तिर्यञ्चगतिके अनुभाग-बन्धाध्यवसान स्थान असख्यातरुणे हीन है' । इसी प्रकार आनुपूर्वियोंकी अपेक्षा अल्प-बहुत्व जानना चाहिए । पीतलेश्यामें देवोके समान भङ्ग है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, असंयत, अभन्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तिर्यञ्चगतिके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोगी अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । चौबीस अनुयोगद्वार अल्पबहुत्वके अनुसार साध कर करने चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर अनन्तरुणे हीन हैं, वहाँ पर अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातरुणे हीन करने चाहिए । इस बीजसे स्वस्थान अल्प-बहुत्व है । इस प्रकार अनाहारक तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

६३७. परत्थान अल्पबहुत्वका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—

१. ता. प्रतौ असण्णि० . . . 'णि तिरिक्खगदिभंगो, भा. प्रतौ असण्णि० . . . 'तिरिक्खगदि-भंगो इति पाठः ।



सन्ववहृणि अणुभागबंधेऽङ्गवसाणद्वयाणि साद० । जस०-उच्चा० अणुभागबंधे० असं०-  
गुणहीणाणि । देवगदि० अणुभा० असं०गुणही० । कम्म० असं०गुणही० । तेजा०  
असं०गुणही० । आहार० असं०गुणही० । वेत्तच्चि० असं०गुणही० । मणुस० असं०-  
गुणही० । ओरा० असं०गु० । मिच्छ० असं०गु० । केत्तलणा०-केवलदं०-विरियंत०  
तिणि वि तु० असं०गु० । असादा० विसेसहीणाणि । अणंताणुवं०लोभे असं०गु० ।  
माया० विसे० । कोधे० विसे० । माणे० विसे० । संजलणलोभे० असं०गु० । माया०  
विसे० । कोधे० विसे० । माणे० विसे० । पच्चक्खाण०लोभे० असं०गु० । माया०  
विसे० । कोधे० विसे० । माणे० विसे० । अपच्चक्खाणलोभे० असं०गु० । माया०  
विसे० । कोधे० विसे० । माणे० विसे० । आभिणि०-परिभो० दो वि तु० असं०गु० ।  
चक्खु० असं०गु० । सुद०-अचक्खु०-भोगंत० तिणि वि तु० असं०गु० । ओधिणा०

ओष और आदेश । ओषसे यहाँ चीसठ पदिक षण्डक है । यथा—सातावेदनीयके अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इससे यगकोर्नि और उद्योगत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे  
हीन हैं । उनसे कार्मणशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे  
तैजसशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे आहारकशरीरके अनु-  
भागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे वैक्रियिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसा-  
न स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात-  
गुणे हीन हैं । इनसे औदारिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं ।  
इनसे मित्यात्वके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे केवलज्ञानावरण,  
केवलदर्शनावरण और वीर्यान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान तीनों ही प्रकृतियोंके  
परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे असातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान विशेष हीन हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात-  
गुणे हीन हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं ।  
इनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे अनन्ता-  
नुबन्धी मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे संज्वलन लोभके अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे संज्वलन मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान विशेष हीन हैं । इनसे संज्वलन क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं ।  
इनसे संज्वलन मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे प्रत्याख्यानवरण  
लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे प्रत्याख्यानवरण मायाके  
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे प्रत्याख्यानवरण क्रोधके अनुभागवन्धा-  
ध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे प्रत्याख्यानवरण मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान  
विशेष हीन हैं । इनसे अप्रत्याख्यानवरण लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे  
हीन हैं । इनसे अप्रत्याख्यानवरण मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं ।  
इनसे अप्रत्याख्यानवरण क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे  
अप्रत्याख्यानवरण मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं । इनसे आभिनि-  
वोधिक ज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान दोनों ही तुल्य होकर  
असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे चक्षुदर्शनावरणके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे  
हीन हैं । इनसे श्रुतज्ञानावरण, अबक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शना-

ओधिदं०-लामंत० तिण्णि वि तु० असं०गु० । मणपज्ज०-दाणंत० दो वि तु० असं०-  
गु० । धीणग्गि० विसे० । गवुंसं० असं०गु० । इत्थि० असं०गु० । पुरिसं० असं०-  
गु० । अरदि० असं०गु० । सोग० असं०गु० । भय० असं०गु० । दुगुं० असं०गु० ।  
णिहाग्गिहा० असं०गु० । पयलापयला० असं०गु० । णिहा० असं०गु० । पयला०  
असं०गु० । णीचा० असं०गु० । अजसं० विसेसही० । णिरयगं० असं०गु० ।  
तिरिक्खगं० असं०गु० । रदि० असं०गु० । हस्सं० असं०गु० । देवाउ० असं०गु० ।  
णिरयाउ० असं०गु० । मणुसाउ० असं०गु० । तिरिक्खाउ० असं०गु० । एवं ओध-  
भंगो पंचिं०-त्तसं०२-पंचमण०-पंचवचिं०-कायजोगि-इत्थि०-पुरिसं०-गवुंसं०-क्रोधा-  
दि०४-चक्खु०-अचक्खु०-भवसिं०-सण्णि-आहारए चि ।

६३८. आदेसेण णिरयगदीए सव्ववहूणि सादं । जसं०- उच्चा० असं०गु० ।  
मणुसं० असं०गु० । कम्म० असं०गु० । तेजा० असं०गु० । ओरा० असं०गु० ।

वरण और लाभान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे स्नानगृद्धिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे स्त्रीवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे पुरुषवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अरतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे जुगुप्साके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे प्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे नीचगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अयशःकीर्तिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे नरकगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तिर्यञ्चगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे देवायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे नरकायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तिर्यञ्चायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इसी प्रकार ओषधके समान पञ्चोन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, सही और आहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

६३८ आदेशसे नरकगतिमे सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहूत है । इनसे यश कीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे कामणशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तैजसशरीरके अनुभागबन्धा-

मिच्छ० असं०गु० । केवलणा०-केवलदं०-विरियंत० तिष्णि वि तु० असं०गु० ।  
 असादा० विसे० । अणंताणु०लोमे० असं०गु० । माया० विसे० । कोधे० विसे० ।  
 माणे० विसे० । संजलणलोमे० असं०गु० । माया० विसे० । कोधे० विसे० । माणे०  
 विसे० । पच्चक्खाणलोमे० असं०गु० । माया० विसे० । कोधे० विसे० । माणे०  
 विसे० । अपच्चक्खाणलोमे० असं०गु० । माया० विसे० । कोधे० विसे० । माणे०  
 विसे० । आभिणि०-परिमो० असं०गु० । चक्खु० असं०गु० । सुद०-अचक्खु०-भोगंत०  
 असं०गु० । ओधिणा०-ओधिदं०-लाभंत० असं०गु० । मणपज्ज०-दाणंत० असं०गु० ।  
 शीणणि० विसे० । णत्तुसं० असं०गु० । इत्थि० असं०गु० । पुरिसं० असं०गु० ।  
 अरदि० असं०गु० । सोगं० असं०गु० । भयं० असं०गु० । दुगुं० असं०गु० । णिदा-

यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे औदारिकरारीके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मिथ्यात्वके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण और बोयान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान तीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है । इनसे असातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वलन लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे संज्वलन मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वलन क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वलन मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे प्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अप्रत्याख्यानावरण लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अप्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान दोनोंके तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है । इनसे चक्षुदर्शनावरणके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और लाभान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है । इनसे स्थानगृद्धिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे नमुंसकवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे ऋग्वेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे पुरुषवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अरतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात-

णिदा० असं०गु० । पयलापयला० असं०गु० । णिदा० असं०गु० । पयला०  
असं०गु० । णीचा० असं०गु० । अजस० विसे० । तिरिक्ख० असं०गु० । रदि०  
असं०गु० । हस्स० असं०गु० । मणुसाड० असं०गु० । तिरिक्खाड० असं०गु० ।  
एवं सत्तमाए पुटवीए । णवरि मणुसाड० णत्थि । सेसासु पुटवीसु णीचा०-अजस०  
तुल्लाणि णादन्वाणि । यथा पढमपुटवीए तथा देवगदीए सन्वेसु वि कप्पेसु । एवं  
वेउव्वियमि० । णवरि णीचा०-अजस० णिरयोधं । वेउव्वियमि० आउ० णत्थि ।

६३९. तिरिक्खेसु सन्ववहूणि अणुभा० साद० । जस०-उच्चा० असं०गु० ।  
देवग० असं०गु० । कम्म० असं०गु० । तेजा० असं०गु० । वेउव्वि० असं०गु० ।  
मिच्छ० असं०गु० । केवलणा०-केवलदंस०-विरियंत० असं०गु० । असादा० विसे० ।  
अणंताणु०लोभे० असं०गु० । माया० विसे० । कोपे० विसे० । माणे० विसे० ।

गुणे हीन है । इनसे शोकके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे  
मयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे जुगुप्साके अनुभागवन्धा-  
ध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान  
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे  
हीन है । इनसे निद्राके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे प्रचलाके  
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे नीचगोत्रके अनुभागवन्धाध्यव-  
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अयश कीर्तिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान  
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तिर्यञ्चगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे  
हीन है । इनसे रतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे हास्यके  
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यायुके अनुभागवन्धाध्यव-  
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तिर्यञ्चायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असं-  
ख्यातगुणे हीन है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
मनुष्यायुका भङ्ग नहीं है । शेष पृथिवियोंमें नीचगोत्र और अयशःकीर्तिके अनुभागवन्धाध्य-  
वसान स्थान तुल्य जानने चाहिए । जिस प्रकार प्रथम पृथिवीमें है, उसी प्रकार देवगतिमें  
तथा सब कल्पोंमें भी जानना चाहिए । इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि नीचगोत्र और अयशःकीर्तिका भङ्ग सामान्य नारकियोंके  
समान है तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें आयुका भङ्ग नहीं है ।

६३९. तिर्यञ्चोंमें सातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है । इनसे  
यश कीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे देव-  
गतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे कर्मणशरीरके अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तैजसशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे वैक्रियिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असं-  
ख्यातगुणे हीन है । इनसे मित्यात्वके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है ।  
इनसे केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण और वीर्यान्तराधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान  
वीनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन हैं । इनसे असातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान विशेष हीन हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात-  
गुणे हीन हैं । इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं ।

संजलणलोभे० असं०गु० । माया० विसे० । क्रोधे० विसे० । माणे० विसे० । पञ्चक्खा०लोभे० असं०गु० । माया० विसे० । क्रोधे० विसे० । माणे० विसे० । एवं अपञ्चक्खाण०४ । आभिणि०-परिभो० असं०गु० । चक्खु० असं०गु० । सुद०-अचक्खु०-भोगंत० असं०गु० । ओधिणा०-ओधिदं०-लामंत० असं० । मणपञ्ज०-दाणंत० असं० । थीण० विसे० । णत्तुंस० असं० । इत्थि० असं० । पुरिस० असं० । अरदि० असं० । सोग० असं० । भय० असं० । दुगुं० असं० । णिहाणिहा० असं० । पयलापयला० असं० । णिहा० असं० । पयला० असं० । णीचा० असं० । अजस० विसे० । णिरय० असं० । तिरिक्ख० असं० । रदि० असं० । हस्स० असं० ।

इनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे अनन्तानुबन्धी मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे संज्वलन लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे संज्वलनमायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे संज्वलन क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे संज्वलन मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे प्रत्याख्यानावरण मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थानोका अल्पबहुत्व है। आगे आभिनिबोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे चक्षुदर्शनावरणके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और लामान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे मन-पर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे स्थानरुद्धिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन हैं। इनसे नपुंसकवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे स्त्रीवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे पुरुषवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अरतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे शोकके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे भयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे जुगुप्साके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे निद्रानिद्राके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे निद्राके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे प्रचलाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अयशःकीर्तिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे अयशःकीर्तिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे नरकगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे तिर्यञ्चगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे रतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं। इनसे नरकायुके अनुभागवन्धाध्यव-

गिरयाड० असं० । देवाड० असं० । मशुस० असं० । ओरा० असं० । मणुसाड० असं० । तिरिक्खाड० असं० । एवं सन्वतिरिक्खाणं । णवरि पंचिदियतिरिक्ख-  
जोगिणीसु णाणत्तं । अजस०-पीचा० सरिसाणि । एदं णाणत्तं । यथा जोगिणीसु  
तथा मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु च । णवरि णाणत्तं । देवाड० अणुभा० बहूणि ।  
गिरयाड० थोवाणि ।

६४०. पंचि०तिरि०अपज्ज० सन्ववहूणि अणुभाग० मिच्छ० । सादा० असं० ।  
जत्त०-उच्चा० असं० । केवलणा०-केवलदं०-विरियंत० असं० । असादा० विसे० ।  
अणंताणु०लोभे० असं० । माया० विसे० । कोधे० विसे० । माणे० विसे० । एवं  
संनलण०४-पच्चक्खाण०४-अपच्चक्खाण०४ । आभिणि०-परिभो० असं० । चक्खु०  
असं० । सुद०-अचक्खु०-भोगंत० असं० । ओधिणा०-ओधिदं०-लाभंत० असं० ।  
मणप०-दाणंत० असं० । थीण० विसे० । णत्तुंस० असं० । इत्थि० असं० । पुरिस०

वसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे देवायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात-  
गुणे हीन है । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे  
मौदारिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे मनुष्यायुके  
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे तिर्यच्चायुके अनुभागवन्धाध्यव-  
सान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इसी प्रकार सब तिर्यच्चोके जानना चाहिए । इतनी  
विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्च योनिनी जीवोंमें नानात्व है । अथग क्रीतिं और नीचगोत्रके  
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान समान है । यही नानात्व है । जिस प्रकार योनिनी तिर्यच्चोमें  
बल्पवहत्व है, उसी प्रकार मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियमों जानना चाहिए । किन्तु  
इतना नानात्व है कि देवायुके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान बहुत हैं और नरकायुके अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान थोड़े हैं ।

६४०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्च अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्वके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे  
बहुत है । इनसे सातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है ।  
इनसे यगक्रीतिं और लच्चगोत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है । इनसे  
केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण और वीर्यान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान तीनोंके  
हो तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है । इनसे असातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान विशेष हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यात-  
गुणे हीन है । इनसे अनन्तानुबन्धी मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है ।  
इनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे अनन्तानु-  
बन्धी मानके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इसी प्रकार संव्वलन चतुष्क,  
प्रत्याख्यानारणचतुष्क और अप्रत्याख्यानारणचतुष्कके विषयमें जानना चाहिए । आगे अभिनि-  
वोधिद्विज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान दोनोंके समान होकर  
असंख्यातगुणे हीन है । इनसे चक्षुदर्शनावरणके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे  
हीन है । इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान तीनोंके परस्पर समान होकर असंख्यातगुणे हीन है । इनसे अवधिज्ञानावरण, अवधि-  
दर्शनावरण और लाभान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान तीनोंके तुल्य होकर असंख्यातगुणे  
हीन है । इनसे मनपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान दोनोंके

१. आ० प्रज्ञी अत्तं । मणुस० दाणंत० इति पाठः ।

असं० । अरदि० असं० । सोग० असं० । भय० असं० । दुगुं० असं० । णिहाणिहा०  
 असं० । पयलापयला० असं० । णिहा० असं० । पयला० असं० । अजस०-गीचा०  
 दो वि तु० असं० । तिरिक्ख० असं० । रदि० असं० । हस्स० असं० । मणुसग०  
 असं० । ओरा० असं० । मणुसाउ० असं० । तिरिक्खाउ० असं० । एवं मणुसअपज्जत्त-  
 सव्वएइंदि०-सव्वविगलिं०-पंचिं०-तस०अपज्ज०-पंचकाय्णं च । णवरि एइंदिए तेउ०-  
 चाउ० णाणत्तं । णीचा० बहुगाणि । अजस० विसेसही० । एवं णाणत्तं ।

६४१. ओरालियका० मणुसगदिभंगो । ओरा०मि० सच्चवहूणि साद० । जस०-  
 उच्च० असं० । देवग० असं० । कम्म० असं० । तेजा० असं० । वेउच्चि० असं० ।  
 मिच्छ० असं० । सेसासु० णवरि पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एत्तियाओ अत्थि ।

परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे स्थानागृहिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है' । इनसे नपुंसकवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे स्त्रीवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे पुरुषवेदके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे अरतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे शोकके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे भयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे जुगुप्साके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे निद्रानिद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे प्रचलाप्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे निद्राके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे प्रचलाके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे अयशःकीर्ति और नीचगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान दोनों ही परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे तिर्यञ्चगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे रतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे हास्यके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे मनुष्यगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे औदारिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे मनुष्यायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे तिर्यञ्चायुके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और पांच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय, अक्रियायिक और वायुकायिक जीवोंके नानात्व है । अर्थात् इनमें नीचगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान बहुत है' । इनसे अयशःकीर्तिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है' । इस प्रकार नानात्व है ।

६४१. औदारिकक्रायोगी जीवोंमें मनुष्योंके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सातावेदनीयके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है' । इनसे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे देवगतिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे कामंशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे तैजसशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे वैक्रियिकशरीरके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । इनसे मिथ्यात्वके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातगुणे हीन है' । आगे शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इस प्रकार अल्पबहुत्व है ।

६४२. वेजन्वियका० गिरयभंगो । आहार०-आहार०मि० सव्ववहूणि  
साद० । जस०-उच्चा० असं० । देवग० असं० । कम्म० असं० । तेज० असं० ।  
वेउ० असं० । केवलणा०-केवलदं०-विरियंत० असं० । असादा० विसे० । संजलण-  
लोमे० असं० । माया० विसे० । कोधे० विसे० । माणे० विसे० । आभिणि०-परिभोग०  
असं० । चक्खु० असं० । सुद०-अचक्खु०-भोगंत० असं० । ओधिणा०-ओधिदं०-  
लाभंत० असं० । मणपञ्ज०-दाणंत० असं० । पुरिस० असं० । अरदि० असं० । सोग०  
असं० । भय० असं० । दुगुं० असं० । णिहा० अमं० । पयला० असं० । अजस०  
असं० । रदि० असं० । हस्स० असं० । देवाउ० असं० । एवं मणपञ्ज०-संज०-सामाइ०-  
छेदो०-परिहार० । एदेसु आहारसरीरं अत्थि । संजदासंज० परिहार०भंगो । णवरि

६४२. वैक्रियिकक्राययोगी जीवोमे नारकियोके समान भङ्ग है । आहारकक्राययोगी और  
आहारकमिश्रक्राययोगी जीवोमे सातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत है ।  
इनसे यश कीर्ति और उच्चगोत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है ।  
इनसे देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे कर्मणशरीरके  
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे तैजसशरीरके अनुभागवन्धा-  
ध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे वैक्रियिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान  
असख्यातगुणे हीन है । इनसे केवलज्ञानावरण, केवलदर्शनावरण और वीर्यान्तरायके अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे असातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे संज्वलन लोभके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे  
हीन है । इनसे सज्वलन मायाके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे सज्वलन  
क्रोधके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे संज्वलन मानके अनुभागवन्धा-  
ध्यवसान स्थान विशेष हीन है । इनसे आभिनिवोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायके  
अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे चक्षुदर्शनावरणके अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और  
भोगान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे अर्वाधिज्ञानावरण,  
अर्वाधिदर्शनावरण और लामान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है ।  
इनसे मन पर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे  
हीन है । इनसे पुरुषवेदके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे  
अरतिके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे शोकके अनुभागवन्धा-  
ध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे भयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान  
असख्यातगुणे हीन है । इनसे जुगुप्साके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है ।  
इनसे निद्राके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे प्रचलाके अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे अयशकीर्तिके अनुभागवन्धाध्यवसान  
स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे रतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है ।  
इनसे हास्यके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इनसे देवायुके अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन है । इसी प्रकार मन पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसयत  
उद्योगस्थापनसंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है

१ ता० आ० प्रत्योः गिरयभंगो । एव वेजन्वियमि० । आहार० इति पाठः । २. ता० प्रती  
सजलण लोमे इति पाठः ।



पञ्चमखण्ड०४ अस्थि ।

६४३. कम्म० ओषं । णवरि चदुआउ०-आहार०-णिरयगदिं वज्ज सेसं कादच्चं । एवं अणाहार० । अवगद० ओषं । एवं सुहुमसं० । मदि०-सुद०-असंज०-अम्भव०-मिच्छा० ओषं । एवं विमंगं । आभिणि०-सुद०-ओधि०-सम्मा०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० ओषं । णवरि अप्पणो पगदिविसेसो णादच्चो ।

६४४. किण्ण-गोल-काऊणं ओषं । तेउ० ओषं । णिरयाउ०-णिरयगदिं वज्ज । एवं पम्माए वि । सुक्काए<sup>१</sup> ओषो । दोआउ०-णिरय०-तिरिक्खगदि वज्ज । असण्णीसु सच्चवण्णि मिच्छ० । सादा० असं० । जस०-उच्चा<sup>२</sup>० असं०-गुणही० । देवग० असं०-गुणही० । कम्म० असं०-गुणही० । तेजा० असं०-गुणही० । वेउच्चि० असं०-गुणही० । उवरि तिरिक्खोषं । एवं परत्थाणप्पाचहुगं समत्तं ।

एवं पगदिसमुदाहारो समत्तो ।

कि इत्तने आहारकशरीर है । संयतासंयत जीवोंका भङ्ग परिहारविशुद्धिसंयतोंके समान है । इत्तनी विशेषता है कि इनके प्रत्याख्यानावरणचतुष्क है ।

६४३. कार्मणकाययोगी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि चार आयु, आहारकशरीर और नरकगतिको छोड़ कर शेषका अल्पवहुत्व कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्प्रायसंयत जीवोंके जानना चाहिए । मत्त्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इसी प्रकार विभङ्गज्ञानी जीवोंके जानना चाहिए । आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतिविशेष जाननी चाहिए ।

६४४. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यामें ओषके समान भङ्ग है । पीतलेश्यामें ओषके समान भङ्ग है । मात्र नरकायु और नरकगतिको छोड़कर यह अल्पवहुत्व कहना चाहिए । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार शुक्ललेश्यामें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि दो आयु, नरकगति और तिर्यञ्चगतिको छोड़कर यह अल्पवहुत्व कहना चाहिए । असंज्ञियोंमें मिथ्यात्वके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे बहुत हैं । इनसे सातावेदनीयके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं । इनसे यशःकीर्ति और उच्चगौत्रके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं । इनसे देवगतिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं । इनसे तैजसशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं । इनसे वैक्रियिकशरीरके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असख्यातगुणे हीन हैं । इनसे आगे सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इस प्रकार परस्थान अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार प्रकृतिसमुदाहार समाप्त हुआ ।

१. आ० प्रती वि । णवरि सुक्काए इति पाठः । २. ता० प्रती साद० अ [ज] स० उच्चा० इति पाठः ।

## द्विदिसमुदाहारो पमाणानुगमो

६४५. द्विदिसमुदाहारो त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहारणि-पमाणानुगमो सेट्ठि-परुवणानुगमो त्ति । पमाणानुगमो दुवि० । ओघे० मदियावरणस्स जहण्णियाए द्विदीए असंखेज्जा लोगा अणुभागं० । तदियाए द्विदीए असंखेज्जा लोगा अणुभा० । एवं असंखेज्जा लोगा असंखेज्जा लोगा एवं याव उक्कस्सियाए द्विदि त्ति । एवं अप्पसत्थाणं । पसत्थाणं पमादीणं विवगेदं षेद्व्वं । एवं याव अणाहारए त्ति षेद्व्वं ।

एवं पमाणानुगमं समत्तं

### सेट्ठिपरुवणा

६४६. सेट्ठिपरुवणानुगमो दुविहो-अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा च । अणंत-रोवणिघाए दुवि० । ओघे० पंचपा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०-सोलमक०-ण्वणोको०-णिरय०-तिरिक्ख०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०४-दोआणु०-उप०'-अप्प-सत्थ०-थावर०-सुहुम०-अपज०-साधार०'-अधिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० एदेसिं सच्च-त्थोवा जहण्णियाए द्विदीए अणुभा० । विदियाए द्विदीए अणुभा० त्रिसे० । तदीए द्विदीए अणुभा० त्रिसे० । एवं त्रिसेसाधियाणि त्रिसेसाधियाणि याव उक्कस्सियाए

### स्थितिसमुदाहार

६४७. स्थितिसमुदाहारका प्रकरण है । उसके विषयमें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं— प्रमाणानुगम और श्रेणिप्ररूपणानुगम । प्रमाणानुगम दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । द्वितीय स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तृतीय स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इसी प्रकार उक्कट स्थिति पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके असंख्यात लोकप्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार अप्रशस्त प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिये । तथा प्रशस्त प्रकृतियोंके विषयमें विपरीत क्रमसे ले जाना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक नार्गणातक जानना चाहिए ।

इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ ।

### श्रेणिप्ररूपणा

६४८ श्रेणिप्ररूपणानुगम दो प्रकारका है—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञाना-वरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, सिध्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, नरकगति, तिर्यञ्जगति चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, अग्रान्न विहायं, गति, न्धावर, सूहम, अपर्वाप्त, साधारण, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय इनकी जघन्य स्थितिमें अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान सबसे स्तोक है । इनसे दूसरी स्थितिमें अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विज्ञेय अधिक है । इनसे तीसरी स्थितिके अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान विज्ञेय अधिक है । इस प्रकार उक्कट स्थिति तक विज्ञेय अधिक

१ आ० प्रती ध्यमन्थ०४ आदाउज्जा० उप० इति पाठ । २ ता० प्रती सादा० इति पाठ ।

द्विदि त्ति । सादा०-मणुसग०-देवग०-पंचिं०-पंचसरीर-समचदु०-तिष्णिअंगो०-वज्रि०-  
पसत्थ०४-दोआणु०-अगु०-पर०-उस्ता०-आदाउजो०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-  
णिमि०-तित्थ०-उच्चा० सव्वत्थोवा उकस्सियाए द्विदीए अणुभागबंधज्जवसाण० ।  
समऊणाए द्विदीए अणुभा० विसे० । विसमऊणाए द्विदीए अणुभा० विसे० ।  
तिसमऊणाए द्विदीए अणुभा० विसे० । एवं विसेसाधियाणि विसेसाधियाणि याव  
जहण्णियाए द्विदि त्ति । चदुण्णं आउमार्णं सव्वत्थोवा जहण्णियाए द्विदीए अणुभा० ।  
विदियाए द्विदीए अणुभा० असंखेज्जगुणाणि । तदियाए द्विदीए अणुभा० असंखेज्ज-  
गुणाणि । एवं असं०गु० असं०गु० याव उकस्सिया द्विदि त्ति । एवं एदण्ण वीजेण  
याव अणाहारए त्ति षोदन्वं ।

एवं अणंतरोवणिधा समत्ता ।

६४७. परंपरोवणिधाए सदियावरणस्स जहण्णियाए द्विदीए अणुभागबंधज्जवसाण-  
द्वणोहिंतो तदो पलिदोव० असंखेज्जदिभागं गंतूण दुगुणवद्धिदा । ए [वं दुगुणवद्धिदा] दुगुण-  
वद्धिदा याव उकस्सियाए द्विदि त्ति । एगद्विदिअणुभागबंधज्जवसाणदुगुणवद्धिहाणिद्वणं-  
तराणि असंखेज्जाणि पलिदोवमवगमूलाणि । णाणाद्विदिअणुभागबंधज्जवसाणदुगुण-  
वद्धिहाणिद्वणंतराणि अंगुल्लवग्गामूलच्छेदणयस्स असंखेज्जदिभागो । णाणाद्विदिअणुभा०-

विशेष अधिक अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । चातावेदनीय, मनुष्यगति, देवगति, पद्मेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस-  
चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थद्वार और उच्चगोत्रकी उत्कृष्ट स्थितिके अनुभागबन्धाध्यव-  
सान स्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे एक समय कम स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष थाधिक हैं । इनसे तो समय कम स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक हैं । इस प्रकार जघन्य स्थितिके अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान विशेष अधिक हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार अनन्तरोपनिधा समाप्त हुई ।

६४७. परंपरोपनिधाकी अपेक्षा मतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके अनुभागबन्धाध्यव-  
सान स्थानोसे लेकर पल्लोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्प जाने पर वे दूने होते  
हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक दूने दूने अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान जानने  
चाहिए । एकस्थितिअनुभागबन्धाध्यवसानद्विगुणवद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर पल्लोपमके असं-  
ख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है । नानास्थितिअनुभागबन्धाध्यवसानद्विगुणवद्धिद्विगुणहानि  
स्थानान्तर अङ्गुल्लके प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । नानास्थिति-

१. ता० आ० प्रत्योः पसत्य०४ तस०४ थिरादिछ० इति पाठः । २. आ० प्रतो एगद्विदि त्ति  
अणुभाग- इति पाठः ।

दुगुणवद्धिहाणि० शोवाणि । एगद्विदिअणुभागबंधज्झवसाणदुगुणवद्धिहाणिट्ठाणंतराणि असंखेंजगुणाणि । एवं आउगवज्जाणं सच्चअप्पसत्थपगदीणं सो चेव भंगो ।

६४८. सादस्त उक्कस्सियाए द्विदीए अणुभागबंधज्झवसाणेहिंतो तदो पलिदोव-  
मस्त असंखेंजदिभागो ओसाकिदण दुगुणवद्धिदा । एवं दुगुणवद्धिदा दुगुण० याव  
जहणिया द्विदि त्ति । एगद्विदिअणुभाग०दुगुणवद्धिहाणिट्ठाणंतराणि असंखेंजगुणि पलिदो-  
वमवगामूलणि । णाणाद्विदिअणुभा०दुगुणवद्धिहाणिट्ठाणंतराणि अंगुलवग्गामूलच्छेदण-  
यस्त असंखेंजदिभागो । णाणाद्विदिअणुभागबंध०दुगुणवद्धिहाणिट्ठाणंतराणि  
शोवाणि । एयद्विदिअणुभा०दुगुणवद्धिहाणिट्ठाणंतरं असंखेंजगुणं । एवं आउगवज्जाणं  
सच्चपसत्थपगदीणं सो चेव भंगो । एदेण वीजेण एवं अणाहारए त्ति णेद्व्वं ।  
एवं परंपरोवणिधा समत्ता ।

### अणुभागबंधज्झवसाणट्ठाणाणि

६४९. याणि चेव अणुभागबंधज्झवसाणट्ठाणाणि ताणि चेव अणुभागबंध-  
ट्ठाणाणि । अण्णाणि पुणो परिणामट्ठाणाणि ताणि चेव कसाउदयट्ठाणाणि त्ति  
भणंति । मदिआवरणस्त जहणिये कसाउदयट्ठाणे असंखेंजा लोगा अणुभागबंधज्झव-  
अणुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक है । इनसे एकस्थितिअणुभाग-  
वन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे है । इस प्रकार आयुके सिवा सब  
अप्रशस्त प्रकृतियोंका वही भङ्ग है ।

६४८. सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके अनुभागवन्धाध्यवसानस्थानोसे पल्योपमके  
असख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविकल्प पीछे जाने पर वे दूने होते हैं । इस प्रकार जघन्य  
स्थितिके प्राप्त होने तक वे दूने-दूने होते जाते हैं । एकस्थितिअणुभागवन्धाध्यवसानद्विगुण-  
वृद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके असख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण हैं । नानास्थितिअणु-  
भागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर अङ्गुलके प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोंके  
असख्यातवें भागप्रमाण हैं । नानास्थितिअणुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर  
स्तोक हैं । इनसे एकस्थितिअणुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर असख्यात-  
गुणे हैं । इस प्रकार आयुओके सिवा सब प्रशस्त प्रकृतियोंका वही भङ्ग है । इस वीज पदके  
अनुसार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सब प्रकृतियोंकी जघन्यादि या उत्कृष्टादि किस स्थितिमें रहनेवाले  
अणुभागवन्धके कितने अणुभागवन्धाध्यवसान स्थान हैं और वे किस स्थान पर जाकर दूने या  
आधे होते हैं, इस बातका प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियोंकी अपेक्षा विचार किया गया है ।  
इसे परम्परोपनिधा कहते हैं, क्योंकि इसमें एकके बाद दूसरी स्थितिके अनुभागवन्धाध्यवसान-  
स्थानोंका विचार न कर परम्परया इस बातका विचार किया गया है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई ।

### अणुभागवन्धाध्यवसानस्थान

६४९. जो अणुभागवन्धाध्यवसानस्थान हैं वे ही अणुभागवन्धस्थान हैं । तथा अन्य  
जो परिणामस्थान हैं वे ही कषायउदयस्थान कहे जाते हैं । मतिज्ञानावरणके जघन्य कषाय-  
उदयस्थानमें असख्यात लोकप्रमाण अणुभागवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं । दूसरे कषाय उदय-

१. ता० प्रलौ ट्ठाणतराणि पलिदोवमवगामूलणि इति पाठः ।

साणट्टाणाणि । विदियाए कसाउदयट्टाणे असंखेज्जा<sup>१</sup> लोगा अणुभागवंधज्जवसाण-  
ट्टाणाणि । तदिए कसाउदयट्टाणे असंखेज्जा लोगा अणुभागवंधज्जवसाणट्टाणाणि ।  
एवं असंखेज्जा लोगा असंखेज्जा लोगा याव उक्कस्सिया कसाउदयट्टाणं ति । एवं  
अप्पसत्थाणं सन्वपगदीणं । सादस्स उक्कस्सए कसाउदयट्टाणे असंखेज्जा<sup>२</sup> लोगा  
अणुभाग० । समऊणाए कसाउदयट्टाणे असंखेज्जा लोगा अणुभा० । विसमऊणाए  
कसाउदयट्टाणे असंखेज्जा लोगा अणुभा० । तिसमऊणाए कसाउदयट्टाणे असंखेज्जा  
लोगा अणुभा० । एवं असंखेज्जा लोगा असंखेज्जा लोगा याव जहणियं कसाउदयट्टाणं  
ति । एवं सन्वासिं पसत्थाणं पगदीणं । एवं एदेण वीजेण कसाउदयट्टाणाणि याव  
अणाहारए त्ति णेदच्चं ।

६५०. तेसिं दुविधा परूवणा-अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा च । अणंतरोवणिधाए  
सन्वासिं [ अ ] पसत्थपगदीणं णिरयाउगवज्जाणं सन्वत्थोवा जहणियाए ट्टिदीए  
जहण्णए कसाउदयट्टाणे अणुभागवंधज्जवसाणट्टाणाणि । जह० ट्टिदीए विदियकसा-  
उदय०<sup>३</sup> विसेसाधियाणि । जह० ट्टिदीए तदिए कसाउदय० विसेसाधियाणि । एवं विसे०  
विसे० याव जहणिया० ट्टिदीए उक्कस्सियं कसाउदयट्टाणं ति । एवं याव उक्कस्सियाए  
ट्टिदीए उक्कस्सियं कसाउदयट्टाणं ति । सन्वपसत्थाणं पगदीणं तिण्णि-

स्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं । तीसरे कषाय उदय-  
स्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट कषाय  
उदयस्थानके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग-  
वन्धाध्यवसानस्थान होते हैं । इस प्रकार सब अप्रशस्त प्रकृतियोंके जानना चाहिए । साता-  
वेदनीयके उत्कृष्ट कषायउदयस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान  
होते हैं । एक समय कम कषाय उदयस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान  
होते हैं । दो समय कम कषाय उदयस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसान-  
स्थान होते हैं । तीन समय कम कषाय उदयस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धा-  
ध्यवसानस्थान होते हैं । इस प्रकार जघन्य कषाय उदयस्थानके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थानमें  
असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इसी प्रकार सब प्रशस्त  
प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार अनाहारकर्मार्णणा  
तक कषायउदयस्थान जानने चाहिए ।

६५०. इनकी प्ररूपणा दो प्रकारकी है—अनन्तरोपनिधा और परन्परोपनिधा । अनन्तरोप-  
निधाकी अपेक्षा नरकायुको छोड़कर सब अप्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके जघन्य कषाय  
उदयस्थानमें अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान सबसे थोड़े होते हैं । इनसे जघन्य स्थितिके  
दूसरे कषाय उदयस्थानमें वे विशेष अधिक होते हैं । इनसे जघन्य स्थितिके तीसरे कषाय  
उदयस्थानमें वे विशेष अधिक होते हैं । इस प्रकार जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट कषाय उदय-  
स्थानके प्राप्त होने तक वे विशेष अधिक विशेष अधिक होते हैं । इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट  
कषाय उदयस्थानके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । तीन आयुओंको छोड़ कर सब प्रशस्त

१. ता० प्रती विदियाए उक्कस्सट्टाणे असखेज्जा इति पाठः । २. ता० प्रती कसाउदयट्टाणाणि  
असखेज्जा इति पाठः । ३. आ० प्रती जह० विदियकसाउदय० इति पाठः ।

आउगवज्जाणं सव्वत्थोवा उक्कस्सियाए द्विदीए उक्कस्सिए कसाउदयट्ठाणे अणुभागबंध-  
ज्जवसाण० । उक्क० द्विदीए समऊणे कसाउद० विसे० । उक्क० द्विदी० विसमऊणे  
कसाउ० विसे० । उक्क० द्विदी० तिसमऊ० विसे० । एवं विसे० विसे० याव जहण्णयं  
कसाउदयट्ठाणं ति । एवं याव जहण्णियाए द्विदीए जहण्णयं कसाउदयट्ठाणं ति ।

६५१. गिरयाउ० कसाउदयट्ठाणे अणुभागबंधज्जवसाणट्ठाणाणि थोवाणि ।  
विदिए कसाउद० अणुभाग०ज्जवसा० असं०गु० । तदिए कसाउदयट्ठाणे अणुभा०  
असं०गु० । एवं असंखेंजगुणाणि असंखें०गु० याव उक्क०द्विदि ति । तिण्णं आउ-  
गाणं उक्कस्सियाए कसाउदयट्ठाणे अणुभागबंधज्जवसाणट्ठाणाणि थोवाणि । समऊणे  
कसाउद० अणुभा० [ अ ] संखेंजगुणाणि । विसमऊ० कसाउद० अणुभा० असं०-  
गु० । तिसमऊ० कसाउ० अणुभा० असं०गु० । एवमसंखेंजगुणाणि असं०गु०  
याव जहण्णयं कसाउदयट्ठाणं ति । एवं एदेण नीजेण याव अणाहारए ति णेदव्वं ।

६५२. परंपरोवणिघाए दुवि० । ओषे मदियावरणादीणं गिरयाउगवज्जाणं  
सव्वअप्पसत्थपगदीणं जहण्णियाए द्विदीए जहण्णाए कसाउदयट्ठाणे जहण्णगं अणुभाग-  
बंधज्जवसाणट्ठाणेहिंतो तदो असंखेंजा लोमं गंतूण दुगुणवट्ठिदा । एवं दुगुणवट्ठिदा  
दुगुणवट्ठिदा याव उक्कस्सिया द्विदीए उक्कस्सिए कसाउदयट्ठाणे ति । सादादीणं

प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट कषाय उदयस्थानमे अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान सबसे  
थोड़े होते हैं । उनसे उत्कृष्ट स्थितिके एक समय कम कषाय उदयस्थानमें वे विशेष हीन होते  
हैं । उनसे उत्कृष्ट स्थितिके दो समय कम कषाय उदयस्थानमें वे विशेष हीन होते हैं । उनसे  
उत्कृष्ट स्थितिके तीन समय कम कषाय उदयस्थानमे वे विशेष हीन होते हैं । इस प्रकार  
उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य कषाय उदयस्थानके प्राप्त होने तक वे विशेष हीन विशेष हीन होते  
हैं । इसी प्रकार जघन्य स्थितिके जघन्य कषाय उदयस्थानके प्राप्त होने तक जानना चाहिए ।

६५१. नरकायुके जघन्य कषाय उदयस्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान स्तोक हैं ।  
इनसे दूसरे कषाय उदयस्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इनसे  
तीसरे कषाय उदयस्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट  
स्थितिके प्राप्त होने तक वे असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे हैं । तीन आयुओंके उत्कृष्ट कषाय उदय-  
स्थानमें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान थोड़े हैं । उनसे एक समय कम कषाय उदयस्थानमे  
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे दो समय कम कषाय उदयस्थानमे  
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे तीन समय कम कषाय उदयस्थानमे  
अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार जघन्य कषाय उदयस्थानके प्राप्त  
होने तक असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान हैं । इस प्रकार इस बीज  
पदके अनुसार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

६५२. परम्परोपनिघाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे  
नरकायुके सिवा मतिज्ञानावरण आदि सब अग्रशस्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके जघन्य कषाय  
उदयस्थानमें जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर  
द्विगुणी वृद्धि होती है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट कषाय उदयस्थानके प्राप्त होने तक  
द्विगुणी द्विगुणी वृद्धि होती है । तीन आयुओंके सिवा सातावेदनीय आदि सब प्रशस्त प्रकृ-

तिष्णं<sup>१</sup> आउगवज्जाणं सन्वपसत्थपगदीणं उक्कस्सियाए ङ्खिदीए उक्कस्सए कसाउदयट्ठाणे अणुभा० हितो तदो असंखेंज्जा लोगं गंतूण दुगुणवड्ढि० । एवं दुगुणवड्ढिदा याव जहणियाए ङ्खिदीए जह० कसाउदयट्ठाणे त्ति । एगअणुभागवंधज्जवसाणदुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतरं असंखेंज्जा लोगा । णाणाअणुभा०दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतराणि आवलि० असंखेंज्जदिभागो । णाणा०अणुभा०दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतराणि थोवाणि । एगअणुभा०दुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतरं असंखेंज्जगुणं । एवं आउगवज्जाणं पगदीणं एदेण वीजेण याव अणाहारए त्ति णेदव्वं । एवं परंपरोवणिधा समत्ता ।

एवं ङ्खिदिसमुदाहारो समत्तो ।

### तिव्वमंददाए अणुकड्डी

६५३. एत्तो तिव्वमंददाए पुव्वं गमणिज्जं अणुकाड्ढि वत्तइस्सामो । तं जहा—सण्णीहि पगदं । अब्भवसिद्धियापार्ज्जं जहणणे वंधणे मदियावरणस्स जहणाङ्खिदि-बंधमाणस्स याणि अणुभागवंधज्जवसाणट्ठाणाणि विदियाए ङ्खिदीए तदेगदेसो वा अण्णाणि च । तदियाए ङ्खिदीए तदेगदेसो वा अण्णाणि च । एवं पलिदोवसस्स असंखेंज्जदिभागो तदेगदेसो वा अण्णाणि च । एवं जहणियाए ङ्खिदीए अणुकड्डी । जम्हि जहणियाए ङ्खिदीए अणुकड्डी णिट्ठिदा तदो से काले विदियाए ङ्खिदीए अणुकड्डी णिट्ठियादि । जम्हि विदियाए ङ्खिदीए अणुकड्डी णिट्ठिदा तदो से काले 'तदियाए ङ्खिदीए

तियोकी उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट उदयस्थानमे अनुभाग अव्यवसान स्थानोसे लेकर असंख्यात लोक-प्रमाण स्थान जाकर द्विगुणी वृद्धि होती है । इस प्रकार जघन्य स्थितिके जघन्य कषाय उदयस्थानके प्राप्त होने तक द्विगुणी द्विगुणी वृद्धि होती है । एक अनुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । नानाअनुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर आवलिके असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं । नाना अनुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैं । इनसे एकअनुभागवन्धाध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है । इस प्रकार आयुके सिवा सब प्रकृतियोंका इस वीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई ।

इस प्रकार स्थितिसमुदाहार समाप्त हुआ ।

६५३. आगे तीव्रमन्दका पहले विचार करना है । उसमे अनुकृष्टिको वतलाते हैं । यथा—संजी जीव प्रकृत हैं । अमन्व्यके योग्य जघन्य बन्धकमे मतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, द्वितीय स्थितिमे उनका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तीसरी स्थितिमे उनका भागप्रमाण स्थिति विकल्पके प्राप्त होने तक उनका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार पत्यके असंख्यातवे अनुकृष्टि समाप्त होती है, उससे अनन्तर समयमें द्वितीय स्थितिमे अनुकृष्टि समाप्त होती है । जहाँ दूसरी स्थितिमे अनुकृष्टि समाप्त होती है, उससे अनन्तरसमयमें तीसरी स्थितिमे

१. ता० प्रती त्ति त्सादीण ( ? ) तिष्णं इति पाठः ।

अणुकुड्डी णिड्ढियदि । एवं याव उक्कस्सिया ड्ढिदि त्ति । यथा मदियावरणस्स तथा-  
इमास्सि । तं जहा—पंचपा० णवदंस० मोहणीयस्स छन्वीसं अप्पसत्थव० ४ उप० पंचंत० ।  
एस्स अणुकुड्डी बंध० ।

६५४. एत्तो सादस्स अणुकुड्ढिं वत्तइस्सामो । तं जहा—सादस्स उक्कस्सयं द्विदिं  
बंधमाणस्स याणि अणुभागबंधज्जवसाणट्टाणाणि तदो समऊणाए ढ्ढिदीए ताणि च  
अण्णाणि च । विसमऊणाए ढ्ढिदीए ताणि च अण्णाणि च । तिसमऊणाए ढ्ढिदीए  
ताणि च अण्णाणि च । एवं जाव जहण्णयं असादबंधपाओग्गसमाणं ति ताव ताणि  
च अण्णाणि च । तदो जहण्णयादो असादबंधट्टाणादो याव समऊणा ढ्ढिदी तिस्से  
जाणि अणुभागबंधज्जवसाणट्टाणाणि ताणि उवरिल्लाणि ढ्ढिदीणं अणुभागबंधज्जवसाणट्टाणे-  
हितो तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो समऊणाए ढ्ढिदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च ।  
तदो दुसमऊणाए ढ्ढिदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । तिसमऊणाए ढ्ढिदीए तदेगदेसो  
च अण्णाणि च । एवं पलिदोवमस्स असंखेंज्जदिभागो तदेगदेसो च अण्णाणि च ।  
तदो जहण्णियादो असादबंधसमऊणादो जा समऊणा ढ्ढिदी तिस्से ढ्ढिदीए अणुकुड्डी झीणा ।  
तदो से काले समऊणाए ढ्ढिदीए अणुकुड्डी झीयदि । जम्हि समऊणाए ढ्ढिदीए अणुकुड्डी  
झीणा तदो से काले दुसमऊणाए ढ्ढिदीए अणुकुड्डी झीयदि । यम्हि विसमऊणाए ढ्ढिदीए

अणुकुष्टि समाप्त होता है । इस प्रकार उल्कष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । यहाँ  
निस प्रकार मतिज्ञानावरणकी अनुकृष्टि कही है, उसी प्रकार इन प्रकृतियोंकी जाननी चाहिए ।  
यथा—पाँच ज्ञानावरण नौ दर्शनावरण, मोहनीयकी छन्वीस प्रकृतियों, अप्रशम्भ वर्णचतुष्क,  
उपधात और पाँच अन्तराय । यह अनुकृष्टिका बन्ध करनेवालेके कहना चाहिए ।

६५५. आगे सातावेदनीयकी अनुकृष्टिको बतलाते हैं । यथा—सातावेदनीयकी उल्कष्ट  
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, उससे एक समय  
कम स्थितिके वे और दूसरे अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । दो समय कम स्थितिके  
वे और दूसरे अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तीन समय कम स्थितिके वे और दूसरे  
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार जधन्य असातावेदनीयके बन्धके योग्य  
स्थानोंके समान स्थानोंके प्राप्त होने तक वे और दूसरे स्थान होते हैं । आगे जधन्य असाता-  
वेदनीयबन्धस्थानके समान स्थितिवन्धसे एक समय कम स्थितिके प्राप्त होने तक उसके जो अनुभाग-  
बन्धाध्यवसान स्थान हैं वे उपरकी स्थितियोंके अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानोंसे एकदेश रूप होते  
हैं और अन्य होते हैं । आगे एक समय कम स्थितिने उनका एकदेश और दूसरे अनुभाग-  
बन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इसके आगे दो समय कम स्थितिने उनका एकदेश और अन्य  
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तीन समय कम स्थितिने उनका एकदेश और अन्य  
अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार पत्थके असंख्यातवं भागप्रमाण स्थिति  
विकल्पों तक प्रत्येक स्थितिबिकल्पमें पूर्व पूर्वका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान  
स्थान होते हैं । अनन्तर एक समय कम जधन्य असातावेदनीयके समान बन्धसे जो एक समय कम  
स्थिति है उस स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हो जाती है । आगे अनन्तर समयमें एक समय कम  
स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हो जाती है । जहाँ एक समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती  
है, उससे अनन्तर समयमें दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ दो समय

१. ता० प्रतौ ताणि च विसमऊणाए इति पाठः ।



अणुकङ्डी श्लीणा तदो से काले तिसमऊणाए द्विदीए अणुकङ्डी श्लीयदि । एवं याव सादस्स जहणियाए द्विदि त्ति । एवं यथा सादस्स<sup>१</sup> तथा मणुस०-देवग०-समचहु०-वज्जरि०-मणुस०-देवग०-तप्पाओग्गाणु०-पसत्थवि०-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-उच्चा० एस भंगो १५ ।

६५५. एत्तो असादस्स अणुकङ्ङि वत्तइस्सामो । तं जहा—असादस्स जहणिया द्विदी वंधमाणो<sup>२</sup> जाणि अणुभागवंधज्जवसाणह्णाणाणि विदियाए द्विदीए ताणि च अण्णाणि च । एवं याव सागरोवमसदपुधत्तं ताणि च अण्णाणि च । एसा परूवणा कदमासिं<sup>३</sup> ? असादवंधद्विदीणं इमासिं एसा परूवणा । तं जहां—याओ द्विदीओ वंधमाणो असादस्स जहण्यं अणुभागं वंधदि तासिं द्विदीणं एसा परूवणा । एदेसिं द्विदीणं या उक्कस्सिया द्विदी तिससे याणि अणुभागवंधज्जवसाणह्णाणाणि तदो सम-उत्तराए द्विदीए<sup>४</sup> तदेगदेसो च अण्णाणि च । एवं विसमउत्तराए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । एवं पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभाओ तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो असादस्स जह० अणुभागवंधपाओग्गाणं द्विदीणं याव उक्कसिया द्विदी तिससे द्विदीए अणुकङ्डी श्लीयदि । यमिह असादस्स जहण्यं अणुभागवंधपाओग्गाणं द्विदीणं उक्कस्सियाए द्विदीए<sup>५</sup> अणुकङ्डी श्लीणा तदो से काले समउत्तराए द्विदीए कम स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है, उससे अनन्तर समयमे तीन समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । इस प्रकार सातावेदनीयकी जघन्य स्थिति प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए । यहाँ जिस प्रकार सातावेदनीयकी अनुकृष्टि कही है, उसी प्रकार मनुष्यगति, देवगति, समचतुरस्रसस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति और उच्चगोत्रका यही भङ्ग जानना चाहिए ।

६५५. आगे असातावेदनीयकी अनुकृष्टिको वतलाते हैं । यथा—असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिको बंधनेवाले जीवके जो जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, दूसरी स्थितिको बंधनेवाले जीवके वे और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार सौ सागरप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक वे और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । यह प्ररूपणा किन स्थितियोंकी है ? इन असातावेदनीय बन्ध स्थितियों की यह प्ररूपणा है । यथा—जिन स्थितियोंको बंधते हुए असातावेदनीयका जघन्य अनुभाग बंधता है उन स्थितियोंकी यह प्ररूपणा है । तथा इन स्थितियोंमे जो उत्कृष्ट स्थिति है उसके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, उससे एक समय अधिक स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इसी प्रकार दो समय अधिक स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार पत्थोपमके असाख्यातवै भागप्रमाण स्थितिविकल्पोके प्राप्त होने तक प्रत्येकके पूर्व-पूर्व अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानोका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । अनन्तर असातावेदनीयकी जो जघन्य अनुभागबन्धप्रायोग्य स्थितियोंमे उत्कृष्ट स्थिति होती है, उस स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हो जाती है । जहाँ असातावेदनीयकी जघन्य अनुभागबन्धप्रायोग्य स्थितियोंमे उत्कृष्ट स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है, उससे अगले समयमे एक समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ एक समय

१. ता० प्रती यथा मुट्टस्स तथा इति पाठः । २. ता० प्रती जहणियाए द्विदि वंधमाणो इति पाठः । ३. ता० प्रती एसपरूवणा कदमासि इति पाठः । ४. ता० प्रती एसपरूवणा कदमासि इति पाठः । ५. ता० प्रती एसापरूवणा कदमासि इति पाठः । ६. ता० प्रती त जहा इति स्थाने प्रायः सर्वत्र त यथा इति पाठः । ७. ता० प्रती द्विदीए इति पाठो नास्ति । ८. ता० प्रती—पाओग्गाण द्विदीए इति पाठः ।

अणुकङ्की झीयदि । यम्हि समउत्तराए द्विदीए अणुकङ्की झीणा तदो से काले विसम-  
उत्तराए अणुकङ्की झीयदि । यम्हि विसमउत्तराए द्विदीए अणुकङ्की झीणा तदो से काले  
तिसमउत्तराए द्विदीए अणुकङ्की झीयदि । एवं यात्र असादस्स उक्कसिया द्विदि चि । णिरय०-  
एह्दि०-सीह्दि०-तीह्दि०-चट्ठुरिं०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-णिरयाणु०-अणपसत्थ०-थावर०-  
सुहुम-अपञ्ज०-साधार०-अधिर-असुभ-दृभग-दुम्मर-अणादे०-अजस० एवं असादभंगो ।

६५६. एत्तो तिरिक्खगदिणामाए अणुकङ्किं वत्तइस्सामो । तं जहा—सत्तमाए  
पुढवीए णेरइगस्स सन्वजहणियं द्विदिं वंथमाणयस्स याणि अणुभागवंथञ्जवसाणट्टाणाणि  
तदो विदियाए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो तदियाए द्विदीए तदेगदेसो  
च अण्णाणि च । एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो तदेगदेसो च अण्णाणि च ।  
तदो जहणियाए द्विदीए अणुकङ्की छिज्जदि । जम्हि जहणियाए द्विदीए अणुकङ्की  
छिज्जणा तदो से काले समउत्तराए द्विदीए अणुकङ्की छिज्जदि । जम्हि समउत्तराए  
द्विदीए अणुकङ्की छिज्जणा तदो से काले विसमउत्तराए द्विदीए अणुकङ्की छिज्जदि ।  
एवं यात्र अब्भवसिद्धिपाओग्गजहण्यं द्विदिं वंथमाणस्स याणि अणुभागवंथञ्जवसाणाणि  
विदियाए द्विदीए ताणि च अण्णाणि च । तदियाए द्विदीए ताणि च अण्णाणि

अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है, उससे अनन्तर समयमें दो समय अधिक स्थितिकी  
अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ दो समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है, उससे  
अगले समयमें तीन समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । इसी प्रकार असाता-  
वेदनीय को उक्कष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । नरकगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय-  
जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, पाँच सस्थान, पाँच सहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अग्रशस्त  
विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्चाप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दु स्वर, अनादेय और  
अयशाकीर्तिका भङ्ग इसी प्रकार असातावेदनीयके समान है ।

६५६ आगे तिरिक्खगतिनामकर्ककी अनुकृष्टि वतलाते है । यथा—सानवी प्रथिवीमे सबसे  
जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले नारकीके जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, उनसे  
द्वितीय स्थितिमें उनका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इनसे तीसरी  
स्थितिमें उनका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार पत्यके  
असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थितिविकल्पोंके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमें पूर्व-पूर्व अनुभागवन्धा-  
ध्यवसान स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान प्राप्त होते हैं । तब जाकर  
जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है,  
उससे अगले समयमें एक समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ एक समय  
अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है, उससे अगले समयमें दो समय अधिक स्थितिकी  
अनुकृष्टि क्षीण होती है । इस प्रकार अभव्य प्रायोग्य जघन्य स्थितिका अन्तिम समय जब तक  
न प्राप्त हो, तब तक जानना चाहिए । अनन्तर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले  
जीवके जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, उनसे द्वितीय स्थितिमें वे और अन्य अनुभाग-  
वन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तीसरी स्थितिमें वे और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते  
हैं । इस प्रकार सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण स्थिति विकल्पोंके प्राप्त होने तक प्रत्येकमे वे और अन्य

च । एवं याव सागरोवमसदपुधत्तं ताव ताणि च अण्णाणि च । एसा परूवणा कदमासिं ? तिरिक्खगदिणामाए यासिं बंधट्टिदीणं<sup>१</sup> इमासिं एसा परूवणा । तं जहा— याओ द्विदीओ बंधमाणो तिरिक्खगदिणामाए जहण्णयं अणुभागं बंधदि तासिं द्विदीणं एसा परूवणा । एदासिं द्विदीणं या उक्कस्सिया द्विदी तिस्से याणि अणुभागबंधञ्ज- वसाणाणि तदो समउत्तराए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । विसमउत्तराए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । एवं पल्लिदो० असंखेँज्जदिभागो तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो अब्भवसिद्धिपाओँगजह० अणुभाग० जह० बंधुक्कस्सियाए द्विदीए अणुकड्डी झीयदि । जम्हि अब्भवसिं० जह० अणुकड्डी झीणा तदो जा समउत्तरा द्विदी तिस्से अणुकड्डी झीयदि । यम्हि समउत्तराए द्विदीए अणुकड्डी झीणा तदो से काले विसम- उत्तराए द्विदीए अणुकड्डी झीयदि । यम्हि विसमउत्तराए द्विदीए अणुकड्डी झीणा तदो से काले तिसमउत्तराए द्विदीए अणुकड्डी झीयदि । एवं याव तिरिक्खगदि- णामाए उक्कस्सियाए द्विदीए त्ति । तिरिक्खाणु०-णीचागो० तिरिक्खगदिबंधो ।

६५७. एत्तो ओरालियसरीरणामाए अणुकड्डिं वत्तइस्सामो । तं जहा—ओरालिय- सरीरणामाए उक्कस्सियं द्विदि बंधमाणस्स याणि अणुभागवं० तदो सयऊणाए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । विसमऊणाए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । तिसमऊणाए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । एवं पल्लिदो० असंखेँज्जदिभागो

अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । यह प्ररूपणा किन स्थितियोंकी है ? तिर्यञ्जगतिनामकर्म- की इन बन्धस्थितियोंकी यह प्ररूपणा है । यथा—जिन स्थितियोंको बंधते हुए तिर्यञ्जगति नाम- कर्मके जघन्य अनुभागका बन्ध करता है, उन स्थितियोंकी यह प्ररूपणा है । इन स्थितियोंमें जो उत्कृष्ट स्थिति है उसके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान हैं, उससे एक समय अधिक स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । दो समय अधिक स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोंमेंसे प्रत्येक स्थितिके पूर्व-पूर्वका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । अनन्तर अभव्यप्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्धाध्यवसान युक्त जघन्य बन्धोत्कृष्ट स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जिस स्थानमें अभव्यसिद्धप्रायोग्य जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है, उसके बाद जो एक समय अधिक स्थिति है उसकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ एक समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई है, उससे अगले समयमें दो समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ दो समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई है, उससे अगले समयमें तीन समय अधिक स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । इस प्रकार तिर्यञ्जगति नामकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग तिर्यञ्जगतिके समान है ।

६५७. आगे औदारिकशरीर नामकर्मकी अनुकृष्टिको बतलाते हैं । यथा—औदारिक शरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, उससे एक समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । दो समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तीन समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार

१. ता० आ० प्रत्योः यदि बंधट्टिदीण इति पाठः ।

तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो उक्कस्सियाए द्विदीए अणुकङ्घी वोच्छिज्जदि<sup>१</sup> । जम्हि उक्कस्सिए द्विदीए अणुकङ्घी वोच्छिण्णा तदो से काले समऊणाए द्विदीए अणुकङ्घी वोच्छिज्जदि । यम्हि समऊणाए द्विदीए अणुकङ्घी वोच्छिण्णा तदो से काले विसमऊणाए द्विदीए अणुकङ्घी वोच्छिज्जदि । जम्हि विसमऊणाए द्विदीए अणुकङ्घी वोच्छिण्णा तदो से काले तिसमऊ० अणुकङ्घी वोच्छिज्जदि । एवं याव ओरालियसरीरस्स जहण्णियाए द्विदि चि । पंचण्णं सरीराणं तिण्णमंगोवंगणं पसत्थ०४ अणु० पर० उस्सा० आदाउज्जो० णिमि० तित्थयरस्स च ओरालियस०भंगो ।

६५८. एत्तो पंचिदियणामाए अणुकाङ्घिं वचइस्सामो । तं जहा—पंचिदियणामाए उक्कस्सियं द्विदिं बंधमाणस्स याणि अणुभागवंधज्जवसाणाणि तदो समऊणाए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो विसमऊणाए द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो तिसमऊणाए<sup>२</sup> द्विदीए तदेगदेसो च अण्णाणि च । एवं पलि० असखेंज्जदि-भागो तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो उक्कस्सियाए द्विदीए अणुकङ्घी णिट्ठायादि । यम्हि उक्कस्सियाए द्विदीए अणुकङ्घी णिट्ठिदा तदो से काले समऊणाए द्विदीए अणुकङ्घी णिट्ठायादि । यम्हि<sup>३</sup> समऊणाए द्विदीए अणुकङ्घी णिट्ठिदा तदो से काले विसमऊणाए द्विदीए अणुकङ्घी णिट्ठायादि । यम्हि विसमऊणाए द्विदीए अणुकङ्घी णिट्ठिदा

पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोंमेंसे प्रत्येक स्थितिके पूर्व-पूर्व अनुभागवन्धाध्यवसान स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तब जाकर उत्कृष्ट स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न होती है । जहाँ उत्कृष्ट स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न हुई है, उससे अगले समयमें एक समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न होती है । जहाँ एक समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न हुई है, उससे अगले समयमें दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न होती है । जहाँ दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न हुई है, उससे अगले समयमें तीन समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि व्युच्छिन्न होती है । इस प्रकार औदारिकशरीरकी जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । पंच शरीर, तीन आङ्गोपाङ्ग, प्रगस्त वर्णचतुष्क, अणुरल्लु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकशरीरके समान है ।

६५८. आगे पञ्चेन्द्रियजातिकी अनुकृष्टिको वतलाते हैं । यथा—पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट स्थितिकी वोंधनेवालेके जो अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं, उनसे एक समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान होते हैं । उनसे दो समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । उनसे तीन समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कम स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके पूर्व-पूर्वका एकदेश और अन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तब जाकर उत्कृष्ट स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त होती है । जहाँ उत्कृष्ट स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त हुई है, उससे अगले समयमें एक समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त होती है । जहाँ एक समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त हुई है, उससे अगले समयमें दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त होती है । जहाँ दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि समाप्त हुई है, उससे अगले समयमें तीन समय कम स्थितिकी

१. ता० प्रतौ अणुकङ्घी वा छिज्जदि इति पाठः । २. ता० प्रतौ तदो समऊणाए इति पाठः । ३. ता० प्रतौ याम्ही इति पाठः ।

तदो से काले तिसमऊणाए ढिदीए अणुकड्डी गिहायदि । एवं याव अड्डारससागरो-  
वमकोडाकोडीओ समउत्तराओ चि । तदो अड्डारससागरोवमकोडाकोडीओ पडिपुष्णं  
बंधमाणयस्स याणि अनुभागबंधज्झवसाणाणि तदो समऊणाए ढिदीए ताणि य  
अण्णाणि य । विसमऊणाए ढिदीए ताणि य अणाणि य । तदो तिसमऊणाए ढिदीए  
ताणि य अण्णाणि य । एवं याव पडिपक्खणामपाओग्गजहण्णगो ढिदिवंधो ताव  
ताणि य अण्णाणि य । तदो पडिपक्खणामाए जहण्णगाढो ढिदिवंधादो समऊणाए  
ढिदीए याणि अनुभाग० उवरिल्लापं अनुभागबंध० तदेगदेसो य अण्णाणि य । तदो  
विसमऊणा० ढिदी० तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो तिसमऊणा० ढिदी० तदे-  
गदेसो च अण्णाणि च । एवं पलि० असं०भागो तदेगदेसो च अण्णाणि च । तदो  
अभवसिद्धियपाओग्गजह० ढिदी० अणुकड्डी शीयदि । जम्हि पडिपक्खणामपाओग्ग-  
जह० ढिदी० अणुकड्डी शीणा तदो से काले समऊणाए ढिदीए अणुकड्डी शीयदि ।  
जम्हि समऊणाए ढिदीए अणुकड्डी शीणा तदो से काले विसमऊणा० ढिदी० अणु-  
कड्डी शीयदि । जम्हि विसमऊ० ढिदी० अणुक० शीणा तदो से काले तिसमऊणा०  
ढिदी० अणुक० शीयदि । एवं याव पंचिदियणामाए जहण्णया ढिदि चि । एवं  
तसवादर-पञ्ज-पत्तेय० ।

एवं अणुकड्डी समत्ता ।

अनुकृष्टि समाप्त होती है । इस प्रकार एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ी सागर  
प्रमाण स्थितिबन्ध होने तक जानना चाहिए । अनन्तर पूरे अठारह कोड़ाकोड़ी  
सागर प्रमाण बंधनेवालेके जो अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान प्राप्त होते हैं, उनसे  
एक समय कम स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके वे और अन्य अनुभागबन्धा-  
ध्यवसान स्थान होते हैं । दो समय कम स्थितिका बन्ध करनेवालेके वे और अन्य अनुभाग-  
बन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । आगे तीन समय कम स्थितिका बन्ध करनेवालेके वे और  
अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस प्रकार प्रतिपक्ष नामप्रायोग्य जघन्य स्थिति-  
बन्धके प्राप्त होने तक वे और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । आगे प्रतिपक्ष  
नामके जघन्य स्थितिबन्धसे एक समय कम स्थितिके जो ऊपरी स्थितियोंके अनुभागबन्धा-  
ध्यवसान स्थान हैं, उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । आगे दो  
समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । आगे  
तीन समय कम स्थितिके उनका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । इस  
प्रकार पत्यके असंख्यातवं भाग प्रमाण स्थितियोंके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके पूर्व-पूर्वके  
अनुभाग अध्यवसान स्थानोंका एकदेश और अन्य अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान होते हैं । तब  
जाकर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ प्रतिपक्ष नामप्रायोग्य  
जघन्य स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई है, उससे अगले समयमें एक समय कम स्थितिकी अनु-  
कृष्टि क्षीण होती है । जहाँ एक समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण हुई है, उससे अगले  
समयमें दो समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण होती है । जहाँ दो समय कम स्थितिकी  
अनुकृष्टि क्षीण हुई है, उससे अगले समयमें तीन समय कम स्थितिकी अनुकृष्टि क्षीण  
होती है । इस प्रकार पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्मकी जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक जानना चाहिए ।  
इस प्रकार त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येक प्रकृतिके विषयमें जानना चाहिए ।

इस प्रकार अनुकृष्टि समाप्त हुई ।

## तिन्वमंदो

६५९. एचो तिन्वमंदं वत्तइस्सामो । तं जहा—मदियावरणस्स जहाणियाए द्विदीए जहणपदे जहणाणुभागो थोवो । विदियाए द्विदीए जहणाणुभागो अणंतगुणो । तदि-याए द्विदीए जहणाणुभागो अणंतगुणो । एवं पलि० असं० जहणाणुभागो अणंत-गुणो । तदो जह० द्विदी० उक्कस्सपदे उक्क० अणुमा० अणंतगु० । तदो यम्हि द्विदा जहणा तदो समउत्तराए द्विदीए जह० अणंतगुणो । विदि० उक्क० अणु० अणंत-गुणो । इतरत्थ जहणाणु० अणंतगु० । तदिचाए द्विदी० उक्क० अणु० अणंतगु० । इत-रत्थ जह० अणु० अणंतगु० । एवं णेत्तं याव उक्कस्सियाए द्विदीए जहणपदे जहणाणु-भागो अणंतगुणो । तदो उक्कस्सियाए द्विदीए पलिदोचमस्स असंखे० भागं ओसकिदूण जम्हि द्विदो उक्कस्सो तदो समउत्तराए द्विदीए उक्क० अणुभागो अणंतगुणो । विस-मउ० द्विदी० उक्क० अणु० अणंतगु० । तदो तिसमउ० द्विदी० उक्क० अणु० अण-ंतगु० । एवं अणु०बंध० उक्क० अणंतगु० । एवं याव मदियावरणस्स उक्क० द्विदी० उक्कस्सपदे उक्क० अणु० अणंतगु० । पंचणा०-णवदंस०-मोहणीयल्लब्धीस-अप्प०सत्थ०४-उप०-पंचंत० एदेसि मदियावरणभंगो ।

## तीत्र-मन्द

६५९ आगे तीत्रमन्दको बतलाते हैं । यथा—मतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिके जघन्य पदमे जघन्य अनुभाग सबसे न्नांक है । इससे दूसरी स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे तीसरी स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट पदमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे पहले अन्तकी जिस स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा कह आये हैं, उससे एक समय अधिक स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे प्रारम्भकी द्वितीय स्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे आगेकी दूसरी स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे प्रारम्भकी तीसरी स्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे आगेकी तीसरी स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य पदमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है—इस स्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । आगे उत्कृष्ट स्थितिसे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण पाँचे जाकर जिस स्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है, उससे एक समय अधिक स्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे दो समय अधिक स्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे तीन समय अधिक स्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार मतिज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट पदमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है—इस स्थानके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, छब्बीस मोहनीय, अग्रशस्त वर्णचतुष्क, उन्यात और पाँच अन्तराय इनका भङ्ग मतिज्ञानावरणके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ मतिज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिवन्धसे लेकर उत्कृष्ट स्थितिवन्धके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमे जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग कितना होता है, इसका विचार किया गया है । विचार करते हुए यहाँ जो कुछ बतलाया गया है उसका भाव यह है कि प्रथमसे दूसरीमे और दूसरीसे तीसरीमे, इस प्रकार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण

१. ता० ऋजै जम्हि द्विदी उक्कस्सो इति पाठ ।

६६०. एत्तो सादस्स तिच्चमदं वत्तइस्सामो । तं जहा—सादस्स उक्कस्स० द्विदीए जहण्णपदे जहण्णाणुभागो थोवो । समऊणाए द्विदीए जह० अणु० तत्तियो चेव । विसमऊ० द्विदीए जह० अणु० तत्तियो चेव । तिसमऊ० द्विदी० जहण्णाणु० तत्तियो चेव । एवं याव जहण्णगो असादबंधसमाणो त्ति ताव तत्तियो चेव । तदो जहण्णगादो असादबंधादो या समऊणा द्विदी तिस्से द्विदीए जहण्णाणुभागो अणंतगु० । विसमऊ० द्विदी० जह० अणु० अणंतगु० । तिसमऊ० द्विदी० जह० अणु० अणंतगु० । एदेष कमेण जहण्णगा असादबंधसमाणसादबंधगार्णं आदिं कादूण असंखेज्जाओ द्विदीओ णिव्वग्गणकंडयस्स असंखेज्जादिभागो एत्तियमेत्तीओ द्विदीओ तासिं जहण्णाणुभागो अणंतगुणाए सेठीए षोदव्वा । तदो णियत्तिदव्वं सादस्स उक्कस्सियाए द्विदीए उक्कस्सपदे उक्क० अणुभा० अणंतगुणो । समऊ० द्विदी० उक्क० अणु० अणंतगु० । विसमऊ० द्विदी० उक्क० अणु० अणंतगु० । तिसमऊ० द्विदी० उक्क० अणु० अणंतगु० । एवं णिरंतरं उक्कसयं आदिं कादूण असंखेज्जाओ द्विदीओ एत्तियमेत्तं णिव्वग्गणकंडयं तत्तिय-

स्थितियोंमे जघन्य अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा है । फिर पत्यके असंख्यातवे भागके अन्तमे जो स्थिति विकल्प है, उसके जघन्य अनुभागसे जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर इससे पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोंके आगेकी स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर इससे जघन्य स्थितिसे आगेकी द्वितीय स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर इससे पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोंके आगेकी दूसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर इससे जघन्य स्थितिसे आगेकी तीसरी स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर इससे पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोंसे आगेकी तीसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार इसी क्रमसे उत्कृष्ट स्थिति तक अनुभागका क्रम जानना चाहिए । मात्र जहाँ उत्कृष्ट स्थितिमे जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा प्राप्त होता है, वहाँ इससे पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण पूर्वकी स्थितिमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा होता है और आगे पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियोंमे पूर्व-पूर्व स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे आगे-आगेकी स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा होता है ।

६६०. आगे सातावेदनीयके वीत्र-मन्दको घतलाते हैं । यथा—सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य पदमे जघन्य अनुभाग स्तोक है । एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । तीन समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । इस प्रकार जघन्य असातावेदनीयके बन्धके समान स्थितिके प्राप्त होने तक उतना ही अनुभाग है । अनन्तर जघन्य असातावेदनीयके बन्धसे जो एक समय कम स्थिति है, उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे तीन समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस क्रमसे असातावेदनीयके बन्धके समान सातावेदनीयके बन्धकोसे लेकर असंख्यात स्थितियों, जो कि निर्वाणकाण्डके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इतनीमात्र उन स्थितियोंका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । इसके बाद लौटकर सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट पदमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार निरन्तर उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर निर्वाणकाण्डके

मेचीणं द्विदीणं या उक्कस्सअणु० अणंतगुणो अणंतगुणाए सेदीए षेदव्वं । तदो जाहिंतो द्विदीहिंतो एयंतसादापाओंगजहण्णगं अणुभागं भाणिदृण णियत्तिदा उक्कस्सियाए द्विदीए उक्कस्सियमणुभागस्स तदो एँचो द्विदीदो णियत्तो तदो द्विदीदो या समऊ'० द्विदी तिससे द्विदीए जह० अणु० अणंतगु० । तदो पुण उक्कस्सियादो द्विदीदो णिव्वग्गण-कंडयमैचीओ द्विदीओ ओसक्किदृण जा द्विदी तिससे द्विदीए उक्क० अणु० अणंत-गु० । तदो पुण णिव्वग्गणकंडयमैचीणं उक्क० अणु० अणंतगु० अणंतगुणाए सेदीए<sup>२</sup> णिरंतरं षेदव्वं । तदो पुण हेड्ढादो एँक्किस्से द्विदीए जह० अणु० अणंतगु० । तदो पुण उक्कस्सगादो दुगुणाणिव्वग्गणकंडयमैचीओ द्विदीओ ओसक्किदृण या द्विदी तिससे द्विदीए उक्क० अणु० अणंतगु० । तदो णिव्वग्गणकंडयमैचीणं उक्क० अणु० अणंत-गुणाए सेदीए णिरंतरं षेदव्वं । तदो पुण एक्किस्से द्विदीए जह० अणु० अणंतगु० । तदो पुण उक्क० द्विदीदो तिगुणाणिव्वग्गणकंडयमैचीओ द्विदीओ ओसक्किदृण जा द्विदी तिससे द्विदीए उक्क० अणु० अणंतगु० । तदो णिव्वग्गणकंडयमैचीणं द्विदीणं उ० अणु० अणंतगु० अणंतगुणाए सेदीए णिरंतरं षेदव्वं । एवं हेड्ढादो<sup>३</sup> एँक्किस्से द्विदीए जहण्णाणुभागस्स उवरिमाणं द्विदीणं असंखेँजाणं उक्कस्सगा अणुभागा । एवं ओघसिज्ज-माणा हेड्ढिमद्विदीणं जहण्णाणुभागोहि उवरिमाणं द्विदीणं उक्कस्सगाणुभागोहि ताव आगदं याव असादस्स समाणं जहण्णयं द्विदिवंधं णिव्वग्गणकंडगेण<sup>४</sup> अपत्ता त्ति । तदो हेड्ढिमाए द्विदी० जह० अणु० अणंतगु० । तदो उवरिमाणं द्विदीणं जग्गि द्विदीदो

प्रमाण असत्त्वात् स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है जो उत्तरोत्तर अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । अनन्तर जिस स्थितिसे एकान्त सातावेदनीयप्रायोग्य जघन्य अनुभागको कहकर और हटकर उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग कहा था, उस स्थितिसे एक सनय क्रम जो स्थिति है, उसका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर उत्कृष्ट स्थितिसे निर्वर्गणा-काण्डकमात्र स्थितियों हटकर जो स्थिति है, उस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग पूर्वोक्त जघन्य अनुभाग-वाली स्थितिसे अनन्तगुणा है । फिर आगे निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियों का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे उत्तरोत्तर अनन्तगुणा-अनन्तगुणा है । तदनन्तर अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । अनन्तर उत्कृष्ट स्थितिसे द्विगुणे निर्वर्गणाकाण्डकप्रमाण स्थितियों हटकर जो स्थिति है, उस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे आगे निर्वर्गणा-काण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । तदनन्तर बधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । अनन्तर उत्कृष्ट स्थितिसे तिगुणे निर्वर्गणा-काण्डकमात्र स्थितियों हटकर जो स्थिति है, उस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग निरन्तर अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । इस प्रकार बधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग और उपरिम असंबंध्यात् स्थितियोंके उत्कृष्ट अनुभाग है । इस प्रकार क्रम-क्रम से घटाते हुए अधस्तन स्थितियोंके जघन्य अनुभागों और उपरिम स्थितियोंके उत्कृष्ट अनुभागोंसे तब तक आये हैं, जब तक असाताके सनाम जघन्य स्थितिवन्धको एक निर्वर्गणाकाण्डकके द्वारा नहीं प्राप्त हुए हैं । उससे अधस्तन स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उपरिम स्थितियोंके जिस स्थानमे उत्कृष्ट अनु-

१. ता० आ० प्रत्यो० य समऊ० इति पाठ । २. अणंतगुणो सेदीए इति पाठः । ३. ता० आ० प्रत्यो० अद्धानो इति पाठः । ४. ता० आ० प्रत्यो० द्विदिवंधणिव्वग्गणकंडगेण इति पाठः ।



उकस्सो तदो समऊणाए ङ्घिदी० उक० अणु० अणंतगु० । तदो विसमऊ० ङ्घिदी० उ० अणु० अणंतगु० । ताव अणंतगुणाए सेडीए णिरंतरं आगदं याव असादस्स जहण्णगो ङ्घिदिवंधो । तदो जहण्णगादो असाद० ङ्घिदिवंधादो उक० 'अणुभागेहिंतो जहण्णगादो असाद० णिच्चगणकंडयमैत्तीओ ङ्घिदीओ ओसक्किदूण या ङ्घिदी तिस्से ङ्घिदीए ज० अणु० अणंतगु० । तदो जह०दो असाद० ङ्घिदीदो सयऊ० ङ्घिदी० उ० अणु० अणंतगु० । तेण परं हेड्डिमाए ङ्घिदीए जहण्णगो अणुभागो उवरिमाए ङ्घिदीए उकस्सओ अणुभागो एगेगा ओगसिदा<sup>१</sup> जहण्णगादो असाद०दो समाणं आढत्ता ताव णीदं याव<sup>३</sup> सादस्स जह०ङ्घिदी० जह० पदे ज० अणु० अणंतगु० । तदो सादस्स जह० ङ्घिदो णिच्चगणकंडयमैत्तीओ ङ्घिदीओ अब्भुस्सरिदूण जम्हि ङ्घिदो उक० तदो समऊ० ङ्घिदी० उ० अणु० अणंतगु० । दुसमऊ० ङ्घिदी० उ० अणु० अणंतगु० । तिसमऊ० ङ्घिदी० उ० अणु० अणंतगु० । एवं उक० अणु० अणंतगुणाए सेडीए णिरंतरं षोदच्चं याव सादस्स जहण्णगो ङ्घिदिवंधो चि । एवं यथा सादस्स तथा मणुसग०-देवग०-समचदु०-वज्जरि०-दोआणु०-पसत्थ०-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदँज०-जस०-उच्चा० ।

भाग स्थित है, उससे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे दो समयकम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। इस प्रकार असातावेदनीयके जघन्य स्थितिवन्धके प्राप्त होने तक अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे निरन्तर आया है। अनन्तर जघन्य असातावेदनीयके समान स्थितिवन्धके उत्कृष्ट अनुभागसे जघन्य असातावेदनीयके समान स्थितिवन्धसे निर्वर्गणकाण्डकमात्र स्थितियों हटकर जो स्थिति है, उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे जघन्य असातावेदनीयके समान स्थितिवन्धसे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे अधस्तन स्थितिका जघन्य अनुभाग और उपरिम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग इस प्रकार एक-एक कम होता हुआ जघन्य असाताके समान स्थितिवन्धसे लेकर सातावेदनीयके जघन्य स्थितिवन्ध तक जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है—इस स्थानके प्राप्त होने तक कहना चाहिए। अनन्तर सातावेदनीयका जघन्य अनुभाग जहाँ स्थित है, उससे निर्वर्गणकाण्डकमात्र स्थितियों ऊपर जाकर जहाँ उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है, उससे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। इस प्रकार सातावेदनीयके जघन्य स्थितिवन्धके प्राप्त होने तक उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे निरन्तर ले जाना चाहिए। यहाँ जिस प्रकार सातावेदनीयका तीव्रमन्द कहा है, उसी प्रकार मनुष्यगति, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश.कीर्ति और उच्चगोत्रका जानना चाहिए।

**विशेषार्थ**—सातावेदनीय प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए इसकी उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे लेकर जघन्य स्थितिवन्ध तक अनुभाग उत्तरोत्तर यथाविधि अधिक प्राप्त होता है। खुलासा इस प्रकार है—सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिमें जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक है। एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें जघन्य अनुभाग उतना ही है। दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें जघन्य अनुभाग उतना ही है। तीन

१. आ० प्रतौ ङ्घिदिवंधो उक० इति पाठः । २. आ० प्रतौ एगेगा ओषसिदा । ३. ता० प्रतौ असाद० दो समाणं अदत्ता तावणिदं याव, आ० प्रतौ असाद०दो समाणा अदत्ता ताव णिद याव इति पाठः ।

६६१. एँत्तो असादस्स तिव्वमंदं वत्तइस्सामो । तं जहा—असादस्स जहणियाए  
ट्टिदीए जह० पदे जह० अणु० थोवो । विदियाए ट्टि० जह० अणुभा० तत्तियो चेव ।  
तदियाए ट्टि० जह० अणु० तत्तियो चेव । एवं याव सागरोवमसदपुधत्तं ताव  
जह० अणु० तत्तियो चेव । तदो याओ ट्टिदीओ वंधमाणो असादस्स जह० अणु०  
बंधदि तासिं ट्टिदी० या उक्कस्सिया ट्टिदी तिस्से समउत्तराए ट्टिदीए जह० अणु० अणंत-

समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें जघन्य अनुभाग उत्तना ही है । इस प्रकार असातावेदनीयके जघन्य स्थितिबन्धके समान सातावेदनीयका स्थितिबन्ध प्राप्त होने तक जितने स्थितिचिकल्प हैं, उन सबका जघन्य अनुभागबन्ध समान है । फिर इससे आगे निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंके असत्प्राप्तवे भाग प्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा है । फिर यहाँ अन्तकी स्थितिमें जो जघन्य अनुभाग प्राप्त हुआ है, उससे उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा-अनन्तगुणा है । फिर जहाँ जघन्य अनुभाग छोड़ा था, उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर इससे उत्कृष्ट स्थितिसे एक निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंके बाद दूसरे निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग और उपरितन निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा-अनन्तगुणा तब तक कहना चाहिए, जब तक असातावेदनीयके जघन्य बन्धके समान सातावेदनीयके बन्धमें एक निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थिति शेष रह जाय । अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है और उससे उपरितन निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा होकर यहाँ अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागसे असातावेदनीयके जघन्य बन्धके समान सातावेदनीयका स्थितिबन्ध प्राप्त हो जाता है । फिर यहाँ असातावेदनीयके जघन्य बन्धके समान सातावेदनीयका जो स्थितिबन्ध प्राप्त हुआ है, उसकी अन्तिम स्थितिसे निर्बर्गणाकाण्डकप्रमाण स्थिति हटकर जो अधस्तन स्थिति है, उसका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है और इससे असातावेदनीयके जघन्य स्थितिबन्धके समान सातावेदनीयके स्थितिबन्धमें एक समय कम करके प्राप्त हुए स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर अधस्तन एक-एक स्थितिका जघन्य अनुभाग और उपरिम एक-एक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा-अनन्तगुणा कहते हुए वहाँ तक जाना चाहिए, जब जाकर सातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा प्राप्त हो जावे । पुनः इससे एक निर्बर्गणाकाण्डकप्रमाण स्थितियों ऊपर जाकर वहाँ स्थित स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहना चाहिए । पुनः एक-एक स्थिति कम करते हुए जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थिति का उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा कहना चाहिए । यह सातावेदनीयका तीव्रमन्द है । इसी प्रकार यहाँ मूलमें गिनाई गई अन्य प्रकृतियोंका जानना चाहिए ।

६६१. इससे आगे असातावेदनीयका तीव्रमन्द वतलाते हैं । यथा—असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिके जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक है । द्वितीय स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । तीसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । इस प्रकार सौ सागरपुधक्त्तप्रमाण स्थितियोंके प्राप्त होने तक जघन्य अनुभाग उतना ही है । इससे आगे जिन स्थितियोंको बंधता हुआ असातावेदनीयके जघन्य अनुभागका बन्ध करता है उन स्थितियोंमें जो उत्कृष्ट स्थिति है, उससे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा

गु० । तदो विदियद्विदी० [ जह० ] अणु० अणंतगु० । तदो तदियद्वि० जह० अणु० अणंतगु० । एवं पल्लिदो० असखें० भागमेंत्तीओ द्विदीओ णिव्वग्गणकंडयस्स असखेंज्ज- भागमेंत्तीणं जह० अणु० भाणिदण तदो णियत्तिदव्वं । असादस्स जह० द्वि० उ० पदे उ० अणु० अणंतगु० । एवं णिव्वग्गणकंडयमेंत्तीणं द्विदीणं उ० अणु० अणंत- गुणाए सेहीए णिरंतरं णेदव्वं । तदो उवरिमाए द्विदीए जिस्से जह० अणुभागे भाणिदूण णियत्तेदूण हेडिमाणं उक्क० अणुभा० भाणिदा तिस्से द्विदीए या सम- उत्तरा द्विदी तिस्से द्विदीए जहण्णाणुभा० अणंतगु० । तदो पुण हेडिमादो णिव्वग्गण- कंडयमेंत्तीणं द्विदीणं जासि उक्क० अणु० अणंतगुणाए सेहीए णेदव्वं । तदो पुण उक्कस्से द्विदी० ज० अणु० अणंतगु० । तदो हेडिमाणं णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं द्विदीणं उक्क० अणु० अणंतगु० सेहीए णेदव्वं । एदेण कमेण उवरिमाए द्विदीए ऐक्किस्से० जह० अणु० हेडिमाणं असखेंजाणं द्विदीणं उक्क० अणुभा० णेदव्वा ताव याव ओघ- जहण्णाणुभागियाणं उक्क० द्विदी० उक्क०<sup>१</sup> अणुभागं पत्तो त्ति । ओघजहण्णाणुभागिया णाम कस्स सण्णा ? याओ द्विदीओ बंधमाणो असादस्स जहण्णअणुभागे बंधदि तदो एसा द्विदी ओघजहण्णाणुभागिया णाम सण्णा । तीए द्विदीए ओघजहण्णाणु- भागियसण्णाए याघे ओघजहण्णाणुभागियाणं चरिमाए द्विदीए उ० अणु० अणंतगु० ताघे ओघं जह० अणु० याणं उवरि णिव्वग्गणकंडयमेंत्तीणं द्विदीणं जह० अणुभागा भणिदा होति । एत्तो पाए उवरिमाणं अभणिदाणं द्विदीणं जह० द्विदी० जह० अणु०

है । उससे दूसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे तीसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार पल्योपमके असख्यातवै भागप्रमाण स्थितियों जो कि निर्व- र्गणाकाण्डकके असख्यातवै भागप्रमाण हैं, उनका जघन्य अनुभाग कह कर वहाँ अन्तमे जो स्थिति प्राप्त हो, उसके जघन्य अनुभागसे लौटकर असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट पदमे उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डक मात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे निरन्तर ले जाना चाहिए । अनन्तर आगेकी जिस स्थितिका जघन्य अनुभाग कहकर और लौटकर अधस्तन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग कहा है, उस स्थितिसे जो एक समय अधिकवाली स्थिति है, उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे अधस्तन निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । इससे उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे अधस्तन निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियों का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । इस क्रमसे उपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग और अधस्तन असख्यात स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग ओघ जघन्य अनुभागवाली स्थितियोंमेसे उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । ओघ जघन्य अनुभागवाली स्थिति यह किसकी सझा है ? जिन स्थितियोंका बन्ध करनेवाला जीव असातावेदनीय के जघन्य अनुभागका बन्ध करता है, अतः उस स्थितिकी ओघ जघन्य अनुभागवाली यह संज्ञा है । ओघ जघन्य अनुभाग संज्ञावाली उस स्थितिके जिस स्थानमे ओघ जघन्य अनुभागवाली स्थितियोंमे से अन्तिम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है, वहाँ ओघ जघन्य अनुभागवाली उपरिम निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा गया है । इससे आगे नहीं कही गईं उपरिम स्थितियोंमे से

अणंतगु० । हेड्डिमाणं एँक्किस्से ट्टिदीए उक्क० अणुभा० अणंतगु० । एदेण कमेण एँक्केका ट्टिदी ओगसिदा आगदं याव असादस्स उक्क० ट्टिदीए जहण्णपं, जह० अणु० अणंतगु० ताधे असादबंधं ट्टिदी० णिद्दावणियाणि णिव्वग्गणकंडयसेँचीणं ट्टिदीणं उक्क० अणु० ण भाणिदन्वा । सेसाणं सक्वासि ट्टिदीणं उक्क० अणु० भाणिदा । तदो यासिं ट्टिदीणं उक्कस्सअणुभा० ण भाणिदा तासि ट्टिदीणं जहण्णिया ट्टिदी तिस्से ट्टिदीए उक्क० अणु० अणंतगु० । तदो समउत्तराए ट्टिदीए उक्क० अणु० अणंतगु० । विसमउत्तराए ट्टिदीए उक्क० अणु० अणंतगु० । तिसमउ० ट्टि० उ० अणु० अणंतगु० । एवं अणु०बंधं उक्क० अणु० अणंतगु० ताव याव उक्क० ट्टि० उ० पदे उ० अणु० अणंतगु० । णिरयगदि-चट्टुजादि-पंचसंठा०-पंचसंधं०-णिरयाणु०-अप्प-सत्थं-थावर-सुहुम-अपज्जं-साधारं--अथिर-असुभ-दूभग--दुस्सर-अणादें--अजस० एवं [ अ ] सादभंगो २८ ।

जघन्य स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इससे अधस्तन स्थितियोंमें से एक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस क्रमसे एक-एक स्थिति कम होती हुई जय असातावेदनीय की उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है, यह स्थान प्राप्त होता है तब जाकर असातावेदनीयकी बन्धस्थितियों द्वारा निष्ठापित निर्बर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा गया है; शेष सब स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग कहा गया है। इसलिए जिन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा गया है, उन स्थितियोंमें जो जघन्य स्थिति है उस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक समय अधिकवाली स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय अधिकवाली स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन समय अधिकवाली स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है, इस स्थानके प्राप्त होने तक अनुभागबन्धकी अपेक्षा उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा जानना चाहिए । इस प्रकार असातावेदनीयके समान नरकगति, चार जाति, पाँच सत्थान, पाँच सहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूदम, अपर्याप्त, साधारण अरिन्धर, अनुभ दुर्भंग, दुन्वर, अनादेय और अयरा.कीतिका तीव्रमन्द जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ पहले असातावेदनीयकी जघन्य स्थितिसे लेकर सां सागरपृथक्त्वप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग समान कहा है । इससे आगे निर्बर्गणाकाण्डककी असंख्यात्व प्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग प्रत्येक स्थितिकी अपेक्षा अनन्तगुणा कहा है । फिर यहाँ अन्तमें प्राप्त हुई स्थितिके जघन्य अनुभागसे जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहा है । फिर इस जघन्य स्थितिके आगे निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंमें प्रत्येक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा-अनन्तगुणा कहा है । इस प्रकार जघन्य स्थितिसे लेकर निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग कहकर यहाँ अन्तकी स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे जिस स्थितिके जघन्य अनुभागसे लौटकर जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहा था, उस स्थितिसे अगली स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । पुन इससे अधस्तन दूसरे निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा है । पुन इससे उपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार उपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग और अधस्तन निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा होता हुआ ओष जघन्य अनु-

१. आ० प्रती ओषसिद्धा आगद इति पाठ. ।

६६२. एँत्तो तिरिक्खगदिणामाए तिक्खमंदं वत्तइस्सामो । तं जहा—सत्तमाए पुढचीए गेरइगस्स तिरिक्खगदिणामाए सच्चजहण्णयं द्विदिं वंधमाणस्स जहं द्विं ज० पदे<sup>१</sup> जहं अणु० थोवा । विदिया० द्विदी० जहं अणु० अणंतगु० । एवं जहं अणु० अणंतगुणाए सेडीए गदा याव ताव णिक्खग्गणकंडयमेत्तीओ द्विदीओ । तदो ज० द्विं उ० पदे० उक्क० अणु० अणंतगु० । तदो यदो णियत्तो तदो समउत्तराए द्विदी० जहं अणु० अणंतगु० । विदिया० द्विदी० उक्क० अणु० अणंतगु० । एवं णिक्खग्गणकंडयमैत्तेण अणंतरेण उवरिमाए द्विदीए जहं अणुभा० हेट्टिमाए द्विदीए उक्क० अणु० । एवं णीदं याव ताव अब्भव० पाओग्गजहण्णयस्स द्विदिवंधस्स हेट्टादो समऊणाए द्विदिं त्ति । तदो अब्भव० पाओग्गजहण्णद्विदिवंधस्स हेट्टा णिक्खग्गणकंडयमैत्तीणं द्विं उक्क० अणु० ण भणिदा । सेसं सच्चं भणिदं । हेट्टिमाणं द्विदीणं एदाओ च हेट्टिमा० द्विदीओ ण सच्चाओ णिरंतराओ संपत्तीदो । णवरि परूवणाए दु णिरंतराणि भणिदं संपत्तीदो । अब्भव० पाओग्गं हेट्टा याणि द्विदिवंधट्टाणाणि ताणि

भागवाली स्थितियोंमें से उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागके प्राप्त होने तक गया है । पुनः आगे जिस स्थिति तक जघन्य अनुभाग कहा गया है, उससे अगली स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । तथा इससे अधस्तन जिन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग कहा गया है, उससे अगली स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार असातावेदनीय की उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य अनुभागके अनन्तगुणे प्राप्त होने तक जानना चाहिए । यहाँ सब स्थितियोंका जघन्य अनुभाग तो कहा जा चुका है, पर अन्तकी निर्वर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा गया है, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य अनुभागसे जिन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा गया है, उन स्थितियोंमें से जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहना चाहिए । पुनः इससे आगेकी स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा कहना चाहिए । इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागके प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिए । इस प्रकार असातावेदनीयकी अपेक्षा तीत्रमन्दका विचार किया । इसी प्रकार मूलमें गिनाई नरकगति आदि अन्य प्रकृतियोंकी अपेक्षा तीत्रमन्दका विचार होनेसे उनका कथन असातावेदनीयके समान जाननेकी सूचना की है ।

६६२. आगे तिर्यञ्जगति नाम कर्मके तीत्रमन्दको वतलाते हैं । यथा—सातवी पृथिवीमें तिर्यञ्जगति नामकर्मकी सबसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले नारकीके जघन्य स्थितिके जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग सबसे श्लोक हैं । उससे दूसरी स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंके प्राप्त होने तक जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे गया है । उससे जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे जहाँसे लौटे है, उससे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दूसरी स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार अभव्य प्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धके पूर्व एक समय कम स्थितिके प्राप्त होने तक निर्वर्गणाकाण्डकमात्रके अन्तरालसे उपरिस स्थितिका जघन्य अनुभाग और अधस्तन स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग इसी क्रमसे ले जाना चाहिए । यहाँ अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धके पूर्वकी निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा गया है, शेष सब कहा गया है । अधस्तन स्थितियोंमेंसे ये सब अधस्तन स्थितियों निरन्तर नहीं प्राप्त होती हैं । इतनी विशेषता है कि प्ररूपणामे इनकी निरन्तर प्राप्ति कही गई

पलि० असं०भा० सेवियं पुण परूवणं कादूण<sup>१</sup> गिरंतरं याव अन्भव०पाओंगज०  
 द्वि० वं० समऊणे चि । तदो अन्भव०पाओ०जहणणादो द्विदिवंणिव्वग्गण<sup>२</sup>-  
 कंडयमैत्तीओ द्विदीओ ओसक्किदूण या द्विदी तित्से द्वि० उक्क० अणुभागेहिंतो  
 अन्भव०पाओंगजह० द्वि० जह० अणु० अणंतगु० । तदो समउत्तराए द्विदीए जह०  
 अणु० तत्तिया चैव । विसमउ० द्वि०<sup>३</sup> ज० अणु० तत्तिया चैव । तिसमउत्तराए  
 द्विदीए तत्तिया चैव । एवं सागरोवमसदपुधत्तमैत्तीणं तुल्लो<sup>४</sup> जह० अणु०  
 वं० । तदो यासिं द्विदीणं तुल्लो जह० तासिं गाम सण्णा परियत्तमाणजहण्णाणुभाग-  
 वंधपाओंगं गाम । तदो परियत्तमाणजह० वं० पाओंग्गा० उक्क० द्विदीदो जह०  
 अणुभागेहिंतो समउ० द्वि० ज० अणु० अणंतगु० । विसमउ० ज० अणु० अणंतगु० ।  
 तिसम० द्वि० जह० अणंतगु० । एवं असखैज्जद्विदि० णिव्वग्गणकंडयस्स असखैज्जदि-  
 भागो एत्तियमैत्तीणं द्विदीणं यासिं जह० अणंतगु० सेदीए णेदव्वा । तदो णियत्ति-  
 दव्वं अन्भव०पाओंगजहण्णं द्विदिवंधस्स हेड्डादो णिव्वग्गणकंडय० तासिं जा ज०  
 द्विदी तित्से उ० अणुभा० अणंतगु० । तदो समउ० द्वि० उ० अणंतगु० । दुसमउ०  
 द्वि० उ० अणुभा० अणंतगु० । तिसमउ० द्वि० उ० अणु० अणंतगु० । एवं गीदं  
 याव ताव अन्भव०पाओ० ज० द्वि० समऊणा चि । तदो अन्भव०पाओ० ज० वंध-

हैं। अभव्यप्रायोग्य स्थितिबन्धसे अधस्तन जो स्थितिबन्धस्थान हैं, वे पत्यके असंख्यातवें भाग  
 श्रमाण हैं, परन्तु अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धसे एक समय कम स्थितिके प्राप्त होने तक  
 निरन्तर रूपसे प्ररूपणा की है। फिर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धसे निर्वर्गणाकाण्डकमात्र  
 स्थितियों पोंछे जाकर जो स्थिति है, उस स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे अभव्यप्रायोग्य जघन्य  
 स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग  
 उतना ही है। दो समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है। तीन समय अधिक  
 स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है। इस प्रकार सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण स्थितियोंका  
 जघन्य अनुभागवन्ध तुल्य है। यहाँ जिन स्थितियोंका जघन्य अनुभाग तुल्य है, उनकी परिवर्तमान  
 जघन्यानुभागवन्धप्रायोग्य संज्ञा है। फिर परिवर्तमान जघन्य अनुभागवन्धप्रायोग्य स्थितियोंमें से  
 उत्कृष्ट स्थितिके अनुभागसे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। दो  
 समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। तीन समय अधिक स्थितिका जघन्य  
 अनुभाग अनन्तगुणा है। इस प्रकार असख्यात स्थितियों तक जानना चाहिए। ये असंख्यात  
 स्थितियाँ निर्वर्गणाकाण्डकके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इतनी मात्र स्थितियोंका जघन्य अनु-  
 भाग अनन्तगुणित अंगिरूपसे ले जाना चाहिए। फिर छोटकर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थिति-  
 बन्धसे अधस्तन जो निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियाँ हैं, उनमेंसे जो जघन्य स्थिति है, उसका उत्कृष्ट  
 अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे एक समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है।  
 उससे दो समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे तीन समय अधिक  
 स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। इस प्रकार अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितियोंसे एक समय  
 कम स्थितिके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। फिर अभव्यप्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्धसे एक

१. वा० प्रती पुणं पमाण कादूण इति पाठः । २. वा० प्रती द्विदिवंणो णिव्वग्गण- इति पाठः ।  
 ३. वा० प्रती विसमउ० द्वि० इति पाठः । ४. आ० प्रती तुल्ला इति पाठः ।

समऊणादो उक्कस्सए हि अणुभागेहिंतो यदो द्वि० ज० भणिदूण णियत्तो तत्तो समउ० जह० अणंतगु० । तदो पुण जहण्णाणुभागबंधपाओग्गाणं ज० उ० अणु० अणंतगु० । समउ० उ० अणु० अणंत० । विससउ० उ० अणु० अणंतगु० । विससउ० उ० अणु० अणंतगु० । एवं णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं द्विदीणं उ० अणु० अणंतगु० सेडीए षेदव्वं । तदो पुणो विसो द्वि० ज० अणु० भणिदूण णियत्ता तदो समउ० ज० अणंतगु० । तदो परिचत्तनाण [ जहण्णाणुभाग ] बंधपाओग्गाणं<sup>३</sup> द्विदीणं णिव्वग्गणकंडयमेत्तं अब्भुस्सरिदूण या द्विदी तिससे द्विदीए उ० अणु० अणंतगु० । तदो णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं उ० अणु० अणंतगु० सेडीए षेदव्वा । एदेण कमेण उवरिमाणं द्विदीणं एक्किस्से वि० ज० बंधपाओग्गाणं च द्विदीणं णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं द्विदीणं उक्क० अणु० अणंतगु० सेडीए षेदव्वा याव ज० अणु० बंधपाओग्गाणं उक्कस्सियं द्विदिं पत्तो च्चि । एदेण कमेण ज० अणु० बंधपाओग्गाणं द्वि० उवरि याओ द्विदीओ तासिं द्विदीणं णिव्वग्गणकंडयमेत्तीणं ज० भणिदाणं पुण '....' भणदि । तदो ज० अणु० बंधपाओग्गाणं उक्कस्सगे यत्तो द्विदीदो उक्कस्सगेहि अणुभागेहिंतो उवरि यासिं द्विदीणं जह० ण भणिदा तासिं द्विदीणं या सच्चउ० द्विदी तिससे द्वि० ज० अणु० अणंतगु० । हेड्ढदो एक्किस्से द्वि० उ० अणु० अणंतगु० । तदो जम्हि द्विदो जह० तदो समउ० ज० अणंतगु० । हेड्ढदो

समय कम स्थितिके उक्कष्ट अनुभागसे, जिस स्थितिका जघन्य अनुभाग कहकर लौटे थे, उससे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे जघन्य अनुभागबन्ध-प्रायोग्य स्थितियोंमें जो जघन्य स्थिति है, उसका उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे एक समय अधिक स्थितिका उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय अधिक स्थितिका उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन समय अधिक स्थितिका उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । फिर जिस स्थितिका जघन्य अनुभाग कहकर लौटे थे, उससे एक समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । फिर परिवर्तमान जघन्य अनुभागबन्ध-प्रायोग्य स्थितियोंमेंसे निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियों आगे जाकर जिस स्थितिका उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । इस क्रमसे जघन्य बन्धप्रायोग्य स्थितियोंमें उक्कष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक उपरिम स्थितियोंमेंसे एक स्थितिका जघन्य अनुभाग और जघन्य बन्ध-प्रायोग्य स्थितियोंमेंसे निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । इस क्रमसे जघन्य बन्धप्रायोग्य स्थितियोंमेंसे जो उपरिम स्थितियों हैं, उन स्थितियोंमेंसे निर्वर्गणाकाण्डकमात्र स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा है, परन्तु उक्कष्ट अनुभाग नहीं कहा है, इसलिए जघन्य अनुभागबन्धप्रायोग्य स्थितियोंमेंसे जो उक्कष्ट स्थिति है उस स्थितिके उक्कष्ट अनुभागसे, आगे जिन स्थितियोंका जघन्य अनुभाग नहीं कहा है, उन स्थितियोंमेंसे जो सबसे जघन्य स्थिति है उस स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे अधस्तन एक स्थितिका उक्कष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे जिस स्थितिमें जघन्य अनुभाग स्थित है, उससे एक

१. ता० आ० प्रत्यो. समउ० इति स्थाने समऊ० इति पाठः । अथे ऽपि 'उ' स्थाने 'ऊ' दृश्यते ।

२. ता० प्रती परिवत्तमाणत्रधपाओग्गाणं, आ० प्रती परिवत्तमाणं '....'त्रधपाओग्गाणं इति पाठः ।

एँकिस्से ङि० उ० अणु० अणंतगु० । इतरत्थ<sup>१</sup> ज० अणंत० । हेद्दादो एँकिस्से ङि० उ० अणंतगु० । एवं णीदं याव तिरिक्खगदिणामाए उक्क० ङ्घिदीए ज० अणु० अणंतगु० । तदो पलि० असं० भागमैत्तं ओसक्किदूण जम्हि ङ्घिदा उक्कस्सा तदो समउचराए ङि० उ० अणु० अणंतगु० । विसम० उ० अणु० अणंतगु० । एवं अणुभागवंध० अणंत० याव तिरिक्खगदिणामाए उक्कस्सियाए ङि० उक्क० पदे उक्क० अणु० अणंतगु० । एवं तिरिक्खणु०-णीचा० ।

६६३. एत्तो<sup>१</sup> ओरोलिय० तिव्वमंदं वचइस्सामो । तं जहा—ओरोलियसरीर-  
णामाए उक्कस्सियाए ङि० ज० ङ्घिदी० ज० अणु० थोवा । समऊ० ज० अणु० अणंत-  
गु० । विसमऊ० ज० अणु० अणंतगु० । एवं पलि० असं० ज० अणंतगु० । तदो  
उक्कस्सियाए ङ्घिदी० उ० अणु० अणंत० । तदो जम्हि ङ्घिदा ज० ङि० ज० अणु०  
तदो समऊ० अणंत० । उक्कस्सियादो ङि० समऊ० ङि० उक्क० अणु० अणंतगु० ।  
तदो हेद्दादो एँकिस्से ङि० ज० अणंत० । तदो उक्कस्सियादो विसम० उ० ङि० उक्क०  
अणु० अणंत० । एवं हेद्दो एँकिस्से जह० उवरिमाए एँकिस्से ङि० उ० अणु०

समय अधिक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे अधस्तन एक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे अधस्तन एक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उपरिम एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है, इस स्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । पुन यहाँसे पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण पीछे हटकर जिस स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है, उससे एक समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय अधिक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है—इस स्थानके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अनन्तगुणा है । इसी प्रकार तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रकी अपेक्षासे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मूलमें किस स्थितिका जघन्य और किस स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग कितना है, इसका खुलासा किया ही है । तथा पहले हम मतिज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके समय ही खुलासा कर आये हैं, अत. यहाँ विशेष नहीं लिख रहे हैं । इसी प्रकार आगे भी जान लेना चाहिए ।

६६३. आगे औदारिकशरीरका तीव्रमन्द वतलाते हैं । यथा—औदारिकशरीरकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक है । उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितियों तक उत्तरोत्तर एक-एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार यहाँ अन्तमें जो स्थिति प्राप्त हो, उसके जघन्य अनुभागसे उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे जिस स्थितिमें जघन्य अनुभाग स्थित है, उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिसे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिसे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार अधस्तन एक स्थितिका जघन्य अनुभाग और उपरिम एक स्थितिका उत्कृष्ट

१. ता० प्रतौ इतरथा इति पाठः । २. आ० प्रतौ तिरिक्खणु० एत्तो इति पाठः ।



एगेगे वा सिञ्जमाणा गदा ताव याव ओरालि० जहणियाए ढिं० जहण्ण० अणु० अणंत० । तदो जहण्णादो ढिदीदो पलिं० असं० भेंत्तीओ ढिदी० अब्बुस्सरिदूण यम्हि ढिदा उक्कस्सं तदो समऊ० ढिं० उ० अणु० अणंत० । विसमऊ० ढिं० उक्क० अणु० अणंत० । तिसमऊ० ढिं० उ० अणंत० । एवं ताव णीदं याव ओरालिं० जहणियायाए ढिं० उ० पदे उ० अणु० अणंत० । एवं पंचसरीर-तिण्णंअंगो-पसत्थ० ४-अगु० ३-आदाउजो-णिमिं०-तित्थ० ओरो० भंगो०<sup>१</sup> ।

६६४. एत्तो पंचिं० तिच्चमदं वत्तइस्सामो । तं जहा—यथा वीसंसागरोवमकोडा-कोडीओ बंधमाणस्स उक्क० ढिदी० जहण्णपदे जह० अणु० थोवा । समऊ० ढिं० ज० अणंत० । विसम० ज० अणंत० । तिसम० ज० अणंत० । एवं णिच्चमणकंडय-भेंत्तीणं ढिं० ज० अणु० अणंत० सेडीए णेदव्वा । तदो उक्कस्सियाए ढिं० उ० पदे उक्क० अणु० [अणंत०] । तदो णिच्चमणकंडयभेंत्तीओ ढिदीओ ओसक्किदूण जम्हि ढिदा जह० तदो समऊ० जह० अणु० अणंत० । तदो उक्कस्सियादो ढिं० समऊ० ढिं० उक्क० अणु० अणंत० । तदो हेदादो ऐक्किस्से ढिं० ज० अणंत० । तदो उक्कस्सियाए ढिदी०

अनुभाग एक-एक स्थितिमें प्राप्त होता हुआ औदारिकशरीरकी जघन्य स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है—इस स्थानके प्राप्त होने तक गया है । फिर जघन्य स्थितिसे पत्त्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थितियों ऊपर जाकर जिस स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है, उससे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार औदारिकशरीरकी जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है—इस स्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार पाँच शरीर, तीन आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्योत, निर्माण और तीर्थङ्कर प्रकृतिका तीव्रमन्द औदारिकशरीरके समान जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ औदारिकशरीरका तीव्र-मन्द वतलाया है । यह प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य पदकी अपेक्षा जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक वतलाया है । आगे जिस क्रमसे जिस स्थितिमें जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग प्राप्त होता है, उसका स्पष्टीकरण मूलमें किया ही है ।

६६४. आगे पञ्चेन्द्रियजातिके तीव्रमन्दको वतलाते हैं । यथा—वीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिका बन्ध करनेवालेके उत्कृष्ट स्थितिके जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग सबसे स्तोक है । उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डकप्रमाण स्थितियोंमेंसे अन्तिम स्थितिका जो जघन्य अनुभाग प्राप्त हुआ है, उससे उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे निर्वर्गणाकाण्डकप्रमाण स्थितियों नीचे जाकर जिस स्थितिमें जघन्य अनुभाग स्थित है, उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिसे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे नीचेकी एक स्थितिका

दुसमऊ० उ० अणु० अणंत० । तदो हेद्वदो एकस्से द्वि० ज० अणु० अणंत० । तदो उक्कस्सियादो तिसमऊ० द्वि० उक्क० अणु० अणंत० । एवं हेद्वदो एकस्से द्वि० ज० अणंत० । उवरि एकस्से द्वि० उ० अणंत० । एवं ओघसिज्जमाणं ताव गदा याव अट्टारससागरोवमकोडाकोडीओ समउत्तरा त्ति । अट्टारसणं सागरोवमकोडाकोडीणं उवरि समउत्तरा द्विदिं आदिं कादूण णिव्वग्गण०मैत्तीणं द्विदीणं उक्कस्सा अणुभागा ण भणिदा । उवरि सेसं सव्वं भणिदं । तदो अट्टारसणं साग० पड्डिपुण्णं ज० ज० अणु० अणंत० । तदो समऊ० ज० अणु० तत्तिया चेव । विसम० ज० तत्तिया चेव । तिसम० ज० तत्तिया चेव । एवं याव जहणियाए एइदियणामाए द्विदिवंधो ताव तत्तिया चेव । तदो परियत्तमाणजहणाणुभागबंधपाओग्गाणं जहणियाए द्विदी० जह० अणुभागोहितो तदो समऊ० द्विदीए ज० अणु० अणं० । विसम० ज० अणंत० । तिसम० ज० अणंत० । एवं असंखेज्जाओ द्वि० णिव्वित्तेदूण णिव्वग्गणकंडयस्स असंखेज्जदिभागो तत्तियमैत्तीणं द्विदीणं ज० अणंत० सेडीए णेदव्वा । तदो अट्टारसणं सागरो० उवरि यासिं द्विदीणं उक्कस्सिया अणुभागा ण भणिदा तासिं सव्वुक्कस्सियाए द्विदीए उ० अणु० अणंत० । समऊ० उक्क० अणु० अणंत० । विसमऊ० उक्क० अणु० अणंत० । तिसमऊ० उक्क० अणु० अणंत० । एवं याव अट्टारसकोडाकोडीणं समउत्तरादो त्ति ताव उक्क० अणु० अणंत० सेडीए णेदव्वं । तदो अट्टारस-

जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिसे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे नीचेकी एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे उत्कृष्ट स्थितिसे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा है । इस प्रकार नीचेकी एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा है और ऊपरकी एक स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा है । इस प्रकार ओषके अनुसार सिद्ध होता हुआ एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक अनुभाग गया है । यहाँ एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण स्थितियोंसे लेकर ऊपरकी निर्वागणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा है; ऊपरका शेष सब अनुभाग कहा है । आगे पूरे अठारह कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण अन्तिम स्थितिके जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । उससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । उससे तीन समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग उतना ही है । इस प्रकार एकैन्द्रियजाति नामकर्मके जघन्य स्थितिवन्धके समान स्थितिवंधके प्राप्त होने तक जघन्य अनुभाग उतना ही है । आगे परिवर्तमान जघन्य अनुभागबन्ध योग्य प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धके जघन्य अनुभागसे एक समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे दो समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे तीन समय कम स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणा है । इस प्रकार निर्वागणाकाण्डकके असंख्यातबंध भागप्रमाण असंख्यात स्थितियोंका जघन्य अनुभाग अनन्तरुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए । उससे अठारह कोड़ाकोड़ी सागरके ऊपर जिन स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहा गया है, उनमेंसे सर्वोत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे दो समय कम उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा है । उससे तीन समय कम उत्कृष्ट स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तरुणा है । इस प्रकार एक समय अधिक अठारह कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण

कोडाकोडीणं समउत्तराए ढि० उक्कस्सएहि अणुभागेहिंतो परियत्तमाणजहण्णाणुभाग-  
बंधपाओंग्माणं ढिदीणं हेड्ढादो याओ ढिदीओ जहण्णाणुभागो भणिदल्लोगाओ  
तासिं या जहण्णिया ढिदी तिस्से हेड्ढिमाणंतराए ज० अणु० अणंत० । तदो अट्टारस-  
साग०कोडाकोडी० उ० अणु० अणंत० । तदो पुण णिच्चग्गण०मैत्तीणं उ० अणु०  
अणंतगु० सेडीए णिरंतरं षेदव्वं । तदो पुण हेड्ढादो ऐक्किस्से ढि० ज० अणंत० ।  
उवरि णिच्चग्ग०मैत्तीणं ढि० उ० अणु० अणंत० । एदेण कमेण हेड्ढादो ऐक्किस्से ढि०  
ज० अणुभा० उवरिमाणं णिच्चग्गण०मैत्तीणं उक्क० अणुभा० अणंतगु० । एवं ताव याव  
परियत्तमाणजहण्णाणुभागपाओंग्माणं जहण्णियाए ढि० उक्क० पदे उ० अणु० अणंत० ।  
ताधे तिस्से ढिदीए हेड्ढादो याओ ढिदीओ तासिं णिच्चग्ग०मैत्तीणं जहण्णाणुभागा  
भणिदा होंति । उक्कस्सगे' अणुभागेहिंतो एइंदियणामाए जहण्णादो ढिदिबंधादो णिच्च-  
ग्गणकंडयमैत्तीओ ओसक्किदूण या ढिदी तिस्से ढिदीए ज० पदे ज० अणु० अणंत० ।  
तदो एइंदियणामाए जहण्णागदो ढिदिबंधादो समऊणाए ढिदीए उ० अणु० अणंत० ।  
तेण परं हेड्ढिमाए ढि० जहण्णाणुभा० उवरिमा० ढि० उ० अणु० एमेगं  
ओघसिञ्जमाणएइंदियणामाए जहण्णागदो ढिदीदो आदत्ता ताव णीदं याव पंचिदिय-  
णामा० जहण्णियाए ढि० पदे जह० अणु० अणंत० । तदो णिच्चग्ग०कंडयमैत्तीओ ढि०

स्थितियोंमें अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे  
ले जाना चाहिए। फिर एक समय अधिक अठारह कोडाकोडी सागरप्रमाण स्थितियोंमेंसे  
अन्तिम स्थितिके उत्कृष्ट अनुभागसे परिवर्तमान जघन्य अनुभागबन्धके प्रायोग्य  
स्थितियोंके नीचे जिन स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा है, उनमें जो जघन्य स्थिति  
है, उससे नीचेकी अनन्तर स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे अठारह कोडाकोडी  
सागरप्रमाण अन्तिम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। फिर उससे निर्बर्गणा काण्डक-  
प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे ले जाना चाहिए। उससे पुनः  
नीचेकी एक स्थितिका जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है। उससे ऊपरकी निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण  
स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। इस क्रमसे नीचेकी एक स्थितिका और ऊपरकी  
निर्बर्गणाकाण्डक प्रमाण स्थितियोंका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है। इस प्रकार परिवर्तमान  
जघन्य अनुभागबंधप्रायोग्य जघन्य स्थितिके उत्कृष्ट पदमें उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है-इस स्थानके  
प्राप्त होने तक जानना चाहिए। फिर इस स्थितिसे नीचे जो स्थितियाँ हैं, उनमेंसे निर्बर्गणा-  
काण्डकप्रमाण स्थितियोंका जघन्य अनुभाग कहा गया है। पुनः जिसका अन्तमें उत्कृष्ट अनु-  
भाग कहा है, उससे एकेन्द्रियजाति नामकर्मके जघन्य स्थितिवन्धसे निर्बर्गणाकाण्डकप्रमाण  
स्थितियों हटकर जो स्थिति है, उस स्थितिका जघन्य पदमें जघन्य अनुभाग अनन्तगुणा है।  
उससे एकेन्द्रिय जातिनामकर्मके जघन्य स्थितिवन्धसे एक समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग  
अनन्तगुणा है। उससे आगे नीचेकी स्थितिका जघन्य अनुभाग और ऊपरकी स्थितिका उत्कृष्ट  
अनुभाग इस प्रकार एक-एक स्थितिका ओघके अनुसार सिद्ध होता हुआ एकेन्द्रियजाति नामकर्मकी  
जघन्य स्थितिवन्धसे लेकर पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्मकी जघन्य स्थितिका जघन्य पदमें जघन्य  
अनुभाग अनन्तगुणा है-इस स्थान के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। फिर निर्बर्गणाकाण्डकप्रमाण

१. ता० प्रती होती दिइदीए तदा एइंदियणामाए जहण्णागदो ढिदिबंधादो उक्कस्सगे, आ० प्रती  
होंति ढिदीए एइंदियणामाए जहण्णागदो ढिदिबंधादो उक्कस्सगे इति पाठ. ।

अब्युस्सरिदूण जम्हि द्विदा उ० तदो समऊणाए द्वि० उ० अणु० अणंत० । विसम० उ० अणु० अणंत० । तिसम० उ० अणु० अणंत० । एवं याव पंचिदियणामाए जहणियाए द्विदीए उ० अणु० अणंतगुणो त्ति । यथा पंचिं० णामाए तथा वादर-पञ्च-पत्ते०-तस० तिच्चमंददा कादव्वा । एवं तिच्चमंददा त्ति समत्तमणियोगदारं ।

एवं अज्झवसाणसमुदाहारो समत्तो

## जीवसमुदाहारो

६६५. जीवसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि अट्ठ अणियोगदाराणि—एगट्ठाणजीव पमाणानुगमो गिरंतरट्ठाणजीवपमाणानुगमो सांतरट्ठाणजीवपमाणानुगमो णाणाजीव-कालपमाणानुगमो वट्ठिपरूवणा यवमज्झपरूवणा फोसणपरूवणा अप्पावहुगे त्ति ।

६६६. एयट्ठाणजीवपमाणानुगमेण ँक्केम्मिह ट्ठाणम्मिह जीवा केंत्तिया ? अणंत । गिरंतरट्ठाणजीवपमाणानुगमेण जीवेहि अविरहिदाणि ट्ठाणाणि । सांतरट्ठाणजीवपमाणानु-गमेण जीवेहि गिरंतरट्ठाणाणि । णाणाजीवकालपमाणानुगमेण ँक्केम्मिह ट्ठाणम्मिह णाणा जीवा केवचिरं कालादो होंति ? सच्चद्धा ।

६६७. वट्ठिपरूवणादाए तत्थ इमाणि दुवे अणुयोगदाराणि—अणंतरोपनिधा परंपरो-वणिधा चेदि । अणंतरोपनिधाए जहण्णए अज्झवसाणट्ठाणे जीवा थोवा । विदिए अज्झव-साणट्ठाणे जीवा विसेसाधिया । तदिए अज्झवसाणट्ठाणे जीवा विसेसाधिया । एवं

स्थितियों ऊपर जाकर जिस स्थितिमें उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है, उससे एक समय कम स्थिति का उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे दो समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । उससे तीन समय कम स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय जाति नामकर्मकी जघन्य स्थितिका उत्कृष्ट अनुभाग अनन्तगुणा है—इस स्थानके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । यहाँ जिस प्रकार पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्मका कथन किया है, उसी प्रकार वादर, पर्याप्त, प्रत्येक और त्रस नामकर्मकी तीव्र-मन्दताका कथन करना चाहिए ।

इस प्रकार तीव्रमन्दता नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अध्यवसानसमुदाहार नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

## जीवसमुदाहार

६६५ जीवसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये आठ अनुयोगद्वार होते हैं—एकस्थान-जीवप्रमाणानुगम, निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, नानाजीवकाल-प्रमाणानुगम, वृद्धिप्ररूपणा, यवसम्यप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा और अल्पवहुत्व ।

६६६ एकस्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा एक-एक स्थानमें जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीवोंके विरहसे रहित सब स्थान हैं । सान्तर-स्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीवोंके अन्तरसे रहित सब स्थान हैं । नानाजीवकालप्रमाणानुगमकी अपेक्षा एक-एक स्थानमें नाना जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा है ।

६६७. वृद्धिप्ररूपणाकी अपेक्षा उसमें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य अध्यवसानस्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं । द्वितीय अध्यवसानस्थानमें जीव विशेष अधिक हैं । तृतीय अध्यवसानस्थानमें जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार यवमध्यके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थानमें जीव विशेष अधिक, विशेष

विसेसाधिया विसेसाधिया याव यवमज्जं चि । तेण परं विसेसहीणा विसेसहीणा याव उक्कस्सिए अज्झवसाणट्ठाणे चि ।

६६८. परंपरोवणिधाए जहण्णए अज्झवसाणट्ठाणे जीवेहिंतो तदो असंखेंज्जा लोमा गंतूण दुगुणवड्ढिदा । एवं दुगुणवड्ढिदा दुगुणवड्ढिदा याव यवमज्जं । तेण परं असंखेंज्जा लोमं गंतूण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा याव उक्कस्सअज्झवसाणट्ठाणं ति ।

६६९. एयजीवअज्झवसाणदुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतरं असंखेंज्जा लोमा । णाणाजीवअज्झवसाणदुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतराणि आवलि० असंखें० । णाणाजीवेहि दुगुणवड्ढि-हाणि० थोवाणि । एयजीवअज्झवसाणदुगुणवड्ढि-हाणिट्ठाणंतराणि असंखेंज्जगुणाणि ।

६७०. यवमज्जप्ररूवणदाए ट्ठाणाणं असंखेंज्जदिभागे यवमज्जं । यवमज्जस्स हेट्ठादो ट्ठाणाणि थोवाणि । उवरिं ट्ठाणाणि असंखेंज्जगुणाणि ।

६७१. फोसणप्ररूवणदाए तीदे काले एयजीवेण उक्कस्सए अज्झवसाणट्ठाणे फोसणकालो थोवो । जहण्णए अज्झवसाणट्ठाणे फोसणकालो असंखेंज्जगुणं । कंडयस्स फोसणकालो तत्तियो चेव । यवमज्जे फोसणकालो असंखेंज्जगुणं । कंडयस्स उवरिं फोसणकालो असंखेंज्जगुणं । यवमज्जस्स उवरिं कंडयस्स हेट्ठदो फोसणकालो असंखेंज्जगुणं । कंडयस्स उवरिं यवमज्जस्स हेट्ठदो फोसणकालो तत्तियो चेव । यवमज्जस्सुवरिं फोसणकालो विसेसाधियो । कंडयस्स हेट्ठदो फोसणकालो विसेसाधियो । कंडयस्सुवरिं फोसणकालो विसेसाधियो । सन्वेसु चि ट्ठाणेषु फोसणकालो विसेसाधियो ।

अधिक हैं । इससे आगे उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानके प्राप्त होने तक जीव विशेष हीन, विशेष हीन हैं ।

६६८. परंपरोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य अध्यवसानस्थानमे जो जीव हैं, उससे असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाने पर वे दूने होते हैं । इस प्रकार यवमध्यके प्राप्त होने तक दूने-दूने जीव होते हैं । उससे असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुणहीन होते हैं । इस प्रकार उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानके प्राप्त होने तक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते हैं ।

६६९. एकजीवअध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर असंख्यात लोकप्रमाण हैं । नानाजीवअध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण हैं । नानाजीवअध्यवसानस्थानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर स्तोक हैं । इनसे एकजीवअध्यवसानद्विगुणवृद्धि-हानिस्थानान्तर प्रत्येक असंख्यातगुणे हैं ।

६७०. यवमध्यप्ररूपणाकी अपेक्षा स्थानोंके असंख्यातवे भाग जाकर यवमध्य होता है । यवमध्यके अधस्तन स्थान स्तोक हैं और उपरिम स्थान असंख्यातगुणे हैं ।

६७१. स्पर्शनप्ररूपणाकी अपेक्षा अतीत कालमें एक जीवका उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमे स्पर्शनकाल स्तोक है । इससे जघन्य अध्यवसानस्थानमे स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है । काण्डक का स्पर्शनकाल उतना ही है । इससे यवमध्यमे स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है । इससे काण्डकके ऊपर स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है । इससे यवमध्यके ऊपर और काण्डकसे नीचे स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है । इससे काण्डकके ऊपर और यवमध्यसे नीचे स्पर्शनकाल उतना ही है । इससे यवमध्यके ऊपर स्पर्शनकाल विशेष अधिक है । इससे काण्डकके नीचे स्पर्शनकाल विशेष अधिक है । इससे काण्डकके ऊपर स्पर्शनकाल विशेष अधिक है । इससे सब स्थानोंमें स्पर्शन काल विशेष अधिक है ।

६७२. अप्पावहुगे त्ति उक्कस्सए अज्झवसाणट्ठाणे जीवा थोवा । जहण्णए अज्झवसाणट्ठाणे जीवा असंखेंज्जगुणा । कंडयजीवा तत्तिया चेव । यवमज्झे जीवा असंखेंज्जगुणा । कंडयस्सुवरि जीवा असंखेंज्जगुणा । यवमज्झस्सुवरिं कंडयस्स हेट्ठदो जीवा असंखेंज्जगुणा । कंडयस्सुवरिं यवमज्झस्स हेट्ठदो जीवा तत्तिया चेव । यवमज्झस्सुवरिं जीवा विसेसा० । कंडयस्स हेट्ठदो जीवा विसे० । कंडयस्सुवरिं जीवा विसे० । सव्वेसुट्ठाणेसु जीवा विसेसाधिया । एवं जीवसमुदाहारे त्ति समत्तमणियोगद्दाराणि ।

एवं उत्तरपगदिअणुभागबंधो समत्तो

एवं अणुभागबंधो समत्तो

६७२. अल्पबहुत्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमें जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे जघन्य अध्यवसानस्थानमें जीव असंख्यातगुणे हैं । काण्डकके जीव जतने ही हैं । इनसे यवमध्यमें जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे काण्डकके ऊपर जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे यवमध्यके ऊपर और काण्डकसे नीचे जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे काण्डकके ऊपर और यवमध्यके नीचे जीव जतने ही हैं । इनसे यवमध्यके ऊपर जीव विशेष अधिक है । इनसे काण्डकसे नीचे जीव विशेष अधिक है । इनसे काण्डकके ऊपर जीव विशेष अधिक है । इनसे सब स्थानोंमें जीव विशेष अधिक है ।

इस प्रकार जीवसमुदाहार नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार उत्तरप्रकृतिअनुभागबन्ध समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अनुभागबन्ध समाप्त हुआ ।

